

L.A.M/31  
31-08-22

R.L-260850226  
15-11-22  
2792  
05/11/22

नगर आयुक्त/मुख्य नगर  
आधिकारी

1-एकलेट

सा-34

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज

लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण टिप्पणी

लेखाधिकारी  
कृ० कृ० कृ० ए०

लेखे का नाम:- नगर निगम, गाजियाबाद ।

सम्परीक्षा-अवधि:-2019-20

“ यह रिपोर्ट भारत सरकार के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के पूर्ण तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण तथा इसके द्वारा निर्धारित सम्प्रेक्षण तथा मापदण्ड तथा लेखा प्रमाणन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए राज्य अधिनियम/स्थानीय निकायों के नियमों के अन्तर्गत तैयार की गयी है ”

नगर आयुक्त

AAO

19/10

Acted/Vimal

S

1/11/22

लेखा परीक्षा स्वरूप:- उप लेखा परीक्षा।

सम्परीक्षा का दिनांक :-आलोच्य अवधि की लेखा परीक्षा दिनांक-22-02-2021 को प्रारम्भ एवं दिनांक-03-01-2022 को समाप्त की गयी।

प्रशासन:- आलोच्य अवधि में नगर निगम के महापौर पद पर श्रीमती आशा शर्मा आसीन रहीं आलोच्य अवधि में नगर आयुक्त के पद पर दिनांक 01-04-2019 से 31-03-2020 तक श्री दिनेश चन्द्र कार्यरत रहे। आलोच्य अवधि में विकास कार्यो का आहरण वितरण का कार्य नगर आयुक्त एवं लेखाधिकारी तथा वेतन भुगतान का आहरण वितरण का कार्य लेखाधिकारी एवं सहायक नगर आयुक्त द्वारा संयुक्त रूप से सम्पादित किया गया।

## वर्तमान लेखा परीक्षा

### भाग-क

#### निर्माण विभाग:-

**1- नगर निगम गाजियाबाद में निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उप-खनिजों पर रॉयल्टी की कम/न कटौती किये जाने के कारण शासन को रू0 1,82,08,760/- की राजस्व हानि:-**

उ0प्र0 शासन के भूतत्व एवं खनिज अनुभाग के शासनादेश सं0 3385/88-2015-292/2015 दिनांक 15-10-2015 द्वारा निर्देशित किया गया था कि सार्वजनिक निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उप-खनिजों की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उप-खनिज नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर वैद्य अभिवहन प्रपत्र (एम एम-11) के आधार पर परिवहन किये गये है, जिन मामलों में रॉयल्टी का भुगतान किये बिना उप-खनिजों की आपूर्ति हुई हो उनके बिलों का भुगतान करने से पूर्व निर्धारित दर पर रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखाशीर्षक में अवश्य जमा कर ली जाए।

शासनादेश के बिन्दु संख्या-2 द्वारा यह भी इंगित किया गया था। कि उक्त शासनादेश की आड़ में कार्यदायी संस्था के संबधित ठेकेदारों द्वारा ऐसे स्थान अथवा ऐसे जनपदों में जहाँ उप-खनिजों के खनन के लिये खनन पट्टे स्वीकृत है एवं वैद्य अभिवहन प्रपत्र किया जा सकता है, उन स्थानों पर भी उपखनिज यथा, बालू, मौरन, मिट्टी आदि ) का अवैध रूप से खनन कर निर्माण कार्यों में प्रयोग कर लेते है ठेकेदारों के द्वारा इस प्रकार से खनिज उपलब्ध किये जाने से न सिर्फ अवैध खनन की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, अपितु अनियमित खनन से पर्यावरण एवं परिस्थिति के भी कुप्रभावित होने की संभावना बनी रहती है।

उक्त अधिनियम की धारा-21(5) के प्रावधानों के अनुसार यदि खनिजों का अवैध खनन कर उसका उपभोग कर लिया गया है, तो अवैध खननकर्ता से रॉयल्टी के साथ-साथ खनिज का मूल्य सामान्यतः रॉयल्टी का पाँच गुना की कटौती ठेकेदार के बिल से करते हुए निर्धारित लेखा-शीर्षक 0853 अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग 102 खनिज रियामत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क में जमा करा लिया जाए तथा ट्रेजरी चालान की एक प्रति जिलाधिकारी को भेज दी जायेगी।

नगर निगम गाजियाबाद द्वारा उपलब्ध कराये गये निर्माण कार्य पत्रावलियों की नमूना जाँच में पाया गया कि निगम द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में उपभोग किये गये खनिजों के सापेक्ष ठेकेदार द्वारा अभिवहन प्रपत्र-11 प्रस्तुत नहीं किये गये थे और न ही निगम द्वारा ठेकेदार के बिल से रॉयल्टी की कटौती की गयी थी तथा उस पर लगायी गयी पेनाल्टी, जो रॉयल्टी दर का पाँच गुना होती है उसकी कटौती भी नहीं की गयी थी।

जिससे शासन को धनराशि रूपये 1,82,08,760/- (विवरण संलग्न) की हानि हुयी। शासनादेश संख्या-243/86-2016-200/77 टी0सी0-ग्यारह दिनांक 19-1-2016 के द्वारा खनिजों पर रॉयल्टी की दरें निर्धारित की गई थी। उक्त अधिनियम की धारा 21(5) के अनुसार उक्त काटी गई रॉयल्टी की धनराशि रू0 3641752/- का पॉच गुना पैनाल्टी लगाने पर  $3641752 \times 5 = 18208760 = 00$  की राजस्व क्षति परिलक्षित हुई। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाए। ऐसे प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट 'झ' में दिया गया है।

**2-निगम द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में ठेकेदारों द्वारा विलम्ब से कार्य पूर्ण किये जाने पर ठेकेदारों से अर्थदण्ड की वसूली न करने के कारण ठेकेदारों को अधिक भुगतान रू0 3,09,71,682 /-:-**

निगम द्वारा आलोच्य अवधि में निगम निधि चौदहवें वित्त आयोग एवम अवस्थपना विकास निधि से कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जाँच से प्रकाश में आया कि निगम द्वारा कराये गये विभिन्न निर्माण कार्यों में जिसमें ठेकेदारों द्वारा कार्यादेश में दी गयी अवधि के अन्तर्गत कार्य को पूर्ण न करके विलम्ब से कार्य पूर्ण किया गया था। वहाँ पर निगम द्वारा ठेकेदार पर अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार या तो विलम्ब हेतु आर्थिक दण्ड लगाया ही नहीं गया था या बहुत कम लगाया गया था जिस कारण ठेकेदारों को अधिक भुगतान हो गया था। अनुबन्ध की शर्त सं0-2 के अनुसार कार्य में देरी करने के लिए ठेकेदार पर कार्य की आगणन राशि पर 1 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा बिना अर्थदण्ड की यह धनराशि आगणित धनराशि के 10 प्रतिशत के अधिक नहीं होगी। ठेकेदारों पर अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार अर्थदण्ड आरोपित न करने के कारण ठेकेदारों को रूपया-3,09,71,682/- का अधिक भुगतान हो गया था। वर्ष 2019-20 तक देरी से किये गये कार्य पर ठेकेदारों पर अनुबन्ध की शर्त-2 के अनुसार अर्थदण्ड की धनराशि की गणना करके ठेकेदारों से वसूल की जाए। सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट 'ज' में अंकित है।

**3- निर्माण कार्यों में बिलों की धनराशि में 1 प्रतिशत अतिरिक्त लेबर सेस जोडे जाने के कारण ठेकेदारों को रू0 3383247 /-का अधिक भुगतान:-**

निर्माण कार्यों की जाँच में पाया गया कि समस्त बिलों की धनराशि में 1 प्रतिशत लेबर सेस अतिरिक्त जोडने के पश्चात ही लेबर सेस की धनराशि की कटौती की गयी थी, जबकि लेबर सेस से सम्बन्धित एक्ट में इसके पूर्व भुगतान का उत्तरदायित्व ठेकेदार का था। वह भी ठेकेदारों के बिल से कटौती कर किया जाना था।

लोक निर्माण विभाग, लखनऊ सामान्य वर्ग के पत्रांक 9755 एम.टी./सामान्य वर्ग/40 एस0टी0-45/2017दिनांक 19-12-2017 कार्यालय ज्ञाप में अंकित "भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च,2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सड़क कार्यों में अनुबन्ध प्रबन्ध पर निष्पादन लेखा परीक्षा में उल्लिखित प्रस्तर 4.2 में अनुशंसा की गयी है।

कि शासन द्वारा समस्त खण्डों को तत्काल यह निर्देश निर्गत किया जाना चाहिए कि कर्मकार उपकर की कटौती ठेकेदारों के बिलों से की जाए एवं समस्त समावेशी अनुबन्धों में उपकर के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जाये”।

‘विड डोक्यूमेंट में लेबर सेस की देयता के सम्बन्ध में पूर्व व्यवस्था पूर्णतया स्पष्ट है जिसके अनुसार लेबर सेस के भुगतान का दायित्व ठेकेदार का है। उक्त के क्रम में एतद् द्वारा आदेश दिये जाते हैं कि कर्मकार उपकर की कटौती ठेकेदारों के बिलों से की जाए एवं समस्त समावेशी अनुबन्धों में कर्मकार उपकर के भुगतान का भार ठेकेदारों द्वारा वहन किया जाये’।

अतः परिशिष्ट ‘ट’ पर सलग्न सूचि के अनुसार बिल में रुपये 3383247/- लेबर सेस के रूप में जोड़े गये थे जिनका भुगतान ठेकेदार को किया गया था। अतः लेबर सेस की जोड़ी गयी धनराशि अंकन रुपये 3383247/-का भुगतान अधिक/अनियमित था। इसकी वसूली सम्बन्धित/उत्तरदायी से कराया जाना अपेक्षित है। उक्त का विवरण परिशिष्ट-‘ट’ में दिया गया है।

**4- निर्माण कार्यों में इंटरलॉकिंग टाईल्स का परीक्षण कराये बिना कार्य कराये जाने से अनियमित एवं आपत्तिजनक भुगतान रूपया-92,26,542/-**

नगर निगम द्वारा वर्ष 2019-20 में कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जाँच से प्रकाश में आया कि जिन कार्यों में इंटरलॉकिंग टाईल्स का कार्य कराया गया था, उनमें इंटरलॉकिंग टाईल्स की गुणवत्ता की जाँच प्रयोगशाला में नहीं कराई गई थी, जिस कारण गुणवत्ताहीन कार्य कराया गया।

मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक-सी.ई.सी.जेड.सा. /7 दिनांक 31-1-2007 द्वारा सड़कों में प्रयुक्त होने वाली इंटरलॉकिंग टाईल्स की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु व्यापक दिशा निर्देश दिये गये थे। इनके अनुसार इंटरलॉकिंग टाईल्स का प्रयोग करने से पूर्व प्रत्येक 500से 1000 टाईल्स में से एक टाईल गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में भेजी जानी चाहिए। गुणवत्ता जाँच की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही सही गुणवत्ता वाली टाईलों का प्रयोग इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण में किया जाना चाहिए।

निर्माण पत्रावलियों में इंटरलॉकिंग टाईल्स की लैब टैस्टिंग सम्बंधी प्रयोगशाला की कोई रिपोर्ट संलग्न नहीं थी। बिना टैस्ट रिपोर्ट के सम्परीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निम्नलिखित विवरण में दर्शाया गये रूप से निर्मित निर्माण कार्यों में गुणवत्तापूर्ण इंटरलॉकिंग का प्रयोग किया गया था। शासनादेश के अनुसार इंटरलॉकिंग सड़कों के निर्माण या टाईल्स के उपयोग से पूर्व लैब टैस्टिंग कराया जाना था, जो नहीं कराया गया था। इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य में टाईल्स का प्रयोग वगैर परीक्षण के कराये जाने के कारण रूपया 92,26,542/-का अनियमित भुगतान किया गया था। उक्त का विवरण सम्परीक्षा आख्या के परिशिष्ट ‘ठ’ पर दिया गया है।

**5- निगम द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में अतिरिक्त परफोरमेंन्स गारन्टी के कम लिये जाने के कारण आर्थिक क्षति रूपया 3,24,01,242/-:-**

नगर निगम द्वारा कराये गये निगम निधि, चौदहवें वित्त आयोग एवं अवस्थापना निधि से कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों से प्रकाश में आया कि नगर निगम द्वारा निर्माण विभाग की विभिन्न पत्रावलियों (विवरण संलग्न) में अतिरिक्त परफोरमेंन्स गारन्टी आगणन धनराशि या 10प्रतिशत से अधिक बिलों (न्यून) पर ठेकेदार द्वारा निविदा/ टेण्डर डाले जाने की स्थिति में 10 प्रतिशत बिलों (न्यून) तक .50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक बिलों (न्यून) दर पर 01 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर पर ली गयी थी, जो अनियमित एवं आपत्तिजनक थी।

शासनादेश सं0-622/23-12-2015-2आडिट/08 टी0सी0 दिनांक 08-06-2012 के अनुसार अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी आगणन धनराशि पर 10 प्रतिशत से अधिक बिलों (न्यून) पर ठेकेदार द्वारा निविदा डाले जाने की स्थिति में 10 प्रतिशत से अधिक बिलों (न्यून) पर 01 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी ली जायेगी।

इस प्रकार शासनादेश की गलत व्याख्या के कारण निर्माण कार्यों पर निगम द्वारा अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी कम लिये जाने से संलग्न विवरणानुसार रूपया- 3,24,01,242/- की आर्थिक क्षति हुई थी। कम परफोरमेन्स गारन्टी लिये जाने सम्बन्धी यदि कोई अन्य आदेश हो तो सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाए अन्यथा स्थिति में कम अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी लिये जाने के कारण स्पष्ट करते हुए ली गई कम अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी ठेकेदारों से जमा कराई जाए। उक्त स्थिति नगर निगम के वित्तीय हितों के नितान्त प्रतिकूल थी। कम अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी लिये जाने से निगम को रु0 32401242/-की आर्थिक क्षति हुई थी।

उक्त से सम्बंधित विवरण सम्परीक्षा आख्या के परिशिष्ट 'ड' पर दिया गया है।

**6- निगम द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में मिट्टी पर 12.5 प्रतिशत सैटलमेन्ट चार्ज न काटे जाने से ठेकेदारों को अधिक भुगतान रूपया- 90,303/- :-**

नगर निगम द्वारा आलोच्य अवधि में निगम निधि, चौदहवें वित्त आयोग एवं अवस्थापना विकास निधि में कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जाँच से प्रकाश में आया कि निगम द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में संलग्न विवरण के अनुसार कराये गये कार्यों में मिट्टी की मात्रा पर 12.5 प्रतिशत सैटलमेन्ट चार्ज की मात्रा नहीं घटाई गई थी, जिस कारण ठेकेदारों को रूपये 90,303/- का अधिक भुगतान कर दिया गया था। 12.5 प्रतिशत सैटलमेन्ट चार्ज न काटे जाने का कारण स्पष्ट करते हुए वर्ष 2019-20 में निगम द्वारा कराये गये समस्त निर्माण कार्यों में नियमानुसार 12.5 प्रतिशत सैटलमेन्ट चार्ज की कटौती सुनिश्चित किया जाए, उक्त धनराशि की गणना कराकर ठेकेदारों से वसूली हेतु निगम की उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। इससे सम्बंधित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ढ' में दिया गया है।

**7- नगर निगम द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों मे स्टोन बैलास्ट के कार्यों पर 10 प्रतिशत बॉयडस न काटे जाने से ठेकेदारों को अधिक भुगतान रूपया-2,07,0354/-**

नगर निगम द्वारा आलोच्य अवधि में निगम निधि, चौदहवें वित्त आयोग एवं अवस्थापना विकास जॉच से प्रकाश में आया कि निगम द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में संलग्न विवरण के अनुसार स्टोन बैलास्ट की मात्रा पर 10 प्रतिशत बॉयडस की मात्रा नहीं घटाई गई थी, जिस कारण ठेकेदारों को रूपया-2070354/-का अधिक भुगतान कर दिया गया था। 10 प्रतिशत बॉयडस न काटे जाने का कारण स्पष्ट करते हुये वर्ष 2019-20 में निगम द्वारा कराये गये समस्त कार्यों में नियमानुसार 10 प्रतिशत बॉयडस की कटौती सुनिश्चित किया जाए एवं इस धनराशि की गणना कराकर ठेकेदारों से वसूली करने हेतु निगम के उच्चधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। इससे सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट 'ण' में संलग्न है।

**8- 50 लाख से अधिक के कार्यों हेतु डी0पी0आर0 (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) न बनाये जाने के कारण अनियमित भुगतान रूपये 24,71,82,374/-**

सम्परीक्षा के समय 14 वॉ वित्त आयोग एवं अवस्थापना विकास निधि की पत्रावलियों की जॉच से प्रकाश में आया कि 50 लाख से उपर के कार्यों हेतु डी0पी0 आर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) नहीं बनायी गयी थी। एवं संलग्न विवरण के दर्शाये गये कार्यों की पत्रावलियों में संलग्न नहीं थी जबकि आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ की अध्यक्षता में 14 वें वित्त आयोग एवं अवस्थाना विकास निधि की कार्ययोजना स्वीकृति हेतु गठित समिति दिनांक 17-7-17 एवं दिनांक-27-10-2018 को हुई मीटिंग में भी द्वारा भी निर्देशित किया गया था कि 50 लाख से उपर के कार्यों हेतु डी0पी0आर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार कराकर पत्रावली में संलग्न किया जाए। लेकिन उक्त दिये गये निर्देश के बावजूद भी संलग्न विवरणानुसार रूपये 24,71,82,374/-का भुगतान बिना डी0पी0आर0 तैयार कर संलग्न किये ही कार्यों हेतु किया गया था, जो अनियमित एवं आपत्तिजनक था। अतएवं बिना डी0पी0आर0 तैयार कर पत्रावली में संलग्न किये ही कार्यों हेतु किये गये अनियमित भुगतान रूपये 24,71,82,374/-के सम्बन्ध में आवश्यक/प्रभावी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। एवं बिना डी0पी0आर0 के किये गये भुगतान रूपये 24,71,82,374/- के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाए।

उक्त से सम्बन्धित विवरण सम्परीक्षा आख्या के परिशिष्ट 'त' में दिया गया है।

**9- निर्माण कार्य पत्रावलियों में डी0पी0आर, डिजाइन एवं ड्राईंग्स बनाये जाने हेतु अनियमित एवं आपत्तिजनक भुगतान रूपये-60,000/-**

नगर निगम की आलोच्य अवधि की निर्माण कार्य की पत्रावलियों की जॉच के समय प्रकाश में आया कि निम्नांकित विवरणानुसार निर्माण कार्य पत्रावलियों में ठेकेदार के बिलों में डी0पी0आर0 (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट), डिजाइन एवं ड्राईंग्स तैयार कराये जाने हेतु रूपये 10,000/- प्रति कार्यों/पत्रावली की धनराशि सम्मिलित की गयी थी, जबकि डी0पी0आर0 डिजाइन एवं ड्राईंग्स तैयार किये जाने का दायित्व नगर निगम के

इंजीनियरिंग अनुभाग का था। उक्त के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि डी0पी0आर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) डिजाइन एवं ड्राइंग्स तैयार किये जाने का कार्य आगणन एवं निविदा आमंत्रण किये जाने के पूर्व किया जाना चाहिए था। ऐसी स्थिति उक्त मद हेतु धनराशि आगणन एवं ठेकेदार के बिलों के सम्मिलित किये जाने का क्या औचित्य था। यदि उक्त कार्य ठेकेदार द्वारा किया गया था तो यह गम्भीर रूप से आपत्ति जनक था। इस सम्बन्ध में यदि कोई सक्षम आदेश/शासनादेश हो तो सम्परीक्षा में दिखाया जाए अन्यथा स्थिति संलग्न परिशिष्ट 'थ' के विवरणानुसार रूपये 60000=00 के किये गये अनियमित भुगतान की प्रतिपूर्ति उत्तरदायी से कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि निर्माण की कुछ पत्रावलियों में आगणन के उक्त मद हेतु धनराशि सम्मिलित की गयी थी किन्तु लेखा अनुभाग द्वारा उक्त मद की धनराशि की कटौती बिल से कर दी गयी थी।

उपरोक्त से भी स्पष्ट है कि डी0पी0आर0, डिजाइन एवं ड्राइंग्स हेतु किया गया भुगतान 60,000/- अनियमित है। जिसकी प्रतिपूर्ति उत्तरदायी से कराया जाना अपेक्षित है। उक्त का विवरण परिशिष्ट 'थ' में दिया गया है।

#### 14 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत

10- वार्ड-63 जनकपुरी में पावर हाउस से आराधना सिनेमा होते हुए जी0टी रोड तक आर0सी0सी0 द्वारा सड़क सुधार कार्य में पायी गयी अनियमिततायें एवं अधिक/अनियमित/आपत्तिजनक भुगतान रूपये 11,97,202=00 :-

14 वॉ वित्त आयोग से वाउचर सं0 531 पी0 एफ0 एम0 एस0 इनवायस सं0 022003544972 दिनांक 11-2-20 द्वारा आकांक्षा कन्स्ट्रक्शन को भुगतानित धनराशि रूपये 159500/- से सम्बन्धित उपरोक्त सड़क सुधार कार्य की पत्रावली की जाँच के समय प्रकाश में आया कि उक्त कार्य हेतु आगणन 610 मी0लम्बाई की सड़क कार्य सुधार हेतु रूपये 10931734/- का तैयार किया गया था तथा रूपये 10925000/-की ई-निविदा आमंत्रित की गयी थी जिस पर न्यूनतम 21.40 प्रतिशत बिलों (कम पर) न्यूनतम निविदा रूपये 8587050=00 की मेसर्स आकांक्षा कन्स्ट्रक्शन की प्राप्त एवं स्वीकृत की गयी थी, तथा उक्त धनराशि का ही कार्यादेश नगर निगम गाजियाबाद के पत्रांक 055/2017-18 दिनांक 18-10-2017 को निर्गत किया गया था। उपर्युक्त कार्य की कार्य योजना दिनांक 17-7-17 को मण्डलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में 14 वें वित्त आयोग की बैठक कार्ययोजना स्वीकृत की गयी थी उपर्युक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्नांकित कमियाँ प्रकाश में आयी।

1- उपर्युक्त कार्य के आगणन में सम्मिलित 8 मदों में आर0सी0सी0 1:2:4 793 m<sup>3</sup>@6700 था तथा मापपुस्तिका सं0 2485 में आर0सी0सी0 1:1.5:3 726.07 m<sup>3</sup>@6700 रूपये 4864669 का आब्स्ट्रैक्ट तैयार भुगतान द्वितीय रनिंग बिल में दर्शाया गया था, जिसे तृतीय एवं चतुर्थ/फाईनल बिल में परिवर्तित कर अगली माप पुस्तिका संख्या 3321 में

आर0सी0सी0 कार्य 1:1.5:3 दर 7300 रूपये 5300311/- का भुगतान किया गया था जबकि आगणन में दी गयी मद के अनुसार ही कार्य कराया जाना चाहिए था, जिससे रूपये 4,35,3642=00 का अधिक भुगतान ठेकेदार को किया गया था। आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में समिति द्वारा स्वीकृत कार्य के आगणन की मदों में परिवर्तन कर कार्य कराया जाना गम्भीर रूप से अनियमित एवं आपत्तिजनक था। एवं पत्रावली में मद परिवर्तन करने हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति भी उपलब्ध नहीं थी।

2- आयुक्त महोदय मेरठ द्वारा स्वीकृत कार्य आर0सी0सी0 द्वारा सड़क सुधार के अतिरिक्त इन्टर लॉकिंग (सड़क के दोनो किनारों पर) कार्य कराया गया था जबकि उक्त कार्य हेतु अलग से कार्ययोजना सक्षम अधिकारी से स्वीकृति करायी जाना चाहिए थी। इस प्रकार स्वीकृत कार्य के अतिरिक्त कराये गये कार्य हेतु किया भुगतान अनियमित एवं आपत्तिजनक था विवरण निम्नवत है।

क्र०	विवरण	मात्रा	दर	धनराशि
1	सप्लाई एण्ड स्टैकिंग स्टोन बैलास्ट 22:5:53 एम.एम शेष	69	2042	140904.90
2	उपर्युक्त की लेइन्ग स्पीडिन्ग एण्ड कान्सालिडेशन	69	185	12765
3	सप्लाई एण्ड लेइंग 80 एम.एम इन्टरलॉकिंग टाईल्स	690	881	607890.00
				761559.90 = 761560

इस प्रकार उपर्युक्त भुगतान रूपये 761560/- अनियमित एवं आपत्तिजनक था।

3- आगणन में सम्मिलित मद एक्सवेशन आफ मलवा 122 @ 7549150 तथा आर.सी.सी 1.2:4 का 793 दर 6700 रू0 531 3100 कुल रू0 5322250/- का कार्य नहीं कराया गया था जबकि उक्त कार्य कराये जाने की आवश्यकता नहीं थी तो उसे आगणन में सम्मिलित किये जाने का औचित्य क्या था उक्त से स्पष्ट था कि अवर अभियन्ता द्वारा मनमाने ढंग से आगणन तैयार किया गया था अत एवं उपर्युक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है।

अतएव उपर्युक्त अनियमितताओं एवं अधिक भुगतान के सम्बन्ध उत्तरदायी के विरुद्ध प्रभावी/ आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

#### 11- अधिक दर से भुगतान के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान रू0 5,05,540=00 :-

पत्रावली की सम्परीक्षा से प्रकाश में आया कि वार्ड-40 श्याम पार्क मेन के राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रीज एरिया की क्षतिग्रस्त सड़कों का सुधार कार्य का अनुबन्ध गाजियाबाद नगर निगम द्वारा मे नार्थ इण्डिया से दिनांक 18-10-17 को किया गया था। अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक-निर्माण/072/2017-18 दिनांक 18-10-17 द्वारा कार्य-आदेश दिनांक 18-10-17 को मे नार्थ इण्डिया डेवलपर्स को दिया गया था। उक्त कार्य की मद सं0-13 प्रोवाइडिंग एण्ड लेइंग एम-30 ग्रेड 30 एम एम थिक टाईल्स का



भुगतान 881=00 प्रति वर्ग की दर से किया था, जबकि उक्त मद के कार्य हेतु भुगतान दूसरी पत्रावली में "वार्ड-60 श्यामपार्क मेन में सत्यम एन्कलेव एवं गिरधर एन्कलेव में सीवर से क्षतिग्रस्त विभिन्न गलियों में नाली व इण्टरलॉकिंग टाईल्स का कार्य में रू0 720=00 प्रतिवर्ग मी की दर से किया गया था। दोनों कार्यों में एक ही समान मद की दरों में अन्तर का कारण स्पष्ट किया जाए। अन्यथा स्थिति में ठेकेदार मै0 नार्थ इण्डिया डेवलपर्स को निम्न विवरणानुसार किये गये भुगतान रू0 5,05,540/-की वसूली अपेक्षित है।

क्र0	मद	विवरण	विवरण
		वार्ड श्याम पार्क मेन के राजन्द्र नगर इन्डस्ट्रीयल एरिया की क्षतिग्रस्त सडकों का डेंस द्वारा सुधार कार्य मै. नार्थ इण्डिया डेवलपर्स	वार्ड 60 श्यामपार्क मेन में सत्यम एन्कलेव में सीवर से क्षतिग्रस्त विभिन्न गलियों में नाली व इण्टर लॉकिंग टाईल्स का कार्य में महेश चन्द्र कान्टेक्टर

	मात्रा	दर	दर	अधिक
प्रोवाइडिंग एण्ड लेइंग एम-30 ग्रेड 80 एमएम थिक रबर मॉड्यूल कलरड इंटरट्रेंकिंग टाईल्स	3140वर्ग0मी0	881	720	161

अधिक भुगतान= 3140×161=5,05,540

**12- हिन्दन नदी के किनारे शमशान घाट वाली रोड से कुछ आश्रम तक डैन्स का कार्य की पत्रावली में पाई गई अनियमितताएँ परफोरमेन्स गारन्टी रूपये 76513/-कम लिये जाने के कारण आर्थिक क्षति एवं ठेकेदारों को अनियमित एवं अधिक भुगतान रू0 41302/- :-**

उक्त कार्य का आगणन रू0 14,99,400=00 का था, जिसमें 1 प्रतिशत लेवर सेस भी सम्मिलित था जो रू0 13268.90/- को आगणन धनराशि में जोड़ने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। उक्त आगणन त्रुटिपूर्ण था।

उक्त कार्य हेतु दो निविदायें प्राप्त हुई थी न्यूनतम निविदा(-17.90प्रतिशत) मै0 अनिल कुमार चौहान की रू0 12,29,657=00 स्वीकृति की गई थी। मात्र दो निविदा स्वीकृत किया जाना अनियमित था। कम से कम तीन निविदायें होनी चाहिए थी जिस हेतु पुनः निविदा आमंत्रण किया जाना चाहिए था।

उक्त कार्य हेतु आगणन धनराशि 14,99,400/- या 18 प्रतिशत अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी रू0 2,69,982=00 जमा करानी चाहिए थी, जबकि मात्र रू0 1,93,379/- जमा कराई गई थी। इस प्रकार रू0 76,513=00 कम जमा कराने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

पत्रावली में 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर निगम एवं ठेकेदार के मध्य हस्ताक्षरित अनुबंध पत्र मूल/छायाप्रति सलग्न नहीं थी, जिस कारण रू0 100/- की राजस्व क्षति हुई एवं यह स्थिति निगम के विधिक हितों के विपरीत थी।

उक्त कार्य में 112.17 घनमीटर का स्टोन वैलास्ट का कार्य किया गया था, जिस पर 10 प्रतिशत वॉयड्स न मारे जाने के कारण ठेकेदार को  $11.22 \times 2048 = \text{रू0 } 22978-56$  का अधिक एवं अनियमित भुगतान किया गया था।

उक्त कार्य में खनिजों के प्रयोग पर रॉयल्टी नहीं काटी गई थी। और न ही पत्रावली में ठेकेदार द्वारा रॉयल्टी काटे जाने के प्रमाणस्वरूप फार्म एम एम-11 लगाया गया था, जिस कारण ठेकेदार को रू0 8916.17/- का अधिक एवं अनियमित भुगतान किया गया था। उक्त हेतु दायित्व सुनिश्चित कर वसूली की जाए एवं खनिजों पर अवर अभियन्ता द्वारा रॉयल्टी न काटे जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

उक्त कार्य हेतु किये गये फाइनल बिल में 1 प्रतिशत लेबर सेस रूपया 9407=00 को जोड़ कर दिखाया गया था, जो अनियमित एवं आपत्तिजनक था। इस कारण ठेकेदार को रूपया 9407=00 का अधिक भुगतान किया गया था। इसका औचित्य स्पष्ट कर वसूली सुनिश्चित की जाए।

उक्त से स्पष्ट था कि ठेकेदार से रूपया- 76,513=00 परफोरमेन्स गारन्टी कम काटा जाना 10 प्रतिशत वॉयड्स की कटौती न किया जाना रू0 22,979/- रॉयल्टी न काटा जाना रू0 8,916/- एवं 1 प्रतिशत लेबर सेस जोड़कर भुगतान किये जाने के कारण ठेकेदार को रू0 41,302=00 का अधिक एवं अनियमित भुगतान किया गया था, तथा निगम को रू0 76,513/- की परफोरमेन्स गारन्टी कम लिये जाने के कारण आर्थिक क्षति हुई थी।

**13- वार्ड-13, कान्हा फार्म के सामने आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य में पाई गई अनियमितताएँ एवं लेबर सेस का अनियमित भुगतान रूपये 29,864.33/- परफोरमेन्स गारन्टी कम लिये जाने से आर्थिक क्षति रू0 2,31,912=00 एवं विचलन की स्वीकृति के अभाव में अनियमित भुगतान रू0 66,828=00:-**

उक्त कार्य का आगणन अवर अभियन्ता द्वारा दिनांक 20.10.18 को रूपया 4612000/- का बनाया गया था, जो त्रुटिपूर्ण था। सही आगणन रूपया-4408512/- का था। अतः स्पष्ट है कि नगर निगम द्वारा गलत आगणन के आधार पर निविदा आमंत्रित की गई। अवर अभियन्ता द्वारा आगणन में 1 प्रतिशत लेबर सेस जोड़ा जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक था। गलत आगणन बनाये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

उक्त कार्य हेतु तैयार किये गये बी0ओ0क्यू में शेड स्टील और आर0सी0सी0 वर्क हेतु 6450/- प्रति कुन्तल की दर दिये जाने का क्या औचित्य था, स्पष्ट किया जाए।

उक्त कार्य 14 वे वित्त आयोग से कराया गया था, जबकि पत्रावली में प्रपत्रों पर अवस्थापना निधि अंकित किया गया था जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। यह आपत्तिजनक था।

उक्त कार्य हेतु कुल 5 निविदायें प्राप्त हुई थी जिनमें न्यूनतम स्वीकृत निविदा(-25. प्रतिशत न्यून) मै0 शान्तनु कन्स्ट्रक्शन की रूपया 3435017=06 की थी। उक्त कार्य करने हेतु अधिशासी अभियन्ता द्वारा ठेकेदार को इन्टीमेशन कम वर्क ऑर्डर सं0 55/2018-19 दिनांक 2-3-19 जारी किया गया था। जबकि नियमानुसार पहले इन्टीमेशन लैटर जारी करके अनुबंध कराये जाने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ करने हेतु कार्यादेश जारी किया जाना चाहिए था। कार्यादेश में कार्य प्रारम्भ की तिथि, कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि, कार्य समाप्ति की तिथि, अर्थदण्ड सम्बंधी प्रावधान की स्पष्ट जानकारी ठेकेदार को दी जानी चाहिए थी, किन्तु उक्त का अभाव परिलक्षित हुआ। निमानुसार कार्यादेश जारी न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

उक्त कार्य की पत्रावली में 100 रूपये के स्टाम्प पेपर या ठेकेदार एवं निगम के मध्य अनुबंध संलग्न नहीं था। इससे जहाँ एक ओर 100 रूपये राजस्व की क्षति हुई वहीं दूसरी ओर यह अनुबंध बाध्यकारी भी नहीं था तथा निगम की वित्तीय एवं विधिक हितों के प्रतिकूल था।

उक्त पत्रावली में ठेकेदार द्वारा किये गये मदवार कार्य का बिल संलग्न नहीं था मात्र इनवायस बिल लगाया गया था, यह अनियमित एवं आपत्तिजनक था। सम्परीक्षा में बताया गया कि ठेकेदार का बिल लेखा अनुभाग की गार्ड फाईल में रहता है या तो दो बिल बनाये जाँच या लेखा अनुभाग द्वारा पास बिल की छायाप्रति पत्रावली में संलग्न किया जाए।

उक्त कार्य में ठेकेदार को रू0 29864.33 था 1 प्रतिशत सेस जोडकर भुगतान किया गया था, जबकि लोक निर्माण विभाग, लखनऊ (सामान्य वर्ग) के पत्रांक-9755 एम0टी/सामान्य वर्ग/40 एम.टी-45/2017 दिनांक 29-12-2017 के कार्यालय ज्ञाप एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31-3-16 में यह स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि लेवरसेस की कटौती ठेकेदार के बिलों से की जाए एवं उसका के भुगतान का समस्त दायित्व ठेकेदार द्वारा वहन किया जाये।

इस प्रकार रूपया 29864.33/- का ठेकेदार को अनियमित भुगतान किया गया था। उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0-622/23-12-2012-2 आडिट/08 टी0सी0 दिनांक 8 जून, 2012 के अनुसार 10 प्रतिशत से अधिक न्यून निविदा/टेण्डर पर 1 प्रतिशत कम दर पर सिक्योरिटी/परफोरमेन्स गारन्टी ली जायेगी। उक्त कार्य हेतु ठेकेदार से रूपया 9,67,208=00 की परफोरमेन्स गारन्टी ली गयी थी, जबकि उक्त शासनादेश के अनुसार रू0 1199120=00 की परफोरमेन्स गारन्टी ली जानी चाहिए थी। इस प्रकार स्पष्ट था कि रूपये 2,31,912=00 कम परफोरमेन्स गारन्टी लिया जाना निगम के आर्थिक हितों के प्रतिकूल था।

आगणन एवं फाइनल बिल की जाँच से प्रकाश में आया कि किये गये कुछ कार्यों में विचलन किया गया था तथा उक्त विचलन के लिये अवर अभियन्ता द्वारा कोई विचलन विवरण नहीं बनाया गया था। और न ही इसे स्वीकृत कराया गया था। यह अनियमित एवं आपत्तिजनक था। विचलन का विवरण निम्नवत था-

क्र०	कार्य की मद	आगणन के अनुसार कार्य की मात्रा	बिल के अनुसार कार्य की मात्रा	अधिक कार्य	दर	अधिक भुगतान
1	डी वाटरिंग ऑफ नाला	150घंटा	160घंटा	10	150	1500
2	मेकिंग बंधा विद सैन्ड	1000	1100	100	15	1500
3	डिस्मेन्टलिंग ऑफ ओल्ड रैम्प	30घ.मी	32.87घ.मी	2.87	800	2296
4	अर्थवर्क इन एक्स्कावेशन	1043.70व.मी	1146.90	103.20	95	9804
5	आर.सी.सी.इन 1:1/2:3	310.63 व.मी	315.47	4.84	7700	37268
6	एम.एम.टोर स्टील	170.69 कु०	171.23	0.54	5600	3024
7	डिस्पोजल ऑफ मलवा	527.07 व.मी.	579.77 व.मी.	52.70	217	11436
					योग	66828

**14-वार्ड-22 दौलतपुरा पुल के पास दोनो तरफ सी ब्लॉक में सड़क सुधार कार्य मे पाई गई अनियमिततायें एवं 1 प्रतिशत लेबर सेस रू० 22465/-का अधिक भुगतान, रॉयल्टी रू०2462=00 न काटा जाना तथा परफोरमेन्स गारन्टी रू० 216399.00 कम लिया जाना आपत्तिजनक:-**

उक्त कार्य का आगणन रू० 3716000/- का अवर अभियन्ता श्री देवी सिंह द्वारा तैयार किया गया था जो त्रुटिपूर्ण था। सही आगणन (12 प्रतिशत जी.एस.टी सहित) रूपया 3665352-28 का था। अवर अभियन्ता द्वारा आगणन में 1 प्रतिशत लेबर सेस रू० 32887.44 जोड़ने एवं त्रुटिपूर्ण आगणन बनाये जाने का कारण/औचित्य स्पष्ट किया जाए। गलत आगणन पर ही निविदा आमंत्रित की गई थी। शा०सं०-1614/23-10-17-12 (सामान्य)/2017 दिनांक 8-11-2017 द्वारा भी इस सम्बन्ध में दिए गये निर्देश का उल्लंघन किया गया था।

उक्त कार्य हेतु कुल 4 निविदाए प्राप्त हुई थी। न्यूनतम निविदा (-27.17 प्रतिशत न्यून) मै० अरुण कन्स्ट्रक्शन कं० की स्वीकृत कर अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्रांक-निर्माण/47/2018-19 दिनांक 2-3-19 द्वारा इन्टीमेशन कम वर्क ऑर्डर जारी किया गया था। यह अनियमित एवं आपत्तिजनक था। पहले इन्टीमेशन लैटर देकर अनुबंध कराया जाना चाहिए था। तत्पश्चात कार्यादेश जारी करना चाहिए था, जिसमें सभी सूचनाएं/निर्देश स्पष्ट रूप से अंकित करने चाहिए। उक्त कार्य की पत्रावली में ठेकेदार का मदवार बिल अंकित नहीं किया गया था। इसे संलग्न किया जाए।

उक्त कार्य में शासनादेशानुसार परफोरमेंस गारन्टी रू० 1040480/- लगाई जानी चाहिए थी, जबकि मात्र 824081.00 की लगाई गई थी।

इस प्रकार कम परफोरमेन्स गारन्टी रू० 216399.00 लगाये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। यह निगम के आर्थिक हितों के विपरीत था। ठेकेदार से की गई कटौतियों के सम्बन्धित विभाग में जमा चालानों का पत्रावली में अभाव था जिस कारण इनके जमा की पुष्टि न हो सकी।

उक्त कार्य में ठेकेदार को रूपया 22465.37 का 1 प्रतिशत लेबर सेस जोड़कर भुगतान किया जाना आपत्तिजनक था। इस प्रकार ठेकेदार को रू०22465.37/- का अधिक भुगतान किया गया था। इसकी वसूली सुनिश्चित की जाए।

अवर अभियन्ता द्वारा खनिजों पर रॉयल्टी न काटे जाने से रु 2462/- का अधिक भुगतान ठेकेदार को करना पडा था। इसकी वसूली उत्तरदायी से की जाए।

**15- वार्ड-60 श्याम पार्क मेन में सडक सुधार कार्य में ठेकेदार को अधिक भुगतान रु0 6,750/- एवं लेबर सेस का अधिक भुगतान रु0 13860.35 तथा परफोरमेन्स गारन्टी रु0 176303/- कम लिये जाने से आर्थिक क्षति:-**

उक्त कार्य में ठेकेदार मै0 मोहित चौधरी के फाइनल बिल में 12 एम.एम.थिक प्लास्टर इन 1:4 का कार्य 467.24 वर्ग मी0 दर रु0 165 प्रति वर्ग मी0 से रु0 77094/- होना चाहिए था, जबकि 77102.85 भुगतान किया गया था। इसी प्रकार इन्टरलॉकिंग टाईल्स के कार्य में 1202.17 वर्ग मी0 दर 720 प्रति वर्ग मी0 से रूपया 8,65,562.40 भुगतान होना चाहिए था जबकि 8,62,562/- का भुगतान बिल में अंकित था।

इस प्रकार पूरे बिल की गणना करने पर ठेकेदार को कुल रु0 6750.00 का अधिक शुद्ध भुगतान किया गया था। बिल में रु0 13860.35 का 1प्रतिशत लेबर सेस जोडकर भुगतान किया जाना अनियमित था।

उक्त कार्य में 10 प्रतिशत जमानत 199170.00 एवं 20 प्रतिशत अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी रु0 398340/- ली जानी चाहिए थी जबकि कुल 375473.00 जमानत एवं क्षति पर गारन्टी ली गई थी। इस प्रकार रु0 176303.00 अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी कम लिये जाने से आर्थिक क्षति हुई थी। उक्त के अतिरिक्त मात्र 2 निविदा प्राप्त होने पर कार्य कराया जाना भी अनियमित था।

**16- वार्ड-82 जवाहर पार्क, शहीदनगर में इन्टरलॉकिंग कार्य में अधिक भुगतान रु012732.39/- एवं परफोरमेन्स गारन्टी कम लिये जाने के कारण आर्थिक क्षति रु0 118172.00:-**

उक्त कार्य का आगणन रु0 1129800/- था एवं न्यूनतम निविदा (-13.99प्रतिशत न्यून) के आधार पर कार्य मै0 आर0के एसोसियेशन को दिया गया था। उक्त कार्य हेतु मात्र दो निविदाए प्राप्त हुई थी। दो निविदा के आधार पर कार्य स्वीकृत करना अनियमित एवं आपत्तिजनक था।

व्यय प्रमाणक सं0-4 दिनांक 4-2-20 के द्वारा इनके फाइनल बिल का भुगतान किया गया था। फाइनल बिल में अर्थ वर्क इन फिलिंग का कार्य 143.24 घ.मी.पर 12.5प्रतिशत सैटलमेन्ट चार्ज न काटे जाने के कारण  $17.91 \times 229 =$  रूपया 4101.39 का अधिक भुगतान ठेकेदार को किया गया था।

बिल में 1प्रतिशत लेबर सेस रूपया 8631.00 जोडकर फिर कटौती किये जाने के कारण ठेकेदार को रु0 8631.00 का अधिक भुगतान अनियमित एवं आपत्तिजनक था।

उक्त टेण्डर 13.99 प्रतिशत कम दर पर डाला गया था। अतः आगणन राशि रु0 1129800/- पर 14 प्रतिशत अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी ली जानी चाहिए किन्तु रु0 158172/- के स्थान पर रु0 40,000.00 अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी ली गयी थी। इस

प्रकार 118172.00 रूपया कम अति पर गारन्टी लिये जाने से निगम को आर्थिक क्षति हुई थी।

**17- वार्ड-29 कुटी में पंचशील कालोनी में इण्टरलॉकिंग टाईल्स के कार्य में टाईल्स का जॉच प्रमाण पत्र न होने से अनियमित भुगतान रू0 188496/- तथा वॉयडस न काटे जाने से अधिक भुगतान रू0 4280/- एवं लेबर सेस बिल में जोड़ने के कारण अधिक भुगतान रू0 3641.00:-**

उक्त कार्य का आगणन रू0 न्यूनतम था। न्यूनतम निविदा मै0 एस0आर0 एन्टरप्राइजेज की थी। उक्त कार्य के फाइनल बिल का भुगतान व्यय प्रमाणक सं0 397 दिनांक 21-12-19 द्वारा किया गया था। उक्त कार्य के बिल में ठेकेदार को 1 प्रतिशत लेबर सेस को जोड़कर रूपया 3641/- भुगतान किया गया था, जिस कारण ठेकेदार को रू0 3641/-का अधिक भुगतान किया गया था।

उक्त कार्य में स्टोन बैलास्ट का कार्य 20.94 घ.मी. कराया गया था, किन्तु इस पर 10 प्रतिशत वॉयडस न काटे जाने के कारण  $2.09 \times 2048 \times 4280.32$  का ठेकेदार को अधिक भुगतान कर दिया गया था। इण्टर लॉकिंग टाईल्स का लैब में गुणवत्ता परीक्षण न कराये जाने के कारण रूपया 188496.00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

**18- वार्ड-56 चिरंजीव विहार में डैन्स द्वारा सडक का सुधार कार्य में अनियमित भुगतान 2,10,006/- तथा अधिक भुगतान रूपया-12,848/-:-**

उक्त कार्य का आगणन रू0 576356.00 था। न्यूनतम निविदा (5.60प्रतिशत न्यून) के आधार पर मै0ए0एम0 कन्स्ट्रक्शन को उनके फाइनल बिल का भुगतान व्यय प्रमाणक सं0-648 दिनांक 22-2-20 द्वारा किया गया था। माप पुस्तिका सं0-6478 के पृसं0 07 पर स्टोन वैलास्ट का कार्य 39.48 घ.मी. था। इस पर 10 प्रतिशत वॉयड्स नहीं काटे जाने के कारण  $3.948 \times 2048 = 8085$  का अधिक भुगतान किया गया था।

1 प्रतिशत लेबर सेस रूपया 4763/- का भी बिल में जोड़कर भुगतान किये जाने से ठेकेदार को रूपया 4763.00 का अधिक एवं अनियमित भुगतान किया गया था।

सडक में प्रयोग किया गया विटमिन 29.57 घनमीटर ठेकेदार द्वारा कहाँ से क्रय किया गया था, स्पष्ट नहीं था। नगर निगम द्वारा रिफाइनरी को भेजा गया कोई पत्र पत्रावली में सलग्न नहीं था। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाए। अन्यथा स्थिति में उक्त हेतु किया गया भुगतान रू0 210006.14 अनियमित था।

**19- वार्ड न0 46, मानसी विहार में मन्दिर से मकान सं0-125,सी0-1से मकान सं0-167 पार्क से मकान सं. 80 तक सडक मरम्मत कार्य में पायी गयी अनियमितताएँ:-**

वार्ड न0 46 मानसी विहार में मन्दिर से मकान सं0-125 सी.-1 से मकान सं0 167, पार्क से मकान सं0-80 तक सडक मरम्मत कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जॉच के समय प्रकाश में आया कि नगर निगम निधि के वाउचर सं0 563 चेक सं0 907514 दिनांक

27-12-19 रूपये 740600.00 का भुगतान में अरुण कन्सट्रक्शन कम्पनी को उक्त कार्य के सापेक्ष आयकर रू0 17,716/- सेस रूपये 7819/- जी0एस0टी0 रू 15636/-अन्य रू0 52 की कटौती के पश्चात किया गया था। उक्त पत्रावली की जाँच में निम्नांकित कमियों प्रकाश में आयी-

1- उपर्युक्त कार्य की ई-निविदा सूचना पत्रांक 15/16/निमाण/2018-19 दिनांक 2-12-18 दैनिक जागरण नई दिल्ली दिनांक 6-12-18 एवं दबंग दुनिया नई दिल्ली दिनांक 7-12-18 में प्रकाशित की गयी थी, जिस हेतु आर0जी0 बिल्डटेक इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा आगणन धनराशि 8,87,585/- के सापेक्ष 18-60 प्रतिशत कम दर पर रू0 7,22,498/- पर कार्य करने हेतु निविदा दी गयी। लेकिन पत्रावली नोटिंग साईड में उक्त का उल्लेख नहीं किया गया है। यह पत्रावली के दाहिनी ओर पृष्ठ 6 से 13 पर निविदा विज्ञापन प्रकाशन एवं ततसम्बंधी अन्य अभिलेख संलग्न थे पृष्ठ सं0 14 पर दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला दिनांक 18-2-19 में विज्ञापन प्रकाशित कर दिनांक 4 मार्च,2019 को प्राप्त दो टेण्डर में से अरुण कन्सट्रक्शन कम्पनी 11.75 प्रतिशत कम दर प्राप्त निविदा को स्वीकृत कर कार्य कराया गया था, जबकि नियमानुसार कम से कम तीन टेण्डर प्राप्त होने पर ही न्यूनतम निविदा दाता की निविदा स्वीकृत की जानी चाहिए थी यह आपत्तिजनक था।

2- यदि प्रथम बार में प्राप्त निविदा आर0जी0बिल्डटेक इंजीनियर्स लि0 की 18.60 प्रतिशत कम दर पर कार्य कराया गया होता तो नगर निगम को 6.85 प्रतिशत 18.60-11.75 रूपये 60809/- 783307-722498 की बचत होती। इस प्रकार नगर निगम को रू0 60809/-की आर्थिक क्षति हुयी थी। उक्त के सम्बन्ध में पत्रावली की नोटिंग साईज में कोई टिप्पणी अंकित न किया जाना आपत्तिजनक था।

3- उक्त कार्य के आगणन क्रमांक-3 पर अंकित कार्य S/L B0E मद हेतु 92 वर्ग मी0 दर 32029440/- का कार्य नहीं कराया गया था। उक्त से स्पष्ट था कि अवर अभियन्ता द्वारा उक्त मद की कार्य की आवश्यकता न होने पर भी आगणन में सम्मिलित किया गया था जिससे आगणन धनराशि एवं स्वीकृति निविदा धनराशि में उक्त सीमा तक वृद्धि हुयी। यह आपत्तिजनक था। अतएवं उपरोक्त कमियों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जानी अपेक्षित है।

**20- वार्ड न0-7 सुदामापुरी में ए-ब्लॉक से सुदामापुरी प्राईमरी स्कूल तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाईल्स सडक निर्माण का कार्य में पायी गयी अनियमितताएँ:-**

पत्रावली की जाँच से प्रकाश में आया कि 14 वे वित्त आयोग के अन्तर्गत वार्ड न0-7 सुदामापुरी में ए-ब्लाक से सुदामापुरी प्राईमरी स्कूल तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाईल्स सडक निर्माण का कार्य का ठेका मै0 जुबेर कन्सट्रक्शन को दिया गया था। उपरोक्त कार्य हेतु ठेकेदार के द्वितीय चालू बिल का भुगतान रू0 3503500/-दिनांक 16-12-19 को किया गया था। उपरोक्त कार्य में निम्न अनियमितताएँ प्रकाश में आयी।

1- उपरोक्त कार्य की आगणन धनराशि 80,00,000/- थी जो त्रुटिपूर्ण था। शुद्ध रूप से आगणन की धनराशि 79,87,084 थी। इस प्रकार आगणन की गणना रू0 12916/- अधिक की गयी थी। ठेकेदार को उपरोक्त कार्य का ठेका आगणन राशि सेस 27.88

प्रतिशत नीचे रू0 57,69,600/- में दिया गया था। रू0 12916 /-आगणन गणना में अधिक दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

2- ई निविदा सूचना हेतु समाचार पत्रों को जारी किया गया प्रपत्र पत्रावली में सलंगन नहीं था, जिससे यह ज्ञात न हो सका कि कार्य की अवधि क्या थी, कार्य की अनुमानित लागत, धरोहर राशि, जमानत राशि क्या थी तथा प्रकाशित विज्ञापन में उपरोक्त सूचनाएँ नहीं दर्शायी गयी थी।

3- मै0 अनुज कन्स्ट्रक्शन की धरोहर राशि की एफ0डी0आर0न0 719517 दिनांक 15-10-16 जिसकी परिपक्वता तिथि 15-10-18 थी जिसका नवीनीकरण नहीं कराया गया था पुरानी अवधि की थी। एफ0डी0आर न0 305896 रू0 90,000/- दिनांक 7-5-16 परिपक्वता तिथि 7-5-17 थी जिसका नवीनीकरण नहीं कराया गया था पुरानी अवधि की थी पुरानी अवधि की एफ0डी0आर0 होने की दशा में भी किस आधार पर धरोहर राशि वैद्य माना गया स्पष्ट किया जाए।

4- मै0 आर0जी0 बिल्डटेक इन्जीनियर्स लि0 की धरोहर राशि की एफ0डी0आर न0-19355897 दिनांक 27-3-17 जिसकी परिपक्वता तिथि 27-3-18 थी, जिसका नवीनीकरण नहीं कराया गया था। एवं एफ0डी0आर- 183729356 दिनांक 27-3-17 धनराशि 1,00,000/- की परिपक्वता तिथि 27-3-18 थी, जिसका नवीनीकरण नहीं कराया गया था पुरानी अवधि की थी। एफ0डी0आर0 न0 177653257 दिनांक 14-10-16 धनराशि 1,00,000/- की परिपक्वता तिथि 14-10-17 थी जिसका नवीनीकरण नहीं कराया गया था एफ0डी0आर न0- 19312022 दिनांक 27-3-17 धनराशि रू0 1,00,000/- की परिपक्वता तिथि 27-3-18 थी जिसका नवीनीकरण नहीं कराया गया था।

उपरोक्त एफ0डी0आर पुरानी होने के बावजूद भी वैद्य माना गया था पुरानी एफ.डी. आर. को वैद्य माने जाने का आधार स्पष्ट किया जाए। अन्यथा स्थिति में सम्बन्धित ठेकेदार की निविदा निरस्त मानते हुए कार्यवाही अपेक्षित है।

5- उपरोक्त कार्य की ठेकेदार द्वारा डाली गयी निविदाएँ के प्रपत्र पत्रावली में सलंगन नहीं था, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य को किस आधार पर आवंटित किया गया था।

6- उपरोक्त कार्य का कायोदेश पत्रावली में संलग्न नहीं था, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य कितने प्रतिशत निम्न पर दिया गया था। कार्य की अवधि क्या थी स्थिति स्पष्ट की जाए।

7- उपरोक्त कार्य का ठेकेदार द्वारा किया गया अनुबन्ध पत्रावली में सलंगन नहीं था, जिससे कार्य की शर्तें आदि की स्थिति अज्ञात रही।

21- 14 वॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत नायफल गॉव में मैन रोड एवं आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य मै0 आर0जी0बिल्डटेक इन्जी0लि0 को किया गया अधिक भुगतान रू0 20,688 /-

पत्रावली की जाँच से प्रकाश में आया कि 14 वॉ वित्त आयोग के अंतर्गत नायफल गॉव में मैन रोड एवं आर0सी0सी नाल निर्माण कार्य का ठेका मै0 आर0जी0बिल्डटेक



इन्जी० लि० को दिया गया था। उपरोक्त कार्य हेतु ठेकेदार के प्रथम बिल का भुगतान रू० 70,81,600/- दिनांक 31-12-19 वाउचर सं० 686 द्वार किया गया था। उपरोक्त कार्य में निम्न अनियमितताएं प्रकाश में आयी।

1- उपरोक्त कार्य की ठेकेदारों द्वारा डाली गयी निविदाओं के प्रपत्र पत्रावली में सलंगन नहीं थे, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य को किस आधार पर आवंटित किया गया था।

2- उपरोक्त कार्य का कार्यादेश पत्रावली में सलंगन नहीं था, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य कितने प्रतिशत निम्न पर दिया गया था कार्य की अवधि क्या थी। स्थिति स्पष्ट की जाए।

3- ठेकेदार के प्रथम बिल का भुगतान रू० 70,81,600/- विभिन्न कटौतियों उपरान्त वाउचर सं०-686 दिनांक 31-12-19 द्वारा किया गया था जबकि बिल की शुद्ध गणनानुसार ठेकेदार को रू० 7081600/- का भुगतान ठेकेदार को विभिन्न कटौतियों उपरान्त किया जाना चाहिए था। इस प्रकार ठेकेदार को रू० 20688/- 7081600-7060912 अधिक भुगतान किया गया था। इसकी प्रतिपूर्ति ठेकेदार से कराकर नगर निगम कोष में जमा करायी जाए। शुद्ध गणना का विवरण निम्नवत है।

नगर निगम कार्यालय द्वारा गणना	गणना/एम०बी०में	सम्परीक्षा द्वारा शुद्ध गणना	अधिक भुगतान
बिल में लागत-	9291206.64	9264060.64	-
निम्न पर-(28.80)-	2675867.51	2668049.00	
	6615339.13	6596011.64	-
(+)12प्रतिशत जी०एस०टी०	793840.70	791521.39	-
(+)1प्रतिशत लेबर सेस	66153.39	65960.11	
	7475333.22	7453493.14	-
(-) टी०डी०एस०	169392.00	168897.00	
(-) जी०एस०टी	149507.00	149070.00	
(-) लेबर सेस	74754.00	74535.00	-
(-) अन्य	80	80	
शुद्ध भुगतान	7081600.00	7060911	20688

22- वार्ड-37,80 फुटा रोड पर विक्रम एन्कलेव को जाने वाले मुख्य मार्ग का सुधार कार्य एवं जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण कार्य एवं पप्पू कालोनी मुख्य मार्ग से डागर अपार्टमेन्ट तक गली में नाली व इण्टरलॉकिंग टाईल्स का कार्य में पाई गई अनियमितताएँ

:-

पत्रावली की जाँच से प्रकाश में आया कि 14 वे वित्त आयोग के अंतर्गत वार्ड-37 80 फुटा रोड पर विक्रम एन्कलेव को जाने वाले मुख्य मार्ग का सुधार कार्य एवं जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण कार्य एवं पप्पू कालोनी मुख्य मार्ग से डागर अपार्टमेन्ट तक गली में नाली व इण्टरलॉकिंग टाईल्स का कार्य का ठेका मै० आर०जी०बिल्डटैक

इन्जी०लि० को 25.60 प्रतिशत ब्लो पर रू० 8257656.00 में दिया गया था ठेकेदार के प्रथम बिल रू० 3503000 विभिन्न कटौतियों उपरान्त वाउचर सं०- 639 दिनांक 30-12-19 को किया गया था। कार्य में निम्न अनियमिततायें प्रकाश में आयी थी।

1- मै० आर०जी बिल्डटैक इन्जी०लि० द्वारा धरोहर राशि के रूप में जमा की एफ०डी०आर० सं० 309181 दिनांक 25-7-17 मूल राशि रू० 120772.00 परिपक्वता निधि 25-7-18 परिपक्वता राशि रू० 129133.00 व एफ०डी०आर० सं० 275935 दिनांक 17-10-16 मूल धनराशि रू० 100000.00 परिपक्वता निधि 17-10-17 परिपक्वता राशि 107344.00 व एफ०डी०आर० न० 309242 दिनांक 19-1-18 मूल राशि 125149 परिपक्वता तिथि 14-1-19 परिपक्वता राशि 129090.00 व एफ०डी०आर० सं० 633199 दिनांक 14-10-16 मूल धनराशि 50,000.00 परिपक्वता तिथि 14-10-16 परिपक्वता राशि 53672 ई०टैण्डर निविदा सूचना निविदा आमन्त्रण से पूर्व अवधि की थी जिनका नवीनीकरण नहीं कराया गया था। उपरोक्त एफ०डी०आर० की छायाप्रति परिपक्वता राशि 71616 परिपक्वता तिथि 25-8-16 थी, जो ई० टैण्डर सूचना/निविदा आमन्त्रण सूचना से पूर्व अवधि सूचना की थी। जिनका नवीनीकरण नहीं कराया गया था। उक्त एफ०डी०आर० की धनराशि पत्रावली में संलग्न थी।

उपरोक्त एफ०डी०आर० निविदा आमन्त्रण सूचना से पूर्व तिथि की होने के बावजूद किस आधार पर बैच माना गया स्पष्ट किया जाए।

2- उपरोक्त कार्य का आवंटन का अधिशासी अभियन्ता/सक्षम अधिकारी का कार्यादेश पत्रावली में संलग्न नहीं था। जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य कितनी धनराशि में कितने प्रतिशत ब्लो पर आगणन लागत से किया गया था। परफोरमेन्स गारन्टी के रूप में जमा की गयी एफ०डी०आर० एस०बी०आई० 600744 दिनांक 30-3-19 धनराशि रू० 24,00,000/-एफ०डी०आर० 602516 दिनांक 30-3-19 धनराशि 10,69,754.00 एस०बी०आई० 804375 दिनांक 25-3-19 धनराशि 11,00,000/-एफ०डी०आर० सं०-1603213 दिनांक 30-03-19 अंकन 12,00,000/- उपरोक्त जमा पत्रों की मूल प्रति/छायाप्रति पत्रावली में संलग्न नहीं थी। संलग्न न करने का कारण स्पष्ट किया जाए।

**23- दो निविदा के आधार पर कार्य का आवंटन किया जाना अनियमित एवं कार्य में पायी गयी अन्य अनियमितताएँ:-**

पत्रावली की सम्परीक्षा से प्रकश में आया कि 14 वे वित्त आयोग के अन्तर्गत वार्ड-76 वैशाली सै-2बी में मकान सं०-2बी/25 वाली रोड 2बी/84 वाली रोड 2बी/74 से 2बी/65 तक एवं 2बी/306 से 2बी/272 तक रोड का डैन्स द्वारा सुधार कार्य व 2बी/306 ते 2बी/272 तक वाली रोड की साईड पटरी का इन्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सुधार का कार्य का ठेका मै० आर०जी०बिल्डटैक इन्जी० लि० को 25.70 प्रतिशत ब्लो पर रू० 1857500/- में दिया। ठेकेदार के प्रथम बिल रू० 12,49,500/-वाउचर सं०-632 दिनांक 30-12-19 को किया गया था। कार्य में निम्न अनियमितताएँ प्रकाश में आयी थी।

1- कार्य का आगणन रू0 25,00,000/- अंकित किया गया जबकि वास्तविक शुद्ध गणना के आधार पर रू0 2449194.68 आता है अतः आगणन रू0 50805(25,00,000-2449194.68) अधिक आंके जाने का आधार स्पष्ट किया।

2- मै0 आर0जी0बिल्डटैक इन्जी0लि0 द्वारा धरोहर राशि के रूप में जमा की एफ0डी0आर सं0 061382 दिनांक 27-7-14 मूलधन 91045 परिपक्वता दिनांक 24-1-15 परिपक्वता राशि 94205.00 व एफ0डी0आर0 न0 9303425 दिनांक 27-3-17 मूल धनराशि रू0 1,50,000/- परिपक्वता दिनांक 27-3-18 परिपक्वता धनराशि 160621.00 ई0 टैण्डर निविदा सूचना/ निविदा आमन्त्रण से पूर्व अवधि की थी। जिनका नवीनीकरण नहीं कराया गया था। उपरोक्त एफ0डी0 आर0 की छायाप्रति पत्रावली में सलग्न थी।

परफोरमेन्स गारन्टी के रूप में जमा की गयी एफ0डी0आर एस0बी0आई सं.-602516 दिनांक 30-3-19 धनराशि रू0 1069754.00 की मूल प्रति/छायाप्रति पत्रावली में सलग्न नहीं थी। पुरानी सावधि एफ0डी0आर पत्रों को वैध माने जाने का आधार स्पष्ट किया जाए अन्यथा स्थिति में निविदा को अवैध माना जाए।

3- कार्य का आवंटन केवल दो वैध निविदाओं के तुलनात्मक आधार पर किया गया था जबकि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड पॉच के नियमानुसार कार्य का आवंटन तीन वैध निविदाओं के तुलनात्मक के आधार पर किया जाना चाहिए था दो वैध निविदाओं के आधार पर कार्य का आवंटन किस आधार पर किया गया स्पष्ट किया जाए।

ई0टैण्डर निविदा सूचना का प्रकाशन केवल एक समाचार पत्र में प्रकाशित कराया था, जबकि नियमानुसार ई0टैण्डर निविदा सूचना का प्रकाशन कम से कम तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य था।

कार्य आवंटन हेतु वैध निविदायें के आने के बावजूद भी कार्य की ई-निविदा सूचना का प्रकाशन पुनः नहीं कराया गया था दो निविदाओं के आधार पर कार्य आवंटन हेतु सक्षम अधिकारी के संज्ञान ही लिया/स्थिति स्पष्ट सम्परीक्षा को करायी जाए।

4- उपरोक्त कार्य का आवंटन का अधिशासी अभियन्ता/सक्षम अधिकारी का कार्यदेश पत्रावली में सलग्न नहीं था,जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य कितनी धनराशि में आवंटित किया था तथा कार्य कितने प्रतिशत ब्लो आगणन लागत से किया गया था।

**24- मेरठ रोड हिण्डन धर्म कांटे से हुन्डई पुलिया तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य में पायी गयी अनियमितताएँ:-**

पत्रावली की सम्परीक्षा से प्रकाश में आया कि 14वे वित्त आयोग के अन्तर्गत मेरठ रोड हिण्डन धर्म कांटे से हुन्डई पुलिया तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य का ठेका मै0 आर0 बिल्डटैक इन्जी लि0 को 27.80प्रतिशत ब्लो पर रू0 2,31,80,532/- में दिया गया था। ठेकेदार के तृतीय चालू बिलय रू 14,37,200/- (विभिन्न कटौतियों उपरान्त) वाउचर सं0- 708 दिनांक 31-12-19 को किया गया था। कार्य में निम्न अनियमितताएँ प्रकाश में आयी-

1- मै0 आर0जी0 बिल्डटैक इन्जी0 लि0 द्वारा धरोहर राशि के रूप में जमा की एफ0डी0आर सं0-34413473579 दिनांक 19-11-17 मूल राशि 1300697 परिपक्वता तिथि 19-1-18 परिपक्वता राशि रू0 1383905/- ई0टेण्डर निविदा/सूचना/निविदा आमन्त्रण से पूर्व अवधि की थी।

जिनका नवीनीकरण नहीं कराया गया था। उक्त एफ0डी0आर की छायाप्रति पत्रावली में संलग्न थी। मै0 आकाक्षा कन्सं0 द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि के रूप में एफ0डी0आर0न0 0005950 दिनांक 5-4-16 मूल धनराशि रू0 2,35,000/- परिपक्वता तिथि 5-4-17 परिपक्वता राशि 2,52,630/- व एफ0डी0आर0न0 006709 मूल राशि 2,80,000/- परिपक्वता तिथि 17-7-17 परिपक्वता राशि रू0 2,89,530/- एफ0डी0आर न0 6803040 मूल धनराशि 66,000/- दिनांक 25-8-15 पत्रावली में संलग्न थी।

परफोरमेन्स गारन्टी के रूप में जमा की गयी एफ0डी आर न0 117219 दिनांक 2-1-18 रू0 1,18,901/- एफ0डी0आर न0 859947 दिनांक 2-1-18 रू0 1,18,901/-एफ0डी0आर 830382 दिनांक 2-1-18 रू0 1,07,344/- की मूल प्रति/ छायाप्रति पत्रावली में संलग्न नहीं थी।

परफोरमेन्स गारन्टी के रूप में जमानत राशि रू0 2051161/-जमा की गयी एफ0डी0 आर पत्रावली में संलग्न अनुबन्ध में दर्शायी गयी थी। जबकि शासनादेश सं0 दिनांक के अनुसार स्वीकृत धनराशि रू0 8257656.00 का 26 प्रतिशत 2146990/- परफोरमेन्स गारन्टी के रूप में लिया जाना चाहिए रू0 95829(2146990-2057161)परफोरमेन्स गारन्टी के कम लिये जाने का आधार स्पष्ट किया जाए।

2- उपरोक्त कार्य का आवंटन का अधिशासी अभियन्ता/ सक्षम अधिकारी का कार्यादेश पत्रावली में संलग्न नहीं था। जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य कितनी धनराशि में कितने प्रतिशत ब्लों आगणन लागत से किया गया था।

**25- नगर निगम द्वारा आलोच्य अवधि में कराये गये निर्माण कार्यों में पाई गई विविध अनियमितताएं:-**

आलोच्य अवधि में निगम द्वारा कराये गये विभिन्न निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच से प्रकाश में आया कि नगर निगम के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली सडकों हेतु सडक रजिस्टर नहीं बनाया गया था,जिसके अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि नगर निगम के कार्यक्षेत्र में कौन-कौन सी सडकें हैं तथा जिन सडकों का निर्माण/ सुधार कार्य कराया जा रहा है उनका निर्माण कब हुआ था तथा वे निगम कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत हैं अथवा नहीं। निगम द्वारा आगणन पंजिका तथा तकनीकी स्वीकृति पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया था। जिससे यह सुनिश्चित नहीं हो सका कि सडक पूर्व में कब बनी थी तथा किस विभाग द्वारा बनाई गई थी। सडक किस स्तर की थी एवं सडक पर कार्य कराये जाने की आवश्यकता भी थी या नहीं। विभिन्न पत्रावलियों की जाँच से प्रकाश में आया कि एस्टीमेन्ट में रिपोर्ट, एनालिसिस ऑफरेट,डिटेल ऑफ मेजरमेन्ट, सर्वे

रिपोर्ट तथा सामग्री एवं बिटुकिन के उपभोग से सम्बंधित विवरण नहीं लगाये गये थे। बिटुमिन कब और कहाँ से कय किये किया गया था के सत्यापन हेतु कय की रसीदें एवं रिफाइनरी के बिल/चालान आदि पत्रावलियों में संलग्न नहीं थे। मुख्य सचिव उ०प्र० शासन के पत्र सं०-1408/23-3-07-62(जनरल) 08/टी०सी० दिनांक-8-8-2009 द्वारा निर्देशों के तहत यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण कार्य में बिटुमिन रिफाइनरी से प्राप्त की गई है, किन्तु इस सम्बंध में किसी भी पत्रावली में नगर निगम द्वारा रिफाइनरी को भेजे गये कार्यादेश संलग्न नहीं थे। निगम द्वारा बिटुमिन कय से सम्बंधित कुछ विवरण पत्रावली में संलग्न किये गये थे परन्तु अधिकांश कार्यों में कोई सूचना अंकित नहीं थी जिससे स्पष्ट था कि निगम द्वारा उक्त शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया।

निगम की निर्माण कार्यों की पत्रावलियों में इन्टीमेशन कम वर्क ऑर्डर ठेकेदार को अधिशासी अभियन्ता द्वारा दिया गया था जिसमें निविदा स्वीकृत एवं कार्य को तत्काल प्रारम्भ करते हुए अनुबंध कराये जाने हेतु लिखा गया था। यह अनियमित एवं आपत्तिजनक था क्योंकि निर्माण नियमों के अनुसार पहले ठेकेदार को स्वीकृत विषयक सूचना एवं अनुबंध कराने हेतु सूचना दी जानी चाहिए थी एवं अनुबंध कराने के पश्चात ही ठेकेदार को स्पष्ट कार्यादेश जिसमें ठेके की आगणन धनराशि, स्वीकृत धनराशि ठेकेदार की निविदा की दर कार्य समाप्त करने की निर्धारित अवधि, कार्य में देरी का दण्ड कार्य प्रारम्भ करने की तिथि कार्य समाप्ति की तिथि उ०प्र० भवन एवं कर्मकार (नियोजन एवं सेवा विनियमन अधिनियम, 2009) के अन्तर्गत श्रमिक कर्मचारियों का श्रम विभाग में पंजीकरण कराकर प्रमाणपत्र एवं टिन नम्बर आदि के सम्बंध में स्पष्ट सूचनाएँ अंकित होनी चाहिए किन्तु निर्माण पत्रावलियों में उनका सर्वथा अभाव परिलक्षित हुआ। यह आपत्तिजनक था।

निगम की अधिकांश निर्माण पत्रावलियों में अनुबन्ध पत्र नहीं लगा हुआ था। यह जहाँ एक ओर राजस्व क्षति का प्रकरण था वहीं दूसरी ओर निगम के विधिक हितों के प्रतिकूल था। बिना अनुबंध भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार नल एण्ड वॉयड था। अतः इस ओर उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

निगम की अधिकांश पत्रावलियों में ठेकेदार के जमानत एवं अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी से सम्बंधित सावधि जमा रसीदें संलग्न नहीं थी जिस कारण गारन्टी। परफोरमेन्स गारन्टी के जमा का सत्यापन सम्भव न हो सका। इन्हें पत्रावलियों में लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए। निगम की निर्माण पत्रावलियों में संलग्न माप पुस्तिकाओं पर अवर अभियन्ता द्वारा कार्य प्रारम्भ तिथि कार्य समाप्ति तिथि कार्यपूर्ण करने की निर्धारित अवधि, कार्य में देरी के लिये निर्धारित अर्थदण्ड आदि से सम्बंधित सूचनाएँ स्पष्ट रूप से अंकित नहीं की जाती थी। माप पुस्तिकाओं में ठेकेदार को 1प्रतिशत लेबर सेस को बिल में जोड़कर भुगतान किया जाना अत्यधिक अनियमित एवं आपत्तिजनक था। इस सम्बंध में विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

निर्माण पत्रावलियों में ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये गये कार्य का मदवार बिल संलग्न नहीं किया गया था मात्र इनबायस बिल को संलग्न किया गया था। सम्परीक्षा में प्रेक्षा

किये जाने पर बताया गया कि ठेकेदार का मूल बिल लेखा विभाग की गार्ड फाइल में रहता है यह अनियमित एवं आपत्तिजनक था। बिल के अभाव में इनकी विस्तृत जाँच सम्भव न हो सकी। ठेकेदार के मूल मदवार बिलों को पत्रावलियों में लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**26— नगर निगम क्षेत्र में कराये गये निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियों एवं माप पुस्तिकायें अप्रस्तुत:—**

वर्ष 2019-20 के सम्परीक्षा में नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत निर्माण विभाग एवं जलकल विभाग द्वारा कराये गये चौदहवे वित्त, अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावली एवं माप-पुस्तिकायें सम्परीक्षा में बार-बार मॉग किये जाने पर उपलब्ध नहीं करायी गयी। इस सम्बन्ध में लिखित अधियाचन सं० 04 दिनांक 14-6-21 एवं अधियाचन सं० 09 दिनांक 5-7-2021 एवं अधि०सं० 18 दिनांक 20-7-2021 दिया गया था जिसका प्रतिउत्तर सम्परीक्षा टोली को नहीं दिया गया था यह सम्परीक्षा के प्रति उदासीनता का द्योतक होने के साथ-साथ नगर निगम के हितों के प्रतिकूल था निम्नविवरणानुसार दर्शायी गयी पत्रावलियों को अब आगामी अवसर पर प्रस्तुत किया जाए।

14 वे वित्त निधि से कराये गये कार्य

क्र०	व्यय प्रमाण सं०/दिनांक	ठेकेदार का नाम	कार्य का विवरण	धनराशि
1	165/6-7-19	मै०आर०जी०बिल्डटैक इन्जी०लि०	वार्ड-14 रेलवे कालोनी आर०ब्लाक में आर 27 से 13 तक मुख्य द्वार तक सडक सुधार का कार्य	2147140
2	529एवं 530/31-2-20	मै०आर०जी०बिल्डटैक इन्जी०लि०	वार्ड-62 गोविन्दपुरम में चौधरी चरण सिंह बिजली घर से गैर तक सडक सुधार का नाला निर्माण का कार्य	3461400
3	913/19-6-19	अरुण कन्स०कम्पनी	वार्ड-74 वसुधरा सै०-13 मे० मकान नं० 1101से 1121 तक की सडक का निर्माण कार्य	2227200
4	1131/4-9-19	मै०आर०जी०बिल्डटैक इन्जी०लि०	शताब्दी पुरम गोविन्दपुरम में सडक निर्माण कार्य	2934000
5	5283/13-3-20	मै०आर०जी०बिल्डटैक इन्जी०लि०	शताब्दी पुरम गोविन्दपुरम में सडक निर्माण कार्य	469100
6	1461/10-3-20	डी०के०एस०इन्फ्राटैक इण्डिया प्रा०लि	वार्ड-20 गढी सिकरोड के राजेन्द्र बिजेन्द्र के मकान से मोहनलाल आलोक वेदप्रकाश तक सडक निर्माण का कार्य	415600

7	527 / 13-2-20	जयवीर सिंह	साउथ साईड और क्षेत्र विजयनगर में ए-ब्लॉक राठी रोड से 7/13 वाली सडक पर नाले का नर्माण का कार्य	431600
8	623 / 16-12-19	महेश चन्द्र कान्ठै0	वार्ड-86 राजेन्द्र नगर में अग्रवाल स्वीटस से गंगा बैम्बेटहाल को जाने वाला मुख्य मार्ग एवं एफ साईट नाला निर्माण का कार्य	992500
9	705 / 16-12-19	आकाक्षा कन्स0	वार्ड-17 करहैडा से कान्हा उपवन स्थित गउशाला को जाने वाला मुख्य मार्ग का डैन्स द्वारा इण्टरलॉकिंग टाइम लगाने का कार्य।	879800
10	637 / 16-12-19	मै0आर0जी0बिल्डटैक इन्जी0लि0	वार्ड-84 राजनगर में एपल ट्री होटल से -1 कट तक दोनो तरफ नाले के साथ ही साथ रिटेनिंग वाल आर0सी0सी0 का कार्य	4287400
11	69एवं 712 / 20-8-19 एवं 16-12-19	श्री जी इन्फा0 प्रोजेक्ट प्रा0लि0	वार्ड-77 वैशाली एक में सीवर से क्षतिग्रस्त अवशेष रामलीला पार्क में पब्लिक स्कूल तक सडकों का सुधार कार्य	6495900
12	989 / 10-3-20	मै0आर0जी0बिल्डटैक इन्जी0लि0	ठाकुर द्वारा पेट्रोल पम्प से पी0डब्लू0डी गेस्ट हाउस होते हुए पटेलनगर ए-6 तक नाला निर्माण कार्य	2206900
13	58 / 4-9-19	आकाक्षा कन्स0	वार्ड-30 नन्दी पार्क का जीर्णोध्धार का कार्य	2400900
14	685 / 16-12-19	आकाक्षा कन्स0	वार्ड-34 शहीद नगर जी0टी0रोड से टेलीफोन एक्सचेंन रोड तक जलनिकासी हेतु नाला निर्माण कार्य एवं क्षतिग्रस्त सडक का निर्माण कार्य	925300
15	2777 / 19-10-19	आकाक्षा कन्स0	वार्ड-34 शहीद नगर जी0टी0रोड से टेलीफोन एक्सचेंन रोड तक जलनिकासी हेतु नाला निर्माण कार्य एवं क्षतिग्रस्त सडक का निर्माण कार्य	5105000

16	692 / 16-12-19	मै0आर0जी0बिल्डटैक इन्जी0लि0	प्याउ वाली पुलिया से पार्श्व वाली रोड तक अवशेष 100 मी0 रिटनिंग वाल का निर्माण व दोनो और पटरियों पर इण्टरलॉकिंग टाईल्स लगाने का कार्य	1746000
17	987 / 10-3-19	मै0आर0जी0बिल्डटैक इन्जी0लि0	प्याउ वाली पुलिया से पार्श्व वाली रोड तक इण्टरलॉकिंग टाईल्स लगाने का कार्य	4615000
18	975 एवं 689 / 10-10-19 एवं 16-12-19	मै0आर0जी0बिल्डटैक इन्जी0लि0	वार्ड 60 जी0टी0रोड स्थित पाईप लाईन गेट न0 01 से 2 तक मुख्य मार्ग टी-प्लान्ट तक सडक व आर0 सी0 सी0 नाला निर्माण का कार्य	9482200
19	691 एवं 988 / 16-12-19 एवं 10-3-20	मै0आर0जी0बिल्डटैक इन्जी0लि0	वार्ड-80 लोनी रोड सर्विस रोड से ए-ब्लाक साईड में पार्किंग तक जल निकासी हेतु आर0पी0जीद्वारा नाला निर्माण	6127400
20	56 / 4-9-19	प्रेम कन्सट्रक्शन	वार्ड-24 अमृत स्टील और क्षेत्र मे प्लाट-137 से 130 तक प्लाट सं0-144 से 145 तक नाली व डैन्स द्वारा सडक सुधार कार्य	9771200
21	813 / 25-7-19	डी0के0एस0इन्फ्राटैक इण्डिया प्रा0लि	वार्ड-61 वसुंधरा सै0-2ए तक पास वाली रोड 2 सी 587 से 322 वाली रोड की क्षतिग्रस्त सडकों का सुधार कार्य	610410
22	703 / 16-12-19	डी0के0एस0इन्फ्राटैक इण्डिया प्रा0लि	वार्ड-61 वसुंधरा सै0-2ए टंकी के पास क्षतिग्रस्त सडकों का सुधार कार्य	3720200
23	2278 / 19-10-19	आकाक्षा कन्स0	वसुंधरा सै0-12 फेन्सडस सोसायटी सै-13 की सडक सुधार कार्य	6638000
24	1124 / 4-9-19	पी0पी0सिलसन प्रा0लि0	मेरठ रोड नन्दग्राम मुख्य मार्ग से कान्हा फार्म तक डिवाइडर व डैन्स द्वारा सडक सुधार कार्य	3161200
25	1741 / 22-10-19	पी0पी0सिलसन प्रा0लि0	मेरठ रोड नन्दग्राम मुख्य मार्ग से कान्हा फार्म तक डिवाइडर व डैन्स द्वारा सडक सुधार कार्य	8079200



26	1132 / 4-9-19	मै0आर0जी0बिल्डटैक इन्जी0लि0	मेरठ रोड हिण्डन धर्मकाटा से हुन्डई पुलिया तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य	5464300
----	---------------	--------------------------------	---	---------

**अवस्थपना निधि से कराये गये कार्य**

क्र0	व्यय प्रमाणक सं0/ दिनांक	ठेकेदार का नाम	कार्य का नाम	धनराशि
1	907 / 10-6-19	सुनील गगै एण्ड कम्पनी	रमते राम रोड पर पार्किंग एवं व्यवसायिक काम्पलैक्स के अवशेष कार्य	2769894
2	48 / 4-9-19	मै0ए0पी0कन्स0क0	वार्ड-72 यशोदा अस्पताल के सामने वाले सर्विस रोड पर एस0डी0वी0एस0 द्वारा सुधार कार्य	994600
3	1123 / 4-9-19	मै0ए0पी0कन्स0क0	वार्ड-14 वकील कॉलोनी आर0ब्लाक मे आर-108से 94 तक सडक सुधार कार्य	1213500
4	802 / 6-7-19	मै0 शिव कान्ट्रैक्टर	वार्ड-14 में स्वदेशी चौक आर-1से247 से सर्वोदय नगर पुलिस तक सडक सुधार कार्य	1548000
5	2180ए / 22-10-19	मै0आर0जी0बिल्डटैक इन्जी0लि0	वार्ड-82 जवाहर पार्क में मूवी पैलेस रोड का सुधार कार्य	1495900
6	155 / 6-7-19एवं 2181 / 22-10-19	मै0अनुज कन्स0कम्प0	वार्ड-41 महाराजपुर मे सौर उर्जा मार्ग से जैक्टाइन बनाना नाली निर्माण का कार्य	1900600
7	903 / 10-6-19	मै0 अरुण कन्सं0 कम्प0	वार्ड-74से 15 के मुख्य मार्ग का सुधार कार्य	2129700
8	321 / 6-7-19	मै0 अक्ष सप्लाई इंजी0सर्विसेज	मकनपुर कन्या इ0कालेज में बच्चों के बैठने की व्यवस्था के सुधार हेतु दोनो कमरों का निर्माण कार्य	540100

9	322/6-7-19	मै० प्रेम कन्स०	मकनपुर स्थित कन्या इ०कालेज में बच्चों के बैठने की व्यवस्था के सुधार हेतु तीन कमरों का निर्माण कार्य	700800
10	649/10-6-19	मै० शान्तनु कन्स०	वार्ड-91 कविनगर में विवेकानन्द शिशु मन्दिर से बालाजी कार तक डैन्स द्वारा सडक सुधार कार्य	1831900
11	52/4-9-19	मै० डी०के०एस०इन्फ्रा० इण्डिया लि०	सौर उर्जा मार्ग पर डिवाइडिंग का निर्माण एवं सुधार कार्य	15037400
12	1122/4-9-19	मै० शान्तनु कन्स०	वार्ड-46 दुहाई में पीपल वाली गली की लिंक गलियों में आर०जी०सी० नाली एवं इन्टर लॉकिंग टाईल्स का कार्य	3444400
13	160/6-7-19	मै० अरुण कन्स० कम०	वार्ड-31 मॉडल टाउन वेस्ट की सडकों का निर्माण कार्य	946300
14	1120/4-9-19	मै०जी०पी०रियलकान प्रा०लि०	वार्ड-26 माधोपुरा तथा गउपुरी की विभिन्न चन्द्रवाल माधोपुरा में गोपाल से गिरधारी दीपक से सन्तराम तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाईल्स लगाने का कार्य	893700
15	218/14-11-19	मै०जी०पी०रियलकान प्रा०लि०	वार्ड-26 माधोपुरा तथा गउपुरी की विभिन्न गलियों में नाली व इण्टरलॉकिंग टाईल्स लगाने का कार्य	2128500
16	654/10-6-19	मै० जी०एम०कन्स०	वार्ड-70 वसुन्धरा से०-15 इलाहाबाद बैंक से सिद्धि ज्वैलर्स तक मैनरोड से एस०जी०स्कूल तक डवलरोड तक सर्विस रोड क्षतिग्रस्त सडकों का सुधार कार्य	3013400
17	51/4-9-19	मै० जी०एम०कन्स०	वार्ड-74 वसुन्धरा से०-15 सिद्धि ज्वैलर्स तक मैन रोड से एस०जी०स्कूल तक विश्वकर्मा चौक से डबल	959400

			रोड तक सर्विस रोड क्षतिग्रस्त सडकों का सुधार कार्य	
18	905 / 10-6-19	मै0 अरुण कन्स0कं0	वार्ड-95 कैला भट्टा में पी0ए0सी0चौक से रमजान तक सडक सुधार कार्य	1536200
19	972 / 22-10-19	डी0के0एस0इन्फ्राटैक इण्डिया प्रा0लि	वार्ड-48 भौपुरा कृष्णा बिहार पुरी के मन्दिर मोहननगर बाबा मन्दिर के बगल में स्कूल एवं बाउन्डीवाल का निर्माण का कार्य	3388000
20	284 / 2-5-19	मै0आर0जी0बिल्डटैक इन्जी0लि0	वार्ड-73 साहिबावाद में इ0एस0आई अस्पताल से 150 फुटा शिवचौक तक सडक सुधार का कार्य	3827000
21	966 / 16-3-19	मै0आर0जी0बिल्डटैक इन्जी0लि0	वार्ड-83 राजेन्द्रनगर सै-3ब्लाक में सीवर लाईन क्षतिग्रस्त साईड पटरी पर इन्टरलॉकिंग टाईल्स लगाने का कार्य	3100800
22	675 / 31-12-19	डी0के0एस0इन्फ्राटैक इण्डिया प्रा0लि	वार्ड-48 भौपुरा कृष्णा बिहार पुरी के मन्दिर मोहननगर बाबा मन्दिर के बगल में स्कूल एवं बाउन्डीवाल का निर्माण का कार्य	521800
23	158 / 6-7-19	मै0आर0जी0बिल्डटैक इन्जी0लि0	वार्ड-58 एवं 14 के मध्य एन0एच0-24 कसे भवई रोड तक विजयनगर गौशाला रोड पर सडक सुधार का कार्य	4084700
24	32बी / 2-5-19	डी0के0एस0इन्फ्राटैक इण्डिया प्रा0लि	वार्ड-96 होली चाईल्ड स्कूल के सामने सामुदायिक रोड से स्टेडियम व साई मन्दिर होते हुए गाधीनगर चौराहे तक सडक सुधार का कार्य।	2772300

25	2180बी / 22-10-19	मै0आर0जी0बिल्डटैक इन्जी0लि0	वार्ड-85,75 लाजपतनगर ई0 एवं एफ0 ब्लाक के मध्य 60 फुटा रोड अम्बे हॉसिपटल रोड का सुधार कार्य	2529500
26	67 / 20-8-19	मै0आर0जी0बिल्डटैक इन्जी0लि0	लोनी रोड पर शालीमार सिटी से हिण्डन एयरफोर्स बाउन्डीवाल तक अवशेष नाले का निर्माण कार्य	3111200
27	2969 / 20-10-19	मै0आर0जी0बिल्डटैक इन्जी0लि0	लोनी रोड पर नाली से हिण्डन एयरफोर्स बाउन्डीवाल तक अवशेष नाले का निर्माण कार्य	2702000
28	671 / 31-12-19	मै0आर0जी0बिल्डटैक इन्जी0लि0	लोनी रोड पर शालीमार सिटी से हिण्डन एयरफोर्स बाउन्डीवाल तक अवशेष नाले का निर्माण कार्य	834000
29	668 / 23-12-19	मै0 मार्डन इन्जी0	ग्राम सिहानी में श्री विनोद त्यागी के मैडिकल स्टोर से नन्दग्राम डबल रोड तक सडक एवं नाला निर्माण का कार्य	2616800
30	358 / 2-5-19	मै0 आकांक्षा कन्स0	वार्ड-94 रामपुरी जी-अल्कनन्दा अपार्टमेन्ट से सूर्यनगर तक क्षतिग्रस्त सडक सुधारी	8351500
31	356 / 2-5-19	मै0 नार्थ इण्डिया डैवलपर्स	वार्ड-40 राजेन्द्र नगर इन्ड0एरिया की मैन रोड डैस कार्य	994200
32	673 / 31-12-19	मै0जी0पी0रियलकान प्रा0लि0	वार्ड-40 श्यामपार्क लोनी रोड-1रेलवे स्टेशन को जाने वाली मार्ग पर डैम द्वारा सडक सुधार	1096400
33	357 / 2-5-19	मै0जी0पी0रियलकान प्रा0लि0	वार्ड-59 पुराना शदर के गोल मार्केट गंज होते हुए कारपेटिंग द्वार साफ सुधार कार्य	6551800
34	786 / 20-8-19	मै0जी0पी0रियलकान प्रा0लि0	वार्ड-59 पुराना शदर के गोल मार्केट गंज होते हुए काम्पलेक्स जी0टी0रोड तक डैस द्वार सडक सुधार कार्य	4263500

35	2182 एवं 604 / 22-10-19, 11-2-20	मै0आर0जी0बिल्डटैक इन्जी0लि0	वार्ड-35 एन.एच.24अक्टूबर बहरामपुर मैन रोड से आदर्श पब्लिक स्कूल तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण एवं इण्टरलांकिंग टाईल्स लगाने का कार्य	9422700
36	32 ए एव 897 / 2-5-19,10.6.19	मै0आर0जी0बिल्डटैक इन्जी0लि0	वार्ड-84 राजनगर में विभिन्न स्थानों पर इन्द्राहम स्कूल से सरस्वती स्कूल तक गार्गी अस्पताल होते हुए ए0एल0टी0 रोड तक हिट चौराहे तक सैन्ट्रल पार्क तक सडक सुधार	12932300
37	294, / 22-10-19 643 / 30-12-19	मै0आर0जी0बिल्डटैक इन्जी0लि0	वार्ड-72 भौपुरा से उदयगिरि टावर की और आर.सी.सी. नाला निर्माण का कार्य	13761900
38	57 / 22-11-19	डी0के0एस0इन्फ्राटैक इण्डिया प्रा0लि	सौर उर्जा मार्ग पनर डिवाइडिंग का निर्माण एवं सुधार कार्य	5774700
39	1121 / 4-9-19 एवं 2968	मै0 नार्थ इण्डिया डैवलपर्स	वार्ड-46 संजयनगर में बिजली धर भौवापुर तक की सडक का निर्माण कार्य	8729100
40	908 / 10-6-19 59 / 22-11-19	सुनील गर्ग कम्पनी	नेहरू नगर के आडीटोरियम सिटीजन बल्व स्वीमिंग पुल एवं पार्किंग निर्माण का कार्य	21808911

### जलकल विभाग

**27- जलकल अनुभाग के निर्माण कार्यों में विलम्ब अवधि हेतु ठेकेदार से अर्धदण्ड न वसूलने के कारण नगर निगम को आर्थिक क्षति रू0 34,14,384 /-**

सम्परीक्षा में जलकल अनुभाग की निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जाँच से प्रकाश में आया कि जिन कार्यों में कार्यादेश के अनुसार समाप्ति तिथि दी गयी थी माप पुस्तिका के अनुसार उससे विलम्ब अवधि में ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण किया गया था। नगर निगम के निविदा प्रपत्र की अन्य भत्तों की शर्त सं0-6 के अनुसार "निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कार्य

समाप्त न होने की दशा में 100/- प्रतिदिन प्रतिलाख की दर से बिल कटौती की जायेगी' से स्पष्ट था कि नगर निगम द्वारा संलग्न विवरण के अनुसार ठेकेदार के बिलों से विलम्ब अवधि हेतु कोई अर्थदण्ड वसूल नहीं किया गया था जिस कारण नगर निगम को रू0 34,14,384/- की आर्थिक क्षति हुई थी। इसकी वसूली की जाए एवं समय से बिलों से अर्थदण्ड की कटौती की जाए।

उक्त का विवरण सम्परीक्षा आख्या के परिशिष्ट 'द' में दिया गया है।

**28- जलकल अनुभाग में निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी कम लिये जाने से नगर निगम को आर्थिक क्षति रू0 26,86,625/-**

जलकल अनुभाग की निम्न विवरणांकित पत्रावलियों की सम्परीक्षा से प्रकाश में आया कि नगर निगम द्वारा जलकल अनुभाग के विभिन्न निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी आगणन धनराशि पर 10 प्रतिशत से अधिक बिलों (न्यून) पर ठेकेदार द्वारा निविदा डाले जाने की स्थिति में 10 प्रतिशत बिलों तक 50 प्रतिशत से अधिक (बिलों) पर 01 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशतय कम) दर पर ली गयी थी। जो अनियमित थी। शासनादेश सं0- 622/23-12-2012-2 आडिट/08 टी0सी0 दिनांक 8-6-2012 के अनुसार अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी आगणन धनराशि पर 10 प्रतिशत से अधिक बिलों पर ठेकेदार द्वारा निविदा डाले जाने की स्थिति में 10 प्रतिशत से अधिक बिलों पर 01 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर ली जायेगी।

इस प्रकार नगर निगम द्वारा अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी कम लिये जाने से निम्न प्रकरणों में रू0 26,86,625/- की आर्थिक क्षति हुई थी। कम अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी कम लिये जाने को कोई आदेश हो तो दिखाया जाए अन्यथा स्थिति में कम अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी ठेकेदारों से जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

उक्त स्थिति नगर निगम के वित्तीय हितों के प्रतिकूल थीं उक्त से सम्बन्धित विवरण सम्परीक्षा आख्या के परिशिष्ट 'घ' में दिया गया है।

**29- जलकल अनुभाग कार्यों में बिलों की धनराशि में प्रतिशत अतिरिक्त लेबर सेस जोडे जोन के कारण ठेकेदारों को रू0 1,81,843/-का अधिक भुगतान:-**

निर्माण कार्यों की जाँच में पाया गया कि समस्त बिलों की धनराशि 1प्रतिशत लेबर सेस अतिरिक्त जोडने के पश्चात ही लेबर सेस की धनराशि की कटौती की गयी थी। जबकि लेबर सेस से सम्बन्धित एक्ट में इसके पूर्व भुगतान का उत्तरदायित्व ठेकेदार का था वह भी ठेकेदारों के बिल से कटौती कर किया जाना था।

लोक निर्माण विभाग,लखनउ (सामान्य वर्ग) के पत्रांक 9755एम0टी0/सामान्य वर्ग/40 एम0 टी0-45/2017 दिनांक 19-12-2017 कार्यालय ज्ञाप में अंकित " भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन ,31 मार्च,2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सडक कार्यों में अनुबन्ध प्रबन्ध पर निष्पादन लेखा परीक्षा में उल्लिखित प्रस्तर-4.2 में अनुशंसा की गयी है। कि शासन द्वारा समस्त खण्डों में तत्काल यह निर्देश निर्गत किया जाना

चाहिए कि कर्मकार उपकर की कटौती ठेकेदारों के बिलों से की जाए एवं समस्त समावेशी अनबन्धों में उपकर के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जायें ”

“ बिड डाक्यूमेन्ट में लेबर सेस की देयता के सम्बन्ध में पूर्व व्यवस्था पूर्णतया स्पष्ट है जिसके अनुसार लेबर सेस के भुगतान का दायित्व ठेकेदार का है उक्त के क्रम में एतद् द्वारा आदेश दिये जाते हैं कि कर्मकार उपकर की कटौती ठेकेदारों के बिलों से की जाए एवं समस्त समावेशी अनबन्धों में कर्मकार उपकर के भुगतान का भार ठेकेदारों द्वारा वहन किया जाये।”

अतः संलग्न सूची के अनुसार बिल में रुपये— 1,81,843/— लेबर सेस के रूप में जोड़े गये थे। जिनका भुगतान ठेकेदारों को किया गया था। अतः लेबर सेस की जोड़ी गयी धनराशि अंकन रुपये 1,18,843/— का भुगतान अधिक/अनियमित था। इसकी वसूली सम्बन्धित/उत्तरदायी से कराया जाना अपेक्षित है।

उक्त का विवरण सम्परीक्षा आख्या के परिशिष्ट 'न' पर दिया गया है।

**30— विजय नगर जोन के अन्तर्गत वार्ड-25, अम्बेडकर नगर की विभिन्न गलियों में सीवर लाईन बदलने के कार्य हेतु अधिक एवं अनियमित भुगतान रुपये 24,48,884/—**

14 वॉ वित्त आयोग खाते से चेक संख्या 676725 वाउचर संख्या 804 दिनांक 25-7-2019 रुपये 25,42,800 एवं वाउचर संख्या 279 पी0एफ0एम0एस0 एडवायस सं0 सी-121908842878 दिनांक 16-12-19 रुपये 53,500 कुल रुपये 25,96,300/—का भुगतान मै0 जुबैर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को विजय नगर जोन अन्तर्गत वार्ड सं0 25 अम्बेडकर नगर की विभिन्न गलियों में सीवर लाइन बदलने के कार्य हेतु किया गया था। उक्त भुगतान कार्य के कुल बिल धनांक 27,40,673/— के सापेक्ष आयकर (टी0डी0एस) रू0 62105/— 2 प्रतिशत जी0एस0टी 54814 1प्रतिशत सेस 27407 एव अन्य रू0 47/—की कटौती के पश्चात फर्म को किया गया था। उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच के समय प्रकाश में आया कि उपरोक्त कार्यसे सम्बन्धित अवर अभियन्ता (जल) द्वारा निर्मित आगणन की मद संख्या-15 में रिमूविंग आफ ओल्ड डैमेज कान्जस्ट्रेड सीवर लाइन हेतु 1450 रनिंग वर्ग मीटर का प्राविधान किया गया था तथा क्रमांक-4 पर 145 व0मी0 सप्लाई लेइंग आफ 250 एम0एम डायर आर0सी0सी0 पाईप एट आल द कम्पलीट वर्क प्रदर्शित था। अधिशासी अभियन्ता (जल)नगर निगम गाजियाबाद के पत्रांक 01 दिनांक 5-3-19 द्वारा मै0 जुबैर कन्स्ट्रक्शन, गाजियाबाद के पत्रांक 01 दिनांक 5-3-19 द्वारा मै0 जुबैर कन्स्ट्रक्शन, गाजियाबाद को 250 एम0एम0ब्यास की 1450 रनिंग मी0 आर0सी0सी0 सीवर लाईन बदलने का कार्य हेतु कार्यादेश निर्गत किया गया था। लेकिन उक्त कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका सं0 6938 एवं कॉन्ट्रक्टर बिल की जाँच के समय प्रकाश में आया कि रिमूविंग ऑफ ओल्ड डैमेज सीवर पाइप लाईन कार्य मात्र 163मी कराया गया था जबकि सप्लाई एण्ड लेइंग आफ 250एम0एम0 डायर आर0सी0सी0 सीवर पाईप लाईन का कार्य 1531 रनिंग मीटर कराया गया था। जब पुरानी सीवर लाईन मात्र 163 मी0 हटाई गयी। तोड़ी गई तो 1531र0मी0 नयी पाईप लाईन डालने का कार्य संदिग्ध

था तथा बिना पुरानी सीवर पाईप लाईन हटाये नयी सीवर पाईप लाईन डाला जाना सम्भव नहीं था। उक्त से स्पष्ट था कि मात्र 163र0मी0 ही पाईप लाईन बदलने का कार्य किया गया था। उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाए अन्यथा स्थिति में बिना कार्य कराये गये 1368 र0मी0(1531-163) हेतु किया भुगतान रूपये 2448884/- (1368×2740673/1531)अनियमित/ अमान्य/अधिक भुगतान का प्रकरण था जिसकी प्रतिपूर्ति उत्तरदायी से कराये जाने हेतु संस्था के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

**31- मोहन नगर जोन में वर्षों में जलभराव की समस्या से निपटने हेतु ट्रेक्टर टैंकर,जे0सी0 बी एवं सफाई कर्मी की आपूर्ति हेतु किराये का अपरिहार्य व्यय रूपये 1,26,604 /-**

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में चयनित माहों के व्यय प्रमाणकों /पत्रावलियों की जाँच के समय प्रकाश में आया कि चैक संख्या 907506 दिनांक 21-12-19 रूपये 12,05,800/- का भुगतान अनीस कान्ट्रैक्टर को आयकर रू0 28,591/- जी0एस0टी0 रू0 14,430/-सेस रू0 12619 एवं अन्य रू0 164 की कटौती के पश्चात निम्नांकित विवरणानुसार चार कार्यों हेतु किया गया था।

क्र0	बिल सं0	दिनांक	बिल धनराशि	विवरण
1	32	5-11-2019	370254/366643	1-8-19से 31-8-19 तक 4 नग ट्रेक्टर टैंकर की किराये पर आपूर्ति मोहन नगर क्षेत्र में वर्षा में जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए-अनीस कान्ट्रैक्टर गाजियाबाद
2	33	5-11-2019	358310/354816	दिनांक 1-9-19से30-9-19 तक मोहन नगर क्षेत्र में वर्षा में जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए 4 नग ट्रेक्टर टैंकर की किराये पर आपूर्ति अनीस ठेकेदार गाजियाबाद
3	34	5-11-2019	185187/183322	दिनां 2-10-19 से 1-11-19 तक मोहन नगर क्षेत्र में वर्षा में जलभराव की स्थिति से निपटने हेतु 2 नग ट्रेक्टर टैंकर की किराये पर आपूर्ति दिनांक 2-10-19 अनीस ठेकेदार गाजियाबाद
4	31	5-11-2019	356823	मोहन नगर जोन में अप्सरा बार्डर से शहीद नगर बड़े नाले तक ड्रेन पाईपलाइन की सफाई 6 कर्मी,1जे0सी0बी0,एवं एक ट्रेक्टर की किराये पर आपूर्ति अनीस ठेकेदार गाजियाबाद दिनांक 15-7-19 से 30-9-19

उपर्युक्त चारों पत्रावलियों की जाँच में निम्नांकित कमियाँ प्रकाश में आयी-



1- नगर निगम में पर्याप्त मात्रा में सफाई कर्मी,जे0सी0बी0 टैक्टर,टेक्टर टेकर उपलब्ध होने के बावजूद संस्था द्वारा उक्त की आपूर्ति हेतु किराये का भुगतान अनियमित/अमान्य/अपरिहार्य व्यय था। नगर निगम में उपलब्ध उपर्युक्त सस्थानों द्वारा उक्त कार्यों को नहीं कराया जा सकता था, इसकी पुष्टि हेतु पत्रावलि में कोई साक्ष्य संलग्न नहीं था।

मात्र क्रमांक-4 पर अंकित कार्य जी0एम0जल/ई0ई0जल से कराये जाने की नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 6-7-14 को स्वीकृति प्रदान की गयी थी। अन्य तीन कार्यों के सम्बन्ध में कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी थी।

2- उपरोक्त चारों कार्यों हेतु टैण्डर आमंत्रित नहीं किया गया था। क्रमांक 1से 3 के कार्यों हेतु कुटेशन प्राप्त कर कार्यवाही की गयी जबकि क्रमांक-4 पर अंकित कार्य सीधे फर्म से नगर निगम की स्वीकृति दरों पर सहमति प्राप्त कर कराया गया था। जबकि शासनादेश संख्या-ए-1-864/दस-8-15(1)/66- दिनांक 28-9-2008 द्वारा एक लाख से अधिक की आपूर्ति एवं कार्य निविदा आमंत्रित कर कराये जाने चाहिए था यह गम्भीर रूप से आपत्तिजनक था।

3- उपर्युक्त क्रमांक 1से 3 तक के कार्य मोहन नगर क्षेत्र में वर्षों में जलभराव से निपटने हेतु टैक्टर टैकर की आपूर्ति हेतु किराये से सम्बन्धित तथा जिस हेतु एक ही कुटेशन के आधार पर तीनों कार्य कराये गये थे तथा एक ही दिनांक 5-11-2019 को तीनों बिल अलग-अलग प्राप्त किये गये थे। उक्त से स्पष्ट था कि सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिए जी0एम जल द्वारा उक्त कार्यों को टुकड़ों में कराकर बिल प्राप्त कर भुगतान की कार्यवाही की गयी, जबकि शासनादेश संख्या-6738/23-7-2006-176(सा0)/06 दिनांक 5 जनवरी,2007 द्वारा एक ही प्रकृति के कार्य को टुकड़ों में कराये जाने से प्रतिबंधित किया गया था। अतएवं शासनादेश के विपरीत टुकड़ों में कराया जाना अनियमित एवं आपत्ति जनक था।

4- क्रमांक 4 पर अंकित कार्य के बिल से 2 प्रतिशत जी0एस0टी की कटौती रू0 7136/ नहीं की गयी थी तथा क्रमांक 1से तीन के कार्य को टुकड़ों में बॉटकर कराये जाने के फलस्वरूप क्रमांक-3 पर अंकित कार्य रू0 25,00,000/-से कम होने के कारण 2 प्रतिशत जी0एस0टी की कटौती नहीं की गयी थी जबकि टुकड़ों में बॉटकर कार्य न कराया जाता तो उक्त कार्य पर भी 2 प्रतिशत जी0एस0टी0 की कटौती रू0 3666=00 की जाती। इस प्रकार कुल रूपये 10802/- (7136+3666) की 2 प्रतिशत जी0एस0टी कटौती न किये जाने के फलस्वरूप राजकीय राजस्व की क्षति हुयी थी तथा उक्त सीमा तक ठेकेदार को अधिक भुगतान का भी प्रकरण था। अतएवं उक्त कार्य की प्रतिपूर्ति कराये जाने हेतु प्रभावी/ आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

5- क्रमांक 1 से तीन पर अंकित कार्य हेतु फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल क्रमशः रूपये 370254 रूपये, 358310 एवं रूपये 185187/- जबकि भुगतान गणना के समय प्रस्तुत देयक की धनराशि क्रमशः रूपये 366643/- रूपये 354816/- एवं रूपये 183322/- अंकित की

गयी ऐसा व्यय प्रमाणक में अंकित दर 2666/- प्रति टैंकर के स्थान पर 2640/- प्रति टैंकर(लालपेन से काटकर) अंकित किये जाने के कारण किया जाना गया था।

6- उक्त कार्यों को कराये जाने की मॉग/आवश्यकता से सम्बन्धित आख्या/अनुरोध पत्र/टिप्पणी, सम्बन्धित विभाग(स्वास्थ्य विभाग) अथवा उक्त क्षेत्र के पार्षद/क्षेत्रवासियों द्वारा प्राप्त नहीं थी और नही स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया गया था कि उक्त क्षेत्र में उक्तावधि मे उनके विभाग द्वारा सफाई कार्य नहीं किया गया था, जिससे उक्त कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है अत एवं उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

7- दिनांक 1-8-19 से 1-11-19 तक लगातार एक ही क्षेत्र में वर्षा जल निकासी हेतु ट्रैक्टर टैंकर की आपूर्ति एवं दिनांक 15-7-19 से 30-9-19 तक लगातार नाले की सफाई एक ही क्षेत्र में कराये जाने हेतु 06 कर्मी, जे0सी0बी0 एवं ट्रैक्टर को किराये पर आपूर्ति लगातार इतनी अवधि तक कराया जाना संदिग्ध था।

अतएवं उपर्युक्त के सम्बन्ध में सम्परीक्षा स्थिति स्पष्ट करायी जाए अन्यथा स्थिति उत्तरदायी से उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि रुपये 1261604/- की प्रतिपूर्ति कराये जाने हेतु प्रभावी/ आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। उक्त के अतिरिक्त अन्य उक्त प्रकार के कार्यों हेतु यदि भुगतान किया गया हो तो उसय पर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

**32- जलकल अनुभाग में ठेका सीवर कर्मचारियों को बिना कर्मचारी भविष्य निधि एवं ई0एम0आई0 की कटौती किये भुगतान किया जाना अनियमित रू0 67,37,500/-**

सम्परीक्षा के समय व्यय प्रमाणकों की जाँच से प्रकाश मे आया कि निगम द्वारा जलकल अनुभाग में ठेका पर रखे गये सीवर कर्मचारियों को 350 रूपया प्रतिदिन की दर से निम्नविवरणानुसार भुगतान किया गया था। सम्परीक्षा में ठेका पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। व्यय प्रमाणकों के साथ संलग्न मास्टर रोल एवं भुगतान बिल से प्रकाश में आया कि सीवर सफाई कार्य हेतु ठेका कर्मचारियों को निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया था,परन्तु इन कर्मचारियों से काटा गया कर्मचारी भविष्य निधि हेतु अंशदान एवं ई0एस0आई के सम्बन्ध में कोई अभिलेख व्यय प्रमाणक के साथ संलग्न नहीं थे जिससे यह स्पष्ट न हो सका कि ठकेदार का पंजीकरण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मे था या नही और न ही यह ज्ञात हो सका कि किस ठेका कर्मचारी से कितनी कटौती कर्मचारी भविष्य निधि एवं ई0 एस0 आई हेतु की गयी थी तथा इसके सापेक्ष नगर निगम हेतु कितना अंशदान कर्मचारियों के खाते में भेजा गया था ठेका पत्रावली प्रस्तुत कर स्थिति स्पष्ट की जाए।

उप सम्परीक्षा माहों में जलकल विभाग में सीवर कर्मचारियों को किए गये भुगतान का विवरण निम्नवत्

वाउचर संख्या	दिनांक	धनराशि	श्रमिक संख्या	चैक संख्या
214	10-12-19	10,48,250	99	056412

215	10-12-19	1,30,200	12	056413
216	10-12-19	16,83,850	161	056414
222	11-12-19	2,71,250	25	056415
223	11-12-19	2,27,850	21	056415
552	12-2-20	2,26,450	21	002613
553	12-2-20	2,69,500	24	002613
554	12-2-20	10,49,300	99	002613
555	12-2-20	1,30,200	12	000452
556	12-2-20	17,00,650	162	002614
	योग	67,37,500		

**33- नगर निगम द्वारा विभिन्न जोनों में नलकूपों के संचालन एवं अनुरक्षण की पत्रावलियों में पायी गयी अनियमितताएँ:-**

नगर निगम द्वारा विभिन्न जोनों में नलकूपों का संचालन एवं अनुरक्षण प्राईवेट फर्मों/ कम्पनियों द्वारा किया जा रहा था। पत्रावलियों की जाँच से निम्नलिखित अनियमिततायें प्रकाश में आयी-

सम्बन्धित पत्रावलियों में आलोच्य अवधि से सम्बन्धित संचालन एवं अनुरक्षण का नगर निगम द्वारा कोई निविदा। टेण्डर की न्यूनतम स्वीकृत दरों पर ही कार्यादेश दिया गया था। किसी भी पत्रावली में इस प्रकार को कोई विवरण संलग्न नहीं था कि नगर निगम के पास निम्न नलकूपों के संचालन हेतु स्टाफ का अभाव था। उक्त के अभाव में प्राईवेट फर्मों द्वारा नलकूपों को संचालित कराने का औचित्य स्पष्ट कराया जाए।

कुछ पत्रावलियों की नोटिंग से स्पष्ट था कि नलकूपों के संचालन हेतु 31-1-2018 को ई निविदायें आमंत्रित की गई थी जिन्हें नगर आयुक्त द्वारा 26-3-2018 की स्वीकृति प्रदान की गई थी, किन्तु पत्रावलियों में सम्बन्धित निविदायें एवं तुलनात्मक विवरण तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति संलग्न नहीं थी। इन्हें सम्परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाए।

**34- जल संयोजन पत्रावली सम्परीक्षा में अप्रस्तुत:-**

सम्परीक्षा में बार-बार लिखित एवं मौखिक रूप से मॉग किये जाने पर भी निगम में अनुरक्षित जल संयोजन पंजी व पत्रावली सम्परीक्षा में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करायी गयी जिसके अभाव में इसकी जाँच नहीं की जा सकी। अतः उपर्युक्त अभिलेख अतिशीघ्र सम्परीक्षा में जाँच हेतु उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

**35— मै0 केशव एन्टरप्राइजेज, गाजियाबाद को जलशोधन एवं ओवर हैण्ड टैंक के आपरेशन एवं अनुरक्षण कार्य हेतु किया गया भुगतान रू0 1306500/—**

नगर निगम के आलोच्य माहों के व्यय प्रमाणकों की जाँच से प्रकाश में आया कि नगर निगम द्वारा वसुन्धरा जोन में जल शोधन एवं ओवर हैण्ड टैंक के आपरेशन एवं अनुरक्षण कार्य अवधि 01-7-19से 31-8-19 तक करने हेतु रूपया 1379170/— के बिल के सापेक्ष कटौती के उपरान्त रूपया 1306500/—का भुगतान व्यय प्रमाणक संख्या 245 दिनांक 16-12-19 चैक सं0-000202 द्वारा किया गया था।

सम्परीक्षा में मॉगे जाने परय उक्त कार्य के ठेके की पत्रावली अप्रस्तुत रही जिससे उनको दिये गये ठेके से सम्बन्धित शर्तों एवं प्रतिबंधों की जानकारी न हो सकी। ट्यूबवैलों के संचालन की लॉगबुकें भी अप्रस्तुत रहीं जिनके अभाव में उक्त भुगतान का सत्यापन न किया जा सका। अतः उक्त अभिलेखों को प्रस्तुत का सत्यापन कराया जाए।

विज्ञापन विभाग:—

**36— अवैध होर्डिंग एवं विज्ञापनों पर कार्यवाही न करने तथा लक्ष्य से अधिक कम आय प्राप्त करने के नगर निगम को रूपया 4,83,68,435/— की आर्थिक क्षति:—**

सम्परीक्षा में बार-बार मौखिक मॉग किये जाने एवं लिखित अधियाचन सं.-04 दिनांक 14-6-21 एवं अधियाचन सं0 9 दिनांक 5-7-2021 तथा अधियाचन सं0-98 दिनांक 21-7-2021 दिये जाने के उपरान्त भी विज्ञापन पत्रावली एवं विज्ञापन पंजी अप्रस्तुत रही, जिसके अभाव में यह ज्ञात न हो सका कि आलोच्य वर्ष में विज्ञापन ठेकों की क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी तथा ठेका किस दर पर प्राप्त हुए थे एवं ठेकों के शर्त एवं प्रतिबन्ध क्या थे।

नगर निगम के बजट के अनुसार वर्ष 20419-20 की विज्ञापन आय का लक्ष्य रू0 10,00,00,000/—रखा गया था,जिसके सापेक्ष मात्र रू0 5,16,31,565/—अर्थात् 51.63 प्रतिशत आय प्राप्त हुई थी जो लक्ष्य से रूपया 4,83,68,435/— कम थी। इससे प्रतीत होता है कि निगम द्वारा लक्ष्य प्राप्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था जिससे नगर निगम को एक बड़ी आर्थिक क्षति उठानी पडी। यह भी प्रकाश में नहीं आया कि निगम द्वारा अवैध होर्डिंग पर क्या कार्यवाही की गई तथा इससे कितनी आय प्राप्त हुई जबकि निगम की सीमान्तर्गत लगभग प्रत्येक मार्ग पर होर्डिंग एवं विज्ञापन लगे थे। निगम को आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

**37— नगर निगम द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों पर समाचार पत्रों द्वारा दिया जाने वाला 15 प्रतिशत ट्रेड डिस्काउन्ट का लाभ नगर निगम को न मिलने के कारण आर्थिक क्षति एवं अधिक भुगतान रूपया 5,75,705/—**

सम्परीक्षा में नगर निगम द्वारा प्रकाशित कराये जाने वाले विज्ञापनों के व्यय प्रमाणकों की जाँच से प्रकाश में आया कि नगर निगम द्वारा उपसम्परीक्षा माहों में विज्ञापन डी0ए0वी0पी0 दर से भुगतान न करके एडवरटाइजिंग एजेन्सी के माध्यम से विज्ञापित

कराये गये थे। उ०प्र० सरकार, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (विज्ञापन विभाग) के आदेश सं०-2840/सू०एवं जन सं० विभाग विज्ञापन/1173/89, लखनउ दिनांक 19-2-1991 द्वारा स्वीकृत विज्ञापन नीति एवं विज्ञापन मान्यता नियमावली दिनांक 01-2-1991 के अनुसार विज्ञापन बिना एजेन्सी के माध्यम से सीधे दिया जाना चाहिए था तथा विज्ञापन व्यावसायिक दर पर न दिया जाना डी०ए०वी०पी० की दर से भुगतान किया जाना चाहिए था। उक्त सम्परीक्षा माहों के विज्ञापन से सम्बन्धित व्यय प्रमाणकों की जाँच से प्रकाश में आया कि सभी समाचार पत्रों द्वारा विज्ञापन मूल्य पर 15 प्रतिशत ट्रेड डिस्काउन्ट दिया जाता था किन्तु नगर निगम द्वारा एजेन्सी के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराये गये थे और उनका भुगतान भी एजेन्सी द्वारा दिये गये बिल के अनुसार ही किया गया था। एजेन्सी द्वारा दिये गये किसी भी बिल में समाचार पत्रों द्वारा दिया जाने वाला 15 प्रतिशत ट्रेड डिस्काउन्ट विज्ञापन बिलों से नहीं घटाया गया था। एवं नगर निगम को पूर्ण विज्ञापन मूल्य का भुगतान करना पडा था। एजेन्सी द्वारा अपने बिलों में 15 प्रतिशत ट्रेड डिस्काउन्ट न घटाये जाने से नगर निगम को सलग्न विवरणानुसार अधिक भुगतान करना पडा। नगर निगम द्वारा व्यय प्रमाणकों के रूप में एजेन्सी द्वारा दिये गये बिल ही लगा दिये गये थे। किसी भी व्यय प्रमाणक में समाचार पत्र द्वारा दिये गये बिल जिसमें ट्रेड डिस्काउन्ट दर्शित था, व्यय प्रमाणक के साथ सलग्न नहीं किये गये थे।

एजेन्सी के माध्यम से व्यावसायिक दरों पर विज्ञापन करना अनियमित एवं आपत्तिजनक था। इस कारण निगम को रूपया 5,75,705/- का अधिक एव अनियमित भुगतान करना पडा। विवरण में मात्र उपसम्परीक्षा माहों में किये गये भुगतान का विवरण अंकित है, अतः पूर्व वर्ष के विज्ञापनों की व्यापक जाँच कराकर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

उक्त का विवरण सम्परीक्षा आख्या के परिशिष्ट 'प' पर दिया गया है।

**38- नगर निगम द्वारा विज्ञापन हेतु डी०ए०वी०पी० की दर पर भुगतान न कर अधिक दरों पर एजेन्सियों को भुगतान किये जाने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक अधिक भुगतान रूपया 35,23,519/-**

उप सम्परीक्षा माहों के व्यय प्रमाणकों की जाँच से प्रकाश में आया कि नगर निगम द्वारा उ०प्र० सरकार, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (विज्ञापन विभाग) के आदेश संख्या-2840/सू०एवं अ०सं० विभाग विज्ञापन 1173/89, लखनउ दिनांक -19-2-1991 द्वारा स्वीकृत विज्ञापन नीति एवं विज्ञापन मान्यता नियमावली दिनांक 1-2-1991 से लागू की गई थी, जिसे निगम बोर्ड के प्रस्ताव संख्या-733 से सर्वसम्मति से स्वीकार एवं अंगीकार किया गया था।

सम्परीक्षा में जाँच के दौरान प्रकाश में आया कि नगर निगम द्वारा उक्त शासनादेश एवं बोर्ड निर्देशों का पालन नहीं किया गया था। इस नियमावली के अनुसार विज्ञापन बिना एजेन्सी के माध्यम से सीधे डी०ए०वी०पी० रेट पर दिया जाना चाहिए था। विज्ञापन व्यावसायिक दर पर न दिया जाये तथा डी०ए०वी०पी० की दर से ही भुगतान किया जाए किन्तु नगर निगम द्वारा डी०ए०वी०पी० दरों पर भुगतान न करके एजेन्सी/व्यावसायिक दरों पर भुगतान किया गया था। यह अनियमित एवं आपत्तिजनक था।

इस तरह विज्ञापन हेतु अधिक एवं अनियमित भुगतान किया गया था। गत एवं विगत वर्षों से लगातार आपत्ति उठाये जाने पर भी इसे बन्द नहीं किया गया था। इस पृथा पर रोक लगाई जाए एवं तुरन्त बन्द करके नियमानुसार डी0ए0वी0पी0 दरों पर भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस हेतु निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। अधिक एवं अनियमित भुगतान का विवरण परिशिष्ट 'फ' पर सलंग्न है। उक्त विवरण मात्र उपसम्परीक्षा माहों में दिये गये विज्ञापन का है। पूरे वर्ष के विज्ञापनों की व्यापक जाँच कराकर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित थी।

#### **39- खबरे-ए-हिन्द समाचार पत्र को प्रकाशन हेतु आपत्तिजनक भुगतान रू0 20,000/-**

खबरे-ए-हिन्द समाचार पत्र के बिल सं0-221 दिनांक 2-2-18 के विरुद्ध व्यय प्रमाणक सं0-252 दिनांक 6-2-20 को रू0 19,500 कटौती उपरान्त समाचार पत्र को भुगतान किया गया था। नगर निगम गाजियाबाद द्वारा उक्त समाचार पत्र में 26 जनवरी, 2018 को सूचना प्रकाशित करायी गयी थी। समाचार पत्र के बिल में सूचना का साईज व दर अंकित नहीं किया गया था केवल समाचार पत्र के पेज न0-3 पर सूचना को प्रकाशित किया गया था। रू0 20,000/- एक मुश्त धनराशि भुगतान की गयी थी। रू0 20,000/- एक मुश्त धनराशि भुगतान करने का आधार स्पष्ट न होने के कारण उक्त भुगतान सम्परीक्षा की दृष्टि से आपत्तिजनक था। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाए। अन्यथा स्थिति में उक्त हेतु किया गया भुगतान आपत्तिजनक था। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि उक्त सूचना किस सम्बन्ध में प्रकाशित करायी गयी थी।

#### **40- प्रेक्षाकर वसूली हेतु कार्यवाही न करने तथा लक्ष्य से कम आय प्राप्त करने से नगर निगम को रूपया 8,39,680/- की आर्थिक क्षति:-**

सम्परीक्षा में बार बार मॉग किये जाने के उपरान्त भी प्रशंसा से सम्बन्धित पत्रावली एवं उच्च अभिलेख अप्रस्तु रहें जिससे इसकी सम्यक जाँच न हो सकी। नगर निगम के बजट के अनुसार प्रेक्षाकार हेतु आलोच्य अवधि की प्रस्तावित आय रूपयें-20,00,000/- थी किन्तु इस लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त आय रूपया 11,60,320/- ही थी जो लक्ष्य से रूपया 8,39,680/- कम थी। इससे प्रतीत होता है। कि नगर निगम द्वारा लक्ष्य प्राप्ति हेतु सार्थक प्रयास नहीं किये गये थे। जिस कारण नगर निगम को रू0 8,39,680/- की आर्थिक क्षति उठानी पडी थी। प्रेक्षाकर से आय बढ़ाये जाने हेतु सार्थक प्रयास अपेक्षित थे।

#### **स्वास्थ्य विभाग**

#### **41- नाला, खाली प्लाट की सफाई एवं कूड़े के ढेर उठाये जाने तथा कूड़ा सफाई हेतु जे0सी0बी मशीन, पोकलेन मशीन टेम्पो एवं श्रमिकों आदि की आपूर्ति हेतु अनियमित एवं अमान्य भुगतान रूपये 1,62,83,734/-**

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में चयनित माहों के व्यय प्रमाणकों की जाँच के समय प्रकाश में आया कि नगर निगम द्वारा नाला पुलिया, खाली प्लाट की सफाई एवं कूड़ा उठाये जाने हेतु पोकलेन मशीन जे0सी0बी0मशीन टेम्पो, श्रमिकों की आपूर्ति हेतु निम्नांकित विवरणानुसार कुल रूपये 1,62,83,734/- का भुगतान आलोच्य माहों में किया गया था।

जबकि नगर निगम गाजियाबाद के पास पर्याप्त मात्रा में पोकलेन मशीन,जे0सी0बी0मशीन टैम्पू एवं सफाई कर्मचारी (नियमित,संविदा एवं आउट सोर्सिंग के माध्यम) उपलब्ध थे। फिर भी नाला सफाई,कूड़ा उठाये जाने एवं सफाई कार्य (डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन) आदि हेतु उक्तानुसार मशीनों एवं श्रमिकों की आपूर्ति हेतु भुगतान किये गये थे। उक्त के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि उक्तावधि में नगर निगम के पास उपरोक्त मशीनों एवं श्रमिकों की उपलब्धता नहीं थी इसका उल्लेख व्यय प्रमाणकों में नहीं था तथा निगम के पास कितनी संख्या में पोकलेन मशीन,जे0सी0बी0 टैम्पू एवं श्रमिक थे इसका भी उल्लेख व्यय प्रमाणकों में उल्लिखित नहीं था और उक्त कार्य से सम्बन्धित पत्रावली भी सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे तत्सम्बन्धी आवश्यक जाँच नहीं की जा सकी अतः एवं उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली सम्परीक्षा में प्रस्तुत कर तत्सम्बन्धी आवश्यक जाँच करायी जाए तथा उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाए अन्यथा स्थिति में निम्नांकित विवरणानुसार किया गया भुगतान रूपये 1,62,83,734/- अनियमित एवं अमान्य था। उक्त के अतिरिक्त उपरोक्त प्रकृति के यदि अन्य भुगतान आलोच्य अवधियों (चयनित सम्परीक्षा माहों एवं अन्य माहों ) में किया गया हो तो उक्तानुसार उक्त के सम्बन्ध में भी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। चयनित माहों के भुगतान का विवरण निम्नवत है।

क्र०	वा०सं०	चेक सं०	दिनांक	धनराशि	कार्य का विवरण
1	409	907552	6-2-20	87000	जे0सी0बी0 श्रमिक की आपूर्ति हेतु कुल धनराशि 91050 में से आयकर 2063 की कटौती के पश्चात बसुन्धरा जोन वैशाली सै-5 नहर नाले की सफाई हेतु
2	410	907552	6-2-20	185500	1 जे.सी.बी. 1ट्रेक्टर,5श्रमिक मोहन नगर जोन पसौडा रोड कासिंग वाली पुलिया व नाला की सफाई हेतु
3	1070	907562	26-2-20	46285	गाजीपुर नाला सफाई हेतु मेसर्स आर0के0एसोसिएट को निगम के कन्टीजेन्ट बिल पर भुगतान (बिल संलग्न नहीं)
4	264	907552	6-2-20	1000000	सिगमा इन्टरप्राइजेज जे.सी.बी. मशीन की आपूर्ति (किराये पर) हेतु कविनगर जोन में
5	265	907552	6-2-20		
6	266	907552	6-2-20		
7	263	907551	6-2-20	194400	हिन्दन इन्टरप्राइजेज कविनगर जोन में समतलीकरण हेतु जे.सी.बी. किराया
8	267	907552	6-2-20	344162	मेसर्स नार्थ इण्डिया डेवलपर को जे.सी.बी.

9	268	907552	6-2-20	331050	का किराया
10	269	907552	6-2-20	324537	
11	270	907552	6-2-20	605400	न्यू मार्टन इन्टरप्राइजेज के श्रमचालक को टैम्पू की आपूर्ति(किराये पर) सिटीजोन की सफाई
12	271	907552	6-2-20	503100	यू मार्टन इन्टरप्राइजेज के श्रमचालक को टैम्पू की आपूर्ति(किराये पर) वसुन्धराजोन की सफाई
13	272	907552	6-2-20	342000	
14	273	907552	6-2-20	595650	नवयुग मार्केट गाजियाबाद डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हेतु मय चालक सहित टैम्पू की किराये पर आपूर्ति हेतु कुल बिल
15	457	907513	24-12-19	3994800	11192300 में से टी0डी0एस रू0 253618/-अन्य रू0 82 की कटौती के पश्चात रू0 10938600/- में से रूपये 1124300 बकाया हैं
16	209	000208	17-1-20	5000000	
17	434से438	000439	24-12-19	227800	मेसर्स यूनिवर्स वेयर्स लोहिया पार्क के पास पुलिया की सफाई
18	458से461	907553	24-12-19	100000	
19	394	907553	21-12-19	497350	हिन्दन इन्टरप्राइजेज करे खजूरी के पीछे अर्थला एवं शालीमार गार्डन के 3 माह के सफाई कार्य हेतु उनके बिल रूपये 525000 के सापेक्ष।
20	395	907553	21-12-19	497350	
21	396	907553	21-12-19	497350	
				1,62,83,734	

**42- एस0टी0पी0 अनुरक्षण हेतु मै0 एन0के0 जी0 इन्फा0लि0 को किया गया भुगतान रू0 36,72,400 एवं मै0 एस0 जी0 इन्टरप्राइजेज को एस0टी0पी0 अनुरक्षण हेतु किया गया भुगतान रूपया 42,70,800/- पत्रावली के अभाव में अधियाचन:-**

सम्परीक्षा में आलोच्य माहों के व्यय प्रमाणकों की जाँच से प्रकाश में आया कि नगर निगम द्वारा मै0 एस0जी0 इन्टरप्राइजेज को एस0टी0पी0 अनुरक्षण एवं अन्य कार्यों हेतु भुगतान रू0 42,70,800/-का भुगतान किया गया था एवं इसी प्रकार मै0 एन0के0जी0 भुगतान किया गया था एवं इसी प्रकार मै0 एन0 के0जी0 इन्फा0 लि0 को एस0टी0 पी0 के आपरेशन एवं अनुरक्षण हेतु भुगतान किया गया था किन्तु स्वास्थ्य विभाग से पत्रावली माँगे जाने पर प्रस्तुत नहीं की गयी जिसके अभाव में यह स्पष्ट न हो सका कि उक्त दोनो फर्मों को किस प्रकार निगम द्वारा सीवर इन्टीमेट प्लाट के अनुरक्षण एवं संचालन हेतु ठेका दिया गया था उक्त ठेके की क्या शर्तें थी एवं उक्त फर्मों द्वारा गारबेज का निस्तारण उनसे उत्पन्न उर्जा के निस्तारण एवं तैयार किये गये खाद को बिक्री से प्राप्त आय के सम्बन्ध में



जॉच सम्परीक्षा में स्थिति ज्ञात न हो सकी अतः सम्परीक्षा उन दोनों ठेको की पत्रावली प्रस्तुत की जाए अन्यथा स्थिति में निम्न विवरणानुसार किया गया भुगतान सत्यापित न किया जा सका। भुगतान का विवरण निम्नवत था।

1- मै एनके जी इन्फ्रा लि		
व्यय प्रमाणक संख्या	दिनांक	धनराशि
176	28-11-19	11,46,100
934	25-2-20	6,90,100
935	25-2-20	18,36,200
	योग	36,72,400
2- मै एसजी इंटरप्राइजेज		
376	21-12-19	9,31,800
377	21-12-19	4,09,100
378	21-12-19	4,09,100
379	21-12-19	3,37,500
936	25-2-20	3,81,800
937	25-2-20	9,31,800
938	25-2-20	8,69,700
	योग	42,70,800

**43- कविनगर जोन में नाले की सफाई कार्य हेतु जेसीबी / पोकलेन मशीन एवं सफाई कर्मी की आपूर्ति हेतु अनियमित भुगतान रूपया-7,04,300/-**

सम्परीक्षा में व्यय प्रमाणको की जॉच से प्रकाश में आया कि वासं-515 दिनांक 11-2-20 रूपया 7,04,300/- का भुगतान आकृति एसोसिएट्स को एक पोकलेन मशीन दो जेसीबी मशीन एवं 20 सफाई मजदूरों को दिनांक 14-6-19 से 3-7-19 तक 20 दिवसों हेतु 8 घंटे प्रतिदिन रूपया 17320/- की टीडीएस की कटौती के पश्चात किया गया था। उक्त व्यय प्रमाणक की जॉच में निम्नलिखित कमियाँ प्रकाश में आई-

1- आकृति एण्ड एसोसिएट्स मिश्रीपुर रोड कॉठ मुरादाबाद के बिल सं 4 दिनांक 20-8-19 द्वारा एक पोकलेन मशीन रू 19,040/- प्रतिदिन (8घण्टे प्रतिदिन) एवं 20

सफाई मजदूरों को रूपये 299 प्रतिमजदूर प्रतिदिन के हिसाब से 20 दिवसों हेतु कुल रूपये 7,59,600/- का बिल प्रस्तुत था जिस पर 5 प्रतिशत की कटौती के पश्चात भुगतान का आदेश था, जिसके आधार पर रूपये 7,21,620/- में से रूपये 17,320/- टी0डी0एस0 आयकर की कटौती के पश्चात रूपये 7,04,300 का भुगतान चेक संख्या 000542 दिनांक 11-2-20 द्वारा उपरोक्त फर्म को किया गया था उक्त कार्य से सम्बन्धित पत्रावली माप पुस्तिका आदि जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गयी, जिससे तत्संबंधी आवश्यक जाँच नहीं की जा सकी।

2- नगर निगम गाजियाबाद में पर्याप्त मात्रा पोकलेन मशीन एवं सफाई कर्मचारी (नियमित एवं आउटसोर्सिंग पर) उपलब्ध होने के बावजूद नाला सफाई कार्य (कवि नगर जोन के अन्तर्गत शनि मन्दिर विवेकानन्द नगर से मुखर्जी पार्क होते हुए साउथ साइड आफ जी0टी0रोड तक नाले की सफाई हेतु) ठेके पर कराया जाना संस्था पर अनावश्यक व्यय भार था।

3- उल्लेखनीय है कि जे0सी0बी0मशीन का किराया रू0 6480 प्रतिदिन 8 घण्टे एवं पोकलेन मशीन का किराया रू0 19040 प्रतिदिन 8 घण्टे हेतु था उक्त दरें निर्धारित करने का क्या आधार था इसका सत्यापन संस्था द्वारा नहीं कराया गया था।

4- उक्त कार्य के बिल से 1 प्रतिशत लेबर सेस की कटौती नहीं की गयी थी जिससे रू0 7216 राजस्व की क्षति हुयी थी तथा उक्त सीमा तक फर्म के अधिक भुगतान का भी प्रकरण था।

5- यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि संस्था द्वारा वाउचर संख्या 629 दिनांक 27-12-19 द्वारा 10 पोकलेन मशीनों के क्रय हेतु रूपये 1,80,50,500/- का भुगतान मेसर्स टाटा हिटैची कान्स0मशीनरी कं0 प्रा0 लि0 को दिनांक 12-6-19 एवं 14-6-19 को प्रस्तुत 10 कान्टीजेन्स बिलों हेतु किया गया था। चूँकि नगर निगम द्वारा 1बडी पोकलेन मशीन प्रायः किराये पर ली जाती थी तो आवश्यकतानुरूप निगम द्वारा 1बडी पोकलेन मशीन खरीदी जानी चाहिए थी जिससे उक्त हेतु किराये के अनावश्यक व्ययभार से बचा जा सकता था। सम्परीक्षा में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि नगर निगम के पासय बडी पोकलेन मशीन थी अथवा नहीं यदि थी तो अनुपलब्ध होने का कारण उल्लिखित नहीं था।

अत एवं उपरोक्त कमियों के सम्बन्ध स्थिति स्पष्ट कराये जाने तथा प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संस्था के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

**44- नगर निगम द्वारा पांचों जोनों में स्थित स्थायी रैन बसेरा, बसुन्धरा जोनल कार्यालय, हैल्प गैराज तथा प्रकाश जलकल स्वास्थ्य स्टोर पर सुरक्षा गार्ड होमगार्ड विभाग से न लेकर मै0 सुरक्षा सिक्योरिटी सर्विसेज से लेने पर रू0 386183/- का अनियमित भुगतान:-**

सम्परीक्षा के समय प्रकाश में आया कि नगर निगम के पाँचों जोनल कार्यालयों में स्थित स्थायी रैनबसेरे, नगर निगम के वसुन्धरा जोनल कार्यालय, हैल्प गैराज तथा प्रकाश जलकल-स्वास्थ्य स्टोर में सुरक्षा की दृष्टि से 43 साधारण गार्ड/गनर 12-12 घंटे के

लिये मै० सुरक्षा सिक्योरिटी सर्विसेज से नगर आयुक्त की स्वीकृति दिनांक 25-3-19 के द्वारा दिनांक 1-1-19 से 31-5-19 तक हेतु कार्यरत थे। दिनांक 1-6-19 से 30-6-19 तक एक माह समय बढ़ाया गया था जिस हेतु कुल 386183/- एवं कटौती रू० 8783 घटाकर शुद्ध भुगतान 377400/- का व्यय प्रमाणक सं० 632 दिनांक 27-1-20 द्वारा किया गया जो अनियमित था क्योंकि नियमानुसार सुरक्षा गार्ड उ०प्र० होमगार्ड्स विभाग के शा० सं०-2224/छ: ना०स०-09-390-हो.गा./97 दिनांक 23-6-2009 के द्वारा समस्त स्थानीय निकायों में सुरक्षा कर्मी उक्त विभाग से लिये जाने अपेक्षित थे। इस प्रकार निगम द्वारा अनियमित व्यय किया गया था।

**45- व्यय प्रमाणक सं० 522 दिनांक 11-2-2020 धनराशि रू० 44,88,359/- द्वारा मै० पोलीमैक इण्डिया को कैटल कैचर हेतु किया गया भुगतान बिलो के अभाव में असत्यापित:-**

उक्त व्यय प्रमाणक द्वारा कन्टीजेन्ट बिल पर मै० पोलीमैक इण्डिया को टाटा-709 की चैसिस हेतु रू० 9,65,000/- एवं उस पर निर्माण कराये गये कैटल कैचर के फ़ैब्रिकेशन हेतु रू० 5,97,789/- कुल भुगतान रू० 15,62,789/- प्रति कैटल कैचर हेतु किया गया था। निगम द्वारा मै० पोलीमैक से कुल 3 कैटल कैचर खरीदे गये थे मगर व्यय प्रमाणक के साथ मात्र एक कैटल कैचर का बिल सं० 53 दिनांक 5-12-19 संलग्न था। जब तीन कैटल कैचर का भुगतान रू० 46,88,367/- में से आयकर 2.266 प्रतिशत रू० 1,06,240/- एवं जी०एस०टी० 2 प्रतिशत रू० 93,768/- शेष रू० 44,88,359/- का शुद्ध भुगतान फर्म को किया गया था। उक्त व्यय प्रमाणक के साथ 02 मैटल कैचर का बिल संलग्न न होना स्थिति को संदिग्ध बनाता है शेष 02 बिलों को सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाए अन्यथा की स्थिति में उक्त किया गया भुगतान संदिग्ध एवं अनियमित था।

**46- मै० समाजोत्थान सेवा संस्थान को रूपया 6,86,000/- का किया गया भुगतान असत्यापित:-**

सम्परीक्षा में आलोच्य माहों के व्यय प्रमाणकों की जाँच से प्रकाश में आया कि व्यय प्रमाणक सं०-264 दिनांक 16-12-19 रूपया 6,86,000/- का भुगतान मै० समाजोत्थान सेवा संस्थान को नगर निगम गाजियाबाद को अपदूषण कारक पशुविनियमन और नियन्त्रण नियमावली, 2004 का कियान्वयन व नदियों का रखरखाव हेतु 01 नन्दी चिकित्सक दर रू०-15,000/- प्रतिमाह 01 सुपरवाइजर रूपया-5,700 प्रतिमाह 10 सफाई कर्मी दर 7500/- रू० प्रतिमाह तथा-14 हैल्पर दर 5700 प्रतिमाह हेतु 4 माह का भुगतान किया गया था।

संस्थान के बिल रू० 7,02,000/- में से कटौती रू० 16,000/- के उपरान्त रू० 6,86,000/- का भुगतान पत्रावली एवं ठेके की शर्तों तथा प्रतिबन्धों उक्त के द्वारा किये गये कार्य के सत्यापन के अभाव में किये गये उक्त भुगतान का सम्परीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका। अतः उक्त से सम्बन्धित ठेका पत्रावली, किये गये कार्य का सक्षम

अधिकारी द्वारा सत्यापन ठेके की शर्तें एवं प्रतिबन्ध आदि प्रस्तुत कर उक्त भुगतान का सत्यापन कराया जाए।

**47— मै0 एम0 के0 टैंक इण्डस्ट्रीज मेरठ रोड गाजियाबाद को वाटर स्प्रिंकला हेतु किया गया भुगतान रू0 1,19,42,800 /— असत्यापित:—**

सम्परीक्षा में आलोच्य माहों के व्यय प्रमाणकों की जाँच से प्रकाश में आया कि व्यय प्रमाणक सं0-537 दिनांक-11-2-20 धनराशि रू0 11942800 चेंक संख्या-676750 द्वारा मै0 एम0के0टैंक इण्डस्ट्रीज, मेरठ रोड, गाजियाबाद को उनके बिल संख्या-65,66,67,68,69,दिनांक 27-12-19 के सापेक्ष 5 वाटर स्प्रिंकल टैंकर की क्षमता 9000लीटर के रू0 24,95,000 /— प्रति टैंकर की दर से कुल 1,24,75,000 /—के कटौती रू0 532 /—के उपरान्त शुद्ध रू0 1,19,42,800 /— के क्रम किये गये थे।

उक्त कय की पत्रावली टूल एण्डप्लान्ट रजिस्टर स्टॉकबुक टैंडर आदि सम्परीक्षा में अनुपलब्ध रहे जिसके अभाव में उक्त किये गये भुगतान का सत्यापन नहीं किया जा सका।

**48— साफ सफाई प्रबन्ध योजना:—**

आलोच्य अवधि में नगर निगम द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट,सीवर ट्रीटमेन्ट प्लांट, डम्पिंग यार्ड योजना स्वच्छ भारत मिशन पर प्राप्त अनुदान सफाई कर्मचारियों की प्रबन्धन स्थिति से सम्बन्धित अभिलेख सम्परीक्षा में बार-बार मौखिक एवं लिखित रूप से माँगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे इनकी जाँच न हो सकी इसके अभाव में इसमें व्याप्त गंभीर अनियमितताओं की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था।

अतः उपर्युक्त अभिलेख अतिशीघ्र सम्परीक्षा में उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित हैं।

**49— वधशाला ,कॉजी हाउस मेले हाट प्रदर्शनी से प्रस्तावित आय प्राप्त न होने से नगर निगम को आर्थिक क्षति रू0 3,00,000 /—**

सम्परीक्षा के समय बजट की समीक्षा से प्रकाश में आया कि निगम द्वारा आलोच्य वर्ष में वधशाला,कॉजी हाउस एवं मेले हाट प्रदर्शनी प्रत्येक से रूपये 100,000 /— की आय प्राप्त किये जाने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन आलोच्य वर्ष में उक्त किसी भी मद से कोई भी आय प्राप्त नहीं थी, जिस कारण नगर निगम को रूपये 3,00,000 /—की आर्थिक क्षति हुयी थी। अतएवं उक्त की प्रतिपूर्ति कराये जाने हेतु प्रभावी /आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यानय आकृष्ट किया जाता है।

**50— मृतक पशुशव निस्तारण का ठेका वर्ष 2019-20 न छोडे जाने से निगम को आर्थिक क्षति:—**

सम्परीक्षा के समय प्रकाश में आया कि आलोच्य वर्ष 2019-20 में मृतक पशु-शव निस्तारण से कोई आय प्राप्त नहीं दिखायी गयी थी। इससे प्रतीत होता है कि आलोच्य वर्ष में मृतक शव निस्तारण का ठेका नहीं छोडा गया था। इसको न छोडे जाने से निगम को आर्थिक क्षति हुयी थी। अतः गत विगत कई वर्षों से उक्त ठेके को न छोडे जाने से निगम

को लगातार आर्थिक क्षति हो रही थी यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक तथा संस्था के आर्थिक हितों के प्रतिकूल थी। आर्थिक क्षति की अद्यावधिक ऑकलन/आगणन कर इसकी प्रतिपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

**51- स्वास्थ्य विभाग में व्यय प्रमाणक संख्या-11 दिनांक 4-12-19 द्वारा रूपया 7050/-का अधिक भुगतान:-**

सम्परीक्षा में व्यय प्रमाणकों की जाँच से प्रकाश में आया किह स्वास्थ्य विभाग की गाडी संख्या-यू0पी0-14 क्यू 0159 की मरम्मत का कार्य मै0 एस0के0मोटर्स के द्वारा कराया गया था जिस हेतु मै0 एस0 के0मोटर्स के बिल सं0-09 दिनांक 29-1-2018 अंकन रूपया-9734/-स्वास्थ्य विभाग को भुगतान हेतु दिया गया था। किन्तु नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उक्त कार्य हेतु मात्र 2,734/- रूपये की धनराशि के भुगतान हेतु बिल सत्यापित किया गया था जिससे स्पष्ट था कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा यह जानकारी कर ली गयी थी कि उक्त गाडी में मात्र रूपया 2,734/-का ही कार्य हुआ था एवं वह इस बात से संतुष्ट थे। इसीलिये उनके द्वारा मात्र रूपया 2734/- की धनराशि हेतु ही बिल सत्यापित किया गया था किन्तु लेखा विभाग द्वारा बिल के सत्यापन की पुष्टि न करते हुए रूपया- 9734/-का भुगतान कर लिया गया था जिसके परिणामस्वरूप रूपया 9734-2734=7000/- का अधिक भुगतान कर दिया गया था।

उत्तरदायी से इसकी वसूली सुनिश्चित करायी जाए।

(2) इसी प्रकार व्यय प्रमाणक संख्या-18 दिनांक 4-12-19 दो क्लच पाईप दर रूपया 350 प्रति पाईप के बिल सं0-18 दिनांक 31-1-18 में 750/- रूपये की धनराशि भुगतान की गई थी, जबकि सही गणनानुसार रूपया 700/-का ही भुगतान होना चाहिए था। अन्तिम गणनानुसार 50 रूपये का अधिक भुगतान किया गया था। वसूली सुनिश्चित की जाए।

**52- व्यय प्रमाणक संख्या-887 दिनांक 24-2-20 रूपया 3,83,500/-का बिना कोटेशन/टेण्डर के कार्य कराया जाना अनियमित:-**

उक्त व्यय प्रमाणक द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत स्वच्छता रैली का कार्यक्रम खेतान पब्लिक स्कूल,रान्जेन्द्र नगर, साहिबाबाद में आयोजित किया गया था जिसमें स्पीकर 600 वॉट,वेस,साईड फिल,मोनिटर,पोडियम,जनरेटर विद डीजल,कॉर्डलेस माईक,साउंड ऑपरेटर,एम्प्लीफायर क्राउन आदि लगाये जाने का कार्य मै0 आयरिश क्रियेशन द्वारा कराया गया था दिनांक 30-11-19 को एवं नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 22-1-2020 को उक्त कार्य हेतु हुये व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई थी। शासनादेशों के आलोक में उक्त व्यय हेतु टेण्डर/निवदा आमंत्रित किया जा सकता था जिससे नगर निगम को बाजाय प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ मिलता किन्तु ऐसा न किये जाने से निगम को उक्त लाभ मिलने से वंचित रहना पडा। यह अनियमित था।

**53-प्राप्त आय के सापेक्ष रोकडवही में कम आय की प्रविष्टि किये जाने से रूपये 18,000/-का अन्तर :-**

सम्परीक्षा के समय आय प्राप्ति रसीदों की जाँच से प्रकाश में आया कि आय प्राप्ति रसीद संख्या-199 दिनांक 18-12-19 के द्वाराय रू0 20,000/-की आय नगर निगम कोष में प्राप्त हुई थी, लेकिन रोकडवही में मात्र 2000=00 रूपये की प्रविष्टि दर्शायी गई थी, जिस कारण रोकडवही में रूपया 18000/-कम आय की प्रविष्टि की गई थी। प्राप्त आय के सापेक्ष कम आय की प्रविष्टि रोकडवही में किये जाने का क्या औचित्य था। आई0सी0आई0सी0आई बैंक खाता सं0 628601044011 में दिनांक 18-12-19 को रूपया 20,000/-जमा किया गया था। रोकडवही में 20,000/- के स्थान पर 2000/-की प्रविष्टि किया जाना आपत्तिजनक एवं लापरवाही का द्योतक था। अतः रोकडवही में रूपया 18,000/- कम जमा किये जाने के समबन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाए,एवं इस अन्तर को स्पष्ट किया जाए।

**54-लॉगबुकों के अभाव में डीजल एवं पेट्रोल पर किया गया व्यय रूपया 35,53,23,687/-असत्यापित:-**

नगर निगम द्वारा वर्ष 2019-20 में विभिन्न विभागों में प्रयुक्त वाहनों/मशीनों हेतु रूपया 35,53,23,687/-का व्यय पेट्रोल एवं डीजल पर किया गया था। उक्त की जाँच कराने हेतु सम्परीक्षा में बार-बार मौखिक एवं लिखित अधियाचन सं0-04 दिनांक-14-6-21 एवं अधियाचन सं0-09 दिनांक 05-7-21 दिये जाने के उपरान्त भी क्रय किये गये डीजल/पेट्रोल के उपभोग से सम्बंधित भंडार पंजियों एवं सम्बंधित वाहनो की लॉगबुकें प्रस्तुत नही की गई जिसके कारण इसके उपभोग की स्थिति अज्ञात रही। लॉगबुकों के अभाव में डीजल/पेट्रोल क्रय हेतु किया गया भुगतान रू0 35,53,23,687/- असत्यापित रहा। समस्त लॉगबुकें प्रस्तुत कर इसका सत्यापन कराया जाय अन्यथा स्थिति में पेट्रोल/डीजल के दुरुपयोग की प्रबल सम्भावना थी।

**55-स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गतक व्यक्तिगत शौचालयों हेतु किये गये भुगतान से सम्बन्धित पत्रावली एवं निर्माण के सत्यापन से सम्बन्धित अभिलेख अप्रस्तुत:-**

सम्परीक्षा में जाँच के दौरान आलोच्य माहों की सम्परीक्षा के समय जाँच में आया कि नगर निगम द्वारा व्यय प्रमाणक सं0 221 दिनांक 10-12-2019 रू0 33,60,000/- का भुगतान 8000रू0 प्रति लाभार्थी की दर से 420 लाभार्थी के खातों में आर0टी0जी0एस0 करने हेतु शाखा प्रबन्धक,पंजाब नेशनल बैंक अम्बेडकर रोड के खाता सं0 4483000100037301 में चैक सं0 627863 भेजा गया था। सम्परीक्षा में व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण से सम्बन्धित स्थिति एवं नगर निगम कर्मियों द्वारा उक्त किस्त भेजे जाने हेतु सत्यापन सम्बन्धित अभिलेख एवं व्यक्तिगत शौचालयों से सम्बन्धित पत्रावली अनुपलब्ध रही। उम्र के अभाव में यह सत्यापन न हो सका कि वास्तव में योग्य लाभार्थी के खाते में ही धनराशि ट्रांसफर की गयी थी, धनराशि लाभार्थी के खाते में पहुँच गयी थी एवं प्रेषित धनराशि का सही प्रकार उपभोग किया गया था इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाए।

**56- मोबाइल टायलेट बैन के किराये हेतु अमान्य/अनियमित भुगतान रूपये 805064/- एवं राजस्व क्षति रूपया 16,119/-**

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में व्यय प्रमाणकों की जाँच के समय प्रकाश में आया नगर निगम द्वारा चेक सं० 001449 दिनांक 5-2-20 द्वारा रू० 7,86,800/-का भुगतान रू० 18264 आयकर टी०डी०एस०कटौती के पश्चात तथा रूपये 876 अन्य कटौती घटाये जाने के पश्चात सिधु हाइजीन एण्ड इनवायरों प्रोडक्ट्स प्रा०लि० को किया गया था। उक्त भुगतान फर्म द्वारा गढ मुक्तेश्वर मेले में 10 टायर बैन (10 सीटर) 4 बैन 12 दिवस एवं 6 बैन 11 दिवस हेतु किराये एवं फ्रेट कार्टेज हेतु प्रस्तुत फर्म 10 बिल कुल रूपये 805940/-के सापेक्ष किया गया था जबकि गढ मेला हापुड जिला प्रशासन के अन्तर्गत एवं निगम सीमा में नहीं था फिर किराया भुगतान का क्या औचित्य था, स्पष्ट किया जाए। यदि शासन का कोई आदेश था तो भी निगम के पास पर्याप्त मात्रा में मोबाइल टायलैट बैन थे इन्हें भेजा जा सकता था। ऐसी स्थिति में मोबाइल टायलेट बैन के किराया हेतु किया गया भुगतान सम्परीक्षा में मान्य नहीं था। अतएवं उक्त के सम्बन्ध में उत्तरदायी से वसूली के सम्बन्ध में प्रभावी /आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

उल्लेखनीय है कि उक्त बिल में 2 प्रतिशत जी०एस०टी० की कटौती नहीं की गयी थी जिससे रूपये 16,119 राजकीय राजस्व की क्षति हुयी थी जबकि बिल में 18 प्रतिशत जी०एस०टी० चार्ज की गयी थ। अतएवं उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

नगर निगम द्वारा उक्त से सम्बन्धित पत्रावली सम्परीक्षार्थ प्रस्तुत नहीं की गयी थी जिससे तत्सम्बन्धी आवश्यक जाँच नहीं की जा सकी तथा यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि उक्त कार्य हेतु मॉग/ आवश्यकता/टेण्डर आदि की क्या स्थिति थी। अतएवं उक्त के सम्बन्ध में पत्रावली प्रस्तुत कर आवश्यक जाँच करायी जाए/ सलग्न बिलों पर मेले में टायलेटबैन होने का प्रमाण पत्र भी सक्षम अधिकारी द्वारा अंकित नहीं किया गया था केवल बिल सत्यापित किया गया था।

उक्त के सम्बन्ध में भी स्थिति स्पष्ट करायी जाए।

**57- शाहनी बंसल एण्ड एसोसिएट्स चार्टर्ड यकाउन्टेन्ट को अनौचित्यपूर्ण एवं अमान्य भुगतान रूपये 4,99,140/-**

व्यय प्रमाणक संख्या 465 चैक सं० 249219 दिनांक 27-12-19 द्वारा रूपये 439243/-शाहनी बंसल एण्ड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को रूपये 49914 टी०डी०एस एवं रूपये 9983/-जी०एस०टी० की कटौती के पश्चात भुगतान किया गया था। उक्त भुगतान दिनांक 1-4-2019 में 30-6-2019 तक प्रोफेशनल चार्जेज फार मेन्टीनेन्स आफ प्रोपर्टी टैक्स रिकार्ड्स आफ जोन्स एण्ड हेतु ऑफिस हेतु किया गया था ,जबकि प्रोपर्टी टैक्स रिकार्ड्स के अनुरक्षण का उत्तरदायित्व नगर निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों का था। अतएवं उक्त भुगतान अनौचित्यपूर्ण था तथा निगम पर अनावश्यक व्ययभार का अतएवं उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कराये जाने तथा

आवश्यक/प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु संस्था के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

**58- व्यक्तिगत शौचालयों के लाभार्थियों को दिये गये अनुदान का कर विभाग के अभिलेखों से सत्यापन न कराया जाना:-**

स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत व्यक्तिगत शौचालयों हेतु लाभार्थियों को दी गयी अनुदान की धनराशि का सत्यापन नगर निगम के कर विभाग के अभिलेखों से नहीं कराया गया था, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका उक्त लाभार्थी नगर निगम सीमान्तर्गत के अथवा नहीं तथा नगर निगम के कर दाता के अथवा नहीं। अतएवं स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों को दी गयी अनुदान की धनराशि का सत्यापन नगर निगम के कर विभाग के अभिलेखों से कराया जाना अपेक्षित है।

**59- जारी की गयी एम0ए0सी0-2 की रसीद बुकों का उपभोग के पश्चात वापसी न किये जाने के कारण उनके दुरुपयोग की सम्भावना:-**

प्रपत्रों की स्टॉक बुक की जाँच में पाया गया कि एम0ए0सी0-2 रोकड रसीद बुकों लिपिकों एवं विभागों को एक बार में एक निर्गत की गयी थी लेकिन इन रसीद बुकों का उपभोग करने के पश्चात प्रपत्रों की स्टॉक बुक में इनकी वापसी प्रदर्शित नहीं थी यह अनियमित एवं आपत्तिजनक था। तथा उन रसीद बुकों के दुरुपयोग किये जाने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतएवं कर्मचारियों एवं विभागों को निर्गत रसीद बुकों की उपभोग के पश्चात वापसी की पुष्टि कराये जाने हेतु स्टॉक बुकों के वापसी अंकित कराकर सम्परीक्षा में दिखाया जाना अपेक्षित है।

**60- शासनादेश द्वारा की गई व्यवस्था के विपरीत निजी फर्मों के आउट सोर्सिंग कर्मचारियों की आपूर्ति लिया जाना आपत्तिजनक:-**

शासनादेश संख्या- 374/2016/ 771/69-1-2016-14 (56)/2016 दिनांक 20-5-2016 के पैरा-2 के अनुसार शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी) को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने हेतु आवश्यक है कि विभिन्न सरकारी/ अर्द्धसरकारी विभागों/उपक्रमों/प्राधिकरणों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से लिया जाए ताकि केन्द्रों की आर्थिक रूप से सुदृढ किया जा सके एवं शहरी गरीबी उन्मूलन की दिशा में अग्रसर किया जा सके। उपरोक्त शासनादेश दीनदयाल अन्त्योदय योजना राजकीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत शहरों में संचालित शहरी आजीविका केन्द्रों के सम्बंध में किया गया था।

उप सम्परीक्षा माहों के रु व्यय प्रमाणकों की जाँच से प्रकाश में आया कि नगर निगम के विभिन्न विभागों में ड्राईवरों/हैल्परों/लिपिक/इलैक्ट्रीशियन/सफाई कर्मी शहरी आजीविका केन्द्र के माध्यम से न लेकर निजी फर्मों से आउटसोर्सिंग से ली गई थी। यह शासनादेश की स्पष्ट उल्लंघन था। ऐसी स्थिति में निजी फर्मों को किया गया भुगतान अनियमित था। इस सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।



**61-वर्ष 2019-20 में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराये गये लाईसेन्सों एवं नवीनीकरण किये गये लाईसेन्सों से सम्बंधित पत्रावली अप्रस्तुत एवं लक्ष्य के सापेक्ष अत्यधिक कम आय प्राप्त होना आपत्तिजनक:-**

वर्ष 2019-20 में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताये गये लाईसेन्सों एवं नवीनीकृत लाईसेन्सों से सम्बंधित पत्रावलियों एवं नवीनीकृत किये गये लाईसेन्स पंजी सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई और इनसे सम्बंधित रसीद बुकें भी प्रस्तुत नहीं की गयी, जिसके अभाव में यह ज्ञात न हो सका कि आलोच्य वर्ष में कितने लाईसेन्स स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किये गये तथा इनसे कितनी आय प्राप्त हुई एवं कितने लाईसेन्सों का नवीनीकरण किया गया एवं कितने लाईसेन्स बिना नवीनीकरण किये रह गये। अतः उक्त को प्रस्तुत किया जाए।

आलोच्य वर्ष 2019-20 में स्वास्थ्य लाईसेन्स हेतु प्रस्तावित आय रूपया 15,00,000/- रखी गयी थी जिससे सापेक्ष मात्र रूपया 862429/- की आय प्राप्त हुई थी, जिससे स्पष्ट होता है कि निगम को स्वास्थ्य लाईसेन्स बनाने में तथा निगम की आय बढ़ाने में कोई रुचि नहीं थी। यह स्थिति संतोषजनक नहीं थी। इसकी आय बढ़ाये जाने हेतु निगम के प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

**62- महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड के बिलों से टी0डी0एस0 आयकर की कटौती न किये जाने से राजकीय राजस्व की क्षति रूपये 12,10,044 /-**

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में चयनित माहों के व्यय प्रमाणकों की जाँच के समय प्रकाश में आया कि व्यय प्रमाणक संख्या 709 दिनांक 31-12-2019 पी0एफ0 एम0एस0 एडवायस संख्या सी-121929074680 द्वारा रूपये 5,23,32,000/- का भुगतान 2 प्रतिशत जी0एस0टी रू0 10,68,000/- की कटौती के पश्चात महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड सुदा वाडी पुणे को किया गया था। उक्त भुगतान महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा कम्पनी द्वारा दिनांक 27-9-2019 से 16-10-19 मध्य बिलों के सापेक्ष प्रति विल रूपये-26,70,000/-कुल रूपये-5,34,00,000 के सापेक्ष किया गया था, जो महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड द्वारा 20 महिन्द्रा ब्लाजो 256×4 60 BSIV 4250 EROH टियर चेसिस डे कैब 16 CUM वाहन की आपूर्ति हेतु था भटिन्डा कम्पनी के 20 बिलों की कुल धनराशि रूपये 5,34,00,000/-से 2 प्रतिशत जी0एस0टी की कटौती के पश्चात उक्तानुसार रूपये 5,23,32,000 का भुगतान उक्त फर्म को किया गया उक्त बिल की राशि से टी0डी0एस0 आयकर की कटौती नहीं की गयी थी जबकि नगर निगम द्वारा वाउचर संख्या-603 दिनांक 13-2-20 को रू 9860800/- टी0पी0एफ0इन्फास्ट्रक्चर लि0 दिल्ली को 19 नग पोर्टेबल काम्ट्रेक्टर के विलों के सापेक्ष किये गये भुगतान में टी0डी0एस0 आयकर की कटौती की गयी थी एवं अन्य आपूर्ति एवं कार्यों के बिलों से 2.266 प्रतिशत टी0डी0एस आयकर की कटौती की जा रही थी। अत एवं उक्त बिलों से 2.266 प्रतिशत टी0डी0एस0 आयकर की कटौती न किये जाने से रूपये 12,10,044/- की राजकीय राजस्व की क्षति हुयी थी। यदि उक्त प्रकार की कम्पनी/फर्मों के बिलों से आयकर की कटौती न किये जाने का कोई शासनादेश हो

तो सम्परीक्षा में दिखाया जाए अन्यथा स्थिति रू० 12,10,044 की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित से कराये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

उल्लेखनीय है कि उक्त क्रय से सम्बन्धित पत्रावली जाँच हेतु सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे तत्सम्बन्धी आवश्यक जाँच नहीं की जा सकी। अतएवं पत्रावली सम्परीक्षा में प्रस्तुत कर आवश्यक जाँच कराया जाना अपेक्षित है।

**63- पोकलेन मशीन के क्रय बिल से आयकर की कटौती न किये जाने से राजस्व की क्षति रूपये 4,16,289 एवं जी०एस०टी० रूपये 18:-**

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में चयनित माहों की व्यय प्रमाणकों की जाँच के समय प्रकाश में आया कि वाउचर संख्या 629 दिनांक 27-12-19 रूपये 1,80,50,500/- का भुगतान पी०एफ०एम०एस० इनवायर्स न० सी 121924438526 द्वारा टाटा हिटैची कान्स्ट्रक्शन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड वेल्लूर, धारवाड को किया गया था। उक्त भुगतान फर्म के इनवायर्स न० 1258144 से 12548147 दिनांक 12-6-19 इनवायर्स न० 12548157 से 12548158 दिनांक 14-6-19 10 बिलों हेतु रू० 18419850 (प्रत्येक रू० 1841985) 10 पोकलेन छोटी मशीनों के क्रय हेतु 2 प्रतिशत जी०एस०टी० रू० 3,68,379/- की कटौती के पश्चात रू० 1,80,50,500/- का किया गया था। जबकि निगम द्वारा कुल राशि रू० 1,84,18,950/- पर 2 प्रतिशत जी०एस०टी० रू० 3,68,379/- काटा जाना चाहिए था। इस प्रकार रू० 18.00 कम कटौती के कारण राजस्व क्षति हुई थी। यदि उक्त प्रकार के क्रय बिलों से आयकर कटौती न किये जाने को कोई आदेश/शासनादेश हो तो सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाए अन्य स्थिति में उक्त राजस्व क्षति की प्रतिपूर्ति कराये जाने हेतु प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है। उक्त 14 वॉ वित्त आयोग से क्रय से सम्बन्धित पत्रावली सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे पत्रावली सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे तत्सम्बन्धी आवश्यक जाँच नहीं की जा सकी। तथा उक्त आपत्ति गार्ड फाईल में संलग्न व्यय प्रमाणकों के आधार पर उल्लिखित की गयी है। अतएवं क्रय पत्रावली प्रस्तुत कर तत्सम्बन्धी आवश्यक जाँच करायी जाए।

**64- नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना एवं निस्तारण योजना सम्बन्धी टिप्पणियाँ:-**

शासनादेश संख्या 19 जी०आई०ए/नौ-7-95-3ज/95, नगर विकास अनुभाग-7, दिनांक 6-3-95 के माध्यम से प्रदेश की समस्त स्थानीय निकायों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है। कि स्वच्छता एवं सफाई बनाये रखना स्थानीय निकाय का मौलिक कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त नगरों में संचित कूड़े-कचरे को जनप्रसार सामुदायिक सहभागिता तथा निजी सैक्टर के सहयोग से इसके समुचित संचयन, परिवहन शीघ्र निस्तारण एवं अवाशिष्ट पदार्थ के वैज्ञानिक ढंग से उपयोग में लाये जाने हेतु उसे जनसामान्य के लिए सार्थक एवं उपादेय बनाये जाने का प्रयास करने हेतु भी आकर्षित किया गया था।

पुनः शासनादेश सं०-745ए/9-9-97-4रिट/97 टी०सी० नगर विकास अनुभाग, दिनांक 28-2-1997 के माध्यम से प्रदेश के समस्त नगर निगमों को उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 114(3) तथा उपधारा-18 के प्राविधानों का स्मरण दिलाते हुए निम्न विषयों पर उपविधियों बनाकर भी उपर्युक्त विषयगत को उक्त राजाज्ञा के प्रस्तर 2(1)(2)(3)(4) में क्रियान्वित करने हेतु अनुदेश दिये गये थे, जिनमें निम्नांकित विषय मुख्य रूप से थे-

- (1) नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रह तथा निस्तारण हेतु स्थल का अभिज्ञापन।
- (2) ठोस अपशिष्ट उत्पाद का अभिज्ञापित स्थल को छोड़कर अन्य किसी भी स्थल पर संग्रहीत न किया जाना।
- (3) ठोस अपशिष्ट उत्पाद के संग्रहण परिवहन, स्वास्थ्य पद निस्तारण, पुनर्चक्रानुक्रम के लिए यथोचित व्यवस्था।
- (4) चिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम के अपशिष्ट उत्पाद के निस्तारण की व्यवस्था।

ठोस अपशिष्ट प्रबंध को सबल बनाये जाने के निमित्त जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने के आशय से शासन द्वारा शा०स० 2734(1)/नौ-7-2002-4रिट/97 दिनांक 27-7-2002 के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय की अधिदेशात्मक संस्तुतियों संलग्न कर प्रेषित की गयी थी। साथ ही शासन द्वारा शासनादेश संख्या-2252(1)/नौ-7-2002-4रिट/97 दिनांक 4-6-2002 के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 888/96 अलमिश्रा एच.पटेल बनाम राज्य के क्रम में नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के लिए उपर्युक्त "लैण्डफिल साइड" में निर्धारण हेतु निर्देश दिये गये थे।

शासनादेश/अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-3563/9-7-2001-04रिट/97 दिनांक 30-7-2007 के माध्यम से उपर्युक्त जनहित याचिका के अनुपालनार्थ प्रसार में निम्न निर्देश दिये गये थे। भारत सरकार द्वारा नगरीय अपशिष्टों के निस्तारण हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंध एवं संचालन नियमावली, 2000 प्रख्यापित की गयी हैं उक्त नियमावली के नियम-4 में नगर पालिका, प्राधिकरण के दायित्व निर्धारित किये गये हैं तथा शासनादेश संख्या-6203/9-7-2007-04 रिट/दिनांक 5-3-2001 के द्वारा भारत सरकार द्वारा लागू की गयी। उक्त नियमावली के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उपरोक्त शासनादेश के प्रस्तरों में वर्णित एवं दर्शायी गयी स्थितियों के आधार पर स्पष्ट था कि भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं संचालन नियमावली, 2006 के प्राविधानों को लागू और क्रियान्वित करने का दायित्व नगरीय निकायों में निहित था। इसके अतिरिक्त निकायों के द्वारा वर्णित दायित्वों को भलीभाँति पूर्ण/सम्पन्न/क्रियान्वित करने के आशय से नियमावली के बिन्दू संख्या 25(1) में प्राइवेट सैक्टर को भी इस योजना में शामिल करने के निर्देश थे।

उ0प्र0 शासन द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के सम्बन्ध में उपर्युक्त प्रस्तारों में वर्णित आदेशों/निर्देशों एवं शहरी निकाय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली,2000 से सम्बन्धित जारी दिशा निर्देशों/परामर्श के दृष्टिकोण से निम्न बिन्दू विचारणीय रहे—

(1) जैसे कि उपरोक्त प्रस्तारों में वर्णित है कि उ0प्र0 शासन के आदेश क्रमशः दिनांक 6-3-95, 30-7-2001, 4-6-2002, 27-7-2002 द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था को नगरीय निकायों को दायित्व बोध सहित लागू करने हेतु पूर्व दिशा-निर्देश दिये गये थे,जबकि नगर निगम गाजियाबाद द्वारा उक्त योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में किसी संस्था से अनुबन्ध नहीं किया जा सका बताया गया था। स्पष्ट था कि यह स्थिति जनस्वास्थ्य,स्वच्छता एवं पर्यावरण के बेहतर स्तर को प्राप्त करने के उद्देश्य से उचित नहीं थी। दिनांक 28-2-97 तथाय योजना के अध्याय-25 के बिन्दू 253(17) में भी स्वच्छता सम्बन्धी विधि/नियमों के प्राविधानों एवं उनके प्रभावी किये जाने का उल्लेख किया गया था, जबकि सम्परीक्षा में ऐसे किसी प्रकार की उपविधियों/नियमों को बनाये जाने वाली स्थिति से अवगत नहीं कराया गया था। उल्लेखनीय है किह अपशिष्ट प्रबंधन से सम्बन्धित योजनाओं के नियमों/उपनियमों आदि का समावेश किये जाने पर उक्त योजना के और बेहतर ढंग से प्रभावी/क्रियान्वित किये जाने की सम्भावनायें विद्यमान थी।

अतएवं इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सहित वांछनीय स्थिति से आगामी अवसर पर स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है। उक्त योजना के अध्याय-25 के बिन्दू संख्या 2.4,2.5 में ठोस अपशिष्ट के उपचार एवं निस्तारण हेतु लैण्डफिल साईट/भूमि प्राईवेट सेक्टर-को 15 से 30 वर्ष की अवधि हेतु उचित टोकन लीजरेट पर वार्षिक आधार पर उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान किया गया था तथा नगर निगम गाजियाबाद द्वारा यदि किसी को उपलब्ध करायी गयी भूमि से किसी प्रकार का टोकन लीजरेट प्राप्त हुआ था। भूमि दी गयी थी तो सम्परीक्षा को अवगत कराया जाए। ऐसी स्थिति में नगर निगम को वर्ष प्रतिवर्ष आर्थिक क्षति होना परिलक्षित हुआ। जिसके सम्बन्ध में आगामी अवसर पर स्थिति स्पष्ट कराया जाना वांछित रहा।

#### **65-पर्यावरण संरक्षण एवं सवर्धन योजना:-**

नगरों को प्रदूषण सहित करने तथा पर्यावरण में सुधार लाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम,1959 की धारा-30 में उल्लिखित कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एक वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम/अभियान अमल में लाये जाने के उद्देश्य से स्थानीय निकायों को शा0सं0 1697/नौ-8-98-55(26)/92 दिनांक 27-7-98 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे।

शासन के उपरोक्त निर्देशों के दृष्टिगत नगर निगम गाजियाबाद द्वारा वृक्षारोपण हेतु एक वृहद योजना बनायी जानी थीं इसके अतिरिक्त निकाय में एकवन भी विकसित किये जाने का प्राविधान था तथा निगम द्वारा संचालित/पोषित पार्कों में से एक पार्क को स्मृति पार्क के रूप में परिवर्तित करने का दिशा-निर्देश उक्त शासनादेश में दिया गया था।

शासनादेश के प्रस्तर 3(4) के वार्षिक बजट में एक निश्चित प्रतिशत पेड लगाने, पेडों की संरचना के मद में प्राविधान किये जाने का उल्लेख किया गया था। नगर निगम गाजियाबाद द्वारा वार्षिक आय व्यय लेखा के अनुसार वर्ष 2019-20 में इस मद में निम्नविवरणानुसार बजट प्राविधान एवं व्यय किया गया था।

क्र०	मद	बजट 2019-20	बजट 19-20
1	पार्कों की क्षतिग्रस्त बाउन्डीवाल का निर्माण कार्य	2,00,00,000	21,27,546
2	ठेके पर पार्कों का अनुरक्षण कार्य	11,00,00,000	9,12,62,414

उपरोक्त व्यय एवं बजट के अवलोकन से स्पष्ट था कि नगर निगम गाजियाबाद उक्त शासनादेश के अनुपालन प्रति उदासीन था। उपरोक्त वर्णित शासनादेशों के क्रम में नगर निगम द्वारा कोई वृहद योजना नहीं बनायी गयी थी और नही कोई नगरीय एवं वन स्मृति पार्क विकसित किया गया था। अतएवं उक्त विषय के सम्बन्ध आवश्यक जानकारी सम्बन्धित अभिलेखों सहित सम्परीक्षा में उपलब्ध करायी जानी अपेक्षित है।

#### प्रकाश विभाग:-

**66-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम से प्राप्त धनराशि रूपया 5.34 करोड द्वारा कराये गये पथ प्रकाश व्यवस्था के कार्य में पाई गई अनियमितताएँ:-**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा पत्र संख्या NCRTC/DM/EUD/NN,GZB -2018 के माध्यम से नगर निगम कोष में धनराशि रूपया 5.34 करोड मेरठ रोड पर मेरठ मोड से दुहाई तक रोड के दोनो किनारों पर पोल लगाकर पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु उपलब्ध कराई गई थी। उक्त प्राप्त धनराशि से कार्य कराये जाने हेतु शासन द्वारा पत्र संख्या-1497/नो-5-19-529सं0/2016 टी0सी0 दिनांक 24 अप्रैल,2019 के द्वारा कुल 16 कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त 16 कार्यों हेतु उपलब्ध धनराशि रू0 534लाख के सापेक्ष 509.92 लाख के प्रस्ताव तैयार किये गये थे।

1- उक्त 16 कार्यों में क्रमांक 02 पर अंकित "मेरठ रोड गोल चक्कर से होम कान्सेप्ट 38 हरवंश नगर मेरठ रोड आर्यनगर मोड एंटी पर दायी ओर 9 मी0जी0 आई0डैकोरेटिव पोल पर सिंगल आर्म लगाकर मार्ग प्रकाश व्यवस्था का कार्य उक्त कार्य की आगणन धनराशि रू0 36,75,647-स्वीकृति निविदा धनराशि रूपये 33,44,838/- 9 प्रतिशत कम दर पर मेसर्स शिव कन्स्ट्रक्शन गाजियाबाद को

2- प्रतिशत क्रमांक 9 पर अंकित न्यू जस्सर ट्रान्सपोर्ट कं0 मोरटा पुलिस चौकी से दुर्गा मोटर्स टाटा ऑथराईज्ड सर्विस स्टेशन भारत बैंज तक 9 मी0जी0आई डैकोरोटिव पोल पर लाईट लगाकर पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य/ आगणन धनराशि-3,53,735/- निविदा स्वीकृति धनराशि 32,18,989/- 9प्रतिशत कम दर पर मेसर्स मार्डन इलै0 एण्ड मैकेनिकल ट्रेडर्स।

3- क्रमांक-12 पर अंकित दुर्गा मोटर्स टाटा आथराईज्ड सर्विस स्टेशन भारत बेंज से आई0एम0आर0 कालेज आई0डी0 बी0आई0ए0टी0एम0 के पास (बायीं ओर) 9 मी0 जी0आई0 डेकोरेटिव पोल पर सिंगल आर्म लगाकर पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य - आगणन धनराशि-35,89,225/- निविदा स्वीकृति धनराशि-3266194 9 प्रतिशत कम दर पर मेसर्स आर0के0 इन्टर प्राइजेज मथुरा।

4- क्रमांक-11 पर अंकित दुर्गामोटर्स टाटा आथराईज्ड सर्विस स्टेशन भारत बेंज से आई0एम0आर0कालेज,आई0डी0बी0आई0,ए0डी0एम0के पास (दायीं ओर) 9 मीटर जी0आई0डेकोरेटिव पोलपर सिंगल आर्म लगाकर मार्ग प्रकाश व्यवस्था के कार्य-आगणन धनराशि-3312306 निविदा स्वीकृति 9प्रतिशत कम दर पर रू0 29,23,198/- मेसर्स मॉडर्न इलै0एण्ड मैकेनिकल ट्रेडर्स गाजियाबाद।

उपरोक्त चारों कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच के समय निम्नांकित कमियाँ प्रकाश में आयीं-

1- उक्त क्रमांक-1 पर अंकित कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की नोटिंग साईड के पृष्ठ-16 पर दिनांक 3-1-2020 को नगर आयुक्त महोदय द्वारा काय करने वाली फर्मों पर रू0 50,000/- आर्थिक दण्ड लगाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी तथा यह भी निर्देशित किया गया था कि एक सप्ताह में कार्य पूर्ण न होने पर अनुबन्ध निरस्त करने तथा फर्मों को काली सूची में अंकित करने की कार्यवाही करें। संलग्न माप पुस्तिका के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 1-12-2020 को पूर्ण होना प्रदर्शित था उक्त के अतिरिक्त क्रमांक-2 पर अंकित कार्य दिनांक 30-9-2020 क्रमांक-3 पर अंकित कार्य दिनांक 29-12-2000 एवं क्रमांक-4 पर अंकित कार्य दिनांक 20-9-20 को पूर्ण होना प्रदर्शित कर उपरोक्त निर्देश दिनांक 3-1-2020 के क्रम में क्या कार्यवाही की गयी पत्रावली में उपलब्ध नहीं थी, जबकि समस्त कार्य 10 जनवरी,2020 के बाद ही पूर्ण होना प्रदर्शित था लेकिन उक्त निर्देश के क्रम में कार्यवाही न किया जाना आपत्तिजनक था। अतएवं उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है।

2-क्रमांक-4 पर अंकित कार्य की पत्रावली की नोटशीट संख्या-8/20 दिनांक 4-7-19 द्वारा नगर आयुक्त द्वारा मुख्य नगर लेखा परीक्षक से कार्य को टुकड़ों में कराये जाने का औचित्य क्या है। इसके कोई वित्तीय/तकनीकी विचलन तो नहीं है। पर आख्या की मॉग की गयी थी। मुख्य नगर लेखा परीक्षक द्वारा अधिशासी अभियन्ता प्रकाश से दिनांक 6-7-19 को तीन बिन्दुओं (1)कार्य की एक निविदा क्यों नहीं करायी गयी(2) कार्य को टुकड़ों में बाँटने से प्राप्त निविदा दरों के विचलन की गुजाइंश है(3) कार्य की गुणवत्ता पर तो कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा स्पष्ट किया जाए। उक्त के जबाब में अधिशासी अभियन्ता द्वारा दिनांक 8-7-19 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा रैपिड रेल के निर्माण शीर्ष प्राथमिकता होने के कारण मण्डलायुक्त महोदय द्वारा प्रतिमाह समीक्षा किये जाने एवं राष्ट्रीय राजधानी परिवहन निगम द्वारा उक्त कार्य को तीव्र गति से किये जाने तथा वर्तमान मास में श्रावण मास कौवड यात्रा का दबाव उक्त रोड पर होने के कारण उक्त कार्य को 16 टुकड़ों में बाँट कर 718 पोल एवं लाईटें लगाये जाने का कार्य कराया

प्रस्तावित किया गया था जिसमें कोई वित्तीय विचलन न होने एवं गुणवत्ता के सम्बन्ध में फिलिप्स की 130 वॉट लाईट केबिल हैवल्स पालीकैब मेक का लगवाया जाना प्रस्तावित किया गया था तथा फाउन्डेशन के सैम्पल की जाँच किसी वाह्य एजेन्सी से करायी जानी प्रस्तावित थी। नोटशीट-28/40 दिनांक 1-10-19 द्वारा कार्य प्रारम्भ न होने तथा कार्य की गुणवत्ता एवं टुकड़ों में कार्य कराये जाने के लिए अधिशाषी अभियन्ता प्रकाश का स्पष्टीकरण प्राप्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था लेकिन नगर आयुक्त महोदय की उपर्युक्त टिप्पणी दिनांक 1-10-19 के क्रम में कोई कार्यवाही नहीं की गयी और नहीं अधिशाषी अभियन्ता प्रकाश की आख्या दिनांक 8-7-19 में उल्लिखित कौवड यात्रा एवं आर.आर.टी.सी० के अनुरोध के क्रम में कार्य शीघ्र किये जाने सम्बन्धी उद्देश्य की पूर्ति हो सकी यह आपत्तिजनक था अतएवं उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही शा०सं० 6736/23—2006-176(साठ)/99 दिनांक 5 जनवरी,2007 द्वारा भी कार्य को टुकड़ों में कराये जाने पर प्रतिबंधित किया गया था,जिससे उक्त कार्य उक्त शासनादेश के विपरीत था।

3- अधिशासी अभियन्ता विद्युत/यात्रिक की उक्त क्रमांक-4 पर अंकित कार्य की पत्रावली की नोटिंग साईड के पृष्ठ सं०- 9/21 पर अंकित टिप्पणी दिनांक 8-7-19 जो गुणवत्ता के सम्बन्ध में फिलिप्स की 130 वॉट लाईट एवं केबिल हैवल्स पालीकैब मेक का लगाये जाने एवं सभी फर्मों द्वारा बनवायी जा रही फाउन्डेशन के सैम्पल की जाँच किसी वाह्य एजेन्सी से कराये जाने का उल्लेख किया गया था जिसे नगर आयुक्त द्वारा अंश 'ए' दिनांक 29-8-19 पृष्ठ संख्या 28/40 पर स्वीकृत किया गया था उक्त की पुष्टि हेतु कोई भी अभिलेख पत्रावली में संलग्न नहीं था जो गम्भीर रूप से आपत्ति जनक था अतएवं उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है।

4- उक्त चारों पत्रावलियों में लगायी गयी लाईटों एवं पोलो को स्टॉक पंजी में पृविष्टि किये जाने का उल्लेख नहीं था और नहीं सम्बन्धित स्टॉक पंजी सम्परीक्षार्थ जाँच हेतु प्रस्तुत की गयी जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उक्त लाईटों एवं पोलो की पृविष्टि स्टॉक पंजी में की गयी थी अथवा नहीं। अतएवं उपर्युक्त लाईटों एवं पोलो की यदि स्टॉक पंजी में प्रविष्टि की गयी हो तो सम्परीक्षा में प्रस्तुत कर आवश्यक जाँच करायी जाए, अन्यथा स्थिति में सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

5-उक्त क्रमांक-2 पर अंकित कार्य में 25 के०वी०ए० ट्रांसफार्मर की स्थापनाय करायी गयी थी। ट्रांसफार्मर की स्थापना का कार्य विद्युत विभाग द्वारा भी किया जाता है विद्युत विभाग से एन०ओ०सी० प्राप्त किये जाने सम्बन्धी अभिलेख सम्बन्धित पत्रावली में नहीं था जिससे दोहरा कार्य/भुगतान की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता अतएवं उक्त से सम्बन्ध में कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

6- उक्त क्रमांक-3 पर अंकित कार्य की पत्रावली में संलग्न अनुबन्ध पत्र की शर्त सं०-3 के अनुसार कार्य पूर्ण होने पर ही कार्य के सापेक्ष भुगतान किये जाने का उल्लेख था उक्त

कार्य 29-12-20 को पूर्ण होना प्रदर्शित था जबकि प्रथम भुगतान रू0 15,88,400/- दिनांक 16-3-2020 को ही किया गया था यह उक्त शर्त का उल्लंघन था।

7- उक्त क्रमांक-2 पर अंकित कार्य की नोटशीट-पृष्ठ 2 पर 16 कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति एवं ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निविदा मांगे जाने का उल्लेख था जिसकी स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 4-6-19 को दी गयी थी जबकि पत्रावली के नोटशीट पृष्ठ सं0 4 से 8 में 19 कार्यों हेतु आनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी थी। जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम से प्राप्त धनराशि रू0 534लाख से मेरठ मोड से दुहाई तक रोड के दोनो किनारे पर पोल लगाकर पथ प्रकाश व्यवस्था कराये जाने हेतु 16 कार्य कराये जाने थे अतएवं 16 कार्यों के स्थान पर 19 कार्यों की निविदा आमंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है।

अतएवं उपरोक्त कमियों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाये अन्यथा स्थिति में उक्त कमियों हेतु उत्तरदायी के खिलाफ आवश्यक/प्रभावी कार्यवाही किया जना अपेक्षित है।

**67- 14 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु नगर निगम द्वारा कराये गये 4 कार्यों में पाई गई अनियमितताएँ एवं अर्थदण्ड न वसूलने के कारण आर्थिक क्षति रू0 31,56,500 /-:-**

मण्डलायुक्त मेरठ मण्डल मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 27-10-18 को 14 वे वित्त आयोग की बैठक के अन्तर्गत नगर निगम गाजियाबाद की सम्पन्न हुई बैठक के प्रस्ताव सं0-03 पार्ट-बी क्रमांक -4 पर मोहन नगर जोन में निम्नलिखित 4 कार्यों हेतु कार्य योजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी-

1-जी0टी0रोड पर अर्थला पीर से लाजपत नगर तक 110 नग जी0आई पोल व 220 नग एल0ई0डी0 लाईट प्रकाश व्यवस्था का कार्य धनराशि 79.14 लाख।

2- जी.टी रोड पर नया वस अड्डा से अर्थला पीर तक 110 नग जी0आई पोल एवं 220 नग एल.ई.डी लाईट लगाकर प्रकाश व्यवस्था का कार्य धनराशि रू0 80,60 लाख।

3- जी0टी0 रोड पर लाजपत नगर से वीकानेर स्वीट्स तक 65 नग जी0 आई0पोल व 125 नग एल0ई0डी0 लाईट लगाकर प्रकाश व्यवस्था का कार्य धनराशि रू0 46.84।

4- जी0टी0 रोड पर वीकानेर स्वीट्स से दिलशाद गार्डन बॉर्डर तक 115 नग जी0आई0पोल व 230 नगर एल0ई0डी0 लाईट प्रकाश व्यवस्था का कार्य धनराशि रू0 82.47 लाख।

उपर्युक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच से निम्नलिखित अनियमितताएँ प्रकाश में आई-

(क) (1) उक्त क्रमांक-1 की पत्रावली में संलग्न आगणन रूपया जी0एस0टी0 सहित रू0 7360962/- एवं जी0एस0टी0 रहित रूपया 6587070/- पर किसी भी बनाने वाले अवर



अभियन्ता एवं सत्यापित कराने वाले सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे। यह अनियमित एवं आपत्तिजनक था बिना हस्ताक्षरित एवं सत्यापित आगणन पर निविदा आमंत्रित किया जाना एवं स्वीकृति लिया जाना आपत्तिजनक था।

(2) उक्त कार्य हेतु कुल तीन टेण्डर प्राप्त हुए थे जिसमें न्यूनतम टेण्डर(-4.00 प्रतिशत न्यून) जी0एस0टी0 रहित रूपया 6323587.20 का था जिसमें 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 रू0 726465.10 जोड़कर जो रू0 6323587-2287670 एल0ई0डी0 लाईट अर्थिंग को छोड़ते हुए रू0 4035917.20 पर आगणित या कुल टेण्डर मूल्य रू0 7050052.30 पर दिनांक 16-6-19 को नगरायुक्त द्वारा मै0 आर0के0एन्टर की निविदा स्वीकृति की गई थी। उक्त कार्य हेतु अधिशासी अभियन्ता(वि0/यो) द्वारा कार्यादेश सं0-250/प्रकाश/2019 दिनांक 19-6-19 दिया गया था जिसमें कार्य की प्रारम्भ तिथि 21-6-2019 एवं कार्य समाप्ति तिथि 14-8-2019 थी। माप पुस्तिका सं0 8055 के पृ0सं0 6 के अनुसार उक्त कार्य 23-12-19 को समाप्त हुआ था जबकि देरी से कार्य करने के कारण (लगभग 131 दिवस विलम्ब) फर्म में0 आर0के0एन्टर प्राईजज से कोई दण्ड नहीं वसूला गया था। पत्रावली में संलग्न अनुबंध पत्र कार्यादेश में अर्थदण्ड से सम्बन्धित कोई शर्त अंकित नहीं की गयी थी किन्तु नगर निगम के विद्युत विभाग की अन्य पत्रावलियों में लगे अनुबंध पत्र की शर्त सं0 6 के अनुसार" फर्म द्वारा एल.ई.डी. लाइटों की आपूर्ति समयावधि में न करने पर प्रतिदिन रूपया 25 प्रति लाईट शुल्क देय होगा" अतः उक्त के अनुसार  $131 \times 25 \times 220 = 720500/-$  अर्थदण्ड फर्म से वसूल न किये जाने के कारण नगर निगम को आर्थिक क्षति हुई थी जिसकी वसूली अपेक्षित है।

(3) पत्रावली में आइटम बार कॉन्ट्रैक्टर बिल संलग्न नहीं था। मात्र इनवॉयस न-66 दिनांक 15-12-19 लगा हुआ था, जिसे कार्य समाप्ति तिथि 23-12-19 से पूर्व ही भुगतान हेतु ठेकेदार द्वारा दे दिया गया था जिसे नगरायुक्त द्वारा 27-2-19 को स्वीकृत एवं लेखा विभाग द्वारा दिनांक 30-12-19 को भुगतान किया गया था। अतः कॉन्ट्रैक्टर बिल पत्रावली में संलग्न करना सुनिश्चित किया जाये।

(4) उक्त कार्य से सम्बन्धित आपूर्तित सामग्री की स्टॉक बुक सम्परीक्षा में अप्रस्तुत रही जिस कारण सामग्री की गिनती एवं गुणवत्ता तथा निर्गमन की स्थिति अज्ञात रही एवं भुगतानित धनराशि का सत्यापन सम्परीक्षा में न किया जा सका।

(5) उक्त कार्य की जमानत हेतु एफ.डी.आर रू0 705005/- या छायाप्रति पत्रावली में संलग्न नहीं थी जिस कारण इसका जमा का सत्यापन न हो सका। इसका सत्यापन कराया जाए।

(ख) (1) उक्त क्रमांक-2 पर अंकित कार्य हेतु कुल 5 टेण्डर प्राप्त हुए थे, जिनमें न्यूनतम टेण्डर मै0 कैपिटल कन्स्ट्रक्शन का (-3.26 प्रतिशत न्यून) रूपया 37,12,590-98 का था। आगणन जी0एस0टी0 सहित रू0 42,78,722.50 एवं जी0एस0टी0 रहित रू0 38,37,700/- का था।

(2) अधिशासी अभियन्ता(वि/या) के कार्यादेश सं-247/प्रकाश/2019 दिनांक 19-6-19 के अनुसार कार्य प्रारम्भ तिथि 21-6-19 एवं कार्य समाप्ति तिथि 14-8-2019 थी। उक्त कार्य हेतु रू0 3660115.00 (18प्रतिशत जी0एस0टी0सहित) का प्रथम रनिंग बिल की माप दिनांक 12-10-19 को एवं द्वितीय/फाईनल बिल रू0 9,29,675/- का दिनांक 12-11-19 को (माप पुस्तिका सं0-7510 पृ0स0 12 के अनुसार पूर्ण हुआ था। इस प्रकार स्पष्ट था कि सम्पूर्ण कार्य 12-11-19 को पूर्ण हुआ था जो 90 दिवस विलम्ब से पूर्ण हुआ था किन्तु मै0 कैपीटल कन्स0से बिलम्ब अवधि हेतु कोई अर्थदण्ड नहीं वसूला गया था। अनुबंध पत्र की शर्त सं0 2 में स्पष्ट उल्लेख था कि "उक्त शर्तों के साथ नगर निगम ठेके की सामान्य शर्तें भी लागू होंगी।" किन्तु कार्यादेश एवं अनुबंध पत्र में अर्थदण्ड से सम्बंधित कोई शर्त न लिखना अनियमित, आपत्तिजनक एवं विधिक हितों के प्रतिकूल था। नगर निगम के विद्युत विभाग की अन्य पत्रावलियों में अनुबंध पत्र की शर्त सं0-6 के अनुसार " फर्म द्वारा एल0ई0डी0 लाइटों की आपूर्ति समयावधि में न करने पर प्रतिदिन रूपया 25 प्रति लाईट शुल्क देय होगा। अतः उक्त के अनुसार 90 दिवस×25 रूपया दर×125 लाईट=2,81,250/- रूपया का अर्थदण्ड फर्म से वसूल न किया जाने के कारण नगर निगम को रू0 2,81,250/-की आर्थिक क्षति हुई थी।

(3) उक्त कार्य का आगणन पत्रावली में संलग्न नहीं थी। बा0ओ0क्यू एवं विचलन विवरण संलग्न था। आगणन न संलग्न करना अनियमित एवं आपत्तिजनक था। इस कारण यह ज्ञात न हो सका कि आगणन किसके द्वारा बनाया गया था एवं किसके द्वारा स्वीकृत/सत्यापित किया गया तथा आगणन में ली गई दो प्रमुख अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग, लखनउ(वि0/या0 वर्ग) के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1586(प) ई0एम/14ई0डब्लू-सी.ई.(ई./एम)-टी.सी.-15/19-20 दिनांक 15-7-2019 के अनुसार थी।

(4) पत्रावली में आइटमवार कॉन्ट्रेक्टर बिल संलग्न नहीं थे/मात्र द्वितीय बिल का इनवॉयस बिल संलग्न था। यह अनियमित था। इन्हें संलग्न किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(5) उक्त कार्य हेतु आपूर्तित सामग्री की स्टॉकबुक अप्रस्तुत रही जिस कारण उनकी गिनती,गुणवत्ता एवं निर्गमन की स्थिति अज्ञात रही एवं भुगतानित धनराशि का सत्यापन सम्भव न हो सका।

(6) उक्त कार्य की जमानत हेतु एफ.डी.आर सं0-343634/-,343638/- एवं 042886/- धनराशि रूपया 415000/-की मूल/छायाप्रति पत्रावली में संलग्न नहीं थी जिस कारण इसकी जमा का सत्यापन न हो सका। इसका सत्यापन कराया जाए।

(ग) (1)- कमांक 3 पर अंकित कार्य हेतु कुल 3 निविदायें प्राप्त हुई थी,जिनमें न्यूनतम निविदा (-4प्रतिशत न्यून) मै0 आर0के एन्टरप्राईजेज की थी। उक्त कार्य का आगणन रू0 7250378(जी0एस0टी सहित) एवं रू0 6485540(जी0एस0टी रहित)था अतः सर्वन्यून निविदारा रू0 6226118/- में से एल0ई0डी0 लाईट,अर्थिंग के रूपये 2287670 को छोड़ते हुए घनुक रू0 3938448/- पर 18 प्रतिशत जी0एस0टी रू0 708920/-लगाया गया था। तदुपरान्त रू0 4097583 हेतु नगरायुक्त की स्वीकृति दिनांक 18-6-19 को ली गई थी।

(2) अधिशासी अभियन्ता (वि/या)के कार्यादेश सं० 258/प्रकाश/2019 दिनांक 25-6-19 के अनुसार कार्य प्रारम्भ तिथि 26-6-2019 एवं कार्य समाप्ति तिथि 14-8-2019 थी। उक्त बिल की माप पुस्तिका सं०-8055 के पृष्ठ सं.-11 के अनुसार उक्त कार्य की माप दिनांक 24-12-19 को अवर अभियन्ता द्वारा ली गई थी। अतः स्पष्ट था कि उक्त कार्य 132 दिवस विलम्ब से हुआ था किन्तु नगर निगम द्वारा उक्त फर्म मै० आर०के०एन्टरप्राइजेज से कोई अर्थदण्ड नहीं वसूला गया था। अनुबंध पत्र की शर्त सं०-2 में स्पष्ट उल्लेख था कि "उक्त शर्तों के साथ नगर निगम ठेके की सामान्य शर्तें भी लागू होगी" किन्तु कार्यादेश एवं अनुबंध पत्र में अर्थदण्ड से सम्बंधित कोई शर्त अंकित न करना अनियमित आपत्तिजनक एवं नगर निगम के विधिक हितों के प्रतिकूल था। नगर निगम के विद्युत विभाग की अन्य पत्रावलियों में अनुबंध पत्र की शर्त सं०-6 के अनुसार "फर्म द्वारा एल.ई.डी. लाइटों की आपूर्ति समयावधि में न करने पर प्रतिदिन रू० 25 प्रति लाईट शुल्क देय होगा। अतः उक्त के अनुसार 132 दिवस×25 रूपया दर×125 लाईट=4,12,500 रूपया का अर्थदण्ड फर्म से वसूल न किये जाने के कारण नगर निगम को रू० 4,12,500/- की आर्थिक क्षति हुई थी।

(3) उक्त कार्य की आगणन रू० 72,50,378/- पत्रावली में संलग्न था किन्तु उस पर तैयार करने वाले अवर अभियन्ता एवं स्वीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे। वित्त आगणन स्वीकृत कराये टेण्डर आमंत्रित किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक था।

(4) पत्रावली में आइटमवार कान्ट्रैक्टर बिल संलग्न नहीं थे मात्र इनवॉयस बि०सं० 65 दिनांक 12-12-19 संलग्न था। यह अनियमित था इसे पत्रावली में संलग्न किया जाए।

(5) उक्त कार्य हेतु आपूर्तित सामग्री की स्टॉक बुक सम्परीक्षा में अप्रस्तुत रही जिससे कारण उनकी संख्या,गुणवत्ता तथा निर्गमन की स्थिति अज्ञात रही एवं भुगतानित धनराशि का सम्परीक्षा में सत्यापन न हो सका।

(6) उक्त कार्य की जमानत के सापेक्ष एफ०डी०आर० धनराशि रू० 4,09,758/-की मूल/छायाप्रति पत्रावली में संलग्न नहीं थी जिस कारण इसकी जमा का सत्यापन न हो सका। इसका सत्यापन कराया जाए।

(घ)(1) क्रमांक 4 पर अंकित कार्य का आगणन रूपय 75,33,357/- (जी०एस०टी सहित)एवं रू० 6749030/- (जी०एस०टी०) था। उक्त कार्य हेतु कुल 4 निविदायें प्राप्त हुई थी। सर्वन्यून निविदा(-3.50प्रतिशत न्यून) मै० आर०बी एसोसिएट्स की थी जो जी०एस०टी रहित दर पर रूपया 6512813.95 की थी जिसमें से रू० 2391655 एल.ई.डी. लाईट अर्थिंग रोड कटिंग को छोड़ते हुए रू० 4121158.95 पर 18 प्रति जी.एस.टी रू० 741809/-सम्मिलित करते हुए घनांक रू० 7254623/-है जो आगणन रू० 7533357/- में से 278734 अर्थात् 3.70 प्रतिशत कम की स्वीकृति दिनांक 16-6-19 को नगरायुक्त द्वारा प्रदान की गयी थी।

(2) अधिशासी अभियन्ता (वि०/या) के कार्यादेश सं०-240/प्रकाश/2019 दिनांक 17-6-19 के अनुसार कार्य प्रारम्भ तिथि 21-6-19 एवं कार्य समाप्ति तिथि 14-8-19

थी। उक्त कार्य के प्रथम चलित बिल रूपया 4924878/-की माप पुस्तिका सं0-6834 के पृ0सं0 6से 11 पर दिनांक 13-6-20 को अंकित की गई थी। उक्त से स्पष्ट था कि सम्पूर्ण कार्य दिनांक 13-6-20 को समाप्त हुआ था। इस प्रकार उक्त कार्य 303 दिवस विलम्ब से पूर्ण हुआ था किन्तु नगर निगम द्वारा मै0 आर0वी0एसोसिएटस से कोई धनराशि अर्थदण्ड के रूप में वसूल नहीं की गयी थी। अन्य कार्यों की पत्रावली के भुगतान अनुबंध पत्र की शर्त सं0-6 में स्पष्ट उल्लेख था कि रूपया 25 प्रति लाईट प्रतिदिन अर्थदण्ड विलम्ब अवधि हेतु देय होगा किन्तु कार्यादेश अनुबंध पत्र में अर्थदण्ड में सम्बंधित कोई शर्त अंकित न करना अनियमित आपत्तिजनक एवं नगर निगम के विधिक हितों के प्रतिकूल था। अतः उक्त कार्य हेतु 303 दिवस  $\times 25$ रु दर $\times 230$ =रूपया 1742250/-अर्थदण्ड मै0 आर0पी0एसोसिएटस से न बसूलने के कारण नगर निगम को आर्थिक क्षति हुई थी।

(3) उक्त कार्य का आगणन पत्रावली में संलग्न नहीं था। वी0ओ0क्यू0 संलग्न था। आगणन संलग्न न करना अनियमित एवं आपत्तिजनक था आगणन के अभाव में यह ज्ञात न हो सका कि आगणन किसके द्वारा बनाया गया था एवं किसके द्वारा स्वीकृत सत्यापित किया गया था तथा आगणन में ली गई दरें प्रमुख अभियन्ता लो0नि0वि0 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1586(9)ई.एम/14 ई.डब्ल्यू- सी0ई0(ई/एम)-टी.सी0-15/19-20 दिनांक 15-7-19 के अनुसार थी।

(4) पत्रावली में आइटमवार कान्ट्रैक्टर बिल संलग्न नहीं थे। मात्र इनवॉयस बिल सं0-14 दिनांक 5-3-20 धनराशि रूपया 49,24,878/- संलग्न था। यह अनियमित था। इसे पत्रावली में संलग्न किया जाए।

(5) उक्त कार्य हेतु आपूर्तित सामग्री की स्टॉक बुक अप्रस्तुत रही जिस कारण उनकी संख्या गुणवत्ता एवं निर्गमन की स्थिति अज्ञात रहीं एवं इसके अभाव में भुगतानित धनराशि का सत्यापन न हो सका।

(6) उक्त कार्य की जमानत हेतु एफ0डी0आर सं-38260345083/-धनराशि रू0 98000/-की मूल/छायाप्रति पत्रावली में संलग्न नहीं थी जिस कारण इसकी जमा का सत्यापन न हो सका। इसका सत्यापन कराया जाए।

उक्त सभी चार कार्यों की पोल पंजी तैयार नहीं की गई थी एवं न ही उक्त पत्रावलियों में भौतिक सत्यापन रिपोर्ट संलग्न थी।

**68- 14 वे वित्त आयोग से विभिन्न प्रकार की एल0ई0डी लाईटों की आपूर्ति एवं अधिष्ठान में पायी गयी अनियमिततायें एवं कार्य में विलम्ब अवधि हेतु विलम्बा शुल्क की वसूली न किये जाने से आर्थिक क्षति रूपये 45,00,000/-:-**

आयुक्त महोदया मेरठ मण्डल मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 27-10-2018 को आयोजित समिति की बैठक के प्रस्ताव संख्या-3 पार्ट बी द्वारा नगर निगम गाजियाबाद की 14 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु एल0ई0डी0 लाईट 90 वाट, 72 वाट, 50वाट एवं 30 वाट मय ब्रेकिट,क्लैम्प,केबिल वायर एवं एम0सी0बी0 सहित प्रत्येक 800

नग समस्त जोनों में आपूर्ति /स्थापित किये जाने हेतु कार्य योजना स्वीकृत की गयी थी। उक्त स्वीकृत कार्ययोजना के कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच के समय निम्नांकित कमियों/ अनियमिततायें प्रकाश में आयी—

1- उपरोक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों में आगणन पत्र संलग्न नहीं था,जिससे तत्सम्बन्धी आवश्यक जाँच नहीं की जा सकी अतएवं आगणन प्रस्तुत कर आवश्यक जाँच करायी जाए।

2- उपर्युक्त लाईटों की आपूर्ति/अधिष्ठापन के सत्यापनार्थ स्टॉक पंजी जाँच हेतु नहीं प्रस्तुत की गयी। यह गम्भीर रूप से आपत्तिजनक था। अतएवं स्टॉक पंजी प्रस्तुत कर उक्त लाईटों की आपूर्ति/अधिष्ठापन सत्यापित कराया जाए एवं अन्य तत्सम्बन्धी आवश्यक जाँच करायी जाए।

3- उक्तानुसार चारों कार्यों हेतु कुल 3200 स्ट्रीट लाईटें विद ब्रेफिट,क्लैम्प केविल वायर एवं एम0सी0बी0 सहित आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य किया गया था। उक्त के सापेक्ष कितनी लाईटें ब्रेफिट, क्लैम्प, केबिल वायर एवं एम0सी0बी0 पूर्व में लगायी थी जिनका न तो टेकेदार के बिल से पुराने सामानों की कीमत घटायी गयी थी और न ही निगम के डैड स्टॉक पंजी में दर्ज किये जाने का उल्लेख था। यह गम्भीर रूप से आपत्तिजनक था तथा स्कैप वैलू की सीमा तक नगर निगम को आर्थिक क्षति हुई थी। अतएवं उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाए अन्यथा स्थिति में आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से कराया जाना अपेक्षित है।

4- निविदा की शर्त नं0 8 के अनुसार आपूर्ति/स्थापित किये गये सामान की ओरिजनल होने की गारंटी के प्रमाण हेतु निर्माता कम्पनी का चालान प्रस्तुत करना था लेकिन फर्म द्वारा ऐसा नहीं किया गया था। यह गम्भीर रूप से आपत्तिजनक था।

5- एल0ई0डी0 लाईट की गारंटी/वारंटी का प्रमाण पत्र फर्म/कम्पनी को प्रस्तुत करना होगा। यदि आपूर्ति/अधिष्ठापित की गई लाईटों में खराबी पायी जाती है तो आपूर्ति कर्ता फर्म/कम्पनी द्वारा एल0ई0डी0 लाईटों को अपने खर्चे द्वारा ठीक किया जायेगा। उक्त आशय का प्रमाण पत्र के स्थान पर अनुबध की शर्त न04 में फर्म द्वारा सप्लाई एल.ई.डी. लाईट की गारन्टी/वारन्टी देनी आवश्यक होगी अंकित की गयी थी लेकिन फर्म/कम्पनी द्वारा उक्त आशय का गारंटी/वारंटी पत्र प्राप्त कर संलग्न नहीं किया गया था, जिससे गारन्टी/वारंटी की पुष्टि नहीं हो सकी। अतएवं गारंटी/वारंटी प्रमाण पत्र प्राप्त कर पत्रावली में संलग्न किया जाना अपेक्षित है।

6- उपर्युक्त चारों कार्यों हेतु न्यूनतम निविदा के आधार पर निम्नांकित विवरणानुसार छः फर्मों को कार्य/आपूर्ति आदेश संख्या-408 से 413 दिनांक 7-12-19 द्वारा 5 दिन में अर्थात् दिनांक 12-12-19 तक कार्य समाप्ति किये जाने का निर्देश अधिशासी अभियंता(वि. या.)नगर निगम गाजियाबाद के उक्त कार्यादेश दिनांक 7-12-19 में था जबकि फर्मों द्वारा

निम्नांकित विवरणानुसार माप पुस्तिकाओं के अनुसार 33से85 दिवस तक विलम्ब से कार्य सम्पादित किया गया था। फर्म एवं अधिशासी अभियंता के अनुबंध 40 के क्रमांक 6 पर उल्लिखित शर्त के अनुसार फर्म द्वारा एल0ई0डी0 लाईटों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन कार्य समयावधि में न करने पर प्रतिदिन रू025 प्रतिलाईट की विलम्ब शुल्क वसूल किया जाना था इस प्रकार विलम्बित अवधि हेतु विलम्ब शुल्क वसूल न किये जाने से नगर निगम को रूपये 45,00,000/- की आर्थिक क्षति हुयी थी जिसकी उत्तरदायी से प्रतिपूर्ति कराया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है।

क्र०	फर्म का नाम	लाईट का प्रकार	कार्यादेश अनुसार समाप्ति तिथि	मापपुस्तिका के अनुसार समाप्ति तिथि	विलम्बित दिन	लाईट की संख्या	दर प्रतिदिन	विलम्ब शुल्क वसूल न किये जाने से आर्थिक क्षति
1	मै०एम.के.कस्ट.कम्प.	90वाट	12-12-19	28-1-20	47	400	25	470000
2	मे.आर.वी.एसोसिएट	90वाट	12-12-19	24-1-20	43	400	25	430000
3	मे.आर.के.इन्टरप्राइ.	72वाट	12-12-19	19-2-20	69	800	25	13,80000
4	मे.कैपिटल कन्सट.	50वाट	12-12-19	2-2-20	52	800	25	1040000
5	मै. शिव कन्स्ट्रक्शन	40वाट	12-12-19	7-3-20	85	400	25	850000
6	मै.कैपिटल कन्स्ट.	40वाट	12-12-19	14-1-20	33	400	25	330000
							योग	45,00,000

7- कार्ययोजना 30 वाट की एल0ई0डी0 लाईट स्थापित कराने हेतु स्वीकृत थी लेकिन 40वाट की एल0ई0डी0 लाईट की स्थापना का कार्य कराया गया था उक्त के सम्बन्ध में स्थिति सपष्ट कराया जाना अपेक्षित है।

**69-14 वें वित्त आयोग द्वारा मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु नगर निगम द्वारा कराये गये 5 कार्यों में पायी गयी अनियमिततायें एवं अग्राह्य/अनियमित व्यय रूपये 313823/- विलम्ब शुल्क की वसूली न किये जाने से न्यूनतम आर्थिक क्षति रूपये 16,92,250/-**

मण्डलायुक्त,मेरठ मण्डल की अध्यक्षता में दिनांक 17-7-17 को 14 वे वित्त आयोग की बैठक के अन्तर्गत नगर निगम गाजियाबाद की सम्पन्न हुयी बैठक के प्रस्ताव सं० 5 द्वारा मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु निम्नांकित विवरणानुसार 5 कार्यों हेतु कार्ययोजना स्वीकृति की गयी थी।

1- राम चमेली चडढा गर्ल्स कालेज से हमदर्द के सामने वाली रोड तक 60 नग 9मीटर ऑक्टोजोनल गैल्वेनाईज्ड विद्युत पोल पर 120 नग 72 वाट एल0ई0डी0 लाईट अधिष्ठापित करने का कार्य धनराशि 52.70 लाख

2- मेरठ रोड डी0पी0एस0स्कूल से रेलवे कासिंग तक 40 नग 9मीटर आक्टोगोनल गैल्वनाइज्ड विद्युत पोल पर 80 नग 72 वाट एल0ई0डी0 लाईट एवं सब स्टेशन डबलपोल स्ट्रक्चर,63 के0बी0ए0 का ट्रान्सफार्मर अधिष्ठापित करने का कार्य-धनराशि -38.54 लाख  
3- वार्ड-न032 नन्दग्राम मुख्य मार्ग (100फुटा) पर 40 नग 9 मीटर आक्टोगोनल गैल्वनाइज्ड विद्युत पोल पर 80 नग एल0ई0डी0 लाईट 72 वाट अधिष्ठापित करने का कार्य-धनराशि 36.49 लाख 4.80 फुटा रोड(शालीमार गार्डन) व विक्रम इन्कलेव बजीरावाद रोड से सीमापुरी बार्डर तक 55 नग 9मीटर आक्टोगोनल गैल्वनाइज्ड विद्युत पोल पर 55 नग 9मीटर आक्टोगोनल गैल्वनरईज विद्युत पर 120 नग 72 वाट एल0ई0डी0 लाईट अधिष्ठापित करने का कार्य-धनराशि रुपये-23.60 लाख उपर्युक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच के समय निम्नांकित विवरणानुसार कमियाँ प्रकाश में आयी-

1-उपर्युक्त स्वीकृत पॉचों कार्यों हेतु आगणन श्री राकेश चन्द प्रकाश निरीक्षक द्वारा तैयार किया गया था एवं उसी आगणन के आधार पर ही मण्डलायुक्त,मेरठ मण्डल मेरठ की अध्यक्षता में समिति की बैठक में कार्ययोजना स्वीकृत की गयी थी जबकि आगणन अवर अभियन्ता प्रकाश द्वारा तैयार एवं अधिशासी अभियन्ता(वि0/या0) द्वारा अनुमोदनों परान्त ही उपरोक्तानुसार धनराशि तक की कार्ययोजना समिति द्वारा स्वीकृति की जानी चाहिए थी अतएवं बिना सक्षम स्तर से तैयार किये गये आगणन के आधार पर कार्ययोजना की स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक थी।

2- उपर्युक्तानुसार स्वीकृति कार्ययोजना के सापेक्ष आमंत्रित ई-निविदा दिनांक 8-3-18 कमश: 39,38,38,38 एवं 40 प्रतिशत न्यून पर सर्वन्यून निविदा स्वीकृत की गयी जिनसे नगर निगम द्वारा परफोमेन्स गारन्टी निविदादाता से जमा करने हेत मॉग/अनुरोध किया गया लेकिन फर्मों द्वारा परफोरमेन्स गारन्टी जमा न किये जाने के कारण उपर्युक्त निविदा निरस्त कर दी गयी तथा दिनांक 28-3-18 को पी0डब्ल्यू0डी द्वारा एस0ओ0आर0,2018 निर्गत किये जाने के उपरान्त एस0ओ0आर0 2018 के आधार पर उक्त कार्यों हेतु पुनः आगणन श्री गजेन्द्र पाल शर्मा,अवर अभियन्ता(प्रकाश) नगर निगम गाजियाबाद द्वारा कमश: रुपये 37,08,939/- 27,55,542/-, 25,81,176/-, 32,95,148/-एव 17,66,744/- का तैयार किया गया था जो उपरोक्त कमांक 5 के सापेक्ष तैयार आगणन रू0 17,66,744 को छोड़कर समस्त,अनय चारों आगणन श्री मनोज प्रभात अधिशासी अभियन्ता(वि/या) नगर निगम,गाजियाबाद द्वारा अनुमोदित था। कमांक 5 के कार्य के सापेक्ष तैयार आगणन का अनुमोदन अधिशासी अभियन्ता द्वारा न कराय जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक था। उक्त के सम्बन्ध स्थिति स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है।

3- आपूर्ति किये गये सामान की ओरिजनल होने की गारन्टी के प्रमाण हेतु निर्माता कम्पनी का चालान पत्रावली में सलग्न नहीं था जबकि निविदा की शर्तें कमांक 8 में स्पष्ट उल्लिखित था कि आपूर्ति किये गये सामान की ओरिजनल होने की गारंटी के प्रमाण हेतु कम्पनी का चालान प्रस्तुत करना होगा।अतएवं आपूर्ति गम सामानों हेतु कम्पनी का चालान प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

4-निविदा की शर्तों कमांक नं० में उल्लिखित था कि एल०ई०डी० लाईट की गारन्टी/वारन्टी का प्रमाणपत्र फर्म/कम्पनी को प्रस्तुत करना होगा लेकिन उपरोक्त कार्यों में प्रयुक्त एल०ई०डी० लाईट हेतु फर्मों द्वारा गारन्टी/वारन्टी का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था। यह गम्भीर रूप से आपत्तिजनक था।, जिससे एल०ई०डी० लाईटों के गारंटी वारन्टी अवधि में खराब होने पर इनके मरम्मत पर होने वाले अनावश्यक व्ययभार से इन्कार नहीं किया जा सकता। यह नगर निगम की उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक था। अतएवं फर्म/कम्पनी द्वारा गारन्टी/वारन्टी प्राप्त किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

5- निविदा की शर्तों में तय समय सीमान्तर्गत कार्य/आपूर्ति न कराये जाने पर विलम्ब अवधि हेतु दण्ड/ब्याज की वसूली किये जाने हेतु कोई प्राविधान नहीं किया गया था। यह गम्भीर रूप से आपत्तिजनक था। उपर्युक्त शर्त का उल्लेख न होने से उपरोक्त पॉचों कार्य अतिविलम्ब से पूर्ण हो गए तथा निगम द्वारा कोई धनराशि दण्ड/ब्याज के रूप में प्राप्त नहीं की जा सकी थी। जबकि नगर निगम की विद्युत विभाग अन्य पत्रावलियों में लगे अनुबन्ध पत्र की शर्त सं० 6 के अनुसार 25रु० प्रतिदिन प्रति लाईट की दर से विलम्ब शुल्क वसूल किये जाने का प्राविधान था इस प्रकार निम्न विवरणानुसार नगर निगम की आर्थिक क्षति हुयी थी।

क्र०	लगाई गई एल.ई.डी. की संख्या	कार्य आरम्भदेश के अनुसार		माप पस्तिका के अनुसार		आर्थिक क्षति की तिथि
		कार्य आरम्भ तिथि	कार्य समा. तिथि	कार्य समा. तिथि	विम्बित तिथि कुल दिवस	
1	60	16-2-19	8-3-19	6-9-19	182×60×25	273000
2	40	16-2-19	8-3-19	20-2-20	349×40×25	349000
3	80	16-2-19	8-3-19	1-11-19	239×80×25	478000
4	55	16-2-19	8-3-19	20-8-19	170×55×25	233750
5	60	16-2-19	8-3-19	1-11-19	239×60×25	358500
					योग	1692250

उपर्युक्त से स्पष्ट था कि उपरोक्त पॉचों कार्य 5 माह 12 दिवस से लेकर 11 माह 12दिवस की अवधि तक विलम्ब से पूर्ण किया गया था, जिससे उक्त कार्य से जनता उक्तावधि(विलम्बित अवधि) तक लाभान्वित नहीं हो सकी। अतएवं उक्त के समबन्ध में उत्तरदायी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। एवं उपर्युक्त कार्यों हेतु विलम्ब शुल्क के रूप में न्यूनतम 16,92,250/- की क्षति की उत्तरदायी से वसूली हेतु कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

6-उपर्युक्त कराये गये पॉचों कार्यों में स्थापित गैल्वनाईज पोल स्ट्रीट लाईट व सबस्टेशन, डबलपोल स्ट्रक्चर, एवं ट्रान्सफार्मर आदि सामानों को नगर निगम की भण्डार पंजी में प्रविष्टि किये जाने का उल्लेख नहीं था। यह गम्भीर रूप से आपत्तिजनक एवं भण्डार कय नियमावली के विपरीत था, जिससे उक्त कार्यों हेतु व्यय धनराशि कमशः रूपये 3708851,



2353122, 2406218, 2731760 एवं 1541657 कुल रूपये 1,27,41,608/- असत्यापित था। अतएवं उपरोक्त आपूर्तिगत/अधिष्ठापित सामानों की भण्डार पंजी में प्रवृष्टि कराकर उपरोक्त व्यय सत्यापित कराया जाना अपेक्षित है।

7- उपर्युक्त अधिष्ठापित पोलों हेतु पोल पंजी तैयार एवं सत्यापित कराकर सम्परीक्षार्थ प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे उक्त पोल कहीं-कहीं स्थापित किये गये है तथा पूर्व में कहीं-कहीं पोल लगाये गये थे। सत्यापित नहीं किया जा सका अतएवं गैल्वनाईज पोल पंजी तैयार एवं सक्षम अधिकारी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

8- उपर्युक्त कार्यों की गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट सम्बन्धित सक्षम अधिकारी/प्राविधिक परीक्षक, मण्डलीय टी0ए0सी0 द्वारा प्राप्त कर संलग्न नहीं की गयी थी। बिना गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किये उक्त पॉचों कार्यों हेतु किया गया कुल भुगतान रूपये 1,27,41,608/- अनियमित एवं आपत्तिजनक था।

9- उपर्युक्त पॉचों कार्यों का भौतिक सत्यापन सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा किये जाने का उल्लेख/भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र पत्रावली में संलग्न नहीं था यह गम्भीर रूप से आपत्तिजनक था।

10- पत्रावली में माह इनवायस बिल के आधार पर भुगतान किया गया था जबकि कान्ट्रैक्टर बिल पत्रावली में संलग्न कर ही भुगतान की कार्यवाही की जानी चाहिए थी यह आपत्तिजनक था अतएवं कान्ट्रैक्टर बिल पत्रावली में संलग्न कर ही भुगतान की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

11- उपरोक्त पॉचों कार्यों में स्थापित कुल 255 नग गैल्वनाईज 9मीटर विद्युत पोल डबल आर्म की दर से भुगतान रूपये  $(255 \times 21430) = 5464650/-$  किया गया था, जबकि समस्त पोलो पर क्रमांक 3 पर अंकित कार्य के 40 पोलो को छोड़ कर सिंगल एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट 72 वाट ही लगायी गयी थी इस प्रकार 215  $(255-40)$  सिंगल आर्मपोल ही लगाये जाने चाहिए था जिसकी दर 20891/- प्रति पोल थी। अतएवं सिंगल आर्मपोल की जगह डबल आर्म पोल की दर से भुगतान किये जाने के कारण उक्त कार्यों में प्रतिपोल रू0 540  $(21430-20890)$  की दर कुल 215 पोलो हेतु रूपये 116100/- का 5.4 प्रतिशत न्यून+18 प्रतिशत जी.एस.टी सहित रू0 129600/- का अधिक भुगतान किया गया था उक्त की प्रतिपूर्ति कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

12- क्रमांक 2 पर अंकित कार्य में सबस्टेशन एवं 63 के0वी0ए0 ट्रान्सफार्मर की स्थापना हेतु जी0एस0टी सहित कुल रूपये 184223/- (आब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट के अनुसार) का भुगतान किया गया था उक्त कार्य कराये जाने हेतु एन0ओ0सी0 विद्युत विभाग से प्राप्त किये जाने सम्बन्धी साक्ष्य पत्रावली में नहीं था, जबकि उक्त कार्य कराये जाने का दायित्व विद्युत विभाग का था अतएवं ट्रान्सफार्मर एवं सबस्टेशन की स्थापना पर किया गया व्यय नगर निगम पर अनावश्यक व्यय भार था।

13- क्रमांक-4 पर अंकित कार्य के आगणन मे सब स्टेशन एवं ट्रान्सफार्मर स्थापित किये जाने का उल्लेख था जबकि माप-पुस्तिका मे सब स्टेशन हेतु मात्र दो मदों सप्लाइ एण्ड बरिन्ग ऑफ कॉपर प्लेल एवं एस/एफ ऑफ वरिन्ग ऑफ जी0आई प्लेट हेतु कार्य के लिए रू0 27416/- का कार्य प्रदर्शित था जब ट्रान्सफार्मर एवं सबस्टेशन की स्थापना नहीं की गयी थी तो उक्त दो मदों हेतु कार्य किये जाने का औचित्य स्पष्ट नहीं था। अतएवं उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है।

अतएवं उपरोक्त बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट कराये जाने एवं उक्त अनियमितताओं के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु संस्था के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है एवं क्रमांक-11 पर अधिक भुगतान रू0 129600 एवं क्रमांक-12 पर अंकित अनावश्यक व्ययभार रू0 184223/-कुल रूपये 313823/-अग्राह्य एवं अनियमित व्यय था।

**70- प्रकाश विभाग द्वारा विभिन्न जोनों में कराये गये एल0ई0डी0 ड्राइवरों की आपूर्ति में पाई गई अनियमिततायें एवं रूपया 11,168 जी0एस0टी0 एवं रूपया 12622 आयकर कुल रूपया 23790/-**

न वसूले जाने के कारण राजस्व क्षति:- प्रकाश विभाग की पत्रावलियों की जाँच के समय प्रकाश में आया कि नगर निगम की विभिन्न जोनों में क्वाट लाईट प्रा0लि0 के द्वारा एल0ई0डी0 लाईटों में प्रयुक्त हाने वाले इलैक्ट्रॉनिक ड्राइवरों की आपूर्ति की गई थी। उक्त आपूर्ति के बिलों में मै0 क्वाट लाईट प्रा0लि0 द्वारा जी0एस0टी0 की धनराशि को जोड़कर बिल बनाया गया था। नगर निगम द्वारा उक्त बिलों के भुगतान के समय आयकर 2.266/-प्रतिशत एवं जी0एस0टी0 2 प्रतिशत की धनराशि बिलों से घटाकर भुगतान नहीं किया गया था, जिससे फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों का पूरा भुगतान कर दिया गया था, जो अनियमित था।

इस प्रकार किये गये भुगतान से रू0 11,168 जी0एस0टी0 एवं रूपया 12,622 आयकर कुल रूपया-23790/- न काटे जाने के कारण राजस्व की क्षति हुई थी। उक्त फर्म से आयकर एवं जी0एस0टी0 की वसूली करके इसे सम्बन्धित विभाग में जमा कराकर चालाना प्रस्तुत करके सम्परीक्षा में सत्यापन कराया जाए उक्त से सम्बन्धित विवरण निम्नवत् है-

क्र0	कार्य का नाम	व्यय प्रमाणक सं0/दिनांक	धनराशि	जी.एस.टी 2प्रतिशत	आयकर 2.266 प्रतिशत
1	मोहन नगर जोन में एल.ई.डी. लाईट की मरम्मत हेतु 80वाटके इलैक्ट्रॉनिक ड्राइवर की आपूर्ति	205/10-12-19	91911	1838	2077
2	वसुन्धरा जोन ल.ई.डी. लाईट की मरम्मत हेतु 65 वाट के इलैक्ट्रॉनिक ड्राइवर की	207/10-12-19	93325	1866	2109

	आपूर्ति				
3	विजयनगर जोन में ल.ई.डी. लाईट की मरम्मत हेतु 65 वाट के इलैक्ट्रानिक ड्राईवर की आपूर्ति	204 / 10-12-19	93325	1866	2109
4	कविनगर जोन में ल.ई.डी. लाईट की मरम्मत हेतु 65 वाट के इलैक्ट्रानिक ड्राईवर की आपूर्ति	200 / 10-12-19	93325	1866	2109
5	सिटी जोन में ल.ई.डी. लाईट की मरम्मत हेतु 65 वाट के इलैक्ट्रानिक ड्राईवर की आपूर्ति	202 / 10-12-19	93325	1866	2109
6	मोहन नगर जोन में ल.ई.डी. लाईट की मरम्मत हेतु 65 वाट के इलैक्ट्रानिक ड्राईवर की आपूर्ति	199 / 10-12-19	93325	1866	2109
			योग	11168	12622

**71- प्रकाश विभाग द्वारा कराये गये कार्य आनन्द औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर पॉच पोल पर 20 नग एल0ई0डी0 लाईट लगाने के कार्य में पायी गयी अनियमिततायें:-**

प्रकाश विभाग से सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच से प्रकाश में आया कि आनन्द औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर 5 पोल पर 20 नग(प्रत्येक पोल पर 4 लाईट) लगाने का कार्य का एस्टीमेट अवर अभियन्ता द्वारा रू0 413116 का तैयार किया गया था। पत्रावली में उक्त से सम्बन्धित निविदा प्रकाशन का समाचार पत्र एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आदि संलग्न नहीं थी एवं उक्त कार्य हेतु आमंत्रित की गयी निविदा/टेण्डर पत्रावली में संलग्न नहीं किया गया था। तथा प्राप्त टैण्डरों का तुलनात्मक विवरण भी बनाकर पत्रावली में संलग्न नहीं किया गया था जिस कारण यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उक्त कार्य हेतु कुल कितने टेण्डर प्राप्त हुए थे। एवं न्यूनतम टैण्डर किस फर्म का प्राप्त हुआ था पत्रावली का इस तर अनुसंधान किया जाना अत्यधिक आपत्तिजनक एवं निगम के विधिक एवं वित्तीय हितों के नितान्त प्रतिकूल था साथ ही पत्रावली अनुसंधान हेतु निगम की लापरवाही का भी द्योतक था। उक्त कार्य हेतु अधिशासी अभियन्ता वि/या0 द्वारा मै0 आर0के0इन्टरप्राईजेज का पत्रांक संख्या-344 दिनांक 20-12-19 द्वारा कार्यारम्भ आदेश जारी किया गया था जो उक्त फर्म को दिनांक 2-8-19 को आमंत्रित निविदा में न्यूनतम निविदा(-3.50प्रतिशत) रूपया 398657=00 पर नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 12-9-19 को स्वीकृत की गयी थी जिसकी प्रारम्भ तिथि 17-9-19 एवं कार्य समाप्ति तिथि 27-9-19 थी। उक्त के सम्बंध में की गई माप पुस्तिका सं0-5703 पत्रावली में संलग्न नहीं थी जिस

कारण यह ज्ञात न हो सका कि प्रत्येक पोल पर कितनी लाई लगाई गई थी एवं स्टॉक बुक के अभाव में यह भी ज्ञात न हो सका कि उक्त कय की गई सामग्री स्टॉक बुक में प्रविष्टि की गई थी या नहीं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त पॉच पोलो पर पूर्व में लगी हुई लाइटें एवं अन्य सामग्री स्टॉक बुक में चढायी गयी थी या नहीं।

पत्रावली में संलग्न लेखा विभाग के भुगतान आदेश पर अंकित व्यय प्रमाणक संख्या-913 दिनांक 8-2-20 एवं चैक संख्या-907590 गार्ड फाइल में संलग्न नहीं था एवं ना ही रोकडबही में उक्त भुगतान की प्रविष्टि दिनांक 8-2-20 को की गई थी। उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा स्थिति में उक्त भुगतान संदिग्ध था तथा ₹0370400 (शुद्ध भुगतान) के दुरुपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

**सम्पत्ति विभाग:-**

**72- नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत शासनादेशानुसार लाइसेन्स न बनाये जाने के कारण आर्थिक क्षति रूपया 1,06,45,800/-**

नगर निगम अधिनियम की धारा-452 के अधीन एवं समय-समय पर बनाई गई विधियों के अन्तर्गत नगर निगम गाजियाबाद के अन्तर्गत व्यावसायिक गतिविधियों हेतु लाइसेन्स शुल्क लगाने एवं एकत्र करने हेतु प्रावधान किये गये थे। उ0प्र0 शासन के वाणिज्य लाइसेन्स के सम्बंध में जारी शासनादेश संख्या-161 सी. एम./नौ-9-9-97-23ज/97 दिनांक 16 दिसम्बर,1997,नगर निगम विकास अनुभाग-9, लखनउ द्वारा लाइसेन्स शुल्क की दरें निर्धारित की गई थी।

नगर निगम की सम्परीक्षा के समय प्रकाश में आया कि नगर आयुक्त द्वारा लाइसेन्स बनाने का कार्य सम्बंधित जोन कार्यालयों को दिया गया था कि कर निरीक्षक निर्धारित लाइसेन्स शुल्क प्राप्त कर लाइसेन्स प्रदान करने एवं पुराने लाइसेन्सों का नवीनीकरण का कार्य करने के उपरान्त निर्धारित 39 मदों पर लिये गये लाइसेन्स शुल्क नवीनीकरण शुल्क तथा विलम्ब शुल्क प्राप्त करके सम्बंधित लेखा शीर्षक में जमा कराये तथा उसकी सूचना मुख्यालय प्रेषित करेंगे। सम्परीक्षा के समय प्रकाश में आया कि सम्बंधित जोन कार्यालयों द्वारा या तो लाइसेन्स बनाये ही नहीं गये थे अथवा नाम मात्र के बनाये गये थे जिस कारण नगर निगम को निम्नविवरणानुसार भारी आर्थिक क्षति हुई थी। सभी निर्धारित 39 मदों के लाइसेन्स न बनाया जाना एक गम्भीर प्रकरण है तथा नगर निगम के वित्तीय हितों के नितान्त प्रतिकूल है। शासन द्वारा समय-समय पर स्थानीय निकायों से अपनी स्वयं के स्रोतों से आय बढ़ाये जाने सम्बन्धी दिशा निर्देश जारी किये गये हैं किन्तु आय बढ़ाये जाने की दिशा में नगर निगम द्वारा कोई प्रयास परिलक्षित नहीं होता।

वर्ष 2019-20 में नगर निगम की विभिन्न जोनों में बनाये गये लाइसेन्सों की सूचना से स्पष्ट था कि निगम द्वारा कुछ मदों के लाइसेन्स बनाये ही नहीं गये थे एवं कुछ मदों के लाइसेन्स बनाये ही नहीं गये थे एवं कुछ मदों हेतु उपलब्ध संस्था से बहुत कम लाइसेंस बनाये गये थे। यह स्थिति असन्तोषजनक थीं सभी 39 मदों हेतु उपलब्ध व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लाइसेन्स बनाकर निगम की आय में वृद्धि किया जाना अपेक्षित

था। नगर निगम की सीमा में स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की संख्या जो वर्ष 2017-18 में थी, में 20प्रतिशत वृद्धि की जाए एवं नगर निगम द्वारा दिये गये नोटिसों के आधार पर उपलब्ध संस्थानों/प्रतिष्ठानों का आगणन किया जाए तो निम्नवत् आर्थिक क्षति हुई थी-

क्र०	मद का नाम	उपलब्ध व्या०संस्थानों की संख्या	बनाये गये लाइसेन्सों की संख्या	न बनाये गये लाइसेन्सों की सं०	शासनादेश के अनुसार लाइसेंस फीस की वार्षिक दर	आर्थिक क्षति
1	बीयर शॉप	119	14	105	6000	630000
2	देशी शराब	144	32	112	6000	672000
3	विदेशी/अंग्रेजी शराब	86	22	64	12000	772800
4	प्राइवेट अस्पताल 20बैड तक	182	32	150	5000	750000
5	प्राइवेट अस्पताल 20से50 तक	107	—	107	5000	535000
6	प्राइवेट अस्पताल 50 से उपर	43	—	43	5000	215000
7	नर्सिंग होम 20बैड तक	91	8	83	2000	166000
8	नर्सिंग होम 20बैड से उपर	14	3	11	5000	55000
9	प्रसूतिग्रह 20बैड तक	119	—	119	4000	476000
10	प्रसूतिग्रह 20बैड से उपर	88	1	87	5000	435000
11	प्राइवेट क्लीनिक	1291	—	1291	3000	3873000
12	डेंटल क्लीनि	112	—	112	4000	448000
13	पैथोलॉजी सेटर	226	8	218	1000	218000
14	एक्सरे क्लीनिक	299	9	290	2000	580000
15	अल्ट्रासाउण्ड	337		337	2000	674000
16	सी.टी.स्कैन/एम.आर.आई	43	—	43	2000	86000
17	युनानी/आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक	22	2	20	3000	60000
						10645800

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है. कि उक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य मदों यथा—ऑटोरिक्षा,मिनी बस, बस रिक्शा ठेला, ठेली, हाथ ठेला ,ट्रॉली फाइनेन्स के चिटफण्ड के इन्श्योरेन्स कम्पनी आईस फैक्टरी, बिल्डर्स, मॉस की दुकानें आदि भारी मात्रा में नगर

निगम की सीमा में उपलब्ध थीं किन्तु निगम की सीमा में उपलब्ध थी, किन्तु निगम द्वारा नर तो कभी इनकी गणना की गई और न ही लाइसेन्स बनाये जाने हेतु कोई सार्थक प्रयास परिलक्षित हुये। यहाँ तक कि नगर निगम द्वारा जिन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नोटिस दिये गये थे उनके भी लाइसेन्स नहीं बनाये गये थे।

उक्त स्थिति असन्तोषजनक एवं उदासीनता की द्योतक थी। अतः नगर निगम द्वारा व्यापक सर्वेक्षण कराकर शासनादेश में उल्लिखित मदों के लाइसेन्स बनाये जाने की प्रक्रिया अपनाये जाने हेतु प्रयास वांछित थे।

नगर निगम के सभी जोना द्वारा शासनादेश के अनुपालन में सभी व्यावसायिक संस्थानों पर लाइसेन्स शुल्क आरोपित न कराये जाने के कारण निगम को नितान्त प्रतिकूल था। उक्त क्षति की गणना मात्र उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर आगणित की गई है यदि निगम द्वारा व्यापक सर्वेक्षण कराया जाए तो निगम की लाइसेन्स मद की आय में कई गुना वृद्धि हो सकती है निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि निगम क्षेत्र में उक्त शासनादेश में वर्णित 39 मदों का सर्वे कराकर इन पर लाइसेन्स शुल्क आरोपित किया जाए।

**73— मकान किराये की कम कटौती किये जाने से निगम को आर्थिक क्षति रूपये 67,16,724/—** सम्परीक्षा माहों के वेतन देयकों की जाँच के समय प्रकाश में आया कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को निगम द्वारा आवास आवंटित किया गया था। उन्हें मकान किराया भत्ता का भुगतान नहीं किया गया था। वेतन देयकों की जाँच के समय देखा गया कि अधिकांश अधिकारियों/कर्मचारियों से मकान किराये के रूप में बहुत कम/ कुछ भी धनराशि वसूल नहीं की जा रही थी। मकान का मानक किराया निर्धारित कराकर मानक किराया वसूल किया जाए। जब तक मकान किराये हेतु मानक किराये का निर्धारण न कर दिया जाए तब तक मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन सहित के 10 प्रतिशत की धनराशि मानक किराये के रूप में कटौती करके निगम निधि में जमा कराया जाए। निगम द्वारा न तो मानक किराया निर्धारित कराया गया था और न ही 10 प्रतिशत वेतन की कटौती की जा रही थी वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-2(भाग-2-4)के मूल नियम 45 में(3 ) के अनुसार मानक किराया अथवा मूल वेतन का 10 प्रतिशत दोनों में से जो कम हो की कटौती की जानी चाहिए थी जो नहीं की जा रही थी यह वित्तीय नियमों के विपरीत था। निशुल्क/कम धनराशि वसूल किये जाने का औचित्य स्पष्ट करते हुए नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। निगम के पास कितने आवास हैं। आवासों को किन्हें आवंटित किया गया है। आवंटन पत्रावली सम्परीक्षा में उपलब्ध करायी जाए। निगम के कितने आवास कब्जे में हैं। उनसे किराया वसूल किये जाने की क्या स्थिति है।

सम्परीक्षा में स्पष्ट किया जाए। निगम को आवासों में रह रहे सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों से बिजली एवं पानी पर किये जा रहे व्यय के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किया जाए। कि उक्त भुगतान आवंटी द्वारा किया जा रहा है। अथवा निगम द्वारा किया जा रहा है वेतन देयकों के अनुसार आवंटित मकानों से मकान किराया नियमानुसार

वसूल नही किये जाने निगम को एक माह में रूपये 559727/- एवं निम्न विवरणानुसार एक वर्ष में रूपये  $559727 \times 12 = 6716724$  की आर्थिक क्षति हो रही थी।

वर्ष 2019-20 में कुल आर्थिक क्षति रूपये 6716724/- हुयी थी। इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करके नियमानुसार मकान किराया वसूल किया जाना सुनिश्चित किया जाए। कतिपय कर्मियों द्वारा निर्धारित किराया जो जमा कराया गया था। उसे संलग्न विवरण में अंकित किया गया है।

उक्त सूची को उदाहरणस्वरूप माह फरवरी, 20 के वेतन से तैयार किया गया है। यदि उक्त के अतिरिक्त भी जो अधिकारी/कर्मचारी निगम आवासों में आवासित है या ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या स्थानान्तरित हो चुके हैं और अभी भी निगम आवासों में आवासित है की विस्तृत जाँच कर सभी की मकान किराये की कम कटौती की धनराशि की वसूली सुनिश्चित की जाए। उक्त से सम्बन्धित विवरण सम्परीक्षा आख्या के परिशिष्ट-ब पर दिया गया है।

**74- गाजियाबाद की विभिन्न सडकों की स्ट्रीट लाईट डिवाइडर एवं रेलिंग के निर्माण अन्तरण, संचालन (बी0ओ0टी) के आधार पर विज्ञापन के कार्य के साथ अन्य कार्यों हेतु दिये गये ठेकों पर वर्ष 2019-20 तक भारी बकाया राशि रूपया 2,35,13,068/- की वसूली होने के कारण आर्थिक क्षति:-**

निगम द्वारा शहर की विभिन्न सडकों पर डिवाइडर, फुटपाथ तथा विद्युत पोलों के अनुरक्षण, सेन्ट्रल वर्ज का रखरखाव, प्रकाश बिन्दुओं का रखरखाव विद्युत पोलो की सफाई, रंगाई पुताई का कार्य, विद्युत पोलों पर रिफ्लैक्टिव टेप लगाना, जलाने बुझाने हेतु औटोमैटिक स्विचों की व्यवस्था करना, सेन्ट्रल वर्ज पर लगे ग्रीन वैल्ट को हराभरा रखना तथा वर्ष में दो बार पेंटिंग का कार्य एवं विद्युत पोलों पर (30×40 इंच) के साईज के विज्ञापन बोर्ड लगाना एवं उसका शुल्क निगम कोष में जमा कराने हेतु विभिन्न एडवरटाइजिंग एजेन्सियों से अनुबंध किये गये थे। विभिन्न एडवरटाइजिंग एजेन्सियों से अनुबन्ध किये गये थे। विभिन्न ठेकेदारों पर भारी मात्रा में नगर निगम की धनराशि बकाया थी जिस कारण निगम को क्षति पहुच रही थी। उक्त बकाया को वसूलने हेतु प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित थी। बकाया का विवरण संलग्न परिशिष्ट ' ' में दिया गया है। नगर निगम को बकाया न वसूलने से रू0 2,35,13,068/- की आर्थिक क्षति हुई थी। उक्त का विवरण सम्परीक्षा आख्या के परिशिष्ट 'भ' में दिया गया है।

**75- निगम द्वारा करों के संग्रहण हेतु प्रयुक्त कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की अक्षमता के कारण करों की वसूली में व्यपहरण की सम्भावना एवं उपसम्परीक्षा माहों में भवन कर जलकर एवं सीवर कर से सम्बंधित कम्प्यूटर द्वारा जारी रसीदें/सूची अप्रस्तुत रहने के कारण निगम में व्यपहरण/दुरुपयोग की सम्भावना:-**

सम्परीक्षा में निगम के जोनल कार्यालयों में उपसम्परीक्षा माहों से सम्बंधित एम0ए0सी-2 रसीदों की जाँच करने पर प्रकाश में आया कि जोनल कार्यालयों द्वारा भवन कर जलकर एवं सीवर कर हेतु दो प्रकार से रसीदें जारी की जाती थी-(1) हस्तलिखित

एवं (2) कम्प्यूटराइज्ड दोनो प्रकार की रसीदों के लिए जोनल कार्यालय द्वारा जो चालान जारी किये जाते हैं। उनमें जारी की गई रसीदों की कुल संख्या एवं उनसे सम्बन्धित राशि दिखायी जाती थी। सम्परीक्षा में कम्प्यूटर द्वारा जारी रसीदों का विवरण मांगे जाने पर न तो कम्प्यूटराइज्ड रसीदों की हार्डकापी और न ही विवरण प्रस्तुत किया गया। सम्परीक्षा में पूछे जाने पर बताया गया कि कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है एवं वर्ष 2019-20 से सम्बन्धित कोई भी सूचना एवं विवरण साफ्टवेयर से निकाला जाना सम्भव नहीं है। न तो रसीदों की हार्डकापी और न ही तिथिवार कम्प्यूटर द्वारा काटी गयी रसीदों की सूची करों के ऑनलाईन भुगतान डेबिट/क्रेडिट कार्ड अथवा ए.टी.एम से किये गये भुगतान से सम्बन्धित कोई भी सूचना साफ्टवेयर से दिया जाना संभव नहीं है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कम्प्यूटर साफ्टवेयर में मैनुअल काटी गई रसीदों की भी पोस्टिंग कर दी गई थी, जिस कारण कम्प्यूटर जारी रसीदों का तिथिवार जमा का सत्यापन सम्परीक्षा में नहीं हो सका। सम्परीक्षा में अवगत कराया गया कि कम्प्यूटर में पिछली दिनाकों में काटी गई रसीदों की पोस्टिंग करने पर कम्प्यूटर पोस्टिंग करने वाली दिनांक की ही रसीद की जमा की दिनांक बताता है, जिस कारण चालान में दिखाई गई मैनुअल एवं कम्प्यूटर द्वारा जारी रसीदों की धनराशि का मिलान किया जाना सम्भव नहीं है यह अनियमित एवं आपत्तिजनक था। उक्त स्थितियों नगर निगम के वित्तीय हितों के प्रतिकूल थी एवं इनसे कर्मचारियों द्वारा व्यपहरण की सम्भावनाओं को बल मिलता था। इस ओर निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि इसकी विस्तृत जाँच कराकर आवश्यक कार्यवाही करके सम्परीक्षा को अवगत कराया जाए एवं इस अक्षम कम्प्यूटर साफ्टवेयर को बदला जाना नगर निगम के हित में था।

**76-विजयनगर जोन विज्ञापन पद/होर्डिंग्स स्थापित करने के ठेके की पत्रावली में पाई गई अनियमितताएँ एवं आर्थिक क्षति रूपया-28,32,596/-**

विजयनगर जोन में दो 99 स्थलों पर दो वर्ष की अवधि के लिए विज्ञापन कार्य हेतु दिनांक 5-3-2018 को आमंत्रित की गई निविदाओं में मै0 वी0पी0ए0 एन्टरप्राइजेज शाहजहाँपुर की निविदा रू0 3,05,03,000/-प्राप्त हुई जो अन्य की तुलना में अधिकतम थी एवं नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 5-6-2018 द्वारा स्वीकृत की गई। मै0 वी0पी0ए0 इन्टरप्राइजेज द्वारा रू0 14271560/- विज्ञापन शुल्क प्रीमियम की धनराशि एक वर्ष हेतु निगम कोष में जमा कराई गई जबकि निविदा की शर्त सं0-25 के अनुसार अधिकतम प्रीमियम की समस्त धनराशि एक वर्ष के विज्ञापन कर की समस्त धनराशि सहित ठेका स्वीकृति की सूचना के उपरान्त निगम कोष में जमा करानी थी। यह निविदा शर्तों का स्पष्ट उल्लघन था।

मै0 वी0पी0ए0 एन्टरप्राइजेज द्वारा बिना नगर निगम की अनुमति एवं बिना प्रीमियम धनराशि जमा कराये तथा अनुबंध निष्पादित कराये बिना ही पत्रावली नोटिंग साइड के पृ0सं0-16 के अनुसार विज्ञापन का प्रचार प्रसार किया जा रहा था किन्तु इस हेतु निगम द्वारा कोई पैनल्टी ठेकेदार से वसूल नहीं की गयी यह अनियमित था।



उक्त निविदा 99 स्थलों पर होर्डिंग्स लगाने हेतु थी किन्तु दिल्ली मेरठ राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य चलने के कारण मात्र 55 स्थल उपलब्ध थे। अतः ऐसी दशा में निगम द्वारा 55 स्थलों के क्षेत्र 1811 वर्गमीटर हेतु अनुपातिक दर 4275 रु प्रतिवर्ग मी० की दर से  $1811 \times 4275 = 7742025$  प्रीमियम धनराशि तथा  $1811 \times 2000 = 3622000$  निशुल्क तथा 18 प्रतिशत जी०एस०टी० 2045525/- कुल रु० 13409550/- की धनराशि एक वर्ष हेतु लिए जाने के सम्बन्ध में महापौर द्वारा स्वीकृत प्रदान की गयी अनुबंध पत्र की शर्त सं०-1 अनुसार 1 जुलाई, 2019 से ठेकेदार को कार्यप्रारम्भ करने हेतु 30 दिन का अनुग्रह अवधि प्रदान की जायेगी उक्त ठेकेदार को दिया गया क्षेत्रफल अनुबंध पत्र के अनुसार 1811.70 वर्ग मी० था जबकि मात्र 1811 वर्गमी० का शुल्क लिया गया था जिस कारण  $70 \times 6275 =$  रूपया 4393 की निगम को क्षति हुई थी।

अनुबंध पत्र के अनुसार ठेकेदार को 1-7-19 से 31-7-19 तक की एक माह हेतु अनुग्रह अवधि प्रदान कर दी गयी थी किन्तु ठेकेदार के प्रार्थनापत्र की जुलाई में कार्य नहीं हो पाया अतः 1-8-19 से 31-8-19 तक की अनुग्रह अवधि प्रदान की जाए के आधार पर निगम द्वारा प्रदान की गई थी इस सम्बन्ध में निगम द्वारा कोइ जाँच भी नहीं की गई थी और अनुग्रह अवधि प्रदान कर दी गयी थी जिस कारण नगर निगम को  $13409550 \div 12 = 1117463$  की आर्थिक क्षति उठानी पडी थी। यह आपत्तिजनक था।

पत्रावली के पृ० सं०-30 पर अंकित टिप्पणी के अनुसार निगम द्वारा शुल्क जमा धनराशि रु० 14271560/- में से 1811 वर्गमी० की प्रीमियम एवं विज्ञापन शुल्क की धनराशि रु० 113661025/- को घटाकर शेष रु० 2907535 में से ठेकेदार के आवेदन के अनुसार 410 वर्गमी० क्षेत्रफल में 18 नग यूनीपोल लगवाकर रु० 2572750/- समायोजित की लिये गये थे। जबकि वास्तव में रु० 11364025/- की धनराशि के स्थान पर यह राशि 18 प्रतिशत जी०एस०टी० सहित 13409550/- थी। इस प्रकार ही गणनानुसार ठेकेदार की शेष राशि  $14271560 - 13409590 = 862010/-$  ही थी। इस प्रकार निगम को मात्र रु० 862010/- ही समायोजित करने चाहिए थे उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा स्थिति में रु० 1710740/- की निगम की क्षति हुई थी जिसकी उत्तरदायी से वसूली की जाए।

निगम द्वारा दो वर्ष ठेका 99 पोल्स का लिया गया था। वर्तमान में 55 होर्डिंग्स सक्रिय थे, जिस कारण निगम द्वारा 30.50 लाख की धरोहर राशि लौटाकर 7.50 लाख की धरोहर राशि की एफ.डी. ली गई थी, जबकि इनके ठेके की अवधि 31-8-21 को समाप्त होनी थी फिर उक्त का क्या औचित्य था, स्पष्ट किया जाए अन्यथा स्थिति में यह निगम के आर्थिक हितों के विपरीत था।

#### 77- चल-अचल सम्पत्ति का स्टॉक लेखा:-

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में बार-बार मौखिक एवं अधियाचन संख्या-04 दिनांक 14-6-21 एवं सं० 09 दिनांक 5-7-21 द्वारा मांग किये जाने के बावजूद संस्था द्वारा चल-अचल सम्पत्तियों का स्टॉक लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण सभी खण्डों

की निगम सीमान्तर्गत शहर एवं ग्रामों में स्थित सम्पत्तियों की समीक्षा के उपरान्त आवश्यक टिप्पणियां किया जाना सम्भव नहीं हो सका। अतएवं निगम की सम्पत्ति इनके उपभोग अतिक्रमण आदि की जाँच एवं सत्यापन नहीं किया जा सका।

उपरोक्त के अतिरिक्त निगम की भूमि, भवन, भूखण्ड, तालाब, सडक, पार्क, नाले इत्यादि अचल सम्पत्ति एवं यंत्र सयंत्र फर्नीचर उपकरण आदि स्थायी सम्पत्तियों की भण्डार पंजी तथा शा०सं० 1027/नौ-6-2002-65/मिस०/2000 नगर विकास अनुभाग-6 लखनउ दिनांक 4-5-2000 के अनुपालन में न्यूनतम वार्षिक अन्तराल पर कराये गये भौतिक सत्यापन की आख्या सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि गत एवं विगत वर्षों में की गयी प्रतिकूल टिप्पणी के बावजूद निगम द्वारा उक्त वांछित अभिलेख अनुरक्षित नहीं किये गये थे यह स्थिति सन्तोषजनक नहीं थी। इस सम्बन्ध में प्रभावी। आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु नगर निगम गाजियाबाद के उच्चाधिकारियों का ध्यान सम्परीक्षा में विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

**78- सार्वजनिक सम्पत्तियों पर अनाधिकृत कब्जा/निर्माण न होने विषयक प्रमाण पत्र वांछित-**

नगर निगम द्वारा अनुरक्षित सम्पत्तियों की स्थिति पूर्ण रूप से अधिनियमान्तर्गत स्पष्ट नहीं थी नगर क्षेत्र में अनाधिकृत कब्जे- अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण हटाये जाने सम्बन्धी राजाज्ञा संख्या-4030/नौ-1-92 न०वि० अनुभाग-2 दिनांक 27-4-1992, शा०सं० 7539/वि०सं० नि०वि०/13 दिनांक 20-5-13 तथा शा०सं० 3079/नौ-12-16(ज)/2012 दिनांक 14-12-2012 के परिप्रेक्ष्य में सम्परीक्षा में स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी। इसके अतिरिक्त शा०सं० 646/नौ-9-2012-102(ज)2013 दिनांक-3-4-2013 व तद्विषयक निदेशक स्थानीय निकाय, लखनउ के पत्र संख्या-03/1456 सा/154सा/13 दिनांक 25-4-13 (सम्पत्तियों के संरक्षण एवं अनाधिकृत कब्जा विषयक) के अनुपालन में निर्धारित प्रारूप पर निदेशालय की वेबसाईट पर उपलब्ध कराये जाने की स्थिति से सम्परीक्षा में अवगत नहीं कराया गया। जिससे सम्पत्तियों की क्षति एवं दुर्विनियोग आदि से सम्बन्धित प्रकरणों की समीक्षा नहीं की जा सकी।

**79- नगर निगम के कर्मचारी आवासों में विद्युत संयोजन की स्थिति अज्ञात एवं आवास पंजी अप्रस्तुत:-**

सम्परीक्षा में बार-बार मौखिक एवं अधियाचन संख्या 04 दिनांक 14-6-21 एवं सं० 18 दिनांक 20-7-21 निर्गत किये जाने के बावजूद संस्था द्वारा नगर निगम कर्मचारी आवासों की विद्युत संयोजनों की स्थिति/ विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी अभिलेख जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिसमें यह स्पष्ट नहीं हो सका कि सम्बन्धित आवासों में विद्युत संयोजन नगर निगम के नाम से था या आवासित कर्मचारी के नाम से एवं आवास विद्युत बिल का भुगतान नगर निगम द्वारा किया जा रहा था या सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा की स्थिति अस्पष्ट रहीं अतएवं उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्परीक्षा में स्थिति स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है। आवास आवंटन पत्रावली बार-बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं की गई

जिसके अभाव में यह ज्ञात न हो सका कि नगर निगम के पास कितने आवास हैं एवं कितने आवासों का आवंटन किन किन अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम किया गया है एवं किन शर्तों पर किया गया है। मकान किराया विजली पानी सीवर आदि से निगम को कितनी आय प्राप्त हुई है तथा आवासों के अनुरक्षण पर कितना व्यय किया गया है अतः आवास पंजी प्रस्तुत की जाए।

#### 80- जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंध:-

उत्तर प्रदेश शासन के अर्द्धशासकीय आदेश संख्या-120 सी0एम0(1)/9-7-2001-29ज/2001/न0वि0अनुभाग07 दिनांक 22-11-2001 के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन और हैण्डलिंग नियम 1988 के राजपत्र में दिनांक 22 जुलाई,1988 से प्रवृत्त होने एवं उक्त प्राविधानों के तहत जीव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु निर्देश दिये गये थे इसके अतिरिक्त नगरीय क्षेत्रों में बायोमेडिकल बेस्ट के निस्तारण विषयक शासनादेश संख्या-5911/नौ-5-2009-324सा/09 न0वि0अनु0 दिनांक 13-8-09 एवं उक्त के क्रम में निर्गत शा0सं0 2163/नौ-5-2011-324सा/09 न0वि0अनुभाग-5 दिनांक 20 अप्रैल,2011 द्वारा गठित कमेटी के माध्यम से बायोमैडिकल बेस्ट के निस्तारण तथा अनुश्रवण हेतु निर्देश दिये गये थे।

उपरोक्त के अतिरिक्त ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली,2010 के अध्याय-7 में भी बायोमेडिकल बेस्ट(जो बायोमेडिकल बेस्ट मैनेजमेन्ट एण्ड हैण्डलिंग रूल्स,1988 पर आधारित है। में सम्बन्धित योजना एवं प्रबंधन के सम्बन्ध में विस्तृत प्राविधान दिये गये हैं।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में नगर निगम गाजियाबाद द्वारा की गयी कृत कार्यवाही की स्थिति से सम्परीक्षा को अवगत कराया जाए।

#### 81- पार्किंग शुल्क से सम्बन्धित ठेकों की पत्रावलियों अप्रस्तुत:-

सम्परीक्षा में बार-बार मौखिक मॉग किये जाने एवं लिखित अधियाचन सं0 04 दिनांक 14-6-21 तथा अधियाचन सं0-9 दिनांक 5-7-21 एवं अधियाचन सं0-18 दिनांक 20-7-21 दिये जाने के उपरान्त भी सम्पत्ति अनुभाग द्वारा पार्किंग शुल्क के ठेके से सम्बन्धित पत्रावलियों सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी एवं न ही इससे सम्बन्धित पंजी सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी एवं न ही इससे सम्बन्धित पंजी सम्परीक्षा में प्रस्तुत की गयी जिस कारण यह ज्ञात न हो सका कि वर्ष 2019-20 में नगर निगम गाजियाबाद द्वारा पार्किंग स्थलों की नीलामी हेतु निविदाएं आमंत्रित की गयी थी अथवा नहीं एवं कितने पार्किंग स्थलों हेतु निगम द्वारा निविदाएं आमंत्रित की गयी थी।

पार्किंग स्थलों की निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु सरकारी बोली का निर्धारण किस प्रकार किया गया था। बोली के फलस्वरूप कितनी निविदाएं स्वीकृत की गयी थी एवं जिन पार्किंग स्थलों हेतु कोई भी निविदा स्वीकृत नहीं की गयी थी उन स्थलों पर पार्किंग शुल्क की वसूली हेतु क्या प्रक्रिया अपनायी गयी थी।

सम्बन्धित लिपिक श्री राजकुमार द्वारा जानकारी चाही जाने पर बताया गया कि पार्किंग शुल्क से वर्ष 2019-20 में न तो कोई आय प्राप्त हुई थी और न ही कोई ठेका पत्रावली उपलब्ध थी जबकि निगम के बजट से स्पष्ट था कि पार्किंग मद में वर्ष 2019-20 में 11724823/- आय प्राप्त हुई थी। फिर यह कैसे संभव था।

सम्परीक्षा में पत्रावली एवं पंजी प्रस्तुत न किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक था। उक्त स्थिति संतोषजनक नहीं थी एवं लेखा परीक्षा के प्रति लापरवाही का द्योतक थी इस सम्बन्ध में निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

**सामान्य प्रशासन:**

**82- नगर निगम सीमान्तर्गत विद्युत विभाग के ट्रांसफारमर एवं सब स्टेशनों का उपयुक्त किराया निर्धारित करके वसूल न किया जाना नगर निगम के आर्थिक हितों के विपरीत :-**

निदेशक स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनउ के पत्र संख्या-8/931-140-उ०प्र०पावर कारपोरेशन/ 2017-18 दिनांक 17-7-2017 द्वारा ट्रांसफारमर्स और सब स्टेशनों का उपयुक्त किराया निर्धारित करके विद्युत विभाग से वसूल किये जाने हेतु शा०सं०-406/नौ-9-1997-95/जनरल/96 दिनांक-10-2-1997 के प्रस्तर-6 में निम्नलिखित व्यवस्था अंकित है का उल्लेख करते हुए निदेशित किया गया था। शासन के अनुसार विद्युत विभाग के ट्रांसफारमर्स और सब स्टेशनों का किराया स्थानीय निकायों को प्राप्त नहीं हो पा रहा है यद्यपि इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार विभाग किसी भी स्थान पर विद्युत खम्भा निशुल्क लगाने का अधिकारी रखता है, किन्तु ट्रांसफारमर और सब स्टेशनों के लिए उनको ऐसी छूट अनुमन्य नहीं है। अतः आवश्यक है कि स्थानीय निकाय अपनी सीमा में लगे समस्त विद्युत ट्रांसफारमर और सब स्टेशनों का उपयुक्त किराया निर्धारित करके विद्युत विभाग से वसूल करे।

निदेशक के उपरोक्त निर्देशों के क्रम में निगम द्वारा क्या कार्यवाही की गयी, सम्परीक्षा में अस्पष्ट रहा। इस सम्बन्ध में कार्यवाही न किया जाना निगम के आर्थिक हितों के विपरीत था।

**83- आन्तरिक नियंत्रण का अभाव:-**

किसी विभाग/कार्यालय के क्रियाकलापों पर प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण होने के लिए आवश्यक था कि आदेशों, नियमों, विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए एवं नियमानुसार आवश्यक रिपोर्ट/रिटर्न सम्बन्धित उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया जाए, जिससे अनियमितता आदि पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके नगर निगम, गाजियाबाद की आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में पाया गया कि निम्नांकित स्तर पर आन्तरिक लेखा परीक्षा का अभाव था-

(1) प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक इकाई को अपनी आगामी वर्ष हेतु कार्ययोजना बनायी जानी चाहिए थी लेकिन नगर निगम गाजियाबाद द्वारा उक्त प्राविधान का अनुपालन नहीं किया जा रहा था।

(2) उ०प्र० लोक निर्माण विभाग के प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक इकाई/संगठन को अपने क्षेत्राधिकार की सडकों के लिए एक सडक रजिस्टर का रख-रखाव करना चाहिए था नगर निगम गाजियाबाद द्वारा उक्त रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया था।

(3) कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्वालिटी एश्योरेन्स रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था।

(4) नगर निगम के पथ प्रकाश विभाग द्वारा निष्प्रयोज्य सामग्री रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था।

(5) विद्युत विभाग में प्राविधान है कि ऐसी डेली डायरी विद्युत रजिस्टर का रख-रखाव किया जाए गाजियाबाद नगर निगम द्वारा उक्त अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था।

(6) कय की गयी सामग्रियों की प्राप्ति से पूर्व उनकी गुणवत्ता का सत्यापन किया जाना अपेक्षित था लेकिन नगर निगम द्वारा उक्त व्यवस्था का पालन नहीं किया गया था।

(7) वित्तीय प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक इकाई का जर्नल खाते का रख-रखाव करना चाहिए था नगर निगम द्वारा उक्त अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा था।

(8) निर्माण कार्यों को पूर्ण करने में हो रहे विलम्ब को नियंत्रित करने के लिए हिन्डरेन्स रजिस्टर का रख-रखाव किया जाना चाहिए था। निर्माण विभाग द्वारा उक्त रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था।

(9) वित्तीय प्राविधानों के अनुसार भुगतान बिल की सकल राशि अथवा निर्बल राशि से यदि कम भुगतान करना है तो जितनी कम राशि का भुगतान किया जाना है उसका उल्लेख स्पष्ट रूप से भुगतान बिल्स वाउचर्स में किया जाना चाहिए था नगर निगम द्वारा इसका पालन नहीं किया गया था। उपरोक्त बिन्दुओं पर आवश्यक/प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु संस्था के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

#### **84- नजूल एवं नौकाघाट:-**

सम्परीक्षा में बार-बार मौखिक एवं अधियाचन संख्या 18 दिनांक 20-7-21 द्वारा मॉग किये जाने के उपरान्त भी नजूल एवं नौकाघाट से सम्बन्धित अभिलेख सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त के सम्बन्ध में निम्नांकित बिन्दुओं के क्रम में स्थिति स्पष्ट करायी जाए-

1-निगम के अधीन कोई नौकाघाट नहीं था, इसकी पुष्टि करायी जाए।

2- नगर निगम गाजियाबाद के प्रबंधन एवं नियंत्रणाधीन नजूल सम्पत्तियों के विवरण एवं सम्बन्धित अभिलेख दिखाया जाना जाना वांछित है। आलोच्य अवधि के प्रश्नगत सम्पत्ति की स्थिति शून्य हो तो जिलाधिकारी गाजियाबाद से इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त कर सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

3- नजूल भूमि की अस्पष्ट स्थिति के कारण शासनादेश संख्या 1566/8-4-11एन/2004 दिनांक 28-9-11 आवासीय एवं शहरी नियोजन अनुभाग-4 के द्वारा नजूल भूमि के प्रबंधन और इसके निस्तारण के सम्बन्ध में नीति निर्धारण की गयी थी, की समीक्षा किया जाना सम्भव न हो सका।

4- शा0सं0 212/नौ-8-13-4ज/13 दिनांक 30-1-13 के क्रम में नगर निगम की अधिसूचित सीमा में निकायों के उपभोग/कब्जे में नजूल भूमि से सम्बन्धित यदि कोई सूचना शासन को प्रेषित की गयी हो तो इसे सम्परीक्षा में आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाए।

#### **85- नगर निगम की सम्पत्तियों का वार्षिक सत्यापन न होना:-**

शासनादेश संख्या-1027/नौ-6-2002-65 मिस/2000 दिनांक 4 मई,2002 द्वारा निर्देशित किया गया था। कि स्थानीय निकायों द्वारा समय-समय पर उनके द्वारा कय किये गये बाण्डों का नवीनीकरण/आहरण परिपक्वता अवधि के उपरान्त न किये जाने के कारण वह कालातीत हो जाते हैं और उस पर व्याज की हानि होती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने आडिट के समय इस पर गम्भीर आपत्ति व्यक्त की है।

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में यह भी निर्देशित किया गया था कि निकायों के कार्यालयों की चल-अचल सम्पत्तियां वार्षिक सत्यापन मुख्य नगर अधिकारी द्वारा किया जाय तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व इस आशय का प्रमाणपत्र निदेशक,स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपलब्ध कराया जाए परन्तु नगर निगम गाजियाबाद द्वारा उक्त शासनादेश का पालन नहीं किया गया था, जो आपत्तिजनक था।

#### **86- विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृति पूर्व नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न करना अनियमित:-**

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में अनापत्ति प्रमाणपत्र पत्रावली की माँग करने पर नगर निगम द्वारा बताया गया कि विकास प्राधिकरण गाजियाबाद द्वारा बिना नगर निगम गाजियाबाद से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये ही भवनों के मानचित्र स्वीकृत किये गये थे जबकि शासनादेश संख्या-3310/ नौ-7-04-33 ई/03 दिनांक 6 सितम्बर,2004 में निर्देशित किया गया था कि विकास प्राधिकरणों द्वारा नक्शा (मानचित्र) पास करते वक्त नगर निगम तथा जलसंस्थान से सीवर लाईन,जलनिकासी, एवं पानी कनेक्शन की स्थिति ज्ञात की जानी चाहिए उपरोक्त शासनादेश के अतिरिक्त सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 00107/नौ-आ-3-मानचित्र स्वीकृति/2004 दिनांक,06 जुलाई,2004 में भी स्पष्ट निर्देशित किया गया था कि पुराने निर्मित क्षेत्र जिसकी अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढीकरण एवं रख-रखव का दायित्व इस नगर की स्थानीय निकाय का होता है के भवन/ भूविन्यास मानचित्र स्वीकृति करते समय प्राधिकरणों के द्वारा नगर की स्थानीय निकाय के सीवर लाइन, जलापूर्ति की पाईप लाईन एवं जलनिकासी की स्थिति जाने वगैर मानचित्र स्वीकृत कर दिये जाते हैं जिससे बाद में अनेक समस्यायें उत्पन्न होती है।

उपरोक्त शासनादेश का विकास प्राधिकरण द्वारा अनुपालन न करने से नगर निगम की उपरोक्त शासनादेश में वर्णित सम्पत्तियों पर अतिक्रमण या उन सुविधाओं के विस्तार हेतु पूँजीगत व्यय की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता था। तथा अतिक्रमण की स्थिति में नगर निगम को भविष्य में न्यायालय की प्रक्रिया से भी गुजरना हो सकता था।

अतएवं इस सम्बन्ध में नगर निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। कि नगर निगम द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने के साथ-साथ अनापत्ति प्रमाणपत्र हेतु शुल्क निर्धारण की कार्यवाही भी अमल में लायी जाए जिससे नगर निगम की आय में वृद्धि हो सके।

#### 81- विकास योजनाओं सम्बन्धी अन्य अनियमिततायें:-

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में विकास योजनाओं सम्बन्धी निम्नांकित अनियमिततायें प्रकाश में आयी-

(1) नगर निगम गाजियाबाद द्वारा कोई योजना पंजी अनुरक्षित नहीं की गयी थी यदि अनुरक्षित किया गया था तो इसे वर्तमान सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(2) आलोच्य अवधि के पूर्व में क्रियान्वित/हस्तगत/पूर्व हो चुकी योजनाओं के सम्बन्ध में कोई जानकारी सम्परीक्षा में नहीं दी गयी थी इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कराया जाना वांछित थी।

(3) निगम क्षेत्र के समेकित एवं सुनियोजित विकास हेतु नगर निगम द्वारा कोई नेटवर्क/प्लान आदि तैयार किया गया था अथवा नहीं इस सम्बन्ध में भी वर्तमान सम्परीक्षा में स्थिति अस्पष्ट रही थी।

(4) आलोच्य अवधि के पूर्व में भिन्न-भिन्न योजनाओं से सम्बन्धित मदवार कितनी-कितनी राशियाँ अवशेष के रूप में विद्यमान थी के बारे में वर्तमान सम्परीक्षा में स्थिति अस्पष्ट रही थी।

(5) उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम,1959 की धारा 57 क की उपधारा (2)(3)(क)(ख)(1से 16)(4)(5)तथा(6) के अनुसार महानगर योजना समिति के गठन का प्राविधान किया गया था। जिसके दायित्व में अधिनियम की धारा 57(क) के दृष्टिगत सम्पूर्ण महानगर फेज के लिए एक विकास योजना के प्रारूप को तैयार किया जाना था। अधिनियम की धारा 57(क) की उपधारा-7 में निर्दिष्ट निम्न विषयों की योजनाओं का प्रारूप तैयार किये जाने हेतु संज्ञान में लिया जाना था।

(1) नगरीय निकायों द्वारा तैयार की गयी योजना में।

(2) निकाय के मध्य सामान्य हित के मामले जिसके अन्तर्गत उस क्षेत्र की सम्भावित स्थानीय योजना जल एवं अन्य प्राकृतिक साधनों में हिस्सा अपसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण

- (3) भारत और राज्य सरकार के द्वारा निश्चित समस्त उद्देश्य और प्राथमिकतायें।
- (4) इन विनियमों की सीमा और प्रकृति जो भारत सरकार और राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा महानगर क्षेत्र में किया जाना सम्भाव्य हो तथा अन्य उपलब्ध साधन चाहे वे वित्तीय हो या अन्य।
- (5) अन्य संस्थाओं तथा संगठनों से परामर्श लेना जिन्हें राज्यपाल आदेश और विनिर्दिष्ट करें।

अधिनियम की धारा 57(क) की उपधारा (6) के अनुसार उपरोक्त प्रकार से गठित महानगर विकास समिति के द्वारा विकास योजनाओं की सिफारिश को राज्य सरकार को भेजा जाना था। जिसके क्रम में निगम द्वारा किसी विकास योजना की सिफारिश को राज्य सरकार के पास भेजा गया या नहीं। इस स्थिति सम्परीक्षा में स्पष्ट नहीं करायी गयी। नगर निगम अधिनियम, 1959 के अध्याय, 14 में वर्णित धारा 343 से 370 के अन्तर्गत वर्णित व्यवस्थानुसार विकास योजनाओं को तैयार किये जाने व उसके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अभिलेख सहित स्थिति स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित रहा।

#### अधिष्ठान विभाग—

#### 88—श्री हरि कृष्ण प्रसाद गुप्ता कर अधीक्षक को त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान रूपये 422391 /—:—

श्री हरिकृष्ण प्रसाद गुप्ता कर अधीक्षक की सेवापुस्तिका की जाँच के समय प्रकाश में आया कि श्री प्रसाद की नियुक्ति राजस्व एवं कर निरीक्षक पद पर दिनांक 5-4-99 को वेतनमान 3200-85-4900 में नगर पालिका परिषद सहारनपुर में हुयी थी, जिन्हें दिनांक 1-7-12 को 10130+4200=14330 वेतन प्राप्त हो रहा था। श्री हरिकृष्ण प्रसाद गुप्ता को स्थानीय निकाय निदेशालय के आदेश संख्या-7-2/1221(69)48-विविध/पदो-श0नि0/2012 लखनउ दिनांक 16 जुलाई, 2012 के द्वारा राजस्व निरीक्षक श्रेणी-1 से कर अधीक्षक वेतनवैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे. 4600 में प्रोन्नति के फलस्वरूप दिनांक 21-7-12 को 12540+4600=17140 निर्धारित किया गया था। जबकि 1-7-12 को प्राप्त वेतन 10130+4200=14330 वेतन प्राप्त हो रहा था। श्री हरिकृष्ण प्रसाद गुप्ता को स्थानीय निकाय निदेशालय के आदेश संख्या-7-2/1221(69)48-विविध/पदो-श0नि0/2012 लखनउ दिनांक 16 जुलाई, 2012 के द्वारा राजस्व निरीक्षक श्रेणी-1 से कर अधीक्षक वेतन वैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे 4600 में प्रोन्नत किया गया, जिसके अनुपालन में इनके द्वारा दिनांक 21-7-12 को कार्यभार ग्रहण किया गया था उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप दिनांक 21-7-12 को 12540+4600=17140 निर्धारित किया गया था जबकि 1-7-12 को प्राप्त वेतन 10130+4200=14330 पर एक वेतनवृद्धि रू० 430 जोडकर 10560+4600=15160 निर्धारित किया जाना चाहिए था। कर अधीक्षक का पद प्रोन्नति का पद है जो सीधी भर्ती का पद नहीं है यदि इस सम्बन्ध में अन्यथा कोई आदेश/शासनादेश हो तो दिखाया जाए यद्यपि कि शासनादेश सं०-रिट-404/नो-7-2018-7(जनरल)/2019 दिनांक 30-8-19 में भी स्पष्ट किया गया है कि पदोन्नति का पद सीधी भर्ती का पद न होने के कारण



पदोन्नति तदोपरान्त निर्धारण पूर्व पद पर प्राप्त हो रहे वेतनवृद्धि प्रदान करते हुए ग्रेड पे का अन्तर दिवस निर्धारित किया जाना चाहिए। इस प्रकार श्री हरिकृष्ण प्रसाद गुप्ता को दिनांक 21-1-12 का ग्रेड पे 4600 में न्यूनतम वेतन 17140 निर्धारित किया जाना अनियमित/आपत्तिजनक एवं अधिक भुगतान का प्रकरण का शासनादेश संख्या- वे0 आ0-2-1318/दस-59(एम)/2008 दिनांक 8-12-2008 के बिन्दू संख्या-11 के अनुसार दिनांक 21-7-12 को रूपये 15160 निर्धारित किया जाना चाहिए था अतएवं निम्नांकित विवरणानुसार दिनांक 21-7-12 से 30 नवम्बर,21 तक रूपये 422391/-मूलवेतन एवं महंगाई भत्ता का अधिक भुगतान किया गया जिसकी प्रतिपूर्ति कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है।

अवधि	दत्त वेतन	देय वेतन	अन्तर अवधि	कुल वेतन+डी.ए	अधिक भुगतान
21-7-12से31-12-12	17140	15160	1980 5माह11दिवस	10603+7634	18237
1-1-13से 30-6-13	17140	15160	1980 6माह	11880+9504	21384
1-7-13से 31-12-13	17660	15620	2040×6माह	12240+11016	23256
1-1-14से 30-6-14	17660	15620	2040×6माह	12240+12240	24480
1-7-14से 31-12-14	18190	16090	2100×6	12600+13482	26082
1-1-15से 30-6-15	18190	16090	2100×6	12600+14238	26838
1-7-15से 31-12-15	19510	17280	2230×6	13380+15922	29302
1-1-16 से30-6-16	50500	47600	2900×6	17400+शून्य	17400
1-7-16से31-12-16	52000	49000	3000×6	18000+360	18360
1-1-17 से30-6-17	52000	49000	3000×6	18000+720	18720
1-7-17से31-12-17	53600	50500	3100×6	18600+930	19530
1-1-18 से30-6-18	53600	50500	3100×6	18600+1302	19902
1-7-18 से31-12-18	55200	52000	3200×6	19200+1728	20928
1-1-19 से30-6-19	55200	52000	3200×6	19200+2304	21564
1-7-19 से31-12-19	56900	53600	3300×6	19800+3366	23166
1-1-20 से30-6-20	56900	53600	3300×6	19800+3366	23166
1-7-20से31-12-20	58600	55200	3400×6	20400+3468	23868
1-1-21से30-6-21	58600	55200	3400×6	20400+3468	23868
1-7-21 से31-11-21	60400	56900	3500×5माह	17500+4900	22400
				योग	422391

**89- श्री बनारसी कर अधीक्षक को त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान रूपये 5,01,978/-**

श्री बनारसी कर अधीक्षक की सेवा पुस्तिका की जाँच के समय प्रकाश में आया कि श्री बनारसी नगर पालिका परिषद बडौत मेरठ में राजस्व एव कर निरीक्षक के पद पर

वेतनमान 975-25-1150 द.रो.30-1660 में मूलवेतन 975 पर दिनांक 15-12-95 को कार्यभार ग्रहण किये थे। वे दिनांक 1-7-12 को रूपये 14660(10460+4200) वेतन प्राप्त कर रहे थे स्थानीय निकाय निदेशालय के आदेश संख्या-संख्या-2/1221(6)48-विविध/पदो-रा0नि0/2012 लखनउ दिनांक 16 जुलाई,2012 के द्वारा श्री बनारसी की पदोन्नति अधीक्षक के पद किया गया जिसके क्रम में श्री बनारसी द्वारा 21-7-12 को उक्त पदोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया तथा दिनांक 21-7-12 को मूलवेतन रू0 17140 निर्धारित किया गया जबकि 1-7-12 को प्राप्त हो रहे वेतन 14660 मे एक वेतनवृद्धि प्रदान करते हेतु ग्रेड पे का अन्तर प्रदान किया जाना चाहिए था क्योंकि कर अधीक्षक का पद पदोन्नति का पद है। सीधी भर्ती का पद नहीं है। जिस पर पदोन्नति पर वेतनमान का न्यूनतम देय नहीं था। शा0स0-रिट-404/नौ-2018-7(जनरल)/2019 दिनांक 30-8-19 में भी स्पष्ट किया गया है कि पदोन्नति का पद सीधी भर्ती का पद न होने के कारण पदोन्नति पद पर वेतन निर्धारण पूर्व पद प्राप्त हो रहे वेतन में एक वेतन वृद्धि प्रदान करते हुए ग्रेड पे का अन्तर देकर निर्धारण किया जाना चाहिए। यदि इस सम्बन्ध में अन्यथा कोई आदेश/शासनादेश हो तो दिखाया जाए अन्यथा स्थिति में श्री बनारसी का दिनांक 21-7-12 को ग्रेड पे 4600 में नयूनतम वेतन 17140 निर्धारित किया जाना अनियमित/आपत्तिजनक एवं अधिक भुगतान का प्रकरण था। शा0सं0 वे0आ0-2-1381/दस-59(एम)/2008 दिनांक 8-12-08 के बिन्दू संख्या-11 के अनुसार श्री बनारसी का वेतन दिनांक 21-7-12 को रूपये 15500(10900+400)निर्धारित किया जाना चाहिए था। अतएवं निम्नांकित विवरणानुसार श्री बनारसी को दिनांक 21-7-12 से 30 नवम्बर,2021 तक किये गये वेतन 501978/- मूलवेतन एवं महंगाई भत्ता का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी प्रतिपूर्ति कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है-

अवधि	दत्त वेतन	देय वेतन	अन्तर अवधि	कुल वेतन+डी.ए	अधिक भुगतान
21-7-12से31-12-12	17140	15500	1640 5माह11दिवस	8782+6323	15105
1-1-13से 30-6-13	17140	15500	1640 6माह	9840+7872	17712
1-7-13से 31-12-13	17660	15970	1690×6माह	10140+9126	19266
1-1-14से 30-6-14	17660	15970	1690×6माह	10140+10140	20280
1-7-14से 31-12-14	18190	16450	1740×6	10440+11171	21611
1-1-15से 30-6-15	18190	16450	1740×6	10440+11797	22237
1-7-15से 31-12-15	18740	16950	1790×6	10740+12781	23521
1-1-16 से30-6-16	49000	44900	4100×6	24600+शून्य	24600
1-7-16से31-12-16	50500	46200	4300×6	25800+516	26316
1-1-17 से30-6-17	50500	46200	4300×6	25800+1032	26832
1-7-17से31-12-17	52000	47600	4400×6	26400+1320	27720
1-1-18 से30-6-18	52000	47600	4400×6	26400+1848	28248
1-7-18 से31-12-18	53600	49000	4600×6	27600+2484	30084

1-1-19 से 30-6-19	53600	49000	4600×6	27600+3312	30912
1-7-19 से 31-12-19	55200	50500	4700×6	28200+4794	32994
1-1-20 से 30-6-20	55200	50500	4700×6	28200+4794	32994
1-7-20 से 31-12-20	56900	52000	4900×6	29400+4998	34398
1-1-21 से 30-6-21	56900	52000	4900×6	29400+4998	34398
1-7-21 से 30-11-21	58600	53600	5000×5माह	25000+7750	32750
				योग	501978

**90- श्री गजेन्द्र कुमार कर अधीक्षक को त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान रूपये 5,01,978/-**

श्री गजेन्द्र कुमार कर अधीक्षक की सेवा पुस्तिका की जाँच के समय प्रकाश में आया कि श्री गजेन्द्र कुमार द्वारा नगर पालिका परिषद बस्ती में राजस्व एव कर निरीक्षक के पद पर वेतनमान 975-25-1150 द.रो.30-1660 में दिनांक 13-12-95 को कार्यभार ग्रहण किया वे दिनांक 1-7-12 को रूपये 14660(10460+4200) वेतन प्राप्त कर रहे थे। स्थानीय निकाय निदेशालय के आदेश संख्या-संख्या-2/1221(57)48-विविध/पदो-रा0नि0/2012 लखनउ दिनांक 16 जुलाई,2012 के द्वारा श्री कुमार की पदोन्नति कर अधीक्षक के पद का गयी तथा 21-7-12 को उनके द्वारा उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किया कर अधीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि दिनांक 21-7-12 को ग्रेड पे 4600 में न्यूनतम मूलवेतन रू0 17140(12540+4600) निर्धारित किया गया जबकि शा0स0वे0आ0-2-1318/दस-59(एम)2008 दिनांक 8-12-08 के बिन्दू संख्या-11 एवं शा0सं0-रिट-404/नौ-2018-7(जनरल)/2019 दिनांक 30-8-19 के अनुसार पदोन्नति कर सीधी भर्ती का पद न होने के कारण पदोन्नति पर वेतन निर्धारण पूर्व पद पर प्राप्त हो रहे वेतन मे एक वेतनवृद्धि प्रदान करते हेतु ग्रेड पे का अन्तर प्रदान किया जाना चाहिए था क्योंकि कर अधीक्षक का पद सीधी भर्ती का पद नहीं है पूर्णतया पदोन्नति का पद है। इसलिए उक्तानुसार दिनांक 1-7-12 को प्राप्त हो रहे वेतन 14660 में एक वेतनवृद्धि प्रदान करते हुए ग्रेड पे का अन्तर देकर दिनांक 21-7-12 को अधिक वेतन निर्धारित किये जाने के कारण दिनांक 21-7-12 से 30-11-21 तक कुल रूपये 501978/- का अधिक वेतन भुगतान श्री गजेन्द्र कुमार को हुआ था यदि उक्त के सम्बन्ध में कोई आदेश /शासनादेश हो तो दिखाया जाए अन्यथा स्थिति में दिनांक 21-7-12 से 30 नवम्बर,2021 तक किये गये अधिक वेतन भुगतान रूपये 501978/- मूलवेतन एवं महंगाई भत्ता का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी प्रतिपूर्ति कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है-

अवधि	दत्त वेतन	देय वेतन	अन्तर अवधि	कुल वेतन+डी.ए	अधिक भुगतान
21-7-12से31-12-12	17140	15500	1640 5माह11दिवस	8782+6323	15105
1-1-13से 30-6-13	17140	15500	1640 6माह	9840+7872	17712
1-7-13से 31-12-13	17660	15970	1690×6माह	10140+9126	19266

1-1-14से 30-6-14	17660	15970	1690×6माह	10140+10140	20280
1-7-14से 31-12-14	18190	16450	1740×6	10440+11171	21611
1-1-15से 30-6-15	18190	16450	1740×6	10440+11797	22237
1-7-15से 31-12-15	18740	16950	1790×6	10740+12781	23521
1-1-16 से 30-6-16	49000	44900	4100×6	24600+शून्य	24600
1-7-16से 31-12-16	50500	46200	4300×6	25800+516	26316
1-1-17 से 30-6-17	50500	46200	4300×6	25800+1032	26832
1-7-17से 31-12-17	52000	47600	4400×6	26400+1320	27720
1-1-18 से 30-6-18	52000	47600	4400×6	26400+1848	28248
1-7-18 से 31-12-18	53600	49000	4600×6	27600+2484	30084
1-1-19 से 30-6-19	53600	49000	4600×6	27600+3312	30912
1-7-19 से 31-12-19	55200	50500	4700×6	28200+4794	32994
1-1-20 से 30-6-20	55200	50500	4700×6	28200+4794	32994
1-7-20से 31-12-20	56900	52000	4900×6	29400+4998	34398
1-1-21से 30-6-21	56900	52000	4900×6	29400+4998	34398
1-7-21 से 30-11-21	58600	53600	5000×5माह	25000+7750	32750
				योग	501978

**91- श्री भोलानाथ कर अधीक्षक को त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान रूपये 4,38,366 / -**

श्री भोलानाथ कर अधीक्षक की सेवा पुस्तिका की जाँच के समय प्रकाश में आया कि श्री भोलानाथ द्वारा नगर पालिका परिषद धामपुर बिजनौर में कर अधीक्षक श्रेणी-2 के पद पर वेतनमान 4000-100-6000 में कार्यभार ग्रहण किया गया था। श्री भोलानाथ दिनांक 1-7-9 को 13370(10570+2800) वेतन प्राप्त कर रहे थे शा0सं02441/नौ-4-12-2 नियम/05 टी0सी0 दिनांक 25 मई,2012 द्वारा 22अप्रैल,2010 से स0कर अधीक्षक को कर अधीक्षक पद में सम्मिलित करते हुए ग्रेड पे 4600 अनुमन्य कराया गया था इस प्रकार श्री भोलानाथ को वेतन निर्धारण दिनांक 22-4-10 को ग्रेड पे 4600 का न्यूनतम 17140 देय था तथा दिनांक 1-7-2011 को वेतनवृद्धि 17660 देय थी जबकि श्री भोलानाथ को दिनांक 1-7-10 को 17660 निर्धारित किया गया था जो त्रुटिपूर्ण था तथा अधिक भुगतान का प्रकरण था यदि ग्रेड पे मे छः मास की सेवा पूर्ण किये बिना वृद्धि दिये जाने का कोई प्राविधान हो तो दिखाया जाए अन्यथा स्थिति में अधिक भुगतान की वसूली/प्रतिपूर्ति कराया जाना अपेक्षित है इसी प्रकार श्री भोलानाथ की शा0सं0 3014/नौ-4-12-31टी0एस0/2010 दिनांक 27 अगस्त,2010 द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के पद पदोन्नति की गयी तथा उनके द्वारा दिनांक 28-8-12 को कार्यभार ग्रहण किया गया। उक्त तिथि को उनका वेतन ग्रेड पे0 5400 के न्यूनतम 21000 निर्धारित किया गया था जबकि कर निर्धारण अधिकारी का पद पूर्णतया पदोन्नति का पद होने के कारण (सीधी भर्ती का पद न होने को कारण) पदोन्नति पद पर वेतन निर्धारण पूर्वपद पर प्राप्त हो रहे वेतन में एक वेतनवृद्धि प्रदान करते हुए ग्रेड पे का अन्तर प्रदान कर रूपये 19540

निर्धारित किया जाना चाहिए था जबकि पदोन्नति के पद का न्यूनतम वेतन दिया गया था जो शासनादेश संख्या-वे-आ0-2-1318/दस-59(एम)/2008 दिनांक 8-12-08 के बिन्दू संख्या-11 एवं शा0सं0-रिट7404/नौ-7-2018-7(जनरल)/2019 दिनांक 30-8-19 के विपरीत था। इस प्रकार दिनांक 1-7-10 से 30-11-21 तक उक्तानुसार किये गये अधिक भुगतान रुपये 4,38,366/- की प्रतिपूर्ति कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित किये गये अधिक भुगतान या विवरण निम्नवत है।

अवधि	दत्त वेतन	देय वेतन	अन्तर अवधि	कुल वेतन+डी.ए	अधिक भुगतान
21-7-12से31-12-12	17140	15500	1640 5माह11दिवस	8782+6323	15105
1-1-13से 30-6-13	17140	15500	1640 6माह	9840+7872	17712
1-7-13से 31-12-13	17660	15970	1690×6माह	10140+9126	19266
1-1-14से 30-6-14	17660	15970	1690×6माह	10140+10140	20280
1-7-14से 31-12-14	18190	16450	1740×6	10440+11171	21611
1-1-15से 30-6-15	18190	16450	1740×6	10440+11797	22237
1-7-15से 31-12-15	18740	16950	1790×6	10740+12781	23521
1-1-16 से30-6-16	49000	44900	4100×6	24600+शून्य	24600
1-7-16से31-12-16	50500	46200	4300×6	25800+516	26316
1-1-17 से30-6-17	50500	46200	4300×6	25800+1032	26832
1-7-17से31-12-17	52000	47600	4400×6	26400+1320	27720
1-1-18 से30-6-18	52000	47600	4400×6	26400+1848	28248
1-7-18 से31-12-18	53600	49000	4600×6	27600+2484	30084
1-1-19 से30-6-19	53600	49000	4600×6	27600+3312	30912
1-7-19 से31-12-19	55200	50500	4700×6	28200+4794	32994
1-1-20 से30-6-20	55200	50500	4700×6	28200+4794	32994
1-7-20से31-12-20	56900	52000	4900×6	29400+4998	34398
1-1-21से30-6-21	56900	52000	4900×6	29400+4998	34398
1-7-21 से30-11-21	58600	53600	5000×5माह	25000+7750	32750
				योग	501978

**92- श्री उमेश कुमार शर्मा पुत्र श्री दुक्की राम द्वितीय श्रेणी लिपिक को त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान रुपये 17,999/-**

श्री उमेश कुमार शर्मा पुत्र श्री दुक्की राम द्वितीय श्रेणी लिपिक की सेवा पुस्तिका की जाँच के समय प्रकाश में आया कि श्री शर्मा की नियुक्ति अनुचर पद पर दिनांक 23-9-1991 को हुयी थी तथा दिनांक 23-9-2007 को 6440+1900=8340 मूलवेतन प्राप्त कर रहे थे तथा 1-7-2008 को 6690+1900=8590 प्राप्त कर रहे थे। जिन्हे 1-12-2008 को द्वितीय ए0सी0पी0 प्रदान किये जाने के फलस्वरूप रुपये 9450/- (7050+2400)

निर्धारित किया गया था जबकि दिनांक 1-12-2008 को 6950+2400=9350 निर्धारित किया जाना चाहिए था। इस प्रकार श्री शर्मा को 1-12-2008 को रूपये 100 मूलवेतन का अधिक निर्धारण किया गया था जो अनुवर्ती वर्षों 1-12-2008 से 31-12-15 तक भुगतान किया गया था दिनांक 1-1-16 को रूपये 30500/- सातवे वेतन में निर्धारित किया गया था, जो सही था। इस प्रकार निम्नांकित विवरणानुसार मंहगाई भत्ता सहित दिनांक 1-12-08 से दिनांक 31-12-15 तक रूपये 17,999/- अधिक भुगतान किया गया था, जिसकी प्रतिपूर्ति कराये जाने हेतु प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है-

अवधि	दत्त वेतन	देय वेतन	अन्तर अवधि	कुल वेतन+डी.ए	अधिक भुगतान
1-7-08 से 30-11-8	8590	8590	---	---	---
1-12-8 से 31-12-8	9450	9350	100×6	600+16	116
1-1-9से 30-6-9	9450	9350	110×6	660+132	732
1-7-9से 31-12-9	9740	9630	110×6	660+178	838
1-1-10से 30-6-10	9740	9630	120×6	720+231	891
1-7-10से 31-12-10	10040	9920	120×6	720+324	1044
1-1-11से 30-6-11	10040	9920	130×6	780+367	1087
1-7-11से 31-12-11	10350	10220	130×6	780+452	1232
1-7-12से 30-6-12	10350	10220	130×6	780+507	1287
1-7-12से 31-12-12	10660	10530	130×6	780+562	1342
1-1-13से 30-6-13	10660	10530	130×6	780+624	1404
1-7-13से 31-12-13	10980	10850	130×6	780+702	1482
1-1-14से 30-6-14	10980	10850	130×6	780+780	1560
1-7-14से 31-12-14	11310	11180	130×6	780+835	1615
1-1-15से 30-6-15	11310	11180	130×6	780+881	1661
1-7-15से 31-12-15	11650	11520	130×6	780+928	1708
				योग	17999

**93- श्री मयूर गिरधर लिपिक को त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान रूपये 1817/-**

श्री मयूर गिरधर लिपिक की सेवापुस्तिका की जाँच के समय प्रकाश में आया कि श्री गिरधर दिनांक 26-2-2000 को लिपिक पद पर कार्यभार ग्रहण किये थे तथा दिनांक 1-2-2005 को रूपये 3425 वेतन प्राप्त कर रहे थे जिसके आधार पर छठे वेतनमान में दिनांक 1-1-2006 को 8280 (6380+1900) वेतन निर्धारित किया गया था जबकि 8270(6370+1900) वेतन निर्धारित किया जाना चाहिए था इस प्रकार 1-1-6 से श्री गिरधर अधिक वेतनप्राप्त कर रहे थे जो 31-12-2015 तक था। दिनांक 1-1-2016 को वेतन निर्धारण 31400=00 उपरोक्त के आधार पर किया गया था जो सही था। अतएव

दिनांक 1-1-6 से 31-12-15 तक श्री मयूर गिरधर को निम्नांकित विवरणानुसार रुपये 1817/- का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी प्रतिपूर्ति कराये जाने हेतु प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। अधिक भुगतान का विवरण निम्नवत् था।

अवधि	दत्त वेतन (मू०वे०+ग्रेड वेतन)	देय वेतन (मू०वे०+ग्रेड पे०)	अन्तर (मू०वे+मह०म०)	अधिक भुगतान
1-1-6से 30-6-6	8280	8270	$10 \times 6 = 60 + 0$	60
1-7-6से 31-12-6	8530	8520	$10 \times 6 = 60 + 1$	61
1-1-7से 30-6-7	8530	8520	$10 \times 6 = 60 + 4$	64
1-7-7से 31-12-7	8790	8780	$10 \times 6 = 60 + 5$	65
1-1-8से 30-6-8	8790	8780	$10 \times 6 = 60 + 7$	67
1-7-8 से 31-12-8	9060	9050	$10 \times 6 = 60 + 10$	70
1-1-9से 30-6-9	9060	9050	$10 \times 6 = 60 + 13$	73
1-7-9से 31-12-9	9340	9330	$10 \times 6 = 60 + 16$	76
1-1-10से 30-6-10	9340	9330	$10 \times 6 = 60 + 21$	81
1-7-10से 31-12-10	10410	10400	$10 \times 6 = 60 + 27$	87
1-1-11से 30-6-11	10410	10400	$10 \times 6 = 60 + 31$	91
1-7-11से 31-12-11	10730	10720	$10 \times 6 = 60 + 35$	95
1-7-12से 30-6-12	10730	10720	$10 \times 6 = 60 + 39$	99
1-7-12से 31-12-12	11060	11050	$10 \times 6 = 60 + 43$	103
1-1-13से 30-6-13	11060	11050	$10 \times 6 = 60 + 48$	108
1-7-13से 31-12-13	11400	11390	$10 \times 6 = 60 + 54$	114
1-1-14से 30-6-14	11400	11390	$10 \times 6 = 60 + 60$	120
1-7-14से 31-12-14	11750	11740	$10 \times 6 = 60 + 64$	124
1-1-15से 30-6-15	11750	11740	$10 \times 6 = 60 + 68$	128
1-7-15से 31-12-15	12110	12100	$10 \times 6 = 60 + 71$	131
			योग	1817

**94- श्री उमेश कुमार शर्मा पुत्र श्री रामदत्त शर्मा लिपिक को त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान रूपये 1,757/-**

श्री उमेश कुमार शर्मा पुत्र श्री रामदत्त शर्मा लिपिक की सेवा पुस्तिका की जॉच के समय प्रकाश में आया कि दिनांक 01-01-2006 को वेतन 6230+1800=8030 प्राप्त कर रहे थे जिन्हें 01-07-2006 को 8480+1800=8280 निर्धारित किया गया था जबकि 8470+1800=8270 निर्धारित किया जाना चाहिए था। इस प्रकार 01-07-2006 से 31-12-2015 तक रू0 10 प्रतिमाह मूलवेतन एवं समय-समय पर उस पर देय महंगाई भत्ता सहित अधिक भुगतान किया गया था दिनांक 01-01-2016 का सॉतवे वेतनमान में वेतन निर्धारण रूपये 33,900/- किया गया था जो सही था। इस प्रकार श्री शर्मा को दिनांक 01-07-2006 से दिनांक 31-12-2015 तक रूपये 1751/- मूलवेतन+ महंगाई भत्ता सहित निम्नांकित विवरणानुसार अधिक भुगतान किया गया था अतएवं उक्तानुसार किये गये अधिक वेतन भुगतान की प्रतिपूर्ति कराये जाने हेतु प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है-

अवधि	दत्त वेतन (मू0वे0+ग्रेड वेतन)	देय वेतन (मू0वे0+ग्रेड पे0)	अन्तर (मू0वे+मह0भ0)	अधिक भुगतान
1-1-6 से 30-6-6	8030	8030	-	-
1-7-6से 31-12-6	8280	8270	10×6=60+1	61
1-1-7से 30-6-7	8280	8270	10×6=60+4	64
1-7-7से 31-12-7	8530	8520	10×6=60+5	65
1-1-8से 30-6-8	8530	8520	10×6=60+7	67
1-7-8 से 31-12-8	9060	9050	10×6=60+10	70
1-1-9से 30-6-9	9060	9050	10×6=60+13	73
1-7-9से 31-12-9	10240	10230	10×6=60+16	76
1-1-10से 30-6-10	10240	10230	10×6=60+21	81
1-7-10से 31-12-10	10550	10540	10×6=60+27	87
1-1-11से 30-6-11	10550	10540	10×6=60+31	91
1-7-11से 31-12-11	10870	10860	10×6=60+35	95
1-7-12से 30-6-12	10870	10860	10×6=60+39	99
1-7-12से 31-12-12	11200	11190	10×6=60+43	103
1-1-13से 30-6-13	11200	11190	10×6=60+48	108
1-7-13से 31-12-13	12290	12280	10×6=60+54	114



1-1-14से 30-6-14	12290	12280	$10 \times 6 = 60 + 60$	120
1-7-14से 31-12-14	12660	12650	$10 \times 6 = 60 + 64$	124
1-1-15से 30-6-15	12660	12650	$10 \times 6 = 60 + 68$	128
1-7-15से 31-12-15	13040	13030	$10 \times 6 = 60 + 71$	131
			योग	1757

95- श्री देवीशरण शर्मा लिपिक को त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान रूपये 1500/-

श्री देवी शरण शर्मा लिपिक की सेवा पुस्तिका की जाँच में प्रकाश में आया कि श्री शर्मा दिनांक 01-07-2007 को  $(6450+1900)=8350/-$  मूलवेतन प्राप्त कर रहे थे जिन्हें 01-07-2008 को  $6710+1900=8610$  निर्धारित किया गया था जबकि  $6700+1900=8600$  निर्धारित किया जाना चाहिए था। इस प्रकार 01-07-2008 को रू0(8610-8600) अधिक निर्धारित किया गया था। सॉतवे वेतनमान में दिनांक 01-01-2016 से वेतन निर्धारण रूपये 29,600/- निर्धारित किया गया था जो सही था। अतएवं निम्नांकित विवरणानुसार श्री शर्मा को दिनांक 01-07-2008 से 31-12-2015 तक मूलवेतन एवं महंगाई भत्ता सहित रूपये 1500/- का अधिक भुगतान किया गया था। जिसकी प्रतिपूर्ति कराये जाने हेतु प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। किये गये अधिक भुगतान का विवरण निम्नवत् है।

अवधि	दत्त वेतन (मू0वे0+ग्रेड वेतन)	देय वेतन (मू0वे0+गेड पे0)	अन्तर (मू0वे+मह0भ0)	अधिक भुगतान
1-7-8 से 31-12-8	8610	8600	$10 \times 6 = 60 + 10$	70
1-1-9से 30-6-9	8610	8600	$10 \times 6 = 60 + 13$	73
1-7-9से 31-12-9	8870	8860	$10 \times 6 = 60 + 16$	76
1-1-10से 30-6-10	8870	8860	$10 \times 6 = 60 + 21$	81
1-7-10से 31-12-10	9140	9130	$10 \times 6 = 60 + 27$	87
1-1-11से 30-6-11	9140	9130	$10 \times 6 = 60 + 31$	91
1-7-11से 31-12-11	9420	9410	$10 \times 6 = 60 + 35$	95
1-7-12से 30-6-12	9420	9410	$10 \times 6 = 60 + 39$	99
1-7-12से 31-12-12	9710	9700	$10 \times 6 = 60 + 43$	103
1-1-13से 30-6-13	9710	9700	$10 \times 6 = 60 + 48$	108
1-7-13से 31-12-13	10810	10800	$10 \times 6 = 60 + 54$	114
1-1-14से 30-6-14	10810	10800	$10 \times 6 = 60 + 60$	120

1-7-14से 31-12-14	11140	11130	10×6=60+64	124
1-1-15से 30-6-15	11140	11130	10×6=60+68	128
1-7-15से 31-12-15	11480	11470	10×6=60+71	131
			योग	1500

**96- स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता / परिवार नियोजन भत्ता का अधिक/अनियमित/आपत्तिजनक भुगतान रूपये 79,728 /-**

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में चयनित माहों के वेतन देयकों की जाँच के समय प्रकाश में आया कि माह नवम्बर देय दिसम्बर, के वेतन में निम्नांकित विवरणानुसार कर्मचारियों को स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता / परिवार नियोजन भत्ता का भुगतान किया गया था, जबकि वित्त सामान्य अनुभाग-1 के शासनदेश संख्या-2/2019/जी-1-37/दस-2019 लखनउ दिनांक 22 अगस्त,2019 द्वारा कर्मचारियों को देय उक्त भत्ता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया था,जबकि नगर निगम गाजियाबाद द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त भत्ता भुगतान किया जा रहा था। नवम्बर देय दिसम्बर के वेतन में भुगतानित परिवार नियोजन भत्ता निम्नांकित विवरणानुसार रूपये 12610/- प्रतिमाह के आधार पर 22 अगस्त,2019 से 31 मार्च,2020 तक 6 माह,10 दिवस हेतु कुल रूपये 79,728/- का अधिक भुगतान किया गया था। अतएवं उक्त भत्ता के भुगतान पर तत्काल रोक लगाते हुए यदि आलोच्य अवधि में उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी अधिकारी/कर्मचारी को उक्त भत्ते का भुगतान किया गया हो तो उसकी भी अद्यावधिक अधिक भुगतान की गणना कराते हुए वसूली/प्रतिपूर्ति कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। अधिक भुगतान का विवरण निम्नवत् है।

क्रमांक	कर्मचारी का नाम/पदनाम	अनुभाग	परिवार नियोजन भत्ता (प्रतिमाह)
1	श्री वृजेश कुमार सिंह	महा प्रबंधक जल	800
2	श्री जय प्रकाश सिंह	सहायक लेखाधिकारी लेख	500
3	श्री देवी सिंह	अवर अभियंता निर्माण	650
4	श्री श्याम सिंह	सहायक अभियंता	500
5	श्री सुनील कुमार राय	कर निरीक्षक कर अनुभाग	550
6	श्री प्रद्युम्न राय	प्र०श्रे०लिपिक सामान्य	400
7	श्री नीरज शर्मा	लिपिक	400
8	श्री सजय कुमार वर्मा	द्वि०श्रे०लिपिक	250
9	श्री बब्बर वाहन	प्र०श्रे०लिपिक सामान्य	250
10	श्री विनोद त्यागी	प्र०श्रे०लिपिक सामान्य	250
11	श्री जयपाल पासी	प्र०श्रे०लिपिक सामान्य	250
12	श्री लाला राम	लिपिक	250
13	श्री प्रवीन पुत्र लिखू	सफाई नायक सिटीजोन	210

14	श्री पुष्पेन्द्र पुत्र श्योराज	गैंगमैन जलकल	210
15	श्री ओमी लाल	गैंगमैन जलकल	210
16	श्री जगपाल पुत्र श्री फितेहा सिंह	परिचालक जलकल	210
17	श्रीमती सुनीता पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार	परिचालक जलकल	210
18	श्री मंजू मिश्रा पत्नी श्री सुभाष चन्द्र मिश्रा	परिचालक जलकल	210
19	श्री लतारानी पत्नी श्री स्व०श्री जय नारायण	लिपिक सामान्य	210
20	श्री पवन कुमार शर्मा	लिपिक सामान्य	210
21	श्री वेद प्रकाश	लिपिक सामान्य	210
22	श्री प्रवीन कुमार पुत्र जगदीश	पम्पचालक जलकल	210
23	श्री मनोज कुमार पुत्र रामनिवास	पम्पचालक जलकल	210
24	श्री विनोद कुमार पुत्र जयप्रकाश	पम्पचालक जलकल	210
25	श्री मुनेश कुमार पुत्र प्रकाशचन्द्र	पम्पचालक जलकल	210
26	श्री यशपाल पुत्र भुल्लन	पम्पचालक जलकल	210
27	श्री दिनेश कुमार	पम्पचालक जलकल	210
28	श्री अशोक कुमार	पम्पचालक जलकल	210
29	श्री कपिल स्वामी	पम्पचालक जलकल	210
30	श्री अतुल कुमार	पम्पचालक जलकल	210
31	श्री पवन कुमार	पम्पचालक जलकल	210
32	श्री सुभाष चन्द्र	पम्पचालक जलकल	210
33	श्री जयराम तिवारी	पम्पचालक जलकल	210
34	श्री यशमवीर	पम्पचालक जलकल	210
35	श्री श्यामसुन्दर	पम्पचालक जलकल	210
36	दिनेश कुमार	पम्पचालक जलकल	210
37	अखिलेश	पम्पचालक जलकल	210
38	श्री रमेश चन्द्र जोशी	गैंगमैन जलकल	210
39	श्री विक्रम सिंह	गैंगमैन जलकल	210
40	श्री जीवन सिंह	अनुचर लाइब्रेरी	210
41	श्री प्रेमचन्द पुत्र मुरारी	माली उद्यान विभाग	210
42	श्री महावीर	गैंगमैन प्रकाश विभाग	210
43	श्री मतिवूल	गैंगमैन प्रकाश विभाग	210

44	श्री केदारनाथ	गैगमैन प्रकाश विभाग	210
45	श्री नरेश चन्द	अनुचर भवनकर	210
46	श्री विनोद कुमार	अनुचर भवनकर	210
47	श्री दिनेश चन्द्र शर्मा	ड्राफ्टमैन सामान्य विभाग	210
48	श्री रामहित	अनुचर	210
		योग	12610 प्रतिमाह

1-9-19 से 29-3-20 6 माह-12610×6= 75660

22-8-19 से 31-8-19 10माह- 12610×10/31= 4068

कुल अधिक भुगतान =79728

22 अगस्त से 31 अगस्त तक एवं सितम्बर, देय अक्टूबर,19 से फरवरी देय मार्च,20 तक

**97- श्री आर.एन. पाण्डेय अपर नगर आयुक्त के यात्रा भत्ता देयक में पाई गई अनियमितताएं:-**

सम्परीक्षा में व्यय प्रमाणकों की जाँच से प्रकाश में आया कि व्यय प्रमाणकों की जाँच से प्रकाश में आया कि व्यय प्रमाणक सं.-30 दिनांक-4-12-19 अंकन रूपया 15990/- द्वारा श्री आर.एन पाण्डेय, अपर नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 12-9-19 को दिल्ली से लखनऊ एवं लखनऊ से दिल्ली तथा दिल्ली थी हवाई यात्राओं हेतु भुगतान किया गया था। दिनांक 12-9-19 की यात्रा किस उद्देश्य से की गयी थी एवं उक्त हवाई यात्रा हेतु नगर आयुक्त की अनुमति/स्वीकृति से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/पत्राचार यात्रा भत्ता देयक के साथ संलग्न नहीं किये गये थे।

यात्रा भत्ता देयक में दिनांक 19-9-19 को की गई हवाई यात्रा से सम्बन्धित कोई भी पत्राचार/अभिलेख संलग्न नहीं किया गया था, जिससे यह स्पष्ट हो सकता कि यात्रा किन उद्देश्यों हेतु की गई थी एवं उक्त हवाई यात्रा हेतु नगर आयुक्त की अनुमति/स्वीकृति भी संलग्न नहीं थी बल्कि दिनांक 19-1-19 की लखनऊ में बैठक में भाग लेने की अनुमति नगर आयुक्त से ली गई थी। अतः उक्त के अभाव /विंसंगति के कारण उक्त यात्रा भत्ता देयक सम्परीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाए।

**98- वाहन भत्ते का अनियमित भुगतान रू0 109200/-**

सम्परीक्षा में आलोच्य अवधि का वेतन देयकों की जाँच के समय प्रकाश में आया कि माह नवम्बर देय दिसम्बर,2019 के वेतन में निम्नविवरणानुसार अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ताओं को रूपयाय 700 प्रतिमाह वाहन भत्ते का भुगतान किया गया था। उक्त वाहन भत्ते का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में यदि शासन/निदेशक,स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ का कोई आदेश हो तो सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाए अन्यथा स्थिति में

निम्नविवरणानुसार माह नवम्बर देय दिसम्बर, 2019 के आधार पर आगणित सम्पूर्ण वर्ष में रूपया 1,09,200/- की वसूली कराये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। यदि शासन/निदेशक,स्थानीय निकाय का कोई आदेश नहीं है तो उक्त की अद्यावधिक गणना कराकर वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र०	नाम/पदनाम	प्रतिमाह भुगतान की गई वाहन भत्ते की राशि
1	श्री संजय कुमार, अवर अभियन्ता, निर्माण	700
2	श्री कान्त अवर अभियन्ता, निर्माण	700
3	श्री योगेश कुमार अवर अभियन्ता, निर्माण	700
4	श्री पूजा सिंह अवर अभियन्ता, निर्माण	700
5	योगेन्द्र कुमार दीक्षित अवर अभियन्ता, निर्माण	700
6	देवी सिंह अवर अभियन्ता, निर्माण	700
7	अनिल कुमार त्यागी सहायक अभियन्ता	700
8	श्री श्याम सिंह सहायक अभियन्ता	700
9	श्री कपिल मोहन सहायक अभियन्ता	700
10	श्री शिव कुमार सरोज अवर अभियन्ता	700
11	श्री योगेन्द्र सिंह यादव सहायक अभियन्ता	700
12	श्री ओम प्रकाश अवर अभियन्ता	700
13	श्री राजेन्द्र प्रसाद अवर अभियन्ता	700
	योग	9100×12माह=109200

**99— नगर निगम में स्वीकृत/सृजित पदों से अधिक पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन का अनियमित भुगतान:-**

नगर निगम के अधिष्ठान विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी निगम के स्वीकृत एवं कार्यरत पद से सम्बंधित सूचना से प्रकाश में आया कि निगम में स्वीकृत पदों से अधिक पदों पर अधिकारी/कर्मचारी तैनात थे एवं कुछ पद सृजित ही नहीं थे फिर भी अधिकारी कार्यरत थे जिससे स्पष्ट था कि पद स्वीकृत न होने के कारण इन्हें वेतन का अनियमित भुगतान किया जा रहा था। इस सम्बंध में निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

निगम में स्वीकृत पद एवं कार्यरत पदों की स्थिति निम्नवत थी-

क्र०	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यालय पद	अधिक
1	अपर नगर आयुक्त	2	3	01
2	अधिशासी अभियन्ता जल	0	1	01

3	नगर स्वास्थ्य अधिकारी	0	1	01
4	सहायक अभियन्ता जल	1	2	01
5	सहायक अभियन्ता निर्माण	3	5	02
6	सफाई एवं खाद्य निरीक्षक	4	5	01
7	अधीक्षक	8	9	01
8	हैल्पर	1	4	03

**100- नगर निगम में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों से उनके मूलपद से उच्च पद का कार्य लिया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक:-**

सम्परीक्षा में जॉच के दौरान प्रकाश मे आया कि नगर निगम में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा उनके मूलपद से उच्च पद का कार्य लिया जा रहा था। जबकि नगर आयुक्त के पत्रांक-1383/न0आ0/2018-19 दिनांक-20-1-19 एवं निदेशक स्थानीय निकाय,उ0प्र0 लखनऊ के आदेश संख्या-2/7462/39विविध/टैक्स कलै0/11 दिनांक 16जनवरी,2019 द्वारा समस्त नगर आयुक्त, नगर निगमों को यह स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नगर निकायों में कार्यरत कर्मचारियों से उनके मूलपद से उच्च पद का कार्य न लिया जाये।

अतः उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किया जाए अन्यथा स्थिति में उक्त के समबंध में आवश्यक कार्यवाही कर सम्परीक्षा को अवगत कराया जाए। ऐसे कर्मचारियों की सूची निम्नवत् थी यदि अन्य कोई कर्मचारी भी हो तो उन्हें भी निम्न सूची में सम्मिलित कर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

क्र०	कर्मचारी का नाम	मूलपद	कार्यरत पद
1	श्री प्रदीप राठी	चौकीदार	कर निरीक्षक द्वितीय कविनगर
2	श्री धीर सिंह सैनी	चपरासी	कर निरीक्षक द्वितीय कविनगर
3	श्री राहुल कुमार	चतुर्थ श्रणी	जन्म मृत्यु लिपिक
4	श्री संजय शर्मा	अनुचर	कर निरीक्षक,द्वितीय कविनगर
5	श्री रविन्द्र पाल	अनुचर	कर निरीक्षक,द्वितीय,श्रे.मोहननगर
6	श्री रीगन नागर	अनुचर	कर निरीक्षक,द्वितीय,श्रे मोहननगर
7	श्री सुनील भाटी	अनुचर	कर निरीक्षक,द्वितीय,श्रे विजयनगर
8	श्री उमेश भडाना	अनुचर	कर निरीक्षक,द्वितीय,श्रे विजयनगर
9	श्री लोकेश कुमार	क्लीनर	कर निरीक्षक,द्वितीय,श्रे विजयनगर
10	श्री प्रमोद प्रजापति	अनुचर	कर निरीक्षक,द्वितीय,श्रे वसुन्धरा
11	श्री विनोद वर्मा	अनुचर	कर निरीक्षक,द्वितीय,श्रे सिटीजोन
12	श्री राजवीर सिंह	कर निर्धारण अधिकारी	जोनल आफिसर,मोहननगर जोन
13	श्री सुधीर शर्मा	कर अधीक्षक	जोनल आफिसर,सिटीजोन
14	श्री हरिकृष्ण गुप्ता	कर अधीक्षक	जोनल आफिसर,कविनगर जोन
15	श्री बनारसी दास	कर अधीक्षक	जोनल आफिसर,विजय नगर

16	श्री सुनील राय	कर निर्धारण अधिकारी	जोनल आफीसर, वसुन्धरा
17	श्री विशम्भर दयाल शर्मा	गैगमैन	प्रकाश निरीक्षक
18	श्री दिनेश चन्द शर्मा	द्वि.श्रे.लिपिक / डाफ्टमैन	अवर अभियन्ताक
19	श्री रमेश कुमार	पम्प चालक बैकलॉग	द्वि.श्रे.लिपिक
20	श्री राजकुमार	पम्प चालक बैकलॉग	द्वि.श्रे.लिपिक

**101- मृतक आश्रित के रूप में 9 कर्मचारियों की अनियमित नियुक्तियों:-**

शासनादेश संख्या-307/9-1-2011-133 सां0/2003 दिनांक 13-5-11 द्वारा दिनांक 29-6-1991 से पूर्व दैनिक वेतन पर कार्यरत तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के विनियमितीकरण हेतु अधिसंख्यक पदों के सृजन के सम्बन्ध में स्पष्ट आदेश दिया गया था कि अधिसंख्यक पद के धारकों के सेवानिवृत्त या मृत्यु या पद छोड़ने की दशा में पद धारकों के पद समाप्त हो जायेंगे। सम्परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि दैनिक वेतन पर कार्यरत निम्नलिखित तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की मृत्यु के पश्चात भी 9 मृतक आश्रित के रूप में नियुक्तियों की गई थी जो अनियमित था। वर्ष 2017-18 की सम्परीक्षा में भी उक्त आपत्ति उठायी गई थी। अतः उक्त के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई अवगत कराया जाए अन्यथा सूची निम्नवत् है-

क्र०	नाम	पति/पिता का नाम
1	श्रीमती सुनीता	स्व० मनोज कुमार
2	श्री मौ० कामिल	स्व० इरफान खान
3	श्री अभय कुमार	स्व० देवेन्द्र दत्त
4	श्रीमती इन्दू	स्व० श्याम बाबू
5	श्रीमती रेनू वर्मा	स्व० मुकेश कुमार
6	श्रीमती मधु शर्मा	स्व० मुकेश कुमार
7	श्री अनुराग नागर	स्व० विनोद कुमार
8	कु० भावना राजपूत	स्व० ओम प्रकाश
9	श्री प्रदीप कुमार	स्व० कमवदेश प्रसाद

**102-नगर निगम द्वारा संचालित बालिका इन्टर कालेज में कार्यरत अध्यापकों की सेवा पुस्तिका एवं नियुक्ति पत्रावली के अभाव में वेतन पर भुगतान किये गये रू०-3567935=00 का सत्यापन न होना :-**

सम्परीक्षा के समय प्रकाश में आया कि नगर पालिका बालिका इन्टर कालिज व अन्य नगर निगम के इन्टर कालेजों में नियुक्ति शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को निम्न विवरणानुसार वेतन का भुगतान किया गया था परन्तु इस वेतन की पुष्टि हेतु इन शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति पत्रावली, सेवा पुस्तिका तथा उपस्थिति पंजिका सम्परीक्षा में अप्रस्तुत रही जिस कारण इन वेतन पर किया गया भुगतान का विवरण निम्नवत् है-

क्रम	बा०सां०	दिनांक	धनराशि	चैक संख्या	विवरण
1	870	24-2-20	454509	249332	14 अध्यापिका 5 चतुर्थ श्रेणी मकनपुर

2	871	24-2-20	531509	249332	21 अध्यापिका सिहानी गेट
3	872	--	795438	249332	20 अध्यापिका 6चतुर्थ श्रेणी सिहानी
4	874	--	835214	000114	20 अध्यापिका 5 चतुर्थ श्रेणी साहिबाबाद
5	875	--	644139	000114	16 अध्यापिका 4 चतुर्थ श्रेणी कैलाशपुर
6	876	--	307126	000114	10 अध्यापिका 3 चतुर्थ श्रेणी महरौली
	योग-	307126	3567935		

**103- पेंशन भुगतान हेतु जीवित प्रमाण पत्र एवं पेंशन भुगतान पंजिका का उपलब्ध न कराये जाने के कारण भुगतान असत्यापित रू0-5,45,26,467=00**

सम्परीक्षा के समय सम्परीक्षा माहों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भुगतान की गयी पेंशन के व्यय प्रमाणको की जांच से प्रमाश में आया कि निगम द्वारा निम्न व्यय प्रमाणकों के माध्यम से निगम के पेंशन कर्मचारियों को निम्न विवरणानुसार रू0-54526467=00 का भुगतान किया गया था, परन्तु पेंशन हेतु किसी कर्मचारी का जीवित प्रमाण-पत्र सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया था तथा पेंशन भुगतान पंजिका भी सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही मात्र बैंकवार भुगतान किये ही व्यय प्रमाणकों के सम्मिलित थी जिसके एक मुश्त भुगतान वारी दर्शायी गयी थी तथा मूल पेंशन तथा डी0ए0 का कोई उल्लेख इस पर नहीं था अतः इस प्रकार बिना जीवित प्रमाण-पत्र प्राप्त किये तथा बिना पेंशन पंजिका तैयार किये पेंशन भुगतान अनियमित था उपर्युक्त प्रमाण-पत्र एवं पंजिका से भुगतान की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है।

क्रमांक	बाउचर संख्या	दिनांक	चैक संख्या	धनराशि
1	103	9-12-19	059865	8836474
2	104	--	--	690943
3	105	--	059866	13774585
4	106	--	059867	1897204
5	509	10-2-20	059924	15379111
6	510	--	059925	11865015
7	511	--	059926	1658445
8	512	--	059927	424690
			योग-	54526467



### उद्यान विभाग :

104-सिटी जोन के अन्तर्गत वार्ड संख्या-96 जैन मन्दिर रेलवे फाटक फलाई ओवर के नीचे लैण्डस्केपिंग कर सौन्दर्यीकरण के कार्य में अर्धदण्ड रूपया-1,22,830=00 न लिया जाना लेबर सेस जोड़ने के कारण रू0-7840=00 एवं त्रुटिपूर्ण गणना के कारण रू0-63 कुल रू0-130733=00 का ठेकेदार को अधिक भुगतान :-

उक्त कार्य का आगणन रू0-1228300=00 था कुल दो टैन्डर प्राप्त हुए थे। नियमानुसार कम से कम तीन टैन्डर प्राप्त होने पर ही कार्य कराया जाना चाहिए था। यह अनियमित था। सर्वन्यून टैन्डर मै0एस0पी0एस0 इन्फ्रॉटेक का (-1.29%न्यून) रूपया-12,12,454.93 हेतु था। उद्यान प्रभारी के कार्यादेश संख्या-मीमो/उद्यान/2018-19 दिनांक-8-3-19 के अनुसार कार्य समाप्ति की अवधि 3 माह थी। अवर अभियन्ता श्री दिनेश चन्द्र शर्मा की माप पुस्तिका 5847 के पृ0सं0 5 के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 24-6-2019 थी। कार्यादेश के दिनांक-से 3 माह दिनांक-7-6-19 को पूर्ण हो रहे थे। इस प्रकार कार्य 17 दिवस विलम्ब से पूर्ण हुआ था अनुबन्ध पत्र की शर्त संख्या-02 के अनुसार विलम्ब की दशा में ठेकेदार से सम्पूर्ण कार्य की आगणन राशि के 1% प्रतिदिन (विलम्ब अवधि) की दर से अर्धदण्ड लिया जायेगा किन्तु यह अर्धदण्ड आगणित धनराशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। ऐसी दशा में आगणित राशि रू0-12,28,300/-का 10 प्रतिशत 122830/-अर्धदण्ड के रूप में ठेकेदार से वसूल किया जाना चाहिए था किन्तु पत्रवली के अनुसार ठेकेदार से कोई अर्धदण्ड नहीं वसूली था जिस कारण नगर निगम को रूपया-122830/-की आर्थिक क्षति हुयी थी।

(2)-माप पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 10 पर बनाये गये एक्सट्रैक्स ऑफ कास्ट में अवर अभियन्ता श्री दिनेश चन्द्र शर्मा द्वारा किया गया कार्य रू0-795785=95 दर्शाया गया था जिसे लेखा अनुभाग द्वारा संशोधित कर रू0-794250/-किया गया था। किन्तु यह भी त्रुटिपूर्ण था। सही गणनानुसार किया गया कार्य 794191=85 का था जिस पर अन्य गणनाओं के पश्चात कुल 63/-रूपये का अधिक भुगतान ठेकेदार को किया गया था।

(3)-अवर अभियन्ता श्री शर्मा द्वारा माप पुस्तिका के पृष्ठ संख्या-10 पर एवं बिल में लेखा विभाग द्वारा 1% लेबर सेस जोड़कर ठेकेदार को भुगतान किया गया था। श्रम विभाग उ0प्र0 के पत्र संख्या-392/36-2-2010 दिनांक26-2-2010 के अनुसार जिस प्रकार ठेकेदार के देयकों से आयकर की कटौती होती है। उसी प्रकार श्रम उपकर (लेबरसेस) की कटौती की जानी चाहिए थी। ठेकेदार द्वारा लेबर सेस का भुगतान किया जायेगा। इस प्रकार बिल में 1 प्रतिशत लेबर सेस रूपये-7840/-जोड़कर ठेकेदार को भुगतान किये जाने के कारण ठेकेदार को रूपये-7840/-का अधिक भुगतान किया गया था। यह अनियमित एवं आपत्ति जनक था।

(4)-नगर निगम द्वारा ठेकेदार के बिल से काटी गयी काटौतियाँ 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 रू0-94080/-सेस रू0-8859/-रायल्टी रू0-25725/-आयकर टी0डी0एस0 रूपया-20075/-आदि के सम्बन्धित विभागों में जमा के चालान पत्रावली में

संलग्न नहीं थे जिस कारण इनसे सम्बन्धित विभागों में जमा का सत्यापन न हो सका। इन्हें प्रस्तुत कर सत्यापन कराया जाय।

उक्त अधिक भुगतान रू0-130733/-की वसूली सुनिश्चित की जाय।

105-डी0एल0एफ0 भोपुरा से सीमापुरी रोड तक बोझा मोड सिटी जोन में कुल दो विलोपित कूड़ाघर के सौन्दर्यीकरण के कार्य में पायी गयी अनियमितताएँ एवं अधिक तथा संदिग्ध भुगतान रूपये-9347/-

उक्त कार्य हेतु कुल तीन निविदाये प्राप्त हुयी थी। न्यूनतम निविदा (-1.40 प्रतिशत न्यून)मै0 सुलभा एन्टरप्राइजेज का रूपये-76906=03 की थी। उक्त कार्य का व्ययानुमान रूपया-77998/-का था। कार्य का कुल स्थल-195 वर्गमीटर था। उद्यान प्रभारी द्वारा पत्रांक मीमो/उद्यान/2019-20 दिनांक-29-6-19 द्वारा कार्यादेश दिया गया था। उक्त कार्य की स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा 26-2-19 को दी गयी थी फिर चार माह विलम्ब से निविदा आमंत्रण का औचित्य स्पष्ट किया जाय। उक्त कार्य की पूर्ण करने की निर्धारित अवधि 15 दिवस थी।

उक्त कार्य की पत्रावली के नोटिंग साइड के पृष्ठ संख्या-5 पर फर्म द्वारा प्राप्त बिल संख्या-1102 दिनांक 9-7-19 अंकन रूपया-71884/-के भुगतान की संस्तुति की गयी थी जिसे उद्यान, लिपिक उद्यान निरीक्षक जोनल ऑफीसर, मोहन नगर एवं अपर नगर आयुक्त द्वारा स्वीकृत किया था। तदनुसार पत्रावली के नोटिंग शीट संख्या-6 पर फर्म द्वारा प्राप्त बिल संख्या-1102 दिनांक-09-7-2019 अंकन रूपया-66535/-के भुगतान की संस्तुति की गयी थी जिस पर उद्यान लिपिक एवं उद्यान निरीक्षक के हस्ताक्षर थे। पुनः नोटिंग शीट संख्या-7 पर फर्म द्वारा प्राप्त बिल संख्या-1102 दिनांक-09-7-2019 अंकन रूपये-74896/-की समान कार्य हेतु संस्तुति की गयी थी जिसे उद्यान लिपिक उद्यान निरीक्षक, उद्यान प्रभारी, अवर अभियन्ता एवं अपर नगर आयुक्त द्वारा स्वीकृत किया गया था।

पत्रावली में संलग्न बिल संख्या-1102 दिनांक-09-7-2019 पत्रावली के पृ0संख्या-30 जो स्टॉक रजिस्टर के पृ0सं0-49 पर दर्ज था किन्तु पैन द्वारा कराये गये कार्य के अनुसार संशोधन किया गया था जो अंकन रूपया-65549/-का था जिस पर फर्म के अधिकारी के हस्ताक्षर थे एवं उद्यान निरीक्षण एवं उद्यान प्रभारी द्वारा स्वीकृत/सत्यापित किया गया था। पैन द्वारा सही धनराशि रूपया-65549/-को उपरिलेखन करके रू0-66549/-बना दिया गया था।

गार्ड फाईल में उक्त कार्य का बिल संख्या-1102 दिनांक-09-7-19 जो स्टॉक रजिस्टर के पृ0सं0-49 पर दर्ज था एवं उद्यान निरीक्षक तथा उद्यान प्रभारी एवं अवर अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/सत्यापित था, का भुगतान व्यय प्रमाणक संख्या-187 दिनांक-09-12-19 द्वारा (रू0-1697 आपकर, रू0-749 लेबर सेस, रू0-50 आय कटौतीके पश्चात्) रूपया-70150 का लिया गया था। उक्त बिल 74896का था। लेखा विभाग द्वारा बिल पर गणना भुगतान योग्य धनराशि 72400/-की की गयी थी। जबकि

फर्म को चैक रू0-70150/-का दिया गया था। उक्त रूपया-2300/-की कटौती का कारण/औचित्य स्पष्ट किया जाय।

गार्ड फाईल में संलग्न बिल एवं पत्रावली में संलग्न बिल की भिन्नता का कारण स्पष्ट किया जाय।

एक ही बिल की तीन विभिन्न धनराशियों की तीन बार अधिकारियों से स्वीकृति लेने, पत्रावली में गार्ड फाईल में अलग-अलग धनराशियों के बिल होने, लेखा विभाग द्वारा रूपये-72400/-की स्वीकृति लेकर रू0-70150/-का भुगतान करने से स्पष्ट था कि उक्त बिल का भुगतान अनियमित, आपत्ति जनक एवं संदिग्ध था तथा रूपया-74896-65549=9347/- का स्पष्ट अधिक/संदिग्ध भुगतान पत्रावली की जांच से परिलिखित हुआ। इस सम्बन्ध में जांच कराये जाने हेतु निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है एवं उत्तरदायी से रूपये-9347/-की वसूली कर निगम निधि में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

106-वार्ड-97 चन्द्रनगर एच0आई0जी0 ए ब्लॉक में पार्क मरम्मत व रंगाई पुताई के कार्य में अर्थदण्ड न वसूले जाने के कारण रूपये-5810/-की आर्थिक क्षति एवं लेबर सेस रू0-428/-का ठेकेदार को अनियमित भुगतान-

उक्त कार्य की आगणन राशि-83,000/-थी। सर्वन्यून निविदा (1.50%न्यून) मै0 टी0एण्ड टी0एम0 इन्जी0 प्रा0लि0 की रूपया-81755 हेतु थी। उद्यान प्रभारी के कार्यादेश संख्या-मीमो0/उद्यान 2018-19 दिनांक-8-3-19 के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 15 दिवस अर्थात् 23-3-19 थी जबकि माप पुस्तिका संख्या-6448 के पृ0सं0-03 के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 30-3-19 थी। इस प्रकार 07 दिन कार्य बिलम्ब से हुआ था। अनुबन्ध पत्र की शर्त संख्या-2 के अनुसार आगणन राशि के 01 प्रति दिन की दर से अनुसार  $7 \times 830 = 5810$ /-का बिलम्ब दण्ड न वसूलने के कारण नगर निगम को रू0-5810/-की आर्थिक क्षति हुयी थी।

बिल एवं अवर अभियन्ता द्वारा एम0बी0एस0-6448 के पृ0सं0-5 पर ठेकेदार को 1 प्रतिशत लेबर सेस रू0-428 जोडकर दिया गया था जबकि शासनादेशानुसार लेखा सेस का भुगतान का दायित्व ठेकेदार का ही था। इस प्रकार ठेकेदार को रूपये-428/-का अधिक भुगतान किया गया था। उक्त की वसूली सुनिश्चित किया जाय।

107-वार्ड-68 ब्रज विहार में पार्क की मरम्मत व रंगाई पुताई के कार्य में अर्थदण्ड रूपया-5900/-न वसूलने के कारण आर्थिक क्षति एवं लेबर सेस का ठेकेदार को अनियमित भुगतान रूपया-457/-एवं रामलीला ग्राऊन्ड के पीछे पार्क मरम्मत कार्य में ठेकेदार रू0-613/-का लेबर सेस का अनियमित भुगतान :-

उक्त कार्य का आगणन रूपया-59000/-था कुल तीन निविदायें प्राप्त हुयी थी। सर्वन्यून निविदा (1.50%न्यून)रूपया-58115 की मै0 टी0 एण्ड टी0 एस0इन्जी0 प्रा0लि0 की थी। उद्यान प्रभारी के कार्यादेश संख्या-मीमो0/उद्यान/2018-19 दिनांक-08-3-19 के अनुसार कार्य समाप्ति की अवधि 15 दिन अर्थात् 23-3-19 थी किन्तु माप पुस्तिका

संख्या-6515 के पृ0सं0-03 के अनुसार कार्य पूर्ण करने का दिनांक 29-4-19 था। इस प्रकार उक्त कार्य 37 दिवस विलम्ब से हुआ था। अनुबन्ध पत्र की शर्त संख्या-2 के अनुसार ठेकेदार से रू0-5900/-अर्थदण्ड की वसूली की जानी चाहिए थी जो नहीं की गयी थी, जिस कारण नगर निगम को रूपया-5900/-की आर्थिक क्षति हुयी थी।

अवर अभियन्ता द्वारा एम0बी0 के पृ0सं0-5 पर ठेकेदार के विल में भी 1 प्रतिशत लेबर सेस जोडकर भुगतान किया गया था। यह अनियमित एवं शासनादेश के विपरीत था। ठेकेदार को रू0-457/- लेबर सेस का अनियमित भुगतान किया गया था। इसी प्रकार रामलीला ग्राउन्ड के पीछे पार्क मरम्मत में भी रू0-613/-लेबर सेस का ठेकेदार को भुगतान किया गया था। उक्त की वसूली सुनिश्चित किया जाय।

108-वार्ड-68 बृज बिहार डी ब्लॉक राधाकुंज में पार्क की मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य में अर्थदण्ड रू0-6730/-न लिये जाने से आर्थिक क्षति एवं लेबर सेस का रू0-592/-का नियमितता भुगतान :-

उक्त कार्य की आगणन धनराशि-67300/- थी कुल तीन निविदायें प्राप्त हुयी थी। सर्वन्यून निविदा मै0टी0एण्ड टी0एस0 इन्जी0 कन्स0 प्रा0लि0 की (1.50%न्यून) रूपया-66290=50 हेतु थी। उद्यान प्रभारी के कार्यादेश संख्या-मीमो0/उद्यान/2018-19 दिनांक-26-2-19 द्वारा कार्य की अवधि एक माह थी। कार्यादेश के अनुसार उक्त कार्य दिनांक-25-3-19 को समाप्त हो जाना चाहिए था किन्तु माप पुस्तिका के पृ0सं0-3 पर कार्य पूर्ण होने की तिथि 21-4-2019 थी। इस प्रकार कार्य 30 दिन बिलम्ब से हुआ था अनुबन्ध की शर्त संख्या-2 के अनुसार रूपये-6730/-की अर्थदण्ड की धनराशि न वसूल किये जाने से नगर निगम को रूपया-6730/-की आर्थिक क्षति हुयी थी। अवर अभियन्ता द्वारा एम0बी0 के पृ0सं0-5 पर एवं बिल पर भी 1 प्रतिशत लेबर सेस रूपये-592/-को जोडकर ठेकेदार को भुगतान किया गया था। शासनादेश संख्या-392/36-2-2010 दिनांक-26-2-2010 के अनुसार लेबर सेस का भुगतान करना पूर्णतः ठेकेदार का दायित्व था। अतः रूपये-592/-का अधिक भुगतान ठेकेदार को किया गया था।

उक्त की वसूली सुनिश्चित की जाय।

109-वार्ड-74 वसुन्धरा सैक्टर-17, बी0-ब्लॉक में म0न0-501 के सामने स्थित पार्क मरम्मत के कार्य में अर्थदण्ड न वसूल किये जाने के कारण आर्थिक क्षति रू0-47500/-एवं सेस जोडने के कारण अधिक भुगतान रूपया-1813/-

उक्त कार्य का आगणन 475003=30 था। उक्त कार्य हेतु कुल 03 टैन्डर प्राप्त हये थे। न्यूनतम टैन्डर (-29.29 प्रतिशत न्यून) मैसर्स एस0पी0एस0 इन्फ्राटैक का था जो रूपया-रू0-335874.83 पर स्वीकृत हुआ था। उक्त कार्य हेतु कार्यादेश संख्या-मीमो0/उद्यान/2018-19 दिनांक-02-11-2018 को दिया गया था जिसमें कार्य समाप्त करने की तिथि एक माह अर्थात 01-12-18 थी। पत्रावली में संलग्न माप पुस्तिका संख्या-6742 के पृष्ठ संख्या-4 एव 5 के अनुसार कार्य समाप्ति का दिनांक 27-6-19 था अर्थात उक्त कार्य 208 दिवस देरी से हुआ। अनुबन्ध पत्र की शर्त संख्या-2 के अनुसार

प्रतिदिवस अर्धदण्ड आगणन आगणित लागत के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा इस प्रकार ठेकेदार से रूपये-47500/-अर्धदण्ड के रूप में नहीं वसूल किये जाने से नगर निगम को आर्थिक क्षति हुयी थी।

अवर अभियन्ता द्वारा माप पुस्तिका के पृ0स0-5 पर 01 लेबर सेस एवं बिल में भी रूपये-1813 उपर जोडकर भुगतान किया गया था। जबकि श्रम विभाग उ0प्र0 के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-392/36-2-2010 दिनांक-26-2-2010 के आलोक में अनियमित एवं आपत्ति जनक था। उक्त पत्रांक के अनुसार जिस प्रकार श्रम उपकर(लेबरसेस)की भी कटौती की जानी चाहिए थी। इस प्रकार आयकर की भौति ही लेबर सेस का व्यय ठेकेदार द्वारा वहन न किये जाने से रू0-1813/-का अधिक भुगतान ठेकेदार को हो गया था। उक्त की वसूली सुनिश्चित किया जाय।

लेखा विभाग :-

**110-02प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की वसूली न होने से निगम को रूपये-3,16,06,54,002=00 की आर्थिक क्षति :-**

सम्परीक्षा के समय 02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की पत्रावली की जांच से प्रकाश में आया कि आलोच्य अवधि में नगर निगम को 02 प्रतिशत की धनराशि के अन्तर्गत निगम अंश 0.75 प्रतिशत की दर से रूपये-82,99,94,610/-प्राप्त होने थे परन्तु आलोच्य वर्ष में उक्त धनराशि के अन्तर्गत निगम अंश 0.75 प्रतिशत प्राप्त नहीं हुये थे जिस कारण आलोच्य वर्ष की धनराशि रूपया-82,99,94,610/-वसूली हेतु अवशेष थी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त गत एवं विगत वर्षों की वसूली योग्य धनराशि निम्न प्रकार थी। इसकी वसूली न होने से नगर निगम को रूपये-3,16,06,54,002=00 की आर्थिक क्षति हुयी थी। इसकी शीघ्र वसूली हेतु निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की वसूली हेतु अवशेष धनराशि का विवरण निम्नवत् है-

क्रमांक	अवधि	प्राप्त होने वाली राशि	प्राप्त राशि	अवशेष धनराशि
1	2010-11	456680688	349663915	107016773
2	2011-12	679633562	617217611	62415951
3	2012-13	518911042	0	518911042
4	2013-14	515507730	53602154	461905576
5	2014-15	695123783	407572439	287551344
6	2015-16	632142610	459796577	172346033
7	2016-17	633656344	596965201	36691143
8	2017-18	740057145	684124973	55932172
9	2018-19	873654686	245765328	627889358
10	2019-20	829994610	शून्य	829994610
	योग-	6575362200	3414708198	3160654002

**111- अस्थायी अग्रिमों के समायोजन न कराये जाने से नगर निगम को आर्थिक क्षति रूपये-22,91,53,747/-**

सम्परीक्षा के समय अस्थायी अग्रिमों की जांच से प्रकाश में आया कि अस्थायी अग्रिम पंजी की प्रत्येक प्रविष्टि सक्षम अधिकारी से सत्यापित नहीं थी। दिनांक-03-9-2015 से पूर्व की अस्थायी अग्रिम पंजी सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी, जिस कारण अग्रिम के समायोजन की स्थिति अज्ञात रही। अस्थायी अग्रिम पंजी का अनुरक्षण त्रुटिपूर्ण ढंग से किया गया था। प्रत्येक वर्ष अस्थायी अग्रिम पंजी पृथक पृथक अनुरक्षित की जानी चाहिए थी। लगातार एक ही अस्थायी अग्रिम पंजी अनुरक्षित किये जाने से अग्रिमों के समायोजन की स्थिति अज्ञात रहती थी। नियमानुसार अद्यतन अस्थायी अग्रिम पंजी बनाकर पूर्व के असमायोजित अग्रिमों की प्रविष्टि करके अस्थायी अग्रिमों की कुल धनराशि रू0-229153747/-का सत्यापन कराया जाय तथा समस्त असमायोजित अग्रिमों की शीघ्र समायोजित कराने की कार्यवाही की जाय।

वर्ष-2017-18 की सम्परीक्षा-आख्या के अनुसार असमायोजित अग्रिमों की धनराशि रूपया-23,88,73,990/-थी। वर्ष-2018-19 की सम्परीक्षा के दौरान रूपया 12,46,29,997/- का समायोजन दर्शाया गया था एवं अवशेष अस्थायी अग्रिमों की धनराशि रू0-11,42,43,993/-दर्शायी गयी थी। वर्ष 2018-19 की सम्परीक्षा आख्या के समय समायोजित किये गये अस्थायी अग्रिमों रूपया-12,46,29,997/-की सूची सम्परीक्षा आख्या में अनुपलब्ध थी।

अग्रिम पंजिका में दिनांक-03-9-2015 से प्रविष्टि किये गये अग्रिमों से यह स्पष्ट नहीं था कि उन अग्रिमों को पूर्व में दिये गये अग्रिमों के साथ समायोजित किया गया है। अतः यह स्पष्ट किया जाय कि अग्रिम पंजिका में प्रविष्टि पीछे से फॉरवर्ड करके लाये गये हैं यह नहीं। अग्रिमों का समायोजन इतनी लम्बी अवधि से न कराया जाना अस्थायी गबन था द्योतक था जो अत्यन्त अनियमित था एवं निगम को भी निरन्तर आर्थिक क्षति हो रही थी। अस्थायी अग्रिमों के समायोजन हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निगम के उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। अस्थायी अग्रिम पंजिका में दिनांक-03-9-2015 से अस्थायी अग्रिम दर्शाये गये थे। अग्रिम पंजिका में वर्ष-2015 से अग्रिम असमायोजित दर्शाये गये थे जिसको लगभग 05 वर्ष हो चुके थे। इसका समायोजन की कार्यवाही कर सम्परीक्षा को भी अवगत कराया जाय। असमायोजित अग्रिमों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-"म" पर संलग्न है।

टिप्पणी-(1)-वर्ष-2018-19 में अस्थायी अग्रिम समायोजन रू0-12,46,29,997/- विषयक उप निदेशक के पत्र संख्या-मे0म0/685 दिनांक-8-9-2021 एवं जिला लेखा परीक्षा अधिकारी गाजियाबाद के पत्र संख्या-243/2021-22 दिनांक-13-9-21 के अनुक्रम में मांगे जाने पर वर्ष-2018-19 में समायोजित अग्रिमों के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख, बाउचर,बिल,रोकडबही आदि सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

112-नगर निगम द्वारा बैंक के चालू खातों में धनराशि जमा करने के कारण ब्याज की आर्थिक क्षति रू0-15,43,184=45 :-

नगर निगम की वर्ष-2019-20 की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के समय प्रकाश में आया कि नगर निगम द्वारा विभिन्न बैंकों में निम्न विवरणानुसार चालू खाते अनुरक्षित किये गये थे।

उ0प्र0 शासन के पत्रांक-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 वित्त लेखा अनुभाग-1, लखनऊ दिनांक-21-3-2012 के अनुसार किसी संस्था/संगठन निकाय को किसी भी प्रकार की धनराशि को बैंक के चालू खाते में नहीं रखना है। बैंकों में निधियों का संचालन करना है तो बचत खाता खोलकर धनराशि जमा की जायेगी।

उक्त शासनादेश के अनुपालन में यदि निगम द्वारा चालू खाते में धनराशि रखने के स्थान पर बचत खाते में धनराशि रखी जाती तो 4 प्रतिशत की दर से ब्याज प्राप्त होती जो रू0-15,54,184=45 थी जिससे निगम को वंचित रखा गया था।

इस प्रकार स्पष्ट था कि यदि निगम द्वारा 38579611=26 को चालू खाते में स्थान पर बचत खाते में रखा जाता तो रू0-15,54,184=45 की आर्थिक क्षति के नगर निगम को बचाया जा सकता था। इस सम्बन्ध में निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

क्रमांक	बैंक का नाम	खाता संख्या	खाते का प्रकार	31-3-20 को अवशेष रूपये
1	आई0सी0आई0सी0आई, नवयुग मार्केट	628605013722	चालू खाता	763019=73
2	आई0सी0आई0सी0आई0, आर0डी0सी0	628605013723	—''—	2060216=98
3	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नवयुग मार्केट	555201010024001	—''—	22295442=08
4	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नवयुग मार्केट	555201010024002	—''—	8167298=38
5	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, वसून्धरा	617501010050081	—''—	152453=50
6	पंजाब नेशनल बैंक, सूर्यनगर	1443002100416501	—''—	2776087=61
7	पंजाब नेशनल बैंक, वसून्धरा	3946002100002579	—''—	1496339=58
8	पंजाब नेशनल बैंक, विजयनगर	3946002100005512	—''—	868753=40
			योग-	38579611=26

**113-बजट समीक्षा :-**

नगर निगम की वर्ष 2019-20 की बजट समीक्षा के समय प्रकाश में आया कि-

1- नगर निगम की निम्नलिखित मदों में गत वर्ष की तुलना में काफी कम आय प्राप्त हुयी थी। इससे निगम को आर्थिक क्षति सम्भावित थी-

क्र०	मद का नाम	2018-19	2019-20	कम आय
1	जलकर	391157368	369898441	21258927
2	सीवर कर	193748049	178788372	14959677
3	प्रेक्षाकर	1704693	1160320	544373
4	सामान्य लाईसेन्स	11368863	9683523	1685340
5	जल बिक्री से आय(जलमूल्य)	1122970	शून्य	1122970
6	भवन एवं दुकान	62372437	11120456	51251981
7	पार्किंग	22433613	11724823	10708790
8	ठेका अन्य	291978	243490	48488
9	सीवर संयोजन	8762139	7978722	783417
10	प्रतिलिपि शुल्क	26114	20655	5459
11	स्टाम्प शुल्क से आय	255855589	23494630	232360959
12	जी०डी०ए०	11453988	शून्य	11453988

2-वर्ष-2019-20 में नगर निगम को निम्नलिखित मदों में बजट में किये गये प्राविधान से काफी कम आय प्राप्त हुयी थी।

क्रमांक	मद का नाम	प्राविधानित आय	वास्तविक आय	कम आय
1	गृहकर	750000000	579025800	170974200
2	जलकर	450000000	369898441	801011559
3	सीवरकर	250000000	178788372	71211628
4	विज्ञापन कर	100000000	51631565	48368435
5	प्रेक्षाकर	2000000	1160320	839680
6	आयकर	20000000	10116409	9883591
7	सामान्य लाइसेन्स	15000000	9683523	5316477
8	स्वास्थ्य लाइसेन्स	1500000	862429	637571
9	भवन एवं भूखण्ड	2000000	0	2000000
10	दुकान प्रीमियम	4000000	0	4000000
11	निष्प्रयोज्य सामग्री	5000000	1286510	37113490



12	जल बिक्री से आय(जलमूल्य)	1500000	0	15000000
13	अन्य	700000	0	700000
14	भवन एवं दुकान	70000000	1120456	58879544
15	अस्थायी प्रयोग भूमि	4500000	3223632	1276368
16	तरणताल	6000000	0	6000000
17	पार्किन्ग	50000000	11724823	38275177
18	ठेका अन्य	10000000	243490	756510
19	मलबा शुल्क	5000000	0	5000000
20	सीवर संयोजन	10000000	7978722	2021278
21	जल संयोजन	50000000	3479074	1520926
22	रोड कटिंग	5000000	46230455	3769545
23	जन्म मृत्यु पंजीकरण शुल्क	300000	18745	281255
24	बध शाला	100000	0	100000
25	अर्थदण्ड	100000000	8701192	1298808
26	प्रतिलिपि शुल्क	50000	20655	29345
27	कॉजी हाउस	100000	0	100000
28	मेले हाट, प्रदर्शनी से आय	100000	0	100000
29	साँई मंदिर दान पत्र से प्राप्त राशि	1500000	322583	1177417
30	यूजर चार्जिज	1,00000000	16187789	83812211

उपरोक्त स्थितियों से स्पष्ट है। कि नगर निगम की आय गत वर्ष की तुलना में कम (क्रमांक71 में उल्लिखित मदों) हुयी थी एवं क्रमांक-2 पर उल्लिखित मदों में बजट में प्राविधानित आय से कम आय प्राप्त हुयी थी। अतएव आय बढ़ाने के सम्बन्ध में ठोस कार्यवाही किये जाने के लिए नगर निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

114-डायरेक्टर सी0 एन0 डी0 एस0 (E/M) को वित्तीय वर्ष-2013-14 में भेजे गये अग्रिम रूपये-6,39,66,000/-का समायोजन वर्तमान समय तक भी न किया जाना गम्भीर अनियमित/आपत्ति जनक था-

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा के समय असमायोजित अग्रिम की जांच के समय प्रकाश में आया कि व्यय प्रमाणक संख्या 451/13-3-2014 को डायरेक्टर सी0एन0डी0एस0(E/M) को रूपये-3,39,66,000/-का अग्रिम 90 एम0एल0पी0 एस0टी0पी0 रिजेक्टर के पूर्णगठन हेतु दिया गया था। परन्तु वर्तमान समय तक भी इसका समायोजन प्राप्त न होना कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में कोई अभिलेख प्राप्त न होना नगर निगम की

गम्भीर उदासीनता का प्रतीक था तथा दिये गये अग्रिम के दुरुपयोग की प्रबल सम्भावना थी। अतएव उक्त अग्रिम के समायोजन हेतु अतिशीघ्र आवश्यक/प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु नगर निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। यदि उक्त के सम्बन्ध में कोई जांच/कार्यवाही की गयी हो तो तत्सम्बन्धी स्थिति से सम्परीक्षा को अवगत कराया जाय।

115- नगर निगम द्वारा वर्ष-2019-20 में विभिन्न फर्मों/ठेकेदारों/सप्लायरो एवं अधिकारियों/कर्मचारियों से काटे गये आयकर टी0डी0एस0, जी0एस0टी0 एवं रॉयल्टी तथा लेबर सेस से सम्बन्धित पंजी, जमा के चालान एवं उनको निर्गत फार्म-16ए तथा 16 की प्रति अप्रस्तुत :-

सम्परीक्षा में बार-बार मौखिक एवं अधियाचन संख्या-42 दिनांक-16-9-21 द्वारा मांग किये जाने के पश्चात् भी नगर निगम द्वारा वर्ष-2019-20 में विभिन्न फर्मों/ठेकेदारों/सप्लायरो से काटे गये आयकर टी0डी0एस0, जी0एस0टी0 एवं लेबर सेस से सम्बन्धित पंजी जमा के चालान एवं उनको निर्गत फार्म 16ए की प्रति सम्परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी जिस कारण काटे गये आयकर टी0डी0एस0, जी0एस0टी0 एवं लेबर सेस एवं उनके सम्बन्धित विभाग में जमा की पुष्टि न हो सकी तथा यह भी ज्ञात न हो सका कि नगर निगम द्वारा उक्त को फार्म-16ए निर्गत किये गये थे अथवा नहीं उक्त के अभाव में आयकर टी0डी0एस, जी0एस0टी0 एवं लेबर सेस की कटौती, तथा इनके सम्बन्धित विभाग में जमा एवं फर्मों को निर्गत फार्म-16 की स्थिति अज्ञात रही। अतः इन्हें अविलम्ब जांच हेतु प्रस्तुत किया जाय।

2-नगर निगम में वर्ष-2019-20 में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से काटे गये आयकर टी0डी0एस0, की गणना जांच हेतु आयकर टी0डी0एस0, पंजी, अधिकारियों/कर्मचारियों की आय का विवरण, आयकर की गणना सम्बन्धी प्रपत्र, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 80सी एवं अन्य धारा के अन्तर्गत मांगी गयी छूट से सम्बन्धित प्रपत्र तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जारी किये गये फार्म-16 की प्रतियाँ आदि तत्सम्बन्धी अन्य अभिलेख मौखिक एवं उक्त अधियाचन द्वारा मांग किये जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतएव उपरोक्त अभिलेखों को सम्परीक्षा में प्रस्तुत कर आवश्यक जांच कराये जाने हेतु संस्था के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

116-रोकड बही एवं बैंक पासबुकों के शेष के मध्य अन्तर रूपये-28,10,53,858=51 का समायोजन न किया जाना अनियमित एवं आपत्ति जनक :-

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा के समय निगम की रोकड बही एवं बैंक खातों की जांच के समय प्रकाश में आय कि निगम की रोकडबही एवं बैंक खातों के 31-3-20 के इतिशेष की धनराशि के मध्य काफी अन्तर था। रोकड बही के अनुसार कुल रूपये-3457018035=19 थी एवं बैंक खातों के अनुसार रू0-3175964176=68 थी। इस प्रकार रोकड बही एवं बैंक शेष के मध्य 3457018035=19 - 3175964176=68 =

281053858=51 का अन्तर था। इस प्रकार रोकड बही एवं बैंक खाते के मध्य अन्तर के समाधान हेतु वार्षिक लेखा बन्दी करते हुए बैंक समाधान विवरण बनाया जाना चाहिए जिससे रोकडबही एवं बैंक पासबुक के मध्य अन्तर 281053858=51 का समाशोधन किया जा सके।

यू0आई0डी0 एस0एस0एम0टी0 खाते में भी रूपया 151=50 का अन्तर था। नगर निगम के रोकड बही एवं बैंक पासबुक के मध्य अन्तर का समाशोधन सम्परीक्षा तिथि तक न किया जाना आपत्ति जनक एवं व्यपहरण जैसी सम्भावनाओं को बल देने वाला था। इस सम्बन्ध में निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

#### 117-चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को अमान्य भुगतान रूपये-157,500/-

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में चयनित माहो के व्यय प्रमाणको की जांच के समय प्रकाश में आया कि निगम द्वारा व्यय प्रमाणक संख्या-521 दिनांक-11-2-2020 द्वारा रूपये-157500/-का भुगतान चेक संख्या-249228 द्वारा आहूजा सक्सेना एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आर0एस0 गार्डेन न्यू पंचावली गाजियाबाद को नगर निगम गाजियाबाद को वर्ष-2018-19 हेतु प्रोफेशनल चार्जज फार आडिट फीस के रूप में किया गया था। उक्त कार्य हेतु फर्म द्वारा इनवायस नं0-ASC/2019-20/19 DATE-01-12-2019 रू0-1,75,500/-का बिल प्रस्तुत था जिस पर रू0-1,75,500/-की कटौती के पश्चात् रू0-1,57,500/- उपरोक्तानुसार फर्म को भुगतान किया गया था।

उल्लेखनीय है कि नगर निगम गाजियाबाद आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग है जिसमें मुख्य नगर लेखा परीक्षक, वरिष्ठ लेखा परीक्षक एवं लेखा परीक्षक के पद पर नगर निगम की आन्तरिक लेखा परीक्षक हेतु कार्यरत है तथा निगम के लेखाधिकारी, लेखाकार एवं सहायक लेखाकार भी कार्यरत है। फिर भी नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष-2018-19 आडिट फीस हेतु प्रोफेशन चार्जज का भुगतान किया जाना सम्परीक्षा में मान्य नहीं था यदि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से आडिट कराये जाने हेतु शासन का कोई आदेश हो तो सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय अन्यथा स्थिति में उक्त किया गया भुगतान अमान्य था। अतएव उक्त के सम्बन्ध में प्रभावी आवश्यक कार्यवाही किया जाय अपेक्षित है।

#### 118-मै0 नीता एसोसिएट्स से कम्प्यूटर ऑपरेटर, सुपरवाइजर ड्राफ्टमैन आदि की आपूर्ति हेतु अनियमित भुगतान रूपया-5,04,019=00

शासनादेश संख्या-374/2016/771/69-1-2016-14(56)/2016 दिनांक-20-5-2016 के पैरा-2 में व्यवस्था की गयी थी कि " शहरी अजीविका केन्द्र को आर्थिक दृष्टि से आत्म निर्भर बनाने हेतु आवश्यक है कि विभिन्न सरकारी, अर्द्धसरकारी विभागो, उपक्रमों, प्रधिकरणों एवं स्थानीय निकायों द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से ली जाये ताकि केन्द्रो को आर्थिक रूप से सुदृढ किया जा सके एवं शहरी गरीबी उन्मूलन की दिशा में अग्रसर किया जा सके।

नगर निगम द्वारा आलोच्य अवधि में जब शहरी अजीविका केन्द्र से आउटसोर्स के माध्यम से विभिन्न पदों पर कर्मी लिये गये थे फिर शासनादेश का उल्लंघन करते हुए किस दशा में मै नीता एसोसिएट्स से कम्प्यूटर ऑपरेटर, सुपरवाइजर एवं ड्राफ्टमैन लिये गये

थे, स्पष्ट किय जाय। यह आपत्ति जनक था। मै० नीता एसोसिएट्स को निम्न विवरणानुसार किया गया भुगतान अनियमित था—

व्यय प्रमाणक संख्या	दिनांक	धनराशि	विवरण
225	11-12-19	138360	2 कम्प्यूटर आपरेटर 10000 प्रतिमाह
541	11-2-20	230434	09 सुपरवाइजर, ड्राफ्टमैन की आपूर्ति
617	15-2-20	135225	5 कम्प्यूटर आपरेटरों को भुगतान
	योग—	504019	

119—मै० राजट्रेडिंग कं० को हाइड्रोलिक आयल हेतु किया गया भुगतान रूपया—239700/—असत्यापित :-

सम्परीक्षा में आलोच्य माहों के व्यय प्रमाणकों की जांच से प्रकाश में आया कि मै० राज ट्रेडिंग कं० को व्यय प्रमाणक संख्या—227 दिनांक—11-12-19 चेक संख्या—000427 द्वारा रूपया—239700/—का भुगतान हाइड्रोलिक ऑयल के 06 बैरल कुल 1260 लीटर रूपया—39950/—प्रति बैरल की दर से क्य करने हेतु किया गया था। समीक्षा में उक्त से सम्बन्धित स्टॉक बुक, क्य पत्रावली एवं टैन्डर/कोटेशन आदि अनुपलब्ध रहने के कारण उक्त धनराशि रू०—239700/—के भुगतान का सत्यापन नहीं किया जा सका। अतः पत्रावली, टैन्डर/कोटेशन, स्टॉक बुक उपभोग पंजिका आदि प्रस्तुत कर उक्त का सम्परीक्षा में सत्यापन कराया जाय।

120—मै० टी०पी०एस० इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० को पोर्टेबल कॉम्पैक्टर क्य हेत किया गया भुगतान रूपया—9860800/—असत्यापित :-

सम्परीक्षा में आलोच्य माहों के व्यय प्रमाणकों की जांच में प्रकाश में आया कि नगर निगम द्वारा मै० टी०पी०एस० इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० को उनके बिल सं०—3217 से 3220, 3260 से 3267, 3290 से 3293, 3323 से 3324 एवं 3380 दिनांक 26-3-2019 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक संख्या—603 दिनांक—13-2-2020 तथा रूपया—9860800/—का भुगतान कुल 19 संख्या में 12.5 कम पोर्टेबल कॉम्पैक्टर क्य करने हेतु भुगतान किया गया। सम्परीक्षा में उक्त क्य से सम्बन्धित पत्रावली टूल एण्ड प्लान्ट रजिस्टर, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आदि प्रस्तुत नहीं की गयी जिसके अभाव में उक्त व्यय का सत्यापन नहीं किया जा सका।

121—मै० राज इलैक्ट्रिकल्स को ट्यूबवैल संचालन हेतु किया गया भुगतान रू०—11,25,400/—असत्यापित :-

सम्परीक्षा में जांच के दौरान आलोच्य माहों के व्यय प्रमाणकों की जांच से प्रकाश में आया कि नगर निगम द्वारा मै० राज इलैक्ट्रिकल्स गाजियाबाद को उनके बिलों के सापेक्ष निगम विभिन्न जोनो में ट्यूबवैलों के संचालन हेतु निगम व्यय प्रमाणकों द्वारा भुगतान किया

गया था किंतु सम्परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित पत्रावली, टैन्डर, लॉगबुक सक्षम अधिकारी द्वारा किये गये कार्य का सत्यापन आदि प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में उक्त भुगतान का सत्यापन नहीं किया जा सका। भुगतान का विवरण निम्नवत् था—

व्यय प्रमाणक सं०	दिनांक	धनराशि	चेक संख्या	विवरण
246	16-12-19	192600	000203	मोहन नगर जोन के ट्यूबवैल
247	16-12-20	785500	000203	सिटीजोन —"—
752	16-10-20	147300	000106	मोहन नगर जोन के ट्यूबवैल
	योग—	1125400		

122—व्यय प्रमाणक संख्या—49 दिनांक—4—12719 रूपया—1016950/—का शहरी अजीविका केन्द्र को किये गये भुगतान में पायी गयी अनियमितताएँ :-

व्यय प्रमाणक द्वारा शहरी अजीविका केन्द्र को उनके बिल संख्या—सी०एल०सी०/०४५/ 2019-20 दिनांक—20-11-19 का भुगतान माह अक्टूबर—2019 में उनके द्वारा आउटसोर्सिंग पर लगी हुयी जनशक्ति हेतु किया गया था। उक्त भुगतान कुल 3440 उपस्थिति हेतु दर रूपया—250 प्रति उपस्थिति कुल रू०—8,60,000/—लाइब्रेरी नगर निगम में योजित अकुशल श्रमिकों हेतु भुगतान किया गया था, साथ ही ई०पी०एफ० 13 प्रतिशत रू०71,11,800/—ई० एस०आई०सी० 3.25 प्रतिशत रू०—27950/—एवं टेकेदार का लाभ 2 प्रतिशत रू०—17200/— कुल रूपया—1016950/—में से आयकर रू०—450/—की कटौती करके शुद्ध भुगतान रू०—1016500/—किया गया था।

शहरी अजीविका के उक्त भुगतान से सम्बन्धित पत्रावली, कार्मियों की उपस्थिति/मस्टर रोल, ई०पी०एफ० एवं ई०एस०आई० के सम्बन्धित विभागों में जमा चालान अप्रस्तुत रहे जिस कारण उक्त भुगतान का सत्यापन न हो सका। इन्हें सम्परीक्षा में प्रस्तुत कर सत्यापन कराया जाय।

123—पेंशन भुगतान से सम्बन्धित पत्रावलियों एवं पेंशन पंजी अप्रस्तुत :-

उप सम्परीक्षा माह दिसम्बर—2019 में माह नवम्बर—2019 व जुलाई—2019 से बढे हुए डी०आर के एरियर कुल रू०—7235792/—एवं माह नवम्बर— की पेंशन राशि जो बैंकों में भेजी गयी थी रू०—2,51,99,206/— कन्टीजेन्ट बिल पर व्यय प्रमाणक बनाकर भुगतान किया गया था। एवं माह फरवरी—2020 में माह जनवरी—20 हेतु पेंशन/उपादान की राशि रू०—2,93,27,261/—का भुगतान किया गया था किन्तु सम्परीक्षा में बार—बार मांगे जाने पर भी पेंशन पत्रावलियों एवं पेंशन पंजी प्रस्तुत नहीं की गयी जिनके अभाव में पेंशन एवं उपादान राशि की सम्यक जांच न हो सकी। इन्हें प्रस्तुत किया जाय।

124—व्यय प्रमाणक संख्या—47 दिनांक—4—12—19 द्वारा रूपया—2500000/—का जल निगम को भुगतान करने के सम्बन्ध में :-

व्यय प्रमाणक द्वारा परियोजना प्रबन्धक, गंगाजल इकाई, उ०प्र० को 50 क्यूसेक गंगाजल परियोजना के संचालन व रखरखाव हेतु रूपया—25 लाख का भुगतान किया गया

था। उक्त भुगतान किस शासनादेश/अधिकारी के आदेश के अन्तर्गत किन नियमों एवं शर्तों के अधीन किया गया था। सम्परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया एवं न ही कन्टीजेन्ट बिल (जिसके द्वारा भुगतान किया गया था) के साथ उक्त से सम्बन्धित कोई भी पत्राजात यथा आदेश, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति, शर्तें एवं प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में व्यय प्रमाणक के साथ संलग्न किया गया था। उक्त के अभाव में उक्त भुगतान से सम्बन्धित स्थिति स्पष्ट न हो सकी। इसे स्पष्ट किया जाय एवं सम्बन्धित पत्रावली सम्परीक्षा में प्रस्तुत की जाय ताकि उक्त भुगतान का सत्यापन किया जा सकें।

**125-मोहन नगर जोन के जमा चालान संख्या-06 दिनांक-01-02-2020 के द्वारा म्यूटेशन की प्राप्त धनराशि रूपया-1275 को रोकडबही में रूपया-12175/-अंकित करने से रूपया-10900/-का अधिक्क्य/अन्तर :-**

संस्था के आय पक्ष से सम्बन्धित सम्परीक्षा के समय प्रकाश में आया कि मोहननगर जोन के द्वारा म्यूटेशन के रूप में चालान संख्या-06 दिनांक-01-2-2020 के द्वारा रूपया-1275 प्राप्त करके एच0डी0एफ0सी0 बैंक के खाता संख्या-50100290416233 में दर्शाया गया था। उक्त चालान एवं रसीद की जमा धनराशि रूपया71275 को रोकडबही में रूपया-12175/-अंकित किया गया था। इस प्रकार रूपया-12175-1275=10900/-की अधिक धनराशि रोकड बही में अंकित की गयी जिससे रोकडबही के शेष प्रभावित हो गये। आधिक्क्य धनराशि अंकित करने का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

**126-कविनगर जोन की रसीद संख्या-25873 जन्म/मृत्यु की धनराशि रूपया-715/-का रोकड बही में अंकित नहीं किया जाना अनियमित :-**

कविनगर जोन की आय से सम्बन्धित रसीद संख्या-25873 जन्म/मृत्यु हेतु निर्गत की गयी थी इसकी जांच से प्रकाश में आया कि उक्त रसीद बुक की रसीद संख्या-031 से 100 तक की रसीदों को दिनांक-06-2-2020 से लेकर दिनांक-19-2-2020 तक काटा गया था।

उक्त रसीद की धनराशि रू07715/-को रोकड बही में अंकित नहीं किया गया था जो कि अनियमित था। उक्त धनराशियों को रोकड बही में अंकित बैंक शेष के साथ करके सत्यापन कराया जाय अन्यथा की स्थिति में धनराशि को सम्बन्धित से वसूल कर जमा कराया जाय एवं सम्परीक्षा को भी अवगत कराया जाय।

**127-बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त अनुदान की अप्रयुक्त धनराशि शासन को वापस न किया जाना अनियमित रूपये-1,54,73,720/- :-**

सम्परीक्षा के समय प्रकाश में आया कि अप्रयुक्त अनुदान लेखे में नगर निगम को वर्ष 2005-06 से 2010 तक 12 वे वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त अनुदान की धनराशि में से रूपया/15473720/- दिनांक-31-3-2020 तक उपभोग नहीं किये गये थे और न ही इन्हें व्यय किये जाने हेतु शासन से कोई अनुमति प्राप्त की गयी थी। ऐसी स्थिति में उक्त अनुदान निगम खातों में अवरूद्ध था। इसें शासन को वापस न किया जाना

अनियमित था। सम्परीक्षा में स्पष्ट किया जाय कि अप्रयुक्त अनुदानों की यह धनराशि किस बैंक खाते, कोषागार में जमा है। इस धनराशि को अभी तक शासन को वापस न किये जाने का कारण स्पष्ट करते हुए ब्याज सहित उक्त धनराशि वापस कर सम्परीक्षा को अवगत कराया जाय।

**128-राजस्व अनुभाग से प्राप्त अनुदान की अप्रयुक्त राशि का उपभोग न किया जाना अनियमित रूपये-371574/- :-**

सम्परीक्षा के समय अप्रयुक्त अनुदान के लेखे की जांच से प्रकाश में आया कि राजस्व अनुभाग से प्राप्त अनुदान जो शसनादेश संख्या-2021/1-10-2011/12(34)/2011 दिनांक-11-4-2011 द्वारा धनराशि-1,10,22,000/-दिनांक-23-12-2011 को प्राप्त हुयी थी। इसमें रूपया-371574/-की धनराशि विगत कई वर्षों से अप्रयुक्त चली आ रही थी। इसके उपभोग न करने का कारण स्पष्ट किया जाय एवं इसके उपभोग हेतु राजस्व अनुभाग से स्वीकृति प्राप्त की जाय अन्यथा स्थिति में इसे अतिशीघ्र सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

**129-सांसद एवं विधायक निधि से प्राप्त अनुदान की धनराशि का उपभोग न किया जाना अनियमित रूपया-720854/- :-**

सम्परीक्षा के समय अप्रयुक्त अनुदानों के लेखे की जांच से प्रकाश में आया कि विगत कई वर्षों से सांसद एवं विधायक निधि से प्राप्त अनुदान की राशि रूपया-720854/-अप्रयुक्त चली आ रही थी। इसके उपभोग न करने कारण स्पष्ट किया जाय एवं अप्रयुक्त अनुदानों को वापस किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

**130-स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान की धनराशि का उपभोग न किया जाना अनियमित रूपया-12906480/-**

स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत निगम को वर्ष-2015-16 एवं 2016-17 में प्राप्त अनुदान की राशि रूपया-12906480/- अप्रयुक्त थी। गत एवं विगत सम्परीक्षा आख्याओं में भी इसके उपभोग करने हेतु इंगित किया गया था। किन्तु यह धनराशि अभी तक अप्रयुक्त थी। इसका उपभोग सुनिश्चित किया जाय अन्यथा स्थिति में इसकी वापसी सुनिश्चित किया जाय।

**131-निगम के बजट के में अंकित अन्य आय की धनराशि रूपया-109,18,614/-से सम्बन्धित अभिलेख वांछित :-**

बजट के अनुसार आलोच्य अवधि में अन्य आय के रूप में निगम को रूपये-1,09,18,614/-की आय दर्शायी गयी थी। इस आय के सम्बन्ध में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह आय किन-किन मदों से प्राप्त हुयी थी तथा यह किस प्रकार की आय थी। उक्त आय से सम्बन्धित अभिलेख शीघ्र सम्परीक्षा में प्रस्तुत करके आय का सत्यापन कराया जाय।

132- इण्डियन आयल कारपोरेशन मेरठ को डीजल के टैंकर क्य हेतु बिना बिल प्राप्त किये ही मात्र कन्टीजेन्ट बिल के माध्यम से भुगतान किया जाना रूपया-01,13,49,132=00 अनियमित :-

सम्परीक्षा के समय आलोच्य माहों के व्यय प्रमाणकों की जांच से प्रकाश में आया कि निम्न विवरणानुसार मै० इण्डियन आयल कारपोरेशन मेरठ को डीजल टैंकर क्य हेतु भुगतान किया गया था किंतु उक्त भुगतान से सम्बन्धित मै० इण्डियन आयल कारपोरेशन का कोई भी बिल/इनवायस कन्टीजेन्ट बिल के साथ संलग्न नहीं था। अतः क्य किये गये टैंकरों का बिल/इनवायस स्टाम्प पंजिका, निर्गमन पंजिका एवं लांग बुक उपलब्ध कराकर क्य किये गये डीजल की पुष्टि कराये जाने/बिना बिल/इनवायस के मात्र कन्टीजेन्ट बिल के माध्यम से भुगतान कराया जाना अनियमित एवं आपत्ति जनक था किये गये भुगतान का विवरण निम्नवत था :-

क्र०	बाउचर संख्या	दिनांक	भुगतानित धन०	चेक सं०
1	243	13-12-19	1285000	002590
2	330	19-12-19	1270000	001421
3	462	24-12-19	1270000	002593
4	661	30-12-19	1270000	000510
5	31	5-02-20	1327066	056434
6	313ए	10-02-20	1327066	002611
7	613	15-2-20	1327066	000544
8	633ए	20-2-20	1200000	001478
9	1133	27-2-20	1072934	000652
		योग-	11349132	

133-वाहनों के इन्श्योरेन्स कराये जाने हेतु किये गये भुगतान में बीमा बाण्ड/भुगतान रसीद सम्परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने से भुगतान संदिग्ध रूपया-17,21,606=00 :-

सम्परीक्षा के समय व्यय प्रमाणकों की जांच से प्रकाश में आया कि निम्नविवरणानुसार निगम के वाहनों का बीमा विभिन्न फर्मों से कराया गया था परन्तु व्यय प्रमाणक के साथ बीमा बाण्ड एवं भुगतान रसीद संलग्न नहीं थी। उक्त बीमाओं से सम्बन्धित पत्रावली भी सम्परीक्षा में अप्रस्तुत रहीं जिस कारण कराये गये वाहनों के बीमा से सम्बन्धित शर्त आदि की जांच न की जा सकी। बिना बाण्ड के क्षतिपूर्ति की व्यवस्था नहीं होती तथा बाण्ड ही वाहन बीमा की पुष्टि करता है। अतः बिना बाण्ड के भुगतान संदिग्ध था, बीमा बाण्ड भुगतान की रसीद प्रस्तुत कर भुगतान की पुष्टि करायी जाय।

बाउचर सं०	दिनांक	धनराशि	चेक सं०	कैसे भुगतान किया गया	विवरण
248	16-12-19	305960	000006	रिलायंस जनरल	कन्टीजेन्ट बिल पर 20



				इन्श्योरेश बैंक लि० नौएडा	वाहनों का बीमा न्य डम्पर हाइवर 10 टायरा
249	16-12-19	792000	000012	मै० लिबर्टी जनरल इन्श्योरेश लि० नौएडा	कन्टीजेन्ट बिल पर 80 डोर टू डोर टैम्पू का बीमा
250	16-12-19	623646	000007	मै० लिबर्टी जनरल इन्श्योरेश लि० नौएडा	कन्टीजेन्ट बिल पर 20 नग डम्पर हाइवर 10 नग आर सी 4 नग रोड स्वीपिंग मशीन
	योग-	1721606			

**134-शहरी अजीविका केन्द्र (सिटी लिवली हुड सैन्टर) को किये गये भुगतान से सम्बन्धित पत्रावलियों अप्रस्तुत रहने से भुगतान रू-34215548/-असत्यापित :-**

सम्परीक्षा में आलोच्य माहों के व्यय प्रमाणकों की जांच से प्रकाश में आया कि नगर निगम द्वारा विभिन्न विभागों में मैन पावर सप्लाई हेतु शहरी अजीविका केन्द्र गाजियाबाद से विभिन्न पदों पर कार्य करने हेतु कर्मियों की आपूर्ति हेतु ठेका दिया था किंतु सम्परीक्षा में बार-बार मांगें जाने पर भी निम्न विवरणानुसार किये गये भुगतान से सम्बन्धित पत्रावली अप्रस्तुत रही इस सम्बन्ध में दिये गये अधियाचन संख्या-04 दिनांक-14-6-2021 तथा अधियाचन संख्या-18 दिनांक-20-7-21 किये जाने के उपरान्त भी कोई उत्तर नहीं दिया गया यह स्थिति संतोषजनक नहीं थी उक्त के अभाव में किये गये भुगतान का सत्यापन नहीं किया जा सका ।

भुगतान का विवरण निम्नवत् है-

व्यय प्रमाणक संख्या	दिनांक	धनराशि	कर्मियों की संख्या
399 से 411	21-12-19	12810000	1474
658	30-12-19	1009100	116
538	11-2-20	151799	06
546	11-2-20	752998	85
547	11-2-20	44329	05
548	—"—	778117	85
549	—"—	45805	05
557	12-2-20	1088000	122

558	--"	1117600	122
559	--"	1492300	170
560	--"	1557300	170
561	--"	174000	19
562	--"	168400	19
563	--"	1841300	201
564	--"	1781900	201
614	15-2-20	1019400	115
615	--"	796700	68
616	--"	843200	46
877	24-2-20	1231600	135
878	--"	1354900	148
879	--"	1006500	110
880	--"	613700	67
881	--"	229000	25
882	--"	2307600	253
	योग-	34215548	

**135-बोर्ड प्रस्तावित ठेका सफाई कर्मचारियों को किये भुगतान रूपया-3,00,87,350/-से सम्बन्धित ठेका पत्रावली अप्रस्तुत :-**

सम्परीक्षा में आलोच्य माहो के व्यय प्रमाणकों की जांच से प्रकाश में आया कि बोर्ड प्रस्तावित ठेका सफाई कर्मचारियों को निम्न विवरणानुसार रू0-30087350/-का भुगतान किया गया था। उक्त ठेके से सम्बन्धित पत्रावली बार-बार मांगे जाने एवं लिखित अधियाचन संख्या-04 दिनांक-14-6-21 तथा अधियाचन संख्या-09 दिनांक-15-7-2021 एवं अधियाचन संख्या-18 दिनांक-20-7-2021 किये जाने के उपरान्त भी पत्रावली अप्रस्तुत रही जिस कारण इसकी सम्यक जांच न हो सकी इसे प्रस्तुत कर भुगतान की पुष्टि करायी जाय।

किये गये भुगतान का विवरण निम्नवत् था -

बाउचर सं०	दिनांक	धनराशि	श्रमिकों की सं०
210	10-12-19	1398350	136
211	--"	1649550	154
212	--"	521500	51
213	--"	573300	55
621	15-2-20	2415650	227
623 से 624	--"	1636950	154
628	18-2-20	1863850	182

629 से 630	--"	1397550	136
631 से 633	--"	2529400	243
640	20-2-20	2677050	226
641 से 645	--"	2670500	274
867 एवं 868	24-2-20	2997150	288
869	--"	3337050	318
873	--"	2828750	260260
1137 एवं 1138	27-2-20	1590750	292292
	योग-	30087350	

### 136-आऊट सोर्सिंग कर्मचारियों की पत्रावली सम्परीक्षा में अप्रस्तुत :-

सम्परीक्षा में लिखित एवं मौखिक रूप से मांग किये जाने पर भी नगर निगम में आऊट सोर्सिंग कर्मचारियों की पत्रावली सम्परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी जबकि सम्परीक्षा माह के व्यय प्रमाणकों की जांच में पाया गया कि निगम द्वारा विभिन्न विभागों में सफाई कर्मचारियों/ड्राइवरों/हैल्परों/लिपिक/इलैक्ट्रीशियन आदि की आपूर्ति ली गयी थी। सम्परीक्षा में पत्रावली प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट न हो सका कि आऊट सोर्सिंग कर्मचारियों का ठेका किस फर्म को किस-किस नियम एवं शर्तों के अनुसार तथा ठेकेदार द्वारा ठेका की समस्त आर्हताएँ पूरी करता था अथवा नहीं। ठेके में निर्धारित नियमों का पालन किया गया था अथवा नहीं तथा फर्म कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पंजीकृत है अथवा नहीं।

(II)-आलोच्य वर्ष में ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 की कितनी धनराशि नगर निगम द्वारा ठेकेदार को दी गयी तथा ठेकेदार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि खाते में कर्मचारियों की कितनी धनराशि जमा कि जमा के चालानों से इसकी पुष्टि करायी जाय।

(III)-ठेकेदार द्वारा आलोच्य वर्ष में कितनी जी0एस0टी0 की धनराशि निगम से प्राप्त की गयी तथा कितनी धनराशि कोषागार में चालानों के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करायी गयी स्पष्ट किया जाय।

### 137-नगर निगम की सम्परीक्षा में बार-बार मांग किये जाने पर भी निगम द्वारा विभिन्न आय की रसीदें उपलब्ध न कराया जाना अनियमित :-

सम्परीक्षा में बार-बार मौखिक एवं लिखित अधियाचन सख्या-04 दिनांक-14-6-21 एवं अधियाचन सख्या-09 दिनांक-05-7-2021 एवं 18 दिनांक-20-7-21 दिये जाने के उपरान्त भी निम्नलिखित रसीदें सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जिस कारण इन रसीदों से प्राप्त आय की धनराशि की सम्यक जांच सम्भव न हो सकी। इन्हें शीघ्र प्रस्तुत करके जांच कराकर सत्यापित कराया जाय।

25973	पार्क बुकिंग
25980	सामुदायिक केन्द्र/पार्किंग शुल्क
25967	किराया
25974	जल संयोजन/सीवर संयोजन संयोजन/टैंकर शुल्क

25944	लाइसेन्स शुल्क
25801	—”—
116	जुर्माना
183	—”—
075	—”—
179	—”—
138	—”—
194	—”—
132	—”—
170	—”—
135	—”—
125	—”—
25968	लाइसेन्स शुल्क
25964	नकल फीस
25965	—”—
25981	टैकर शुल्क
25932	—”—
25945	लाइसेन्स शुल्क
25984	समुदायिक केन्द्र
25865	नकल फीस
25963	आश्रय योजना
25720	आर0टी0आई0 शुल्क
25975	जन्म मृत्यु
25937	—”—
25985	लाइसेन्स शुल्क
25988	किराया सामुदायिक केन्द्र
25989	कुटेशन शुल्क
25987	पार्क बुकिंग
25992	किराया सामुदायिक केन्द्र
910	लाइसेन्स शुल्क
25946	—”—
25990	नकल फीस
52	साई मन्दिर
53	—”—
54	—”—
25986	कुटेशन शुल्क
911	लाइसेन्स शुल्क

25977	जन्म मृत्यु
208	प्रवेश शुल्क
25983	जन्म मृत्यु
25995	किराया सामुदायिक केन्द्र
25993	जन्म मृत्यु

### कर विभाग

**138—नगर निगम द्वारा जलममल्य लागू न किये जाने से निगम को आर्थिक क्षति रूपये—  
34,52,58,900 / - :-**

शासनादेश संख्या-1810-नौ-2-96-57(2)/96 नगर विकास अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक-8-1-1997 के अनुसार जलापूर्ति व्ययों में हो रही वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए निगम द्वारा उप विधि बनाकर रूपये-75 प्रतिमाह प्रति संयोजन करेलू तथा 300 प्रतिमाह प्रति संयोजन गैर घरेलू संयोजनों पर लागू किया जाना चाहिए था। किन्तु शासनादेशानुसार निगम द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। जिससे जल मूल्य की धनराशि आरोपित कर वसूल नहीं की जा रही थी निगम द्वारा जल मूल्य आरोपित न किये जाने के कारण निगम को लगातार आर्थिक क्षति हो रही थी। निगम में जल कनेक्शनों से सम्बन्धित कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं किये गये थे। जल कनेक्शनों की पंजी अभिलेख अनुरक्षित करके कनेक्शन नं0 आबंटित किया जाना चाहिए था जबकि नगर निगम द्वारा जल संयोजनों की पंजी अनुरक्षित नहीं की गयी थी इससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि नगर निगम द्वारा अथवा जल निगम द्वारा कितने कनेक्शन कहाँ-कहाँ संयोजित किये गये थे। इस सम्बन्ध में विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। सम्परीक्षा में जलकल अनुभाग द्वारा जल संयोजनों की पंजिका उपलब्ध न कराये जाने के कारण ज्ञात नहीं हो सका कि नगर निगम में जल संयोजनों की संख्या आलोच्य अवधि में कितनी थी। विगत सम्परीक्षा आख्या वर्ष-2017-18 के अनुसार कुल संयोजनों की संख्या-243879 थी। यदि गत एवं आलोच्य वर्ष में इसमें 10 प्रतिशत की वृद्धि होती है तो ये  $243879+24388=295094$  वर्ष 2019-20 में कुल कनेक्शनों की संख्या होनी चाहिए थी यदि कुल संयोजनों में से 90 प्रतिशत घरेलू तथा 10 प्रतिशत कनेक्शन व्यवसायिक माना जाय तो नगर निगम को  $265585+75+12=239026500$  घरेलू कनेक्शन हेतु +  $29509+300+12=10,62,32,400$  कुल रूपये-345258900/- लगभग की आलोच्य अवधि में आर्थिक क्षति संस्था को हुयी थी परन्तु नगर निगम के बजट में उक्त मद में कोई आय दर्शायी नहीं गयी थी जबकि लगभग रू0-345258900/- जल मूल्य का आरोपण आलोच्य अवधि हेतु करके वसूली की जानी चाहिए थी अतएव नगर निगम को जल मूल्य का आरोपण न किये जाने के कारण आलोच्य अवधि में हुयी आर्थिक क्षति रूपये-34528900/-के सम्बन्ध में आवश्यक/प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

**139—त्रुटिपूर्ण कर निर्धारण के कारण नगर निगम को आर्थिक क्षति रूपये—90,22,451=00**

सम्परीक्षा में विजय नगर जोन में कर निर्धारण की पत्रावलियों की जांच से निम्नलिखित अनियमितताएँ प्रकाश में आयी—

(1)रेनवो पब्लिक स्कूल, पी0-ब्लाक, सैक्टर-12, प्रताप विहार, गाजियाबाद का दिनांक-01-04-2016 में कर निर्धारण रू0-5,35,500/-ए0आर0वी0 पर निम्नवत् किया गया था  
आर0सी0सी-20000 वर्ग फूटX.66X12माहX3गुना आवासीय का = 475200=00

खुली भूमि 7500वर्गफूट X.22X12माहX3गुना आवासीय दर का = 59440=00

योग-5,34,640=00

उक्त कर निर्धारण को दिनांक 01-4-2019 में रिवाइज किया जा निम्नवत् था—

आर0सी0सी-30829 वर्ग फूटX1.62X12माह = 599221=00 (सही गणना-599316)

खुली भूमि 30279वर्गफूट X0.40X12माह = 145339=00

योग-744500=00 सही गणना-744655

उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-3005/नौ0-9-2013-85ज/05 टी0सी0 दिनांक 27 दिसम्बर, 2013, नगर विकास अनुभाग-9, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2013 का प्रख्यापन किया जा चुका था। जिसके अनुसार प्राईवेट/पब्लिक स्कूल का कर निर्धारण आवासीय का तीन गुना होना चाहिए। उक्त नियमावली के अनुसार रेनवो पब्लिक स्कूल का कर निर्धारण 01-4-2019 को निम्नवत् होना चाहिए था—

आर0सी0सी-30829 वर्ग फूटX1.62 दरX12माहX3गुना (आवासीय दर का) = 1797947=00

खुली भूमि 30279वर्गफूट X.40 दरX12माहX3गुना आवासीय दर का = 436018=00

योग-2233965=00

उक्त गणना से स्पष्ट था कि त्रुटिपूर्ण कर निर्धारण के कारण न्यू रेनवो पब्लिक स्कूल का कर निर्धारण रूपया-2233965-744500=1489465/- प्रतिवर्ष की क्षति हुयी थी।

(2)- उक्त की भांति न्यू डायमण्ड पब्लिक स्कूल पी0 ब्लाक/3 विजय नगर सैक्टर-12 प्रताप विहार गाजियाबाद का दिनांक-01-4-2016 को कर निर्धारण निम्नवत् किया गया था—

आर0सी0सी-32000 वर्ग फूटX0.66 दरX12माहX3गुना = 760320=00

दिनांक-01-4-2016 से उक्त स्कूल का पुनः कर निर्धारण निम्नवत् किया गया था—

आर0सी0सी-58750 वर्ग फूटX1.3 दरX12माह = 916494=00

खुली भूमि 36368वर्गफूट X0.3 दरX12माह = 130925=00

योग-1047425=00

सही गणनानुसार-1047425/-

नियमावली के अनुसार उक्त स्कूल का कर निर्धारण आवासीय का तीन गुना निम्नवत् होना चाहिए था—

आर0सी0सी-58750 वर्ग फूटX1.3 दरX12माहX3 गुना= 2749500=00

खुली भूमि 36368वर्गफूट X0.3 दरX12माह X3 गुना= 392774=00

योग-3142274=00

उक्त गणना से स्पष्ट है कि त्रुटिपूर्ण कर निर्धारण के कारण उक्त स्कूल का कर निर्धारण 3142274-1047420=2094854 रूपया प्रतिवर्ष कम किया गया था। त्रुटिपूर्ण कर निर्धारण के कारण निगम को रूपया-2094854/-की क्षति प्रतिवर्ष हुई थी।

(3)-विजयनगर जोन में स्थित इन्स्टीट्यूट ऑ प्रोफेशनल एक्सीलैन्स एण्ड मैनेजमेंट 13/1 एस0एस0 जी0टी0रोड गाजियाबाद का 01-04-2018 से निम्नवत् कर निर्धारण रिवाईज किया गया था जबकि इससे पूर्व इसका कर निर्धारण वर्ष-2011 में किया गया था। नियमानुसार दो वर्ष पश्चात् कर निर्धारण होना चाहिए था। ऐसा न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाया—

आर0सी0सी-73188 वर्ग फूटX1.3 दरX12माहX3 गुना= 3425198=00

खुली भूमि 60500 वर्गफूट X0.3 दरX12माह X3 गुना= 653400=00

योग-4078598=00

उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर)(द्वितीय संशोधन) नियमावली,2013 का प्रख्यापन दिनांक-27-12-2013 में किया जा चुका था।

जिसके अनुसार उक्त इन्स्टीट्यूट का कर निर्धारण आवासीय का पांच गुना किया जाना चाहिए था जबकि निगम मात्र तीन गुना कर निर्धारण किया गया था उक्त से स्पष्ट है कि त्रुटिपूर्ण कर निर्धारण के कारण निम्नवत् आर्थिक क्षति पहुँची थी—

आर0सी0सी-73188 वर्ग फूटX1.3 दरX12माहX5 गुना= 5708664=00

खुली भूमि 60500 वर्गफूट X0.3 दरX12माह X5 गुना= 1089000=00

योग-6797664=00

उक्त से स्पष्ट है कि त्रुटिपूर्ण कर निर्धारण के कारण रूपया-6797664-4078598 रूपया-2719066/-प्रतिवर्ष अर्थात् 2018-19 एवं वर्ष-2019-20 में दो वर्ष हेतु कुल रूपये- 2719066 X2=5438132/-की आर्थिक क्षति नगर निगम को पहुँची थी। यह अत्यधिक अनियमित एवं आपत्ति जनक था एवं निगम की लापरवाही का द्योतक था।

अतः क्रमांक-01 से 03 तक त्रुटिपूर्ण कर निर्धारण के कारण कुल आर्थिक क्षति रूपये- 1489465+2094854+5438132=9022451/- की हुयी थी। जो अनियमित एवं आपत्ति जनक थी। उक्त के सम्बन्ध में कार्यवाही अपेक्षित थी। इस ओर निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

**140- निगम में ऑनलाईन जमा किया गया गृहकर, जलकर एवं सीवर कर की धनराशि रूपये-1,12,77,12,613/-असत्यापित :-**

नगर निगम के मूल बजट के अनुसार वर्ष-2019-20 में गृहकर, जलकर एवं सीवरकर मद में रूपये-1,12,77,12,613/-आनलाईन/मैनुअल प्राप्त हुए थे किन्तु

आनलाईन जमा से सम्बन्धित निगम के पास कोई लेखा जोखा नहीं था। निगम के खातों में आनलाईन सीधे धनराशि जमा की गयी थी। किन्तु किस मद की कितनी धनराशि जमा की गयी थी का विवरण नहीं बनाया गया था। जमा योग्य सम्पूर्ण धनराशि जमा की अथवा नहीं स्पष्ट नहीं हो सका। जोनो द्वारा मांग वसूली पंजी पूर्ण नहीं की जा रही थी। जिससे प्राप्त धनराशि की स्थिति अस्पष्ट थी।

आनलाईन जमा धनराशि का विवरण भवन स्वामी वार एवं मदवार बनाकर मांग वसूली पंजी में प्रविष्टी करके सत्यापन कराया जाय। जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जमा योग्य समस्त धनराशि जमा हो गयी थी अथवा नहीं। निगम द्वारा कोई अभिलेख अनुरक्षित न रखे जाने से यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि आनलाईन ट्रांजैक्शन की समस्त धनराशि निगम को प्राप्त हो गयी थी। आनलाईन प्राप्त धनराशि की मांग वसूली पंजी में प्रविष्टियाँ कराकर भवन स्वामियों पर बकाया धनराशि की नोटिस जारी करने के उपरान्त ही सुनिश्चित किया जा सकता है कि आनलाईन की समस्त धनराशि निगम को प्राप्त हो गयी थी एवं किसी भी धनराशि का व्यपहरण/लोप नहीं किया गया था।

अतः आनलाईन धनराशि को मांग वसूली पंजी में मदवार अंकित कराकर बकाया की गणना करने हेतु निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

#### **141—नगर निगम समस्त जोन में कम्प्यूटर से निर्गत रसीदों की द्वितीय प्रति निमयानुसार प्रत्येक तिथिवार सुरक्षित न रखा जाना अनियमितः—**

नगर निगम के समस्त जोन की सम्परीक्षा माहों की आय की जांच के समय प्रकाश में आया कि जोनो में कम्प्यूटर से भवन स्वामियों को निर्गत रसीद की द्वितीय प्रति निगम द्वारा सुरक्षित नहीं रखी जाती थी जिससे उसकी जांच संभव नहीं हो सकी। सम्परीक्षा के समय मात्र तिथिवार वसूली की गयी धनराशि का विवरण ही उपलब्ध कराया गया था उस विवरण को निगम द्वारा जोन की कैश बुक में 10 प्रतिशत गृहकर 10 प्रतिशत जलकर तथा 4 प्रतिशत सीवर कर के रूप में अंकित कर दिया जाता था। जोनो में मांग वसूली पंजी अनुरक्षित नहीं की जा रही थी। जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि किन-किन भवन स्वामियों द्वारा कितनी धनराशि जमा की गयी थी तथा कितनी जमा किया जाना था। निगम द्वारा अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न किये जाने से सम्परीक्षा माहों में प्राप्त आय की गणना किया जाना संभव नहीं हो सका तथा मांग वसूली पंजी अनुरक्षित नहीं किये जाने से जमा की स्थिति अज्ञात रही निगम द्वारा जोन की आय कितनी दिखायी गयी थी उसकी जांच न हो सकी। नियमानुसार निर्गत रसीदों में गृहकर जलकर एवं सीवर कर की धनराशि पृथक-पृथक अंकित होनी चाहिए रसीदों के आधार पर मांग-वसूली पंजी पूर्ण कर रसीदों के तिथि वार सुरक्षित रखा जाय, जिससे मांग वसूली पंजी तथा गृहकर निर्धारण आदि की जांच हो सके।

#### **142—नगर निगम की विभिन्न जोनो में करो एवं राजस्व की आऊटडोर कलैक्शन न किया जाना अनियमित एवं वित्तीय हितों के प्रतिकूल :-**

जोनो में करो के संग्रहण एवं राजस्व की वसूली से सम्बन्धित सम्परीक्षा किये जाने पर प्रकाश में आया कि जोनो में मात्र आन लाईन एवं काउन्टर पर ही करदाताओं द्वारा



स्वयं आकर करो को जमा किया जाता था जोन में स्थित कर्मियों द्वारा आऊट डोर कलैक्शन या तो बिलकुल नहीं था या नाम मात्र का था यह स्थिति नगर निगम की राजस्व वसूली के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रतिकूल था इससे जहाँ एक ओर निगम की राजस्व की कम वसूली हो रही थी वहीं दूसरी ओर आऊट डोर कलैक्शन न होने के कारण करदाताओं में करो को समय से जमा न करने की प्रवृत्ति को भी बल मिल रहा था। अतः विभिन्न जोनों में आऊट डोर कलैक्शन बढ़ाने जाने हेतु अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

**143- निगम की दुकानों मकानों से सम्बन्धित बाईलाज एवं किराया पंजी सम्परीक्षा में अप्रस्तुत रहना अनियमित :-**

नगर निगम की विभिन्न सम्पत्तियों तथा दुकानों के किराये के निर्धारण एवं उनको समय-समय पर बढ़ाये जाने से सम्बन्धित बाईलाज एवं किराया पंजी मार्गें जाने पर अवगत कराया गया कि उक्त से सम्बन्धित कोई भी बाइलाज नगर निगम द्वारा नहीं बनाये गये है, बाईलाज के अभाव में दुकानों के किराये का निर्धारण एवं बढ़ाया जाना कैसे संभव हो रहा था, सम्परीक्षा में स्पष्ट किया जाय। जोनों में स्थित दुकानों के किराये से सम्बन्धित निगम एवं किराये दार के मध्य पूरे अनुबन्ध पत्र नियम एवं शर्तें मांगे जाने पर उपलब्ध पत्र नहीं करायी गयी, स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध न होने की दशा में राजस्व के क्षति की भी पूर्ण संभावना थी यह स्थिति नगर निगम के वित्तीय एवं विधिक हितों के भी प्रतिकूल थी इस ओर वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान इस आशय से आकर्षित किया जाता है कि दुकान किराये से सम्बन्धित किराया पंजी, सम्पत्ति पंजी, अनुबन्ध पत्र आदि अभिलेख सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

**144-नगर निगम की नाम परिवर्तन की पत्रावलियों में पायी गयी अनियमितताएँ :-**

(क)-सिटी जोन की नाम परिवर्तन की पत्रावलियों की जांच के समय प्रकाश में आया कि जोन के अन्तर्गत भवन (1)-संख्या-0185 पटेल नगर तृतीय भवन स्वामी श्रीमती किरण बाला/पत्नी संजय अग्रवाल के प्रार्थना-पत्र के आधार पर पूर्व भवन स्वामी श्रीमती कान्ता रानी से गिफ्ट डीड हुयी थी। जबकि नगर निगम द्वारा श्रीमती कान्ता रानी एवं परिवार के अन्य सदस्यों को कोई नोटिस नहीं दिया गया था। पूर्व भवन स्वामिनी श्रीमती कान्ता रानी जी-157 पटेल नगर प्रथम गाजियाबाद में रहती थी जिनका पता बैनाम में स्पष्ट लिखा था।

(2)-इसी प्रकार मकान नं0 180 अफगानान गाजियाबाद में मकान विक्रेता जितेन्द्र गर्ग शान्ति गर्ग क्रेता छत्रपाल वर्मा पुत्र स्व0 श्री राम वर्मा को मकान विक्रय किया था। इस सम्बन्ध में भी विक्रेता को नोटिस नहीं दिया गया था जबकि बैनामा पर विक्रेता का पता लिखा हुआ था विक्रेता का पता लिखा हुआ था विक्रेता का पता लिखा हुआ था विक्रेता का पता 40 कैला वालान दिल्ली गेट था।

(3)-क्रेता मिथलेश बंसल पत्नी राम किशन एवं श्रीमती पायल बंसल पत्नी श्री शोभित बंसल विक्रेता कमल कुमार पुत्र श्री एल0बी0 राम मकान नं0 45ई कालका गढी गाजियाबाद उक्त पत्रावली में विक्रेता को नोटिस नहीं था जबकि विक्रेता का पता के0बी0 94 कविनगर गाजियाबाद था। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम के अनुसार सम्पत्ति के

नाम परिवर्तन से सम्बन्धित जो भी पक्ष/व्यक्ति प्रभावित होते हैं उन सभी को नोटिस जाना/रिसीव कराना जाना तथा सम्बन्धित पक्ष की जानकारी हेतु समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाना आवश्यक है। किन्तु उम्र क्रमांक 01 से 03 के प्रकरण में विक्रेता को ही नोटिस रिसीव नहीं कराया गया और न ही उनका पता उपलब्ध होने पर भी रजिस्ट्री पत्र द्वारा नोटिस भेजा गया। यह स्थिति नगर निगम के विधिक हितों के प्रतिकूल थी एवं न्यायालयों में अनावश्यक वाद विवाद को बढ़ाने वाली थी। इस सम्बन्ध में निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाय।

नगर निगम के समस्त जोन की सम्परीक्षा माहों की नाम परिवर्तन की पत्रावलियों की जांच के समय प्रकाश में आया कि विजय नगर जोन में भवन संख्या ए/257 सैक्टर-09 ब्लॉक ए श्री विजय विक्रेता पक्ष एवं श्री संतोष कुमार मिश्रा एवं श्रीमती नीलम पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह क्रेता पक्ष थी उक्त पत्रावली में संलग्न दस्तावेज से पता चला कि जोन द्वारा सम्बन्धित विक्रेता पक्ष को नोटिस नहीं दिया गया था केवल भवन पर चस्पा दिया गया था जबकि उक्त से सम्बन्धित नोटिस विक्रेता एवं अन्य सभी पक्षों को दिया जाना चाहिए था जबकि विक्रेता का पता बैनामा पर अंकित था फिर भी विक्रेता को नोटिस नहीं दिये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

(2)—इसी प्रकार भवन संख्या—इ-844 एम0आई0जी0 भूतल सैक्टर—11 प्रताप विहार गाजियाबाद प्रथम विक्रेता एवं श्री राज बहादुर पुत्र गंगा वासी निवासी—172 ए-4 रेलवे कालोनी बसन्त रोड नई दिल्ली द्वितीय विक्रेता श्री नित्यानन्द पुत्र श्री गंगाधर झा निवासी ए-229 सैक्टर—11 विजयनगर गाजियाबाद एवं क्रेता श्रीमती ब्रिजेश पत्नी श्री ओमपाल निवासी डी-49 गोविन्द पुरम गाजियाबाद थी उक्त पत्रावली में जोन द्वारा नोटिस मात्र क्रेता पक्ष को दिया गया था एवं उनके भवन पर चस्पा किया गया था जबकि विक्रेता पक्ष को भी नोटिस दिया जाना चाहिए था। उक्त से सम्बन्धित नोटिस अखबार के माध्यम से भी प्रकाशित किया जाना चाहिए था। उम्र नाम परिवर्तन बैनामा के आधार पर किया गया था एवं बैनामा पर क्रेता का पता अंकित था। फिर भी जोन द्वारा विक्रेता को नोटिस नहीं दिया जाना का कारण औचित्य स्पष्ट किया जाय।

(3)—भवन संख्या—124 द्वितीय तल टावर—बी गौर ग्लोबल विलेज कासिंग रिपब्लिक गाजियाबाद के विक्रेता कानपुर था जबकि उक्त भवन की निगम द्वारा निर्गत बिल संख्या—1920 वी0एन034839 में उक्त भवन के मालिक का नाम श्री आशुतोष गुप्ता अंकित था उक्त भवन के नाम परिवर्तन हेतु श्री प्रभात गुप्ता (क्रेता) द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था उक्त पत्रावली की जांच से प्रकाश में आया कि मकान मालिक के नाम में भिन्नता थी अतः नगर निगम द्वारा बिना किसी आधार एवं साक्ष्य के मात्र नोटिस साइड में एक टिप्पणी अंकित की गयी थी कि “ श्री आशुतोष गुप्ता के स्थान पर श्री आशु गुप्ता किया जा सकता है” उक्त टिप्पणी पर लिपिक टी0एस0 जोनल आफिसर के हस्ताक्षर थे सम्परीक्षा में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि मनमाने ढंग से विक्रेता/भवन स्वामी के नाम में परिवर्तन कर लेने का क्या औचित्य था। निगम द्वारा मात्र क्रेता श्री प्रभात गुप्ता को ही नोटिस दिया गया था एवं विक्रेता एवं अन्य सम्बन्धित पक्षों को कोई नोटिस निर्गत नहीं किया गया था जबकि बैनाम में श्री आशु गुप्ता का पूर्ण पता उपलब्ध था। अतः जोनल अधिकारी द्वारा उक्त नाम परिवर्तन का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

(4)–विक्रेता श्री सुरेश कुमार (केता) एवं पक्ष श्रीमती डेयसी कुन्जुमोन पत्नी कुन्जुमोन चारी चान उक्त पत्रावली की जांच से प्रकाश में आया कि नगर निगम द्वारा विक्रेता पक्ष को नोटिस नहीं दिया गया था जबकि विक्रेता का पता बैनामा में भवन संख्या–डी0–486/ए/। सैक्टर–11 प्रताप विहार अंकित था उक्त पते पर नोटिस न दिये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

(5)–भवन संख्या–1654 16 वॉ तल वेलिना टावर कांसिंग रिपब्लिक महागुन मस्कट जोकि विक्रेता पक्ष के बैनामे पर अंकित था उक्त पत्रावली में विक्रेता पक्ष श्रीमती रेनू कुमार पत्नी सुनील कुमार एवं केता री रामरूप सिंह थे पत्रावली की जांच में पता चला कि विक्रेता पक्ष को नोटिस नहीं दिया गया था जबकि उपरिलिखित पता अंकित था जोनल अधिकारी द्वारा बिना विक्रेता को नोटिस दिये नाम परिवर्तन किस औचित्य से किया गया स्पष्ट किया जाय।

6– विक्रेता सतीश पुत्र श्री गोवर्धन दास एफ–65 द्वितीय तल विकास पुरी नई दिल्ली एवं केता पक्ष श्री अनिल कुमार मिश्रा पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार 110063 टावर 4 जी.एच–7 कासिंग रिपब्लिक की पत्रावली में नगर निगम द्वारा विक्रेता को नोटिस नहीं दिया गया था जबकि बैनामा में विक्रेता का पता अंकित था। सम्बन्धित पते पर नोटिस ना दिये जाने एवं सम्बन्धित व्यक्तियों को नोटिस ना दिये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

### बसुन्धरा जोन–

बसुन्धरा जोन की नाम परिवर्तन की पत्रावलियों की जांच के समय प्रकाश में आया कि भवन सं–सी 94/9–4 पिन सं.–यू एस आई 9912 रामप्रस्थ–सी श्रीमती प्रशान्त लता शर्मा के नाम था, इनकी मृत्यु के पश्चात् रंजन शर्मा एवं सुधाशु शर्मा के नाम म्यूटेशन आर्डर सं.–एम0ओ/2020/6387 द्वारा किया गया था। उम्र पत्रावली के आधार पर नोटिस सुधाशु शर्मा को दिया गया था, नोटिस न तो रंजन शर्मा को दिया गया और न ही भवन पर चस्पा किया गया था उम्र पत्रावली में विज्ञापन से सम्बन्धित संलग्न भी नहीं लगा था जो कि अनियमित था, उम्र नाम परिवर्तन में पारिवारिक समझौता एवं वारिसान प्रमाण पत्र भी नहीं लिया गया था।

इसी प्रकार अन्य

क्र०	विक्रेता का नाम एवं पता	केता का नाम एवं पता	म्यूटेशन सं०	पायी गयी अनियमितता
2	रंजीत सिंह एवं कुलदत्त कौर मकान न० सी/196/एफ–5 रामप्रस्थ	मंजू गोयल	एम ओ/2020/6364 दिनांक 28–2–20	विज्ञापन नहीं किया गया था विक्रेता का बैनामे पर पता होने के बाद भी नोटिस नहीं भेजा गया था।
3	दीपा मकान न. –बी–34/एफ–1 रामप्रस्थ	शाइनी मैथ्यू	एम ओ/2019/4847 दिनांक 28–12–19	नाम परिवर्तन से सम्बन्धित नोटिस केता एवं विक्रेता दोनो को ही नहीं दिया गया

				था।म्यूटेशन की आर्डर कापी जो फाइल में संलग्न थी पर जोनल आफिसर के हस्ताक्षर नहीं थे।
4	श्रीमती रेखा कर्णवाल मकान सं०-सी/554/1एफ एल.आई. जी(2) ब्रिज विहार	सविता कारी	एम ओ/2020/6382 दिनांक 28-2-20	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था। विज्ञापन भी नहीं निकाला गया था। म्यूटेशन की आर्डर कापी पर जोनल अधिकारी की हस्ताक्षर नहीं थे।
5	श्री अखिलेश कुमार लखेडा फ्लैट सं.-301 सेकण्ड फ्लोर प्लाट सं-160नीतिखण्ड इन्दिरापुरम	श्री चन्दन कुमार राय	एम ओ/2020/6060 दिनांक 28-2-20	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था। विज्ञापन भी नहीं निकाला गया था। म्यूटेशन की आर्डर कापी पर जोनल अधिकारी की हस्ताक्षर नहीं थे।
6	श्रीमती पिन्की चोलन भूटिया एस-6 सेकिण्ड फ्लोर मंगलम बिला अभय खण्ड-3	श्री शनिराय एवं गीतादेवी	---	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था। विज्ञापन भी नहीं निकाला गया था। म्यूटेशन की आर्डर कापी पर जोनल अधिकारी की हस्ताक्षर नहीं थे।
7	श्री हेमलता भावरी मकान नं-386/एस.एफ-2नीतिखण्ड 49 बसुन्धरा	नसीमा शर्मा	एम. ओ/2020/6112	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था। विज्ञापन भी नहीं निकाला गया था। म्यूटेशन की आर्डर कापी पर जोनल अधिकारी की हस्ताक्षर नहीं थे।
8	श्रीमती सुनीता गुप्ता भवन सं. 120 एल.आई.जी जी0एफ शक्ति खण्ड-1	श्री दलबीर सिंह	एम. ओ/2020/6086	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था। विज्ञापन भी नहीं निकाला गया था। म्यूटेशन की आर्डर कापी पर जोनल अधिकारी की हस्ताक्षर नहीं थे।
9	श्री राम निवास 343 जी-2 ग्राउण्ड फ्लोर शक्तिखण्ड तृतीय इन्दिरापुरम	श्री हेमन्त कपूर	एम. ओ/2020/6258	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था। विज्ञापन भी नहीं निकाला

				गया था। म्यूटेशन की आर्डर कापी पर जोनल अधिकारी की हस्ताक्षर नहीं थे।
10	श्री अंकित अग्रवाल ए. एच-108बसुन्धरा	श्रीमती उषा श्रीवास्तव	एम. ओ/2020/6326	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था। विज्ञापन भी नहीं निकाला गया था। म्यूटेशन की आर्डर कापी पर जोनल अधिकारी की हस्ताक्षर नहीं थे।
11	श्री अनिल राठी 4 शक्ति खण्ड इन्दिरापुरम	श्री सुनील कुमार राठी	एम. ओ/2020/6348	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था। विज्ञापन भी नहीं निकाला गया था। म्यूटेशन की आर्डर कापी पर जोनल अधिकारी की हस्ताक्षर नहीं थे।
12	श्री देव सेनानी सी-150 वैभव खण्ड 49 बसुन्धरा	श्री नीलम सिंन्हा	एम. ओ/2020/4771	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था। विज्ञापन भी नहीं निकाला गया था। म्यूटेशन की आर्डर कापी पर जोनल अधिकारी की हस्ताक्षर नहीं थे।
13	श्री संजय आहूना 3 फेस-80सं0 1 वैशाली-50 बसुन्धरा	श्री रोहित एवं अनु मल्होत्रा	एम. ओ/2020/7575	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था। विज्ञापन भी नहीं निकाला गया था। म्यूटेशन की आर्डर कापी पर जोनल अधिकारी की हस्ताक्षर नहीं थे।
14	श्रीमती उषा व अमन सर्राफ 1एफ-जी-32 सै0-1वैशाली बसुन्धरा	श्री वरुण शर्मा	एम. ओ/2020/7526  दिनांक 20-3-20	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था। विज्ञापन भी नहीं निकाला गया था। म्यूटेशन की आर्डर कापी पर जोनल अधिकारी की हस्ताक्षर नहीं थे।
15	श्रीमती गुजंन अन्सारी 20041 अहिंसा खण्ड	श्री सौरव इन्सार	म्यूटेशन आर्डर नहीं था।	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था। विज्ञापन भी नहीं निकाला गया था। म्यूटेशन की

				आर्डर कापी पर जोनल अधिकारी की हस्ताक्षर नहीं थे।
16	श्री संतोष 1003 कौशाम्बी बसुन्धरा	श्रीमती अंजू एवं अमित कुमार	म्यूटेशन आर्डर नहीं था।	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था। विज्ञापन भी नहीं निकाला गया था। म्यूटेशन की आर्डर कापी पर जोनल अधिकारी की हस्ताक्षर नहीं थे।
17	श्री अरूण चन्द्र वर्मा 810 वैशाली सुपरटेक बसुन्धरा	कुन्दन एवं निशिजा	म्यूटेशन आर्डर नहीं था।	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था। विज्ञापन भी नहीं निकाला गया था। म्यूटेशन की आर्डर कापी पर जोनल अधिकारी की हस्ताक्षर नहीं थे।
18	श्रीमती अनीता सिंह ओ. सी/1303कौशाम्बी सुपरटेक बसुन्धरा	निशि कुमार विश्वकर्मा	म्यूटेशन आर्डर नहीं था।	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था। विज्ञापन भी नहीं निकाला गया था। म्यूटेशन की आर्डर कापी पर जोनल अधिकारी की हस्ताक्षर नहीं थे।
19	श्री जी.पी.एम.चौहान जी.एफ-60 कौशाम्बी	श्री संजय कुमार बंसल	म्यूटेशन आर्डर नहीं था।	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था। विज्ञापन भी नहीं निकाला गया था। म्यूटेशन की आर्डर कापी पर जोनल अधिकारी की हस्ताक्षर नहीं थे।
20	श्रीमती उषा सरीन 2077 सै-429 बसुन्धरा	श्री पानसिंह लटवाल	एम. ओ/2020/7546	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था। विज्ञापन भी नहीं निकाला गया था। म्यूटेशन की आर्डर कापी पर जोनल अधिकारी की हस्ताक्षर नहीं थे।
21	श्री राजेश वर्मा 2093 सै-4बी बसुन्धरा	श्री राजेश वर्मा	एम. ओ/2020/7550	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था। विज्ञापन भी नहीं निकाला गया था। म्यूटेशन की आर्डर कापी पर जोनल

				अधिकारी की हस्ताक्षर नहीं थे।
22	श्री रमेश चन्द सिंह 4126 सै0-4बी वसुन्धरा	श्रीमती बसन्ती देवी	एम. ओ/2020/7551	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था। विज्ञापन भी नहीं निकाला गया था। म्यूटेशन की आर्डर कापी पर जोनल अधिकारी की हस्ताक्षर नहीं थे।
23	श्रीमती रिचा शर्मा 314/902 आलिव काउची वसुन्धरा	श्री कृष्ण अमर सिंह सिरोही	एम. ओ/2020/7579	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था। विज्ञापन भी नहीं निकाला गया था। म्यूटेशन की आर्डर कापी पर जोनल अधिकारी की हस्ताक्षर नहीं थे।
24	श्री रूप किशोर 238 सै0-2/29 वसुन्धरा	श्री पान सिंह व श्रीमती विमल	एम. ओ/2020/7577	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था। विज्ञापन भी नहीं निकाला गया था। म्यूटेशन की आर्डर कापी पर जोनल अधिकारी की हस्ताक्षर नहीं थे।

### मोहन नगर जोन

नगर निगम मोहन नगर जोन की नाम परिवर्तन की पत्रावलियों की जाँच के समय प्रकाश में आया कि भवन सं. 577/जी-2 शालीमार गार्डन एक्स-1 गाजियाबाद में विक्रेता श्रीमती रेनु गुप्ता एवं क्रेता पक्ष श्री राम किशोर गुप्ता के मध्य नाम परिवर्तन हुआ था निगम द्वारा सृजित उक्त की पत्रावली से सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था। उक्त पत्रावली में म्यूटेशन आर्डर भी नहीं लगाया था इस प्रकार निगम द्वारा नाम परिवर्तन कराया जाना अनियमित एवं लापरवाही का द्योतक था।

इसी प्रकार अन्य पत्रावलियों में भी कमियाँ पायी गयी जो कि निम्नलिखित थी।

क्र०	विक्रेता का नाम एवं पता	क्रेता का नाम	म्यूटेशन सं०	पायी गयी अनियमितता
2	श्रीमती मंजू देवी एल-86 लाजपत नगर गाजियाबाद	श्रीमती चन्द्रवती	संलग्न नहीं थी	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था।
3	श्री भूपाल सिंह मनाल डी-209ए लाजपतनगर गाजियाबाद	श्री पीताम्बर दत्त	संलग्न नहीं थी	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था।

4	श्री ए.जे.वर्गीस एच-2/3जी. डी.ए.अपार्टमेन्ट लाजपत नगर गाजियाबाद	श्री प्रदीप राणा	संलग्न नहीं थी	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था।
5	श्री ओंकार सिंह एल-47 ए, लाजपतनगर गाजियाबाद	श्रीमती पुष्पा चौहान	संलग्न नहीं थी	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था।
6	श्री युधिष्ठिर, बी-370, लाजपतनगर	श्रीमती भगवती देवी	संलग्न नहीं थी	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था।

स्थान:-मेरठ,

दिनांक:- 21-5-2022

ह0

( विनोद कुमार वंसल )

उप निदेशक

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0

मेरठ मण्डल मेरठ

निर्गमनार्थ प्राधिकृत



(देवेन्द्र)

उप निदेशक

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0

मेरठ मण्डल मेरठ



## भाग-ख

### 1- गत सम्परीक्षा आख्या की समीक्षा:-

सम्परीक्षा के समय गत सम्परीक्षा आख्या संस्था कार्यालय में प्राप्त थी परन्तु इसकी अनुपालन आख्या तैयार न होने के कारण इसकी समीक्षा नहीं की जा सकी। गत एवं विगत वर्षों की अनिस्तारित आपत्तियों जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट-‘क’ में संन्दर्भित है, के निस्तारणार्थ नगर आयुक्त एवं लेखाधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

### 2- वित्तीय स्थिति:-

सम्परीक्षा में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर जहाँ तक सुनिश्चित किया जा सका आलोच्य अवधि में निगम की वित्तीय स्थिति संलग्न परिशिष्ट‘ख’ के अनुसार थी।

**टिप्पणी:-** (1) आय-व्यय का विवरण/संकलन वाह्य गणना पर आधारित है जो अनन्तिम एवं परिवर्तनीय है।

(2) बजट में उल्लिखित प्रारम्भिक शेष रू0 3,49,14,65,462 एवं निगम निधि तथा यू आई. डी.एस.एस.एम.टी के प्रारम्भिक शेष रूपया-3495093015=63 में रूपया 33,27,553=63 का अन्तर था। इसी प्रकार बजट में उल्लिखित अन्तिम शेष रूपया-3,53,90,94,157/- तथा निगम निधि एवं यूआई.डी.एस.एम.टी.की रोकडबहियों में अंकित इतिशेष के अन्तर का कारण स्पष्ट करते हुए इसे शुद्ध किया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यूआई.डी. एस.एम.टी के रोकडबही शेष एवं बैंक के अनुसार इतिशेष के अन्तर रूपया-151=50 के अन्तर को भी स्पष्ट करते हुए शुद्ध किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(3) बजट में उल्लिखित वर्ष 2019-20 की वास्तविक आय रूपया- 4,87,88,12,315/- में निगम निधि की आय रूपया-4,87,55,67,932=56 एवं यूआई.डी.एस.एम.टी की आय रूपया-32,44,382/-सम्मिलित थी।

(4) परिशिष्ट‘ख’ के अनुसार निगम निधि के बैंक खाते के अवशेष एवं रोकडबही शेष में काफी अन्तर था। यह वर्षों से लगातार आपत्ति कई वर्षों से चल रहा था। गत एवं विगत वर्षों से लगातार आपत्ति कई वर्षों से चल रही थी। गत एवं विगत वर्षों से लगातार आपत्ति उठाये जाने पर भी बैंक समाधान विवरण न बनाये जाने के कारण लेखे मे गम्भीर वित्तीय अनियमितता एवं व्यपहरण जैसी सम्भावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः बैंक समाधान विवरण बनाकर सम्परीक्षा में अन्तर स्पष्ट किया जाए एवं बिना भुने चैकों की धनराशि स्पष्ट की जाए।

(5) सम्परीक्षा में प्रमाणित किया जाए कि वित्तीय स्थिति में उल्लिखित बैंक खातों के अतिरिक्त निगम के पास अन्य कोई बैंक खाते अनुरक्षित नहीं थे।

(6) दिनांक 31-3-20 को स्थायी अग्रिमों का विवरण प्रस्तुत करके सत्यापन कराया जाए।

(7) निगम द्वारा अत्यधिक बैंक खाते कुल 59 बैंक खाते संचालित किये गये थे। इनमें से कई बैंक खातों में कोई लेन देन नहीं हो रहा था एवं कई बैंक खाते डारमेंट हो गये थे। अत्यधिक बैंक खाते संचालित किये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाय अन्यथा जिन बैंक खातों में कोई लेन-देन नहीं हो रहा है उन्हें बन्द किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(8) निगम द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंको के अतिरिक्त अन्य बैंकों भी खाते संचालित किये जा रहे थे। यह अनियमित था इन बैंक खातों को बन्द कराकर जमा धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंकों में स्थानान्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस सम्बन्ध में गत एवं विगत से लगातार आपत्ति उठाई जा रही थी, फिर भी राष्ट्रीयकृत बैंको के अतिरिक्त अन्य बैंकों में खाते संचालित किये जा रहे हैं राष्ट्रीयकृत बैंको के अतिरिक्त अन्य बैंको में खाते खोले जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक था। सम्परीक्षा में लगातार आपत्ति उठाये जाने पर भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाए कि किन स्थितियों में राष्ट्रीय बैंकों के अतिरिक्त अन्य बैंकों में बैंक खाते संचालित किये जा रहे थे।

(9) नगर निगम निधि एवं यू.आई.डी.एस.एम.टी. की पृथक रोकडबही अनुरक्षित होने के कारण वित्तीय स्थिति भी पृथक अंकित की गई है।

(10) परिशिष्ट ख में दर्शाये गये बैंक खातों में कई बैंक खाते बन्द हो चुके थे। इन खातों में अनुरक्षित धनराशि को किन बैंक खातों में जमा किया गया था। स्पष्ट किया जाए।

(11) निगम निधि एवं यू.आई.डी.एस.एम.टी. की आय एवं व्यय का संहत विवरण संलग्न परिशिष्ट(ग) में भी दिया गया है।

(12) नगर निगम द्वारा भारी मात्रा में बैंक खाते अनुरक्षित किये गये थे जिनमें से निम्नलिखित 8 बैंक खाते कोई परिचालन न होने के कारण डोरमेन्ट अर्थात् निष्क्रिय हो गये थे जिस कारण इनको परिचालन में लाने के लिये अनावश्यक चार्ज देय होंगे। इन खातों को या तो बन्द किया जाए अथवा इनका परिचालन सुनिश्चित किया जाए। ऐसे खातों की सूची निम्नवत् थी।

क्र	बैंक का नाम	खाता संख्या	31-3-20 को खाते में जमा धनराशि
1	एच.डी.एफ.सी.बैंक आर.डी.सी.	01531110000014	201225.74
2	पंजाब नेशनल बैंक अम्बेडकर रोड	3703000102224127	4045093.50
3	पंजाब नेशनल बैंक जी.टी.रोड	0180000103033784	3815.24
4	पंजाब नेशनल बैंक विजयनगर	3946002100002579	1496339.58
5	पंजाब नेशनल बैंक विजयनगर	3946002100005512	868753.40
6	पंजाब नेशनल बैंक वसुन्धरा	4718000100022533	शून्य
7	पंजाब नेशनल बैंक वसुन्धरा	4718000100003095	10395064.29
8	पंजाब नेशनल बैंक अम्बेडकर रोड	3703000102232010	989148.00
		<b>योग</b>	<b>10395064.29</b>

उक्त 8 बैंक खातों के डोरमेन्ट होने से निगम की रूपया-1,03,95,064.29 की धनराशि अवरुद्ध पडी हुई थी एवं वहीं बैंक द्वारा डोरमेन्ट खातों पर बैंक द्वारा लगाये जाने

वाले चार्ज के कारण निगम पर अनावश्यक व्यय भार भी पड रहा था। अतः अनावश्यक खातों को यथाशीघ्र बन्द किया जाए।

### 3- राजकीय अनुदान:-

प्रमाणित किया जाता है कि आलोच्य अवधि में नगर निगम को प्राप्त निम्नलिखित राजकीय अनुदानों का उपभोग उन्हीं शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन किया गया था जिनके लिये वे प्राप्त हुए थे। इस आख्या में उल्लिखित अभ्युक्तियों के अतिरिक्त उनका विचलन नहीं किया गया था, यदि कहीं कोई विचलन हुआ था तो उसका उल्लेख इस आख्या में यथा स्थान कर दिया गया है।

आलोच्य अवधि में सम्परीक्षाय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार निम्नविवरणानुसार निगम को आवर्तक एवं अनावर्तक अनुदान प्राप्त हुए थे-

#### (क) आवर्तक अनुदान:-

क्र०	अनुदान का विवरण	प्राप्त धनराशि	प्राप्ति तिथि
	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त अनुदान निदेशक स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-		
1	8/198/152(5)/चतुर्थ रा०वि०आ०/2019-20दिनांक 1-5-19	181694637	8-5-19
2	8/349/152(5)/चतुर्थ रा०वि०आ०/2019-20दिनांक 27-5-19	181694637	31-5-19
3	8/572/152(5)/चतुर्थ रा०वि०आ०/2019-20दिनांक 28-6-19	181694637	4-7-19
4	8/804/152(5)/चतुर्थ रा०वि०आ०/2019-20दिनांक 5-8-19	181694636	7-8-19
5	8/973/152(5)/चतुर्थ रा०वि०आ०/2019-20दिनांक 4-9-19	199036535	7-9-19
6	8/1236/152(5)/चतुर्थ रा०वि०आ०/2019-20दिनांक 1-10-19	199036535	9-10-19
7	8/1369/152(5)/चतुर्थ रा०वि०आ०/2019-20दिनांक 16-10-19	199036536	21-10-19
8	8/1771/152(5)/चतुर्थ रा०वि०आ०/2019-20दिनांक 2-12-19	199036535	7-12-19
9	8/2094/152(5)/चतुर्थ रा०वि०आ०/2019-20दिनांक 8-1-20	196396185	13-1-20
10	8/2247/152(5)/चतुर्थ रा०वि०आ०/2019-20दिनांक 24-1-20	196396185	13-1-20
11	8/2468/152(5)/चतुर्थ रा०वि०आ०/2019-20दिनांक 26-2-20	196396185	3-3-20
12	8/2653/152(5)/चतुर्थ रा०वि०आ०/2019-20दिनांक 24-3-20	150019320	28-3-20
13	8/2660/152(5)/चतुर्थ रा०वि०आ०/2019-20दिनांक 27-3-20	246579516	28-3-20
	योग	2,50,87,12,079	

## (ख) अनावर्तक अनुदान:-

(क) 14 वे वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त अनुदान निदेशक,स्थानीय, निकाय,उ०प्र०लखनऊ के पत्र संख्या-			
1	8/708/171( iv)/14वे वि०आ०/2019-20 दि० 19-7-19	423501609	27-7-19
2	8/2096/171( iv)/14वे वि०आ०/2019-20 दि० 08-1-20	423500609	14-1-20
योग		847002218	
(ख)	कान्हा गौशाला गो सेवा आयोग,लखनऊ,उ०प्र०के पत्रांक-		
1-	691/नौ-8-2020/गो.से.आ. /2019-20दिनांक 26-3-20	50,00,000	31-3-20
योग		50,00,000	
(ग)	अमृत योजना शासनादेश अनुपलब्ध	5,40,000	23-3-20
योग		5,40,000	
(घ)	स्वच्छ भारत मिशन निदेशक/मिशन निदेशक(एस.बी.एम०) नगरीय विकास, उ० प्र० लखनऊ के पत्रांक-	प्रयोजन	
1	पी.एम.यू/2360/415(9)एस.बी. एम/आई.ई.सी/2016-17 दिनांक 22.6.19	आई.ई.सी.	8215000 29.6.19
2	पी.एम.यू/2394/427(4)/2019 दिनांक 01.7.19	व्यक्तिगत/सामु० शौचालय हेतु	13893400 27.7.19
3	पी.एम.यू/2568/427(6)/2019 दिनांक 14.8.19	सॉलिडवेस्ट मैनेजमेन्ट	8750000 22.8.19
4	पी.एम.यू/2568/427(6)/2019 दिनांक 14.8.19	सॉलिडवेस्ट (एम.आर.एफ) मैनेजमेन्ट	3367000 22.8.19
5	पी.एम.यू/2737/427(9)/2019 दिनांक 27.9.19	आई.ई.सी.	8215000 16.11.19
6	पी.एम.यू/3031/427(8)/2019 दिनांक 04.12.19	आई.ई.सी.	9858000 27.12.19
7	पी.एम.यू/3098/427(8)/2019 दिनांक 03.1.19	आई.ई.सी.	5000000 7.1.20
8	पी.एम.यू/3693/427(8)/2019 दिनांक 17.3.20	आई.ई.सी.	250000 23.3.20
क	कुल आवर्तक अनुदान रूपया		2,50,87,12,079
ख	कुल अनावर्तक अनुदान रूपया		91,00,90,618
योग			3,41,88,02,697

टिप्पणी:- (1) प्रमाणित किया जाए कि निगम को वर्ष 2019-20 में उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई आवर्तक/अनावर्तक अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था।

(2) निगम द्वारा अनावर्तक अनुदान पंजी अनुरक्षित नहीं की गई थी। अनुदान पंजी के अभाव में अनुदानवार उपभोग की गई धनराशि का संकलन बाह्य गणना पर आधारित है, जो अनन्तिम एवं परिवर्तनीय है। अनावर्तक अनुदान पंजी अनुरक्षित करके अनुदान की प्राप्त धनराशि एवं उपभोग की गई धनराशि अंकित करके दिनांक 31-3-20 को उपभोग हेतु शेष धनराशि का सत्यापन कराया जाए।

(3) आवर्तक अनुदान पंजी अनुरक्षित नहीं की गई थी। बाह्य/रोकडबही के आधार पर संकलन किया गया। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त अनुदान, उपभोग एवं शेष अनुदान का विवरण निम्नवत् था—

विवरण	धनराशि
1-4-19 को प्रारम्भिक शेष	23,02,83,694
वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	2,50,87,12,079
योग	2,73,89,95,773
वर्षान्तर्गत उपभोग	2,26,15,91,994
31-3-20 को उपभोग हेतु शेष अनुदान	47,74,03,779

अनुदान पंजी अनुरक्षित कर इसका सत्यापन कराया जाए।

(4) अप्रयुक्त अनुदानों के विवरण के क्रमांक (1) एवं (2) विगत कई वर्षों से अप्रयुक्त चले आ रहे हैं। इस अनुदान की धनराशि रूपया-162995=00 के उपभोग न किये जाने का कारण स्पष्ट करते हुए अप्रयुक्त अनुदानों की धनराशि को शासन को वापस किया जाए।

(5) अप्रयुक्त अनुदानों के विवरण के क्रमांक (3)(4) एवं (7) पर अंकित सांसद एवं विधायक निधि से प्राप्त अनुदानों की धनराशि रूपया-7,20,854=00 विगत कई वर्षों से अप्रयुक्त चले आ रहे हैं। इनके उपभोग न किये जाने का कारण स्पष्ट करते हुए अप्रयुक्त अनुदानों की धनराशि को वापस किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(6) अप्रयुक्त अनुदानों के विवरण में क्रमांक (5) के (1) से (12) तक पर अंकित अनुदान वारहवें वित्त आयोग से प्राप्त थे जिनमें रूपया-1,54,73,720/- अभी भी उपयोग हेतु शेष था। इसे उपयोग करने हेतु यदि शासन से अनुमति ली गई हो तो दिखाया जाए अन्यथा स्थिति में इस धनराशि को निगम खातों में अवरुद्ध रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे शासन को व्याज सहित वापस करते हुए सम्परीक्षा को भी अवगत कराया जाए।

(7) अप्रयुक्त अनुदानों के विवरण में क्रमांक (8) पर अंकित राजस्व विभाग से प्राप्त अनुदान की अवशेष राशि रूपया-371574/- को उपभोग न किये जाने का कारण स्पष्ट करते हुए इसे वापस किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(8) अप्रयुक्त अनुदानों के विवरण में क्रमांक (9) के (1) से (10) तक पर अंकित 14वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान की अप्रयुक्त धनराशि रूपया-98,73,25,879/- के उपभोग न करने का कारण स्पष्ट करते हुए इसे उपभोग न होने की दशा में व्याज सहित शासन को वापस किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(9) स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था। वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राप्त अनुदानों में से दिनांक 31-3-20 तक रू0 1,29,06,480/- की धनराशि अप्रयुक्त थी। इसका उपभोग सुनिश्चित किया जाए।

(10) यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी योजना के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में 2013-14 में प्राप्त अनुदान में से रूपया 244070/-अप्रयुक्त थे। इसके उपयोग/वापसी की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(11) अप्रयुक्त अनुदान के विवरण के क्रमांक (12) के (1)से(5) तक पर अंकित अमृत योजना हेतु प्राप्त अनुदान की वर्ष 2019-20 में रूपया 5299481/- की धनराशि अप्रयुक्त थी। इसका उपभोग/वापसी सुनिश्चित की जाए।

(12) अप्रयुक्त अनुदान के विवरण के क्रमांक(13) के (1)से(4) तक पर अंकित स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान रूपया-11,76,000/- अप्रयुक्त था। इसका उपभोग सुनिश्चित किया जाए अन्यथा इसकी वापसी सुनिश्चित की जाए।

(13) आलोच्य वर्ष में 14 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान की धनराशि रूपया-847002218/-में से अवशेष धनराशि रूपया-807967438/- एवं कान्हा गौशाला की अप्रयुक्त राशि रू0 50,00,000/-तथा अमृत योजना के अन्तर्गत अप्रयुक्त राशि रू0 5,40,000/-एवं स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत अवशेष रूपया 3,30,60,033 को व्यय/उपभोग न करने का कारण स्पष्ट किया जाए एवं इनका उपभोग सुनिश्चित किया जाए।

(14) वर्ष 2018-19 में कान्हा गौशाला हेतु रूपया-1,59,50,000/-अनुदान प्राप्त हुआ था जिसमें से वर्ष 2019-20 में रूपया 1,50,48,416/- का व्यय दर्शाया गया था। शेष धनराशि रू0 901584/- थी किन्तु वर्ष 2018-19 की सम्परीक्षा आख्या के फार्म-66 प्रपत्र में उक्त आय-व्यय दर्शित नहीं हुआ था। इसका उपभोग दिखाया जाए।

(15) नगरीय जल निकासी योजना हेतु नगर निगम को वर्ष 2018-19 में रूपया 1,00,00,000/- अनुदान प्राप्त हुआ था जिसे नगर निगम द्वारा दिनांक 30-5-19 को बैंक संख्या-030212 व्यय प्रमाणक संख्या-714 द्वारा जलनिगम को हस्तांतरित(अस्थायी अग्रिम) किया गया था। इसमें से कितनी धनराशि व्यय हो चुकी थी एवं उसका उपभोग प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ था या नहीं स्पष्ट किया जाए एवं उपभोग का सत्यापन कराया जाए। वर्ष 2018-19 की सम्परीक्षा आख्या में इसे अंकित फार्म-66 में नहीं किया गया था।

(16) अनुदानों का संहत विवरण संलग्न परिशिष्ट-'घ' पर दिया गया है।

(17)अप्रयुक्त अनुदानों का विवरण संलग्न परिशिष्ट'ड'प्रपत्र-66 में दिया गया है।

#### 4- राजकीय ऋण एवं उनके प्रतिदान की स्थिति:-

सम्परीक्षा में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर जहाँ तक सुनिश्चित किया जा सका, आलोच्य अवधि में निगम को न तो कोई राजकीय ऋण प्राप्त हुआ था और न ही कोई धनराशि प्रतिदान की गई थी।

**टिप्पणी:-**(1) निगम द्वारा राजकीय ऋण पंजी अनुरक्षित नहीं की गई थी। इसे अनुरक्षित कराकर सम्परीक्षा में उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

(2) गत सम्परीक्षा आख्यानुसार दिनांक 31-3-19 को कुल मूलधन रूपया-18,68,27,600/- तथा एन.सी.आर. से प्राप्त ऋण पर देय व्याज सहित समस्त धनराशि बकाया थी। एन.सी.आर.से प्राप्त ऋण से सम्बंधित अभिलेख/शासनादेश जिनसे

ऋण अनुमन्य हुआ था को प्रस्तुत करके सत्यापन कराया जाए तथा स्पष्ट किया जाए कि दिनांक 31-3-20 को ऋणों के बकाया की क्या स्थिति थी।

(3) महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज से प्राप्त लेखा पर्ची प्रस्तुत करके दिनांक 31-3-20 को अवशेष मूलधन एवं इस पर देय व्याज का सत्यापन कराया जाए।

(4) वर्ष 2019-20 में किसी भी ऋण के प्रतिदान हेतु कोई प्रावधान बजट में नहीं किया गया था। इसका कारण स्पष्ट किया जाए।

(5) वर्ष 2019-20 में दिनांक 31-3-20 को प्राप्त प्रतिदान एवं प्रतिदान हेतु शेष ऋणों का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'छ' पर संलग्न है।

#### 5- विनियोजन:-

विनियोजन से सम्बंधित अभिलेख गत सम्परीक्षा आख्या में अंकित विवरण तथा सम्परीक्षा में उपलब्ध कराई गई सूचना/विवरण के आधार पर निम्नविवरणानुसार धनराशि विनियोजित की गई थी एवं निम्न विवरण में दर्शित सभी सावधि जमा रसीदों को दिनांक 5-4-2021 में नकदीकरण करने के पश्चात एच.डी.एफ.सी. बैंक के खाता संख्या-50200056920639 में से रू083000000/- एवं पंजाब नेशनल बैंक के खाता संख्या 3703000102210072 में रू0 5853220/- जमा कर दिया गया था। सावधि जमा रसीदों का विवरण निम्नवत् था-

क्र०	विनियोजन का विवरण/खाता सं०/दिनांक	विनियोजित धनराशि	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता धनराशि	प्राप्त व्याज की धनराशि
1-	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा-नगर निगम	परिसर, गाजियाबाद में सावधि जमा रसीद संख्या			
(1)	सं०-1991567खा.555203030000284दि. 7-2-2007	30,33,000	5-4-21	8592420	5559420
(2)	सं०ई.एम./सी.ओ.एम./ई. 113307खां.सं. -555203030381667दि. 11-3-13	73,35,070	5-4-21	13928909	6593839
(3)	सं.-1991568खासं-55520328002007 दि.7-2-2007	25,00,000	5-4-21	7446088	4946088
(4)	सं.-ई.एम./टी.डी.एस./041595खा.सं. -555203030000353दि. 24-4-07	10,19,032	5-4-21	2946905	1927873
(5)	सं.-1991566खां.सं.555203030040272दि. 7-2-07	25,00,000	5-4-21	6436410	3936410
(6)	सं०-1991583खा.सं.-555203280000007दि. 7-2-07	25,00,000	5-4-21	7446079	4946079
2-	पंजाब नेशनल बैंक अम्बेडकर रोड गा.बाद में				

	विनियोजित-				
1-	सं.-370300जी.आर 00000307 दि.5-3-13 प्रभावी तिथि-24-12-12	22045992	5-4-21	36559469	14513477
3-	पंजाब नेशनल बैंक,शास्त्रीनगर रोड,गा0बाद में खांसं0-2051003105295018 दि.7-3-13 प्रभावी तिथि-23-03-12	3019450	5-4-21	5496940	2477490
	योग	43952544		88853220	44900676

**टिप्पणी-(1)** विनियोजन पंजी अनुरक्षित नहीं की गई थी। इसे अनुरक्षित कर दिखाया जाए।

(2) मूल विनियोजन/छायाप्रति सम्परीक्षा में अप्रस्तुत रहे, इन्हें शीघ्र प्रस्तुत कर उसका सत्यापन कराया जाना अपेक्षित रहा।

(3) समस्त विनियोजनों को दिनांक 574-2021 को भुनाकर बैंक में जमा कर दिया गया था।

(4) प्रमाणित किया जाए कि निगम द्वारा उक्त विवरण में अंकित 8 सावधि जमा रसीदों के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि विनियोजित नहीं की गई थी।

**6- सम्परीक्षा शुल्क के आरोपण एवं देयता की स्थिति:-**

सम्परीक्षा शुल्क के आरोपण के सम्बंध में उ.प्र. शासन के वित्त लेखा परीक्षा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-आडिट-2-695/दस-2018-355(ii)2017 दिनांक-01-10-2018 के द्वारा शासन ने स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,उ0प्र0 द्वारा सम्परीक्षित संस्थाओं से सम्परीक्षा शुल्क समाप्त किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। अतः उक्त शासनादेश के अनुपालन में वर्ष 2019-20 की सम्परीक्षा हेतु कोई सम्परीक्षा शुल्क आरोपित नहीं की गई।

शासनादेश संख्या-1/2019/आडिट-2-1155/दस-2019-355(ii)/2017 दिनांक-27-9-2019 के अनुसार स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0 एवं मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,सहकारी समितियों एवं पंचायतें ,उ0प्र0 द्वारा सम्परीक्षित संस्थाओं पर बकाया सम्परीक्षा शुल्क का अपलेक्षण किया गया।

**7-परिसम्पत्ति एवं दायित्व का विवरण तैयार न कराया जाना अनियमित:-**

आलोच्य अवधि हेतु निगम द्वारा नकद परिसम्पत्ति एवं दायित्व का विवरण नहीं बनाया गया था,यह अनियमित था। नकद परिसम्पत्ति एवं दायित्व का विवरण नहीं बनाये जाने से निगम की आर्थिक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। नकद परिसम्पत्ति एवं दायित्व का विवरण बनाकर सम्परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।



### 8- नजूल:-

गत एवं विगत वर्षों की सम्परीक्षा आख्या के अनुसार नगर निगम के पास कोई नजूल सम्पत्ति नहीं थी। इसकी पुष्टि जिलाधिकारी कार्यालय से प्रमाणपत्र प्राप्त कर कराया जाये। नजूल एवं नौकाघाट के सम्बंध में विस्तृत आपत्ति सम्परीक्षा आख्या भाग-क के प्रस्तर ' ' पर अंकित है।

### 9- सफाई कर्मचारी कल्याण निधि की स्थापना न किया जाना अनियमित:-

सफाई कर्मचारी कल्याण निधि की स्थापना एवं प्रावधानों से सम्बन्धित नियमावली नगर पालिका विज्ञप्ति सं.-204 एच/ग्यारह-ए-63-49 दिनांक 9-2-1956 द्वारा बनाई गई थी किन्तु नगर निगम द्वारा सफाई कर्मचारी कल्याण निधि की स्थापना नहीं की गई थी। नगर निगम में भारी संख्या में नियमित सफाई कर्मचारी एवं दैनिक वेतन तथा संविदा पर थे इसके बावजूद भी सफाई कर्मचारी कल्याण निधि की स्थापना न किया जाना सफाई कर्मचारियों के हित में न था एवं शासनादेश के प्रतिकूल था। अतः इस निधि की स्थापना करके सम्परीक्षा में जाँच कराया जाना अपेक्षित है।

### 10- विविध करों एवं राजस्व की माँग समाहरण की स्थिति:-

गृहकर,जलकर एवं सीवर कर की माँग एवं समाहरण पंजी जोनवार बनाई गई थी,परन्तु आलोच्य वर्ष की माँग एवं समाहरण पंजी अपूर्ण थी तथा इस पर माँग वसूली की धनराशि अंकित नहीं की गई थी। गत एवं विगत वर्षों की सम्परीक्षा आख्या में भी माँग एवं समाहरण पंजी अपूर्ण रहने सम्बन्धी आपत्ति की गई थी। जोनल कार्यालयों में कम्प्यूटर से रसीदें निर्गत की गई थी,परन्तु इसकी कार्यालय प्राप्ति अनुरक्षित न कर केवल प्रतिदिन कुल जमा का विवरण अंकित था। इसके अभाव में इनकी जाँच सम्भव न हो सकी। गृहकर,जलकर एवं सीवर कर की वसूल की गई धनराशि माँग वसूली पंजी में अंकित कर समस्त माँग वसूली पूर्ण कराकर सम्परीक्षा में आगामी अवसर पर प्रस्तुत किया जाए।

उपर्युक्तानुसार ही दुकान किराया,भवन किराया,जलमूल्य तथा अस्थायी प्रयोग भूमि हेतु माँग समाहरण पंजिकाओं को पूर्ण करके लेखाबन्दी नहीं की गई थी। इन्हें पूर्ण कराकर व लेखाबन्दी कराकर सक्षम अधिकारी से सत्यापन कराकर सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

कर निर्धारण सूची नहीं बनाई गई थी। आलोच्य अवधि में निगम के अन्तर्गत स्वकर निर्धारण प्रणाली लागू थी, इसके बाद भी आलोच्य अवधि में निर्धारित किये गये करों की सूची नहीं बनाई गई थी। अतःवर्ष 2019-20 में प्रत्येक बार्डवार/जोनवार निर्धारित किये गये करों की कर निर्धारण सूची बनाकर सक्षम अधिकारी से सत्यापित कराकर सम्परीक्षा में सत्यापन कराया जाए।

वगीकृत सार पंजिकाओं एवं बजट के अनुसार आलोच्य अवधि में विभिन्न मदों से निम्न विवरणानुसार आय प्राप्त हुई थी-

क्र०	मद का नाम	प्राप्त आय
1	गृहकर	57,90,25,800
2	जलकर	36,98,98,441

3	सीवरकर	17,87,88,372
4	विज्ञापन कर	5,16,31,565
5	प्रेक्षाकर	11,60,320,
6	भवन एवं दुकान किराया	1,11,20,456
7	अस्थायी प्रयोग भूमि	32,23,631
8	पानी का टैंकर	8,32,345
9	पार्किंग	1,17,24,823
	योग	1,20,74,05,753

टिप्पणी:- (1) उक्त का विवरण परिशिष्ट 'ज' में भी दिया गया है।

**11- निष्कर्ष:-**

आख्या में वर्णित उपर्युक्त अभ्युक्तियों के अतिरिक्त लेखे का रख-रखाव सन्तोषजनक था। सम्परीक्षा में निर्गत मूल आपत्ति पत्र उत्तर सहित वापस नहीं किया गया। इसे अब अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय को वापस किया जाना सुनिश्चित किया जाए। स्वच्छ आपत्ति पत्रावली में अब कोई पद शेष नहीं है।

स्थान:-मेरठ,

दिनांक:- 21-5-2022

ह0

( विनोद कुमार वंसल )

उप निदेशक

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0  
मेरठ मण्डल मेरठ

निर्गमन प्राधिकृत

(देवेन्द्र)

उप निदेशक

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0

मेरठ मण्डल मेरठ

**सम्परीक्षा टोली के सदस्यों के नाम :-**

- 1-श्री भूपेन्द्र शर्मा, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी।
- 2-श्री हरबीर सिंह, वरिष्ठ लेखा परीक्षक।
- 3-श्री बृजनाथ तिवारी, वरिष्ठ लेखा परीक्षक।
- 4-श्री अनिल कुमार तृतीय, वरिष्ठ लेखा परीक्षक।
- 5-श्री मनोज कुमार मिश्रा, वरिष्ठ लेखा परीक्षक।

## सम्परीक्षा आख्या भाग-ख के प्रस्तर 1 में संदर्भित

लेखे का नाम- नगर निगम, गाजियाबाद

अवधि - 209-20

## अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण

अवधि	सम्परीक्षा आख्या के अनुच्छेद	पद	योग
1981-82	3टि0(1)(2)(3)(4)अ4टि0(2)(3)5,6(2)(3)7(1)(2)9,11टि0(अ)(ब)(स)(द) 12टि0,13टि0(1)(2),14,15,16,17,18(अ)(ब)(स)19(1)(2),39,40(1)(2)(3) 41(1)(2)(3)(4)42,43,44,45(1)(2)46,47,48,49(2),50,51(2)52,53,54,55,56 ,57,58,59(1)(2)(3)(4)(5)(6)61,62,63,64,65,66(1)67(क)(ख)(ग)(घ)68,69, 70(1)(2)(3)(4)71,72(2)(3)73टि0(1)(2)(3)(4),74,75,76(1)(2)77	-	89
1982-83	17(ख)(घ)18(1)(2)(3)(4)(5)(ख)(1)(2)(3)(4)(5)(6)19(क)(4)	-	14
1983-84	3टि0(1)(2)(3)(4)4टि0,6टि0(1)(2)(3)7टि0(1)(2)(3)(4)8टि0(1)(2)10,11टि (1)(2)12,13टि0(1)(2)(3)(4)(5)14,17,18(1)(2)(3)(4)19,20,21(2)22,23,24,25 (1)(2)26(1)(2)27,28(1)(2)(3)(4)(5)(6)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(1)(2)(3)27 (1)(2)(3)30(1)(2)31,32,33,34(1)(2)35(1)(2)	-	65
1984-85	3टि0(1)(2)(3)4टि0(2)5टि0(1)(2)(3)(4)7टि0(1)(2)(3)(4)8(1)(2)10,11 (1)(2)(3)12,13(1)(2)(3)(4)(5)14,15(1)(2)(3)(4)(5)(1)(2)(3),16(क) 17,18,19,20,21,22,23,24(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)25(क)(1)(2)(4) (5)(ख)(1)(2)(3)	-	61
1985-86	3टि0(1)(2)(3)4टि0(1)(2)(3)(4)5टि0(1)(2)(3)(4)6टि0(1)(2)(3)(4)8टि0 (1)(2)(3)(4)(5)9टि0(1)(2)(3)(4)10,11टि0(1)(2)14टि0(1)14(ख)15(1)(2) 16(1)(2)17,18,19(क)(1)(2)(ख)20,21,22,23,24,25,26,27	-	46
1986-87	3टि0(1)(2)(3)4टि0(1)(2)(3)(4)5,6(1)(2)(3)(4)12,14टि0(1)(2)15(2)(3) 16(क)(ख)17,18,19,20नोट(1)(2)21,22,23,24(1)(2)25(2)27,28,29,30, 31,32,33(क)(ख)(ग)(घ)(ड)(च)(छ)(ज)(झ),34,35(1)(2)(3)36,37,38 (1)(2)39(1)(2)(3)40(1)(2)(4)41,42,43,44,45,46	-	64
1988-89	3टि0(1)(2)4टि0(1)(2)(3)5(1)(2)(3)5(क)(1)(2)(3)(4)(5)टि06(1)(2) 14,15टि0(1)(2)(ग)(घ)(ड)(च)17,18,19,20,21,22,23,24टि025टि0,26,27,28, 29,30(क)(ख)(ग)(घ)(1)(2)(3)(4)31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43	-	56
1989-90	3टि0(1)(2)(3)(4)4टि0(1)(2)(3)(4)4टि0,5टि0(1)(2)8,9,10,11,12टि0, 13टि0नोट14(1)(2)(क)नोट16(1)(2)(3),17,18,19,20(ख)(1)(2)(3)(ग) (1)(2)(3)(ड)(च)(छ)(ज)22(1)(2)23नोट,24,25(1)(2)(3)(4),26,27 (1)(2)28,29(1)(2)30,31(क)(ख)32(1)(2)(3),33,34,35,36(1)(2)37नोट (1)(2)38,39	-	71
1990-91	3टि0(1)(2)(3)(4)(6)4टि0(1)(2)(3)5टि0(1)(2)(3)6,7टि0(1)(2)(3),8,10,11	-	21
1991-92	12नोट13टि0(1)(2)14,15टि0(1)(2),16(क)(ख)(ग)(घ)(ड)(1)(2)(3)(4) (च)(1)(2)(छ)(ज)17(1)(2)18,19(1)(2)20,21नोट(1)(2)(3)22,23(1)(2)(3) (4)(5)(6)(7)(8)(1)(2)।नोट24(ख)(ग)(ड)(च)(छ)(ज)(झ)(ज)25नोट,	-	54

	26नोट27,28,31,32(1)(2)(3)35		
1992-93	1,3टि(1)(4)4टि(1)(2)5टि(1)(2)(3)6टि(1)(2)टि(1)(2)11,12,13टि, 14टि(1)(2)15,16टि(1)(2)17(1)(2)18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32,33(1)(2)34,35,36(1)(2)37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, 48,49,50,51,52,53,54,55,56	-	63
1993-94	3टि(1)(2)4टि(1)(2)(3)5टि(1)(2)(3)(4)(5)6टि(1)(2)(3)10,11,12टि (1)(2)(3)(4)(5)13,14,15टि(1)(2)(3)16(1)(2)17टि(क)(ख)(ग)(1)(2)(घ) 19(क)टि(1)(2)20(1)(2)(3)21(4)22,23टि025(क)(ख)(ग)26,27,28,29(क) (ख)30(1)(2)(3)31(क)(ख)32(क)(ख)33(2)35(क)(ख)36(1)(2)(3)(4)(5)37	-	77
1994-95 (प्रथम छमाही)	3टि(1)(2)(3)4टि,5टि(1)(2)(3)6टि(1)(2)(3)(4)(5)(6)8,9(1)(2)(3)(4) (5)10,11टि(1)(2)12(1)(2)13टि,14(1)(2)15(1)(2)16(1)(2)17(1)(2) 18टि,19,20(1)(2)(3)(4)21(1)(2)(3)24(1)(2)(3)25(1)(2)26,27 (1)(2)(3)(4)28(1)(2)(3)29,30,31(1)(2)(1)(2)32(1)(2)33(1)(2)(3)(4)(5) 34(1)(2)(3)35(1)(2)(3)	-	79
1994-95 (द्वितीय छमाही)	3टि(1)(2)4(1)(2)(3)(4)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)6(1)(2)टि(1)7 (1)(2)(3)(4)(1)(2)(3)(क)(ख)(2)9,10(1)(2)(3)(4)11(1)(2)(3)12,13,14,15 (1)(2)(3)(4)(5)16(1)(2)17(1)(2)18(1)(2)(3)(4)19(1)(2)20	-	52
1995-96	1(क)(ख)2,3,4(1)(2)(3)(4)(5)6,7(ख)(1)(2)(3)(ग)(घ)(ड)(च)(छ)(ज)	-	19
1996-97	1(अ)2,3,4टि(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10),7,9(1)(ब)2(क)(ख)3टि, 4टि(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9),10,11,15,6,7,8(2)(3)(4)(7)	-	36
1997-98 से 1998-99	1,2,3टि(1)(2)(3)(क)(ख)4टि(1)(2)(3)(4)4(अ)(क)(ख)(ग)(घ)4(ब) (क)(ख)(ग)(घ)(ड)(च)2(क)(ख)1,3,4,5(ग)(घ)2(क)(ख)(ग)(घ) 4(क)(ख)(ग)(घ)(ड.)5(क)(ख)(ग)(घ)प्रथम,द्वितीय,तृतीय,चतुर्थ,पंचम किस्त 7(1)(2)(3),3(क)4,5,6,7,8,9,10(1)(2)(3)(4)(5)9(क)(ख)(ग)(घ)(ड.) 11(क)(ख)(ग)(घ)12(1)(2)(3)(4)(5)15(1)(2)(3)(4)(5)16(क)(ख)(ग)(घ) (ड)(च)(छ)(ज)(झ)(ञ)19(1)(2)(3)(4)(5)(6)20(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9) 21,22,23(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)27(1)28(क)(ख)(ग)(घ)(ड)(च) (छ)(ज)29,30(क)(ख)(ग)टि(1)(2)	-	133
1999-2000	1(क)(ग)(घ)(ड)(छ)(ज)(ण)(त)(थ)(ध)(न)(प)(फ)(ब)2,3टि,4(1)(2)(5)(6)	-	22
2000-01 (प्रथम छमाही)	1(ए)(बी)(1)(2)(3)(4)(सी)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(डी)(1)(2)(3)(4)(5)(ई)(1)(2) (3)(4)(एफ)(1)(2)(जी)(एच)(आई)(जे)(के)(एल)(एम)(ओ)(पी)(क्यू)(आर) (एस)2,3टि(1)(2)(3)(4)(5)6,7,8	-	46
2000-01 (द्वितीय छमाही)	1(ए)(बी)(सी)(डी)(इ)(एफ)(जी)(एच)(आई)(जे)(के)(एल)(एम)(ओ)(पी)(क्यू) (आर)(एस)(टी)(यू)(वी)(डब्ल्यू)(एक्स)(वाई)(क)(ख)(ग)(घ)(ड)(च)(छ)(ज) (झ)(ञ)(ट)(ठ)(ड)2,3टि,2टि,1,2,3,4टि(1)5,6,7(2)(3)(4)7,8(1)(2)(3)(4)(5) (6)(7)(8)		58
2001-02	1(क)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9) (10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(1)(2)2(ग)(3)(4)(5)(6)(7)(8) (घ)(1)(2)(3)(4)(5)(च)(1)(2)(3)(4)(छ)(ज)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)((1)(2) (3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(झ)2(अ)ट(ठ)(1)(2)(3)(5)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)	-	93

	(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)		
2002-03	1(क)2(क)2(ग)2(3)2(घ)2(3)(4)टिप्पणी 5(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(ख)(ग)(घ)(1)(2)(3)(च)(छ)(2)(3)(4)(5)(6)(ज)(झ)(1)(2)(3)(ट)(ठ)(ड)(ढ)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(i)(ii)(iii)(ढ)(ण)(त)(थ)(1)(2)(3)(द)(2)(3)(ध)(1)(2)(3)(4)(5)(7)(9)(1)(2)(11)11,13,14,15(ग)(1)(2)(3)(4)16(7)(प)(फ)(ब)(भ)(म)(य)(र)(ल)(व)(श)(ष)(स)(ह)(क्ष)(त्र)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(ज)(1)(2)(i)(iii)(i)(ii)(iii)(1/5)(1/6)वर्ष2001-02केआपत्तियाँ(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9),2,3,4,5,6टिप्पणी सम्पूर्ण 7	—	122
2003-04	1(क)(1)(2)(1)(2)(ख)(ग)(1)(2)(3)(4)(1)(2)(3)(5)(6)(7)(1)(2)(3)(1)(घ)(i)(ii)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(1)(घ)(1)(2)1(घ)(1)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(1)(घ)(1)(2)1(घ)(1)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(1)(2)(3)(15)(1)(2)(3)(16)(17)(18)(19)(20)(1)(2)(3)(21)(22)1(ड0)(1)(2)(3)(1)(2)(4)(5)(1)(2)(6)(7)(8)(9)(1)(2)(3)(4)(10)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(1)(च)(1)(1)(2)(2)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(1)(2)(3)(4)(7)3टि0(1)(2)(4)(1)(3)(4)(5)(6)7(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)	1से10	143
2004-05	1(क)(1)(2)(3)(ख)(1)(2)(3)(ग)(घ)(1)(2)(ड0)(च)(छ)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(ज)(1)(2)(झ)(ज)(क)(ख)(ग)(घ)(ड.) (ट)(ठ)(क)(ख)(ग)(घ)(ड.) (1)(2)(3)(ढ)(1)(2)(ण)(1)(2)(त)(थ)(द)(ध)(न)(य)(र)(1)(2)(3)(ल)(1)(2)(व)(स)(1)(2)(ष)(1)(2)(21)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(ह)(1)(2)(3)3टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)4टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)5,6टि0(1)(2)(3),7,8(क)(ख)(1)(अ)(ब)9(क)(ख)(ग)	1से37	122
2005-06	1(क)(1)(2)(3)(4)(5)(ख)(ग)(घ)(ड)(च)(छ)(ज)(झ)(ज)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(ट)(ठ)(ड)(ढ)(ण)(त)(थ)(द)(1)(2)(ध)(1)(2)(3)(न)(य)(र)(ल)(व)(श)(ष)(स)(ह)(अ)(1)(2)(3)(क)(ख)(ग)(आ)(क)(ख)(ग)(ई)(उ)(ऊ)2,3टि0(1)(2)(3)4टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)5टि0(1)(2)7,8,9(क)(ख)	3,4,5,6,11,12,13,14,15	73
2006-07	1(क)(1)(2)(3)(अ)(ब)(ii)(iii)(i)(ii)(iii)(vi)(ख)(1)(2)(3)टि0(ग)(1)(2)(3)(4)टि0(घ)(1)(2)(ii)(क)(ड)(च)(छ)(ज)(झ)(i)(ii)(iii)(ख)टि0(i)(ii)(iii)(त्र)(i)(ii)(iii)(ट)(i)(ii)(iii)(iv)(ड)(i)(ii)(iii)(iv)(ढ)(त)(थ)(द)(ध)(न)(प)(i)(ii)(iii)(फ)(ब)(भ)(म)(1)(2)(य)(र)(1)(2)(ल)(व)(श)(ष)3टि0(i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)(vii)(viii)4टि0(क)(ख)(i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)(vii)(viii)(ix)(x)5(i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)7(1)(2)8,9(क)(ख)(i)(ii)(iii)(iv)10(क)(ख)(i)(ii)(ख)(ग)(घ)	1से42	140
2007-08	1(क)(1)(2)(3)(ख)(1)(2)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(ग)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(ग)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(घ)(1)(अ)(ब)(स)(द)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)3टि0(1)(2)(3)(4)3(क)3(ख)4टि0(1)(2)(3)(4)5,6टि0(1)(2)(3)7टि0(1)(2)(3)(4)8,9(क)(ख)(ग)(घ)(ड.) (च)	1 से32	91

2008-09	<p><b>भाग-“क”</b>  1(क)(ख)(ग)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(घ)(1)(2)(3)(ड)(च)(1)(2)(छ)(ज)  (झ)(1)(2)(ञ)(2)(क)(ख)(ग)(घ)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(ड)3(क)(ख)(1)(2)  (ग)(घ)(ड)(च)(छ)(ज)(झ)(ञ)(ट)(ठ)(ड)(ढ)(ण)(त)4,5,6,7(क)(ख)(ग)  (घ)(ड)(च)(छ)</p> <p><b>भाग-“ख”</b>  1,2टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)3,4(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)5टि0(1)(2)(3)6,7  टि0(1)(2)(3)(4)8,9,10टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)</p>	1 से 10	104
2009-10	<p><b>भाग-“क”</b>  1,2,3,4,5,6(i)(ii)(iii)(iv)(v)7(1)(2)8,9,10(i)(ii)11,12,12(i)(ii)13,14,15,  16,17,18,19,20(i)(ii)21टि0(i)(ii)22(क)(ख)(ग)टि0 23(क)(ख)24,25,26  (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(क)(ख)</p> <p><b>भाग-“ख”</b>  (एक)(दो)(i)(ii)(तीन)(चार)टि0(1)(2)(3)(4)(5)(पाँच)टि0(i)(ii)(iii)(iv)(छ)  (सात)(आठ)(नौ)टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)</p>	1 से 53	123
2010-11	<p><b>भाग-“क”</b>  1,2,3,4,5,6,7,7(ख)8(1)(2)(3)(4),9,10(i)(ii)(iii)(v)11(i)(ii)(iii)12(i)(ii),  13,14,15टि0(i)(ii)16</p> <p><b>भाग-“ख”</b>  5(क)(ख)(ग)9(i)(ii)(iii)(iv)टि0</p>	2,3,4, 5,7,8, 10,11, 12,13, 15,16, 17,18, 19,20, 22,23, 24,25, 26,28, 29,30, 31,34	61
2011-12	<p><b>भाग-“क”</b>  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11(a),12,13,14,15,16,17,18,19,20(i)(ii)(iii)(iv)(v)  21(1)(2)(3)(4)टि0(i)(ii),22,23,24,25,26,27,28(1)(2)(3)(4)(5)(6),29,30</p> <p><b>भाग-“ख”</b>  2टि0(i)(ii)(iii)(iv)(v)3टि0ख(1)(6)(7)(8)(9)(10)(ग)टि0(1)(2)4टि0(ii)(iii)(i  v),6,7,8,9,10(i)(ii)(iii)</p>	1 से 25	67
2012-13	<p><b>भाग-“क”</b> 1(क)(1)(2)(3)(4)(क)(ख)(i)(ii)(iii)(5) 1(ख)(1)(2) 1(ग)  (1)(2)(1)(2)(3)(4)(5)(3) 1(घ)(1)(2)(3)(4) 1(ड.) 1(च) 1(छ)(1)(2)(3)(4) 1(ज)  टि0(1)(2) 1(झ)</p> <p><b>भाग-“ख”</b>  9टि0(4)10(1)(2)(3)(4)(5)</p>	18,19	37

2013-14	<p><b>भाग-“क”</b> 1,2(1)(2)(3)3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29,30,31</p> <p><b>भाग-“ख”</b> 1,2टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)3टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)4,5टि0(1)(2)6,7,8,9 (1)(2)(3)(4)(5)(6)10</p>	1 से 56	117
2014-15	<p><b>भाग-“क”</b> 1,2,3,4,5,6,7(क)(ख)(ग)(घ)(ङ)(च)(छ)(ज)(झ)8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19,20</p> <p><b>भाग-“ख”</b> 1,2(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)3टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)4,5 टि0(1)(2)6,7,8,9टि0(1)(2)(3)(4)10</p>	1 से 37	95
2015-16	<p><b>भाग-“क”</b> 1(क)(ख)(ग)(घ)(क)(ख)(ङ)(क)(ख)(च)(क)(ख)(छ)(ज)(क)(ख)(ग)(घ) (ङ)(च)(झ)(ज)(क)(ख)(ग)(ट)(ठ)(ड)(ढ)(ण)(त)(थ)(द)(ध)(न)2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, 53,54,55</p> <p><b>भाग-“ख”</b> 2टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17) (18)3टि0(1)(2)(3)4,5टि0(1)(2)6,7,8,9टि0(1)(2)(3)(4)10</p>	1 से 67 तक	183
2016-17	<p><b>भाग-“क”</b> 1,2,3,4(1)(2),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,2 6,27,28,29(1)(2)(3),30(1)(2),31(1)(2),32</p> <p><b>भाग-“ख”</b> 2टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(10) 3टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12), 4,5टि0(1)(2)(3)(4),6टि0(1)(2)(3)(4),7,8,9,10,11(1)(2)(3)(4)(5)(6) 7(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)</p>	1 से 47 तक	131
2017-18	<p><b>भाग-“क”</b>-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 (1)(2)(3)(4), 24(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9), 25(1)(2)(3), 26,27(1)(2) 28,29,30,31,32(1)(2)(3), 33,34,35,36(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 37,38(क)(ख)(ग) 39,40,41,42,43(1)(2), 44(1), 45,46,47,48(1)(2)(3), 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62(1)(2)(3), 63,64</p> <p><b>भाग-“ख”</b>-2टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11), 3टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(15) 4,5टि0(1)(2)(3)(4) 6टि0(1)(2)(3)(4) 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16</p>	1 से 11 तक	151
2018-19	<p><b>भाग-क</b>:: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9(1)(2)(3)(4)(5)(6), 10(1)(2)(3)(4)(5), 11(1)(2), 13(1)(2)(3)(4)(5)(6), 14(1)(2)(3)(4), 15(1)(2)(3)(4)(5), 16(1)(2)(3)(4), 17(1)(2), 18(1)(2), 19(1)(2)(3), 20(1)(2), 21(1)(2), 22,</p>	1 से 11	164

	<p>23(1)(2)(3), 24(1)(2), 25(1), 26(1)(2)(3), 27(1)(2)(3), 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39(1)(2), 40, 41(1)(2), 42, 43, 44, 45(1)(2), 46, 47(1)(2), 48, 49, 50(1)(2), 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,72,73,74, 75</p> <p><b>भाग-ख ::</b> 2टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9), 3टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12), 4टि0(1)(2)(3)(4), 5टि0(1)(2)(3)(4)(5), 6, 7, 8, 9, 10टि0</p>		
	<b>योग-</b>		<b>3143</b>



नगर निगम, गाजिदाबाद

वित्तीय स्थिति वर्ष 2019-20

विवरण

नगर निगम-निधि खाता

ग्रु. आई. डी. एस.  
एस. एम. टी. खाता

01 अप्रैल 2019 को प्रारम्भिक शेष  
वर्ष की आय  
योग  
वर्ष का व्यय

3,41,29,33,722 = 63

8,21,59,293 = 00

4,87,55,67,932 = 56

32,44,382 = 00

8,28,85,01,655 = 19

8,54,03,675 = 00

4,83,14,83,620 = 00

शून्य

31.3.2020 को इतिशेष

3,45,70,18,035 = 19

8,54,03,675 = 00

1.3.20 को रोकडवली के अनुसार शेष

3,45,70,18,035 = 19 'क'

8,54,03,675 = 00

31.3.20 को बैंक शेष

3,17,59,64,176 = 68 'ख'

8,54,03,523 = 50

अन्तर (कम) (क-ख)

28,10,53,858 = 51

151 = 50

बैंक का नाम / शाखा / खाता सं.

कोषागार गाजिदाबाद (अस्थापना निधि)  
खाता सं. - 8448002 /  
ईड कोड सं. - 8448001020000000

276717614 = 00

संविदा बैंक आर्य इण्डिया  
उद्देश्य शाखा

सामान्य	निगम परिसर	खाता सं.
सामान्य	नया गंज	555201010024002 /
सामान्य	कठिनगर	428502010270493 /
सामान्य	भाडल टाउन	448402010092154 /
सामान्य		398602010869357 /

खाते का प्रकार

31.3.20 की इतिशेष  
ग्रु. आई. डी. एस.  
एस. एम. टी. खाता

81,67,298 = 38

1239 = 00

767,930 = 87

1971 = 00

सामान्य निगम परिषद	555202010509405 /	16,75,484=72	—
पुस्तक प्रशिक्षण	555202010509916 /	74,32,837=92	—
सामान्य वसुंधरा	617501010050081 /	1,52,453=50	—
वेतन निगम परिषद	555201010024001 /	2,22,915,442=08	—

कैटरा बैंक

1) सामान्य मालीवाड़ा	1149101027894 /	24,98,191=00	—
----------------------	-----------------	--------------	---

2) इन्डस इन्ड बैंक

1) सामान्य राजवृंदापुर	100008671278 /	24,75,786=93	—
------------------------	----------------	--------------	---

5) पंजाब नेशनल बैंक

(i) सामान्य <del>विद्यार्थी</del> <del>विद्यार्थी</del>	3946002100002579 /	14,96,339=58	—
(ii) सामान्य सुर्यनगर	1443002100416501 /	27,76,087=61	—
(iii) सामान्य अम्बेडकर रोड	3703000102237927 /	20,78,18=64	—
(iv) सामान्य अम्बेडकर रोड	3703000102283874 /	9,12,066=84	—
v) विद्यालय मकानपुर	4052000100024286 /	22,69,152=05	—
(vi) सामान्य अम्बेडकर रोड	3703000102232010 /	9,89,148=00	—
(vii) सामान्य वसुंधरा	4718000100022533 /	शून्य	—
(viii) सामान्य जी.टी. रोड	0180000103033784 /	3815=24	—
(ix) औद्योगिक क्षेत्र विजय नगर	3946002100005512 /	8,68,753=40	—
(x) औद्योगिक क्षेत्र वसुंधरा	4718000100003095 /	1,03,95,064=29	—
(xi) एच.के. भारत मिशन अम्बेडकर रोड	4483000100037301 /	5,40,45,638=45	—
(xii) एम.ए. सिटी नवपुरा मार्किट	0294001100000890 /	1,60,62,356=00	—
(xiii) अमृत योजना नवपुरा मार्किट	0294001100000368 /	87,31,858=50	—
(xiv) अवकाश योजना अम्बेडकर रोड	3703000102210072 /	76,82,342=58	—

XV) 14वां विल अम्बेकर रोड	3703000102211957 /	2083452749.94	
(vi) ग्रं अर्द्धी एम्बेकर रोड एम्बेकर रोड	1116000100202347 /	—	714779
(vii) — " — अम्बेकर रोड	3703000102224127 /	—	90450
(viii) — " — नवपुत्र मार्ग	0674000102125976 /	—	98895
(ix) सामान्य	2051000100364260 /	राजापूर में दे	

6- आर्द्धी एम्बेकर रोड

i) सामान्य राजनगर	0066104000214049 /	222064=00	—
-------------------	--------------------	-----------	---

7- एम्बेकर रोड

i) सामान्य नवपुत्र मार्ग	916020021612420 /	3450111=75	—
--------------------------	-------------------	------------	---

8- सिटी रोड

i) विद्यालय सिटी	1391830856 /	2672013=00	—
------------------	--------------	------------	---

9- सिटी रोड

i) विद्यालय नवपुत्र मार्ग	85562200001327 /	4918816=07	—
---------------------------	------------------	------------	---

10- एम्बेकर रोड एम्बेकर रोड

i) सामान्य राजनगर	01531110000014 /	201225=74	—
ii) सामान्य सिटीजोन राजनगर	50100056181525 /	6192786=84	—
iii) सामान्य विद्यालय जोक राजनगर	50100056181601 /	2759094=85	—
iv) सामान्य अर्द्धी एम्बेकर रोड राजनगर	50100056181653 /	107212304=46	—
v) सामान्य नवपुत्र मार्ग जोक राजनगर	50100056180498 /	34715822=22	—
vi) सामान्य अर्द्धी एम्बेकर रोड जोक राजनगर	50100056181488 /	8632377=77	—

- i) सामान्य राजमार्ग 50100103586052 / 31,17,918=00
  - ii) औद्योगिक क्षेत्र राजमार्ग 50100056181627 / 17,50,462=61  
मिथी लोक
  - x) ऑटो क्षेत्र विजयपुरा लोक राजमार्ग 50100056181577 / 30,9,3080=90
  - ) ऑटो क्षेत्र अकिनाग लोक राजमार्ग 501000056181541 / 56,98,024=23
  - ii) ऑटो क्षेत्र वसुन्धरा लोक राजमार्ग 50100056181491 / 28,5,41,195=43
  - ii) ऑटो क्षेत्र मोहन नगर लोक राजमार्ग 50100056181475 / 1,00,91,876=85
  - iii) आरु सी. सी राजमार्ग 501000264496541 / 19,83,870=19
- ओरिप-2ए बैंक आरु बामर्स

i) सामान्य शास्त्रीनगर 00762191048192 / 64,88,606=60

2- आरु सी. सी. आरु सी. सी. आरु बैंक

- i) ई. ट्रेडिंग राजमार्ग 628601041088 / 31,95,499=26
- ii) सामान्य राजमार्ग 628605013722 / 7,63,019=73
- iii) सामान्य राजमार्ग 628605013723 / 20,60,216=98
- iv) सामान्य नवपुरा मॉडर्न 628601044011 / 45,62,84=00

13- इलहाबाद बैंक

(i) रोड क्वार्टिग नवपुरा मॉडर्न 50203004752 / 97,84,374=36

14- एटेट बैंक आरु इंडिया

- (i) सी. सी. वी. पी. नवपुरा मॉडर्न 34679226106 / 44,174=00
- (ii) लेटन नवपुरा मॉडर्न 34869682084 / 40,49,84,197=50

(149)

गैरक मरिन्दा बैंक

सामान्य राजगा 0211530525 / 7,04,556=00

आ-व्या बैंक

सामान्य गाजियाबाद 016010100000539 / खाता बन्द

एनपी एफ सी

सामान्य राजगा 50100290416233 / 2640240=22

पंजाब नेशनल बैंक

अहमद खान नगर निगम 0294000110120710 / 32,03,911=20

जान्हा गजशाला चौशाही 3000000100247438 / 61,66,611=40

योग

3,17,59,64,176=68

85403523=50

## वर्ष 2019-20 में आय एवं व्यय का विवरण

माह	आय	व्यय
अप्रैल 2019	11711256.00	146119357.00
मई 2019	471720337.48	377819264.00
जून 2019	135643877.31	442167009.00
जुलाई 2019	804121034.38	404300479.00
अगस्त 2019	490033549.08	431951646.00
सितम्बर 2019	307400912.76	376641177.00
अक्टूबर 2019	470091302.96	798089821.00
नवम्बर 2019	92631566.89	143128484.00
दिसम्बर 2019	290439703.54	513693743.00
जनवरी 2020	870894893.48	290024745.00
फरवरी 2020	90681336.71	448622933.00
मार्च 2020	840198161.97	458924962.00
योग (A)	4875567932.56	4831483620.00

## यू0आई0डी0एस0एम0टी0

## वर्ष 2019-20 में आय एवं व्यय का विवरण

	आय	व्यय
	3244382	0
योग (B)	3244382	0

सहायक लेखाधिकारी  
पुणे

गाजिभावाड नगर निगम

पीठिण्ट ख-2

(साम का विकरण - 2019-20 (ग्र. अडि. प्र. एन एन. एन. डी. एडि. एन.))

क्रमांक	सद	2019-20 वासाविक
01	02	03
1.1	गडकर	579025800
1.2	जलकर	369898441
1.3	सीवरकर	178788372
1.4	विद्यापत कर	51631565
1.5	पेसाकर	1160320
1.6	अन्य कर	10116409
2.1	सामान्य लाभकर	9683523
2.2	स्वास्थ्य लाभकर	862429
3.3	निस्पृधुडिम सामग्री	1286510
4.1	मनन एवं दकान	11120456
4.2	अस्थायी प्रयोग भूमि	3223632
4.4	पानी का टैकर	832345
5.2	पावना	11724823
5.3	अन्य	243490
6.1	रोड कटिंग	46230455
6.3	सीवर संग्रहित	7978722
6.4	जल संग्रहित	3479074
6.5	जल सामग्री मंजीकरण शुल्क	18745
6.7	एसपेक्ट	8701192
6.8	प्रतिनिधि शुल्क	20655

01	02	03
6.11	(अन्व)	10918614
6.12	साई मानिर दान पाता से	322583
6.13	बुजर न्याजिजा	16187789
7.1	स्टेम्प मुल्क से प्राप्त	23494630
7.2	राज्य विना (आयोग)	2508712079
7.10	(अन्व)	15820050
7.7	श्री. (आरि.डी.एस. एस. एस. सी.)	3244382
7.14	14 वाँ विना (आयोग) (व्याज सहित)	920699387
7.15	स्वच्छ भारत मिशन	59265304
7.16	स्मार्ट सिटी मिशन	613107
7.17	अन्व आजीना	1078845
7.18	कान्धा गुरुभाला एवं वेसधरा पत्र (आत्मस आजीना)	5255042
8.1	व्याज	15369325
8.2	शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त	1804219
	योग	4,87,88,12,315



साजीयाबाद नगर निगम (153)

व्यय का विवरण - 2019-20

क्रमांक	सद	2019-20 वास्तविक
01	02	03
	<u>सार्वजनिक निर्माण</u>	
1.	आयिष्ठान	38117546
2.	गात वर्ष से कराय रामे निगम फंड के अनुरक्षण कामों के अंवेध	556276468
3.	वाड के अनुरक्षण कार्य एवं मार्ग एवं सड़क निर्माण कार्य	96326592
6.	भवत निर्माण एवं सरस्मात कार्य	1058900
7.	पंच कार्य	2110000
10.	रेड कोटिंग से प्राप्त आस से दोतगुसा सड़कों की सरस्मात	2239500
11.	पाके की दोतगुसा वाडनी वास का निर्माण कार्य	2127546
	<u>जल अस्मरण एवं निस्सारण</u>	
1.	आयिष्ठान	154028571
2.	गात वर्ष से कराय रामे निगम फंड के अनुरक्षण कामों के अंवेध सरसात	177096730
3.A	टोड पम्प लगाना	11482876
3.B	नयी पाइप लाइन	7770900

01	02	03
3.C	नल कथ रिबोर एवं स्थापना	25834203
4.A	नल कथ का डक पर संचालन एवं सुचरित्व कार्य	53466329
4.B	पाइप लाइन मरम्मत	13162900
4.C	टण्ड पम्प मरम्मत	13586500
4.D	सीवरज पम्पिंग प्लांट का संचालन एवं सुचरित्व कार्य, डी.डी. एवं	1599900
5.	डीजल संधि अनुबला के विद्युत बिला का भुगतान	329929
6.	गंगाडाल पेग जाजना	15000000
7.	सीवर इन्टेम्प्ट प्लांट का संचालन	35187500
8.A	सीवर व्यवस्था	78958404
8.B	सेनडाल मरम्मत	18932600
9.	रिपेयर	17116531
10.	अदरी मालिन करमी / अदरी गरीब दाता / अदरी गरीबी दाता से पत्रजल जाजना हेतु	13916600

01	02	03
11	विद्याल विभागों के इन्फ्रस्ट्रक्चर के विकास प्रोजेक्ट्स एवं ट्रांसफार्मर सुपरविजिन (सोई) पथ प्रकाश विभाग	321851
1.	सुविधान	29804604
2.	गत वर्ष में करम ग्राम निगम फंड के अनुदानों का अविशेष सुशासन	23854216
3.	अनुदान कार्य स्तर सामग्री उपकरणों का रख रखाव	42202698
4.	6 मं पर अनुदान कार्य	10980501
5.	विद्याल किला का सुशासन	5680406
6.	ग्रामीण महिला क्लब गरीबों के ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु	773300
8.	(अन्य (पोल सिफ्टिंग उपकरण))	9375900

205  
156

01	02	03
	स्वास्थ्य विचार व नगरीय स्वास्थ्य अपॉथेक प्रवर्धन	
1(1)	सफाई कर्मचारी	469422934
1(2)	सामान्य कर्मचारी	5996109
2.	सात वर्ष में कराये गये निगम फंड के अन्वयण कार्यों के अवशेष संग्रहण	63185555
3.	अन्वयण (सफाई सामग्री उपकरण रख रखाव)	55400533
4.	ठण्डा/अस्थायी जोड़ों से सफाई कार्य	314294649
4.A	शान्त कालीन सफाई कार्य	32312086
5.	नालों की सफाई का कार्य एवं मिल्ट उठाना	4756396
6.	संक्रामक रोगों के शोधार्थ व अन्य आन्वयिक कार्यों हेतु	4574770
7.	गुदरी मालिन बस्ती/गुदरी मालिन क्षेत्र/गुदरी ग्रामीण क्षेत्र का सफाई कार्य	118630300

01	02	03
	<u>उद्यान अनुसारा</u>	
1.	अधिकृत	41523078
2.	गाल वर्ष में करमुहुरास निगम फंड के अनुसंधान कार्या का अवधि समाप्त	63403753
3.	ठिक पर पोका का अनुसंधान कार्य	91262414
4.	विद्युत बिलों का समाप्त	1462450
5.	अनुसंधान उपकरण सरस्मा, मोडर ओपि	21319524 -
	<u>मिदा खेवकद, समाज कल्याण पुरसकालय</u>	
1.	अधिकृत	1213507
3.	पुरसकालय, सबल सरस्मा ओपि	163569
4.	ठिक पर अनुसंधान कार्य	20749116 -

01	02	03
	<u>सम्पत्ति एवं पुर्वाप्त विभाग</u>	
1.	आंचिष्ठान	1074267
2.	द्वे एवं जमा व्यय की वापसी पुर्वाप्त कार्य (आोद)	3725262
3.	निगम की सुविधाओं के रख-रखाव पर व्यय	397703
	<u>विविध विभाग</u>	
1.	आंचिष्ठान	3602651
2.	आंचिष्ठान फीस	4232390
3.	विविध व्यय (कोर्ट फीस आोद)	121424
	<u>सामान्य प्रशासन कार्यालय तजारा खर्चा (आोद)</u>	
1(1)	आंचिष्ठान प्रशासन कार्यालय	71962758
1(2)	आोडि विभाग	1389632
1(3)	खर्चा विभाग	3326698
1(4)	कर विभाग	39796334
1(5)	प्रथम टंकी	13563409
1(6)	प्रथम	250272344

01	02	03
1(7)	सामुहिक बीमा	1797900
2	सामान्य स्तर के गांव वर्ष के अवधि के सुगमता	20873454
3	सामान्य स्तर	26434032
4	टेलीफोन	1699243
9	विविध ठेके पर कार्य सीटिंग समायोज, विज्ञापन	8537801
10	कम्प्यूटरीकरण	1328806
11	कन्सल्टन्सी फीस	2906734
12	विविध व्यय	21652267
13	ठेके पर रखे गये मकानों की कामों पर व्यय	27212819
14	डीजल एवं पेट्रोल	355323687 -
	ग्रामोपग्रह सुधार एवं सुगमता से कार्य	
1	पंचायत समितियों में कार्य गये सुधार कार्य	334000

241  
160

01	02	03
2	सा. सदस्य / सा. कार्यकारी / सा. सदस्य प्राथमिकता के अन्तर्गत विकास कार्य	9976900
4(A)	सुवस्थापना विकास निधि	505096215
10	अन्त	14377105
11	जी.डी.ए.	716787
(ख)	पूँजीगत व्यय	
3	13 वॉ विन आयोग व्यय	23771584
12	नगरीय जल विकास योजना	100000000
13	14 वॉ विन आयोग व्यय	585713113
14	स्वच्छ नगर मिशन	30063969
16	अन्त योजना	6762672
17	कान्हा राउत माला स्व. निसर्ग प्र आयोजना	15048416
	योग	4,83,48,3620



## वित्तीय स्थिति का विवरण-

वर्ष	मद	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अवशेष
2019-2020	राज्य वित्त आयोग	238847172	2508712079	2747559251	2261591994	485967257
	13 वां वित्त आयोग	61295143	0	61295143	23771584	37523559
	14 वां वित्त आयोग	1645218889	920699387	2565918276	585713113	1980205163
	रियाल्टिंग	3553602	0	3553602	0	3553602
	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.	82159293	3244382	85403675	0	85403675
	नगरीय सड़क सुधार योजना	0	0	0	0	0
	नगरीय जल निकासी	10000000	0	10000000	10000000	0
	स्वच्छ भारत मिशन	18356292	59265304	77621596	30063969	47557627
	स्मार्ट सिटी	15449249	613107	16062356	0	16062356
	अमृत योजना	17619756	1078845	18698601	6762672	11935929
	कान्हो गऊशाला	15960068	5255042	21215110	15048416	6166694
	जी.डी.ए.	42801701	0	42801701	716787	42084914
	निजी स्रोत	1340504297	1379944168	2720448465	1897815085	822633380
		<b>Total-</b>	<b>3491765462</b>	<b>4878812314</b>	<b>8370577776</b>	<b>4831483620</b>

पी 1207 ग

27-162-2 आग-क के प्रता 2 मे सदाभरि

पत्रा सं ६०-१०६

वर्ष 2019-20 में नगर निगम, गाजिपानगर के काम और खर्च की खातिर  
 नगरपालिका परिषद् बिना पंचायत सभार पंचायत क्षेत्र पंचायत (अंक पूर्ण वर्षों में)

क्र. सं.	खासियत विभाग का नाम	1 अप्रैल 19... को प्रारम्भिक अवधि	2019-20 वर्ष को आय					वर्ष की सम्पूर्ण आय (क+ख+ग+घ)	प्रारम्भिक वर्षों के अन्तर्गत वर्षों की प्रारम्भिक अवधि	वर्ष के अन्तर्गत वर्ष	वर्ष 20... की प्रारम्भिक अवधि	अर्थव्य
			राजकीय अर्थो-सालों और स्थलों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से आय	अनावृत्त राजकीय अनुदान	आवृत्त राजकीय अनुदान	राजकीय ऋण	वर्ष की सम्पूर्ण आय					
3	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	4(ज)	5	6	7	8	
1	नगर निगम अधि खाता	3412933723	1456765235	910090618	2508712079	-	4875567938	8288501655	4831483620	3457018035	85403675	
2	श्री. आई. डी. एल. एल. एल. खाता	82159293	3244382	-	-	-	3244382	85403675	4831483620	3457018035	85403675	

कुल 85403675 4831483620 3457018035 85403675

29



164

२० आ आ-२४ के प्रता '३' के सशक्ति

-३१-

वर्ष २०१९-२० के अंतर्गत नगर निगम, गजियाबाद द्वारा वसूल्युक्त अनुदान की च.लिका

क्र.सं.	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति का तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षांतर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्षांतर्गत वसूल्युक्त वस्तु की गई धनराशि	वर्षांतर्गत अन्तिम शेष	सम्बन्ध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(01)	आ.सं. 1087/15 दि. 15/11/1998 - 2000-74 (4) दि. 14/11/1998 30-6-2000	अनुदान का प्रयोजन	2,00,000	31-3-2000	703	-	703	-	703	
(02)	आ.सं. - 149/ दि. 1-98 30-3-1998	अनुदान का प्रयोजन	127,3000	अज्ञात	162,292	-	162,292	-	162,292	
(03)	आ.सं. / विधायक दि. 30-3-1998	अनुदान का प्रयोजन	376,200	29-5-09	376,200	-	376,200	-	376,200	

राजधानी संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ के संदर्भ में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन  
 निदेशक,  
 स्थानीय निधि सेवा,  
 उत्तर प्रदेश।

सं 2019-20 के अंतर्गत शारदा शिवालय द्वारा अग्रपूजक अनुदान की वारिका

स्वा10 फी0 ले0 सं0-66

क्र. सं.	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौखिक वनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षान्त में प्राप्तिक अवशेष	वर्षान्त में प्राप्त अनुदान	योग	वर्षान्त में वृद्धि पनराशि	वर्षान्त में अतिरिक्त अवशेष	संतक
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										

(05)

(04)

(1)

राजकीय संख्या

दिनांक

क्र. सं.

महलेशाकांत, वतर प्रवेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन

विभाग की पंक्ति

सं0  
दिनांक

नियंत्रक:  
स्वायत्तीय निधि शेष,  
वतर प्रदेश।

फी0 एस0 यू0 फी0-10 स्वा0 फी0 लेखा0-31-10-2001-100,000 (जब)।

166

-35-

सं 2019-20 के अंतर्गत राजस्थान गौरीशंकर द्वारा अग्रपुस्तक अनुदान की राशि का

क्र.सं.	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक घनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	व्ययिष्ठा में प्रारम्भिक अवधि	वर्षागत प्राप्त अनुदान	योग	वर्षागत व्यय की गई घनराशि	वर्षागत में अन्तिम अनुदान	संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(2)	आ.सं.-8/4268(2) आ.सं. 49/12 दिनांक 2005 द्वारा 16-9-2006	-	15295000	28-11-06	2116307	-	2116307	-	2116307	
(3)	आ.सं.-8/4268(1) 2110/49/12 दि.आ. द्वारा द्वारा 16-9-2006	युवा कक्षा की	77000	28-11-06	77000	-	77000	-	77000	
(4)	आ.सं.-8/4439/16-9-2006 9-2006-07/205/सांगी युवा कक्षा द्वारा 23-10-06	सांगी युवा कक्षा	15295000	31-1-07	176546	-	176546	-	176546	

राजभा संख्या दिनांक के अन्तर्गत में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन विभाग को प्रेषित

निदेशक  
स्थानीय विधि सेवा,  
उत्तर प्रदेश

पी 0 एच 0 यू 0 पी 0-10 स्था 0 नि 0 ले 0 सं 0-3-10-2001-100,000 (जाब) ।

बंद 25/19-20 के अन्तर्गत के अन्तर्गत पार शिवाम शिवाजीवाणी द्वारा अथवा अनुदान की तालिका

स्वा10 नि:0 ले:0 सं:0-66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क्र.सं.	राजकीय आदेश संख्या दिनांक, विवरण अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धराराशि	अनुदान प्राप्ति का दिनांक	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवधि	वर्षान्त में प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धराराशि	वर्षान्त में व्यय अन्तिम अन्तिम अवधि	संभव
(5)	आ.सं.-8/177/19-12 का वि.आ. शिवाजीवाणी दि. 28-5-2007	—	15295000	5-7-07	4951995	—	4951995	—	4951995	
(6)	आ.सं.-8/15924 दि. 28-5-2007 92/12 का वि.आ. प्रकाश प्रकाश दि. 20-8-07	प्रकाश	15309880	31-3-08	306197	—	306197	—	306197	
(7)	आ.सं.-8/172/19 का वि.आ. दि. 11-11-2007	—	1530988	31-3-08	1929785	—	1929785	—	1929785	

राजशा संख्या दिनांक के संदर्भ में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन विभाग की प्रेषित

सं:0 दिनांक:

निदेशक:

स्वा.नीय दिवि लेखा,

उत्तर प्रदेश

स्वा10 स्वा0 स्वा0-10 स्वा0 नि:0 लेखा0-31-10-2001-100,000 (जान) 1

(22)

-39-

168

स्था 110 ले. सं. 0-66

राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ

अनुदान का प्रयोजन

अनुदान की मौखिक धनराशि

अनुदान प्राप्ति की तिथि

वर्षांत में वार्षिक अवधि

वर्षांतगत प्राप्त अनुदान

योग

वर्षांत में अन्तिम अवधि

संख्या

के अंतर्गत

सं. 2019-20

द्वारा अप्रयुक्त अनुदान की राशि का

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(8)	आ. सं. 08/867/92/12 वॉ. वि. क्षतिग्रस्त 12 वॉ. वि. क्षतिग्रस्त 2007-08 2007-08	संरक्षण कार्य योजना कार्यक्रम	14880	24-3-08	14880	—	14880	—	14880	—
(9)	आ. सं. 8/1592/12 वॉ. वि. (आर.प्र.प्र.) 2008-09	—	15309880	25-11-08	1990661	—	1990661	—	1990661	—
(10)	आ. सं. 8/3027/92/12 वॉ. वि. (आर.प्र.प्र.) 2008-09	—	15309880	31-3-09	2626236	—	2626236	—	2626236	—

के संदर्भ में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन

राज्या संख्या

सं. 0

दिनांक

निदेशक  
स्थानीय निधि सेवा,  
उत्तर प्रदेश

(Signature)

वी 0 एस 0 यू 0 वी 0-10 स्था 0 नि 0 लेखा 0-31-10-2001-100,000 (जात) ।

विभाग को प्रेषित



-41-

वर्ष 2019-20

के अंतर्गत

गुजरात राज्य विद्युत निगम

द्वारा अग्रपुस्त अनुदान की व. लि. का

रकम नि. ले. सं. 0-66

क्र. सं.	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौखिक धरणाति	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवधि	वर्षान्त प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धरणाति	वर्षान्त में अतिरिक्त अवधि	सम्बन्ध
----------	---	-------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-----	----------------------------	----------------------------	---------

(11) आ. सं. 8/670/92/12 वें वि. आ. सं. 2008-09 दि. 01-1-2010

साधारण प्रकाश व्यवस्था व सामग्री

14833300 6-1-10 562307 - - 562307 - 562307

(12) आ. सं. 8/670/92/12 वें वि. आ. सं. 2008-09 दि. 01-1-2010

साधारण प्रकाश व्यवस्था व सामग्री

14833300 31-3-10 562307 - - 562307 - 562307

क. (31/7/11) र. क. (31/7/11) र. क. (31/7/11) र.

राज्या संख्या दिनांक के अन्तर्गत में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन विभाग की प्रति

सं. 0 दिनांक

निदेशक  
स्थानीय निधि लेखा,  
उत्तर प्रदेश

फी. 0 ए. सं. 0 फी. 0-10 ए. सं. 0 नि. ले. सं. 0-31-10-2001-100,000 (जब) 1

92

वर्ष 2019-20 के अंतर्गत द्वारा अग्रपुस्तक अनुदान की व. लि. का

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ।	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक वारंशिता	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षांतर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष 20 में व्यय की गई वारंशिता	वर्षांतर्गत में अन्तिम अवशेष	संकेत	
(6) 19229 वि० आ० की संशोधन से प्राप्त अनुदान	विकल्प कार्य	6583166	30-7-13	204496	-	204496	204496	अन्त		
(1) विकास उप प्र के पत्रांक 8/14855/92 13 वीं दि० आ० आमान्य कार्य अनुदान विवरण चक्र 2013-14 दि० 22-7-13	विभागीय, ज० विभागीय स्तर के (6) के (2) के आग	51905339	2-6-15	24057189	-	24057189	24057189	अन्त		
(2) 8/2401/92 की दि० आ० 2014-15 2015-16 दि० 30 अप्रैल	विभागीय, ज० विभागीय स्तर के (6) के (2) के आग	24261685	2-6-15	24261685	-	24261685	24261685	-		

राजशा संख्या 2015 दिनांक के संदर्भ में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन विभाग को प्रेषित

निदेशक:  
स्थानीय निधि देखा,  
उत्तर प्रदेश।

(2)

वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत

कार निगम लिमिटेड द्वारा अर्पणत अनुदान की तालिका

फॉर्म नं० से० सं०-66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अनुक्रमिक क्र. संख्या	राजकीय बजट संख्या तथा विध. विसेसे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक घनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	व्ययिक्तियों में प्रारम्भिक अवशेष	वर्तमानतः प्राप्त अनुदान	योग	वर्तमान स्थिति की गई घनराशि	वर्तमानतः में अन्तिम अन्तर्गत	संशोधन
17	साथ निधि से प्राप्त अनुदान स्वीकृत हुआ	साथ निधि से प्राप्त अनुदान	780382	11-12-14	194654	-	194654	-	194654	
18	राजस्व अनुदान से प्राप्त अनुदान क्र. सं.-2021/1-10-2011 दिनांक 12/3/2011 11-4-2011	राजस्व अनुदान से प्राप्त अनुदान	11022000	23-12-11	371574	-	371574	-	371574	

राज्य संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ के संदर्भ में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन विभाग की प्रेषित

सं० \_\_\_\_\_  
दिनांक \_\_\_\_\_

निदेशक  
स्वास्थ्य निधि सेवा,  
उत्तर प्रदेश

स्वा० नि० ले० सं०-६६

(172)

वर्ष 2019-20 के अंतर्गत द्वारा अथर्वर अनुदान की तालिका

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मालिक धारताधि	अनुदान प्राप्ति का तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षांतगत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षांत में अन्तिम अवशेष	सम्बन्ध	
(9) 14 वे दिनांक 30/05/16 का प्रयोग के अंतर्गत										
(1) 14 वां दिनांक 30/05/16 का प्रयोग के अंतर्गत			187641372	30-6-16	9527646		9527646	1298314	8229332	
(12) 8/10/2005/17/14 का प्रयोग के अंतर्गत			127236	30-6-16	127236		127236	127236		

राजभा संख्या दिनांक के सदर में महालिखाकार, उत्तर प्रदेश, जलहाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन विभाग की प्रति

निदेशक:  
स्थानीय निधि सेवा,  
उत्तर प्रदेश।

पृ० ए० सं० यू० सं०-10 स्वा० नि० ले० सं०-31-10-2001-100,000 (जब)।

-49-

(173)

वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत 100 दिवस का कार्य द्वारा अग्रपुस्तक अर्जदान की तालिका

स्था 10 फि 0 से 0 से 0-66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अनुक्रमिक क्र. संख्या	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अर्जदान स्वीकृत हुआ	अर्जदान का प्रयोजन	अर्जदान की मालिक संस्था	अर्जदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारंभ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षांतर्गत प्राप्त अर्जदान	योग	वर्ष शुरू की गई धनराशि	वर्षांतर्गत अर्जदान में अवशेष	संतुष्ट
(3)	8/1154/17/14 के.वि. आ. 2015-16 दि 23-12-2016	—	257777/6	28-2-17	257777/6	—	257777/6	—	257777/6	✓
(4)	8/44/17/14 के.वि. आ. 2016-17 दि. 28-3-17	—	15216022	29-4-17	57388411	—	57388411	31677255	25711156	✓
(5)	8/1322/17/11/14 के.वि. आ. 2017-18 दि 18-10-2017	—	29736930	31-10-17	29736930	—	29736930	24084450	56525150	✓
(6)	8/1895/17/11/14 के.वि. आ. 2017-18 दि 08-3-2018	—	268263543	12-3-18	250645722	—	250645722	250645722	250645722	✓

राजशा संस्था दिनांक के संदर्भ में महिला आकार, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश शासन विभाग की प्रेषित

सं 0 दिनांक

निर्देशक

स्थानीय निधि सेवा, उत्तर प्रदेश

(9)

100.000 (अक्ष)

(174)

वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत द्वारा अर्जित अनुदानों की-ताकियात

क्र.सं.	राजकीय आदेश-संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धरणी	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्धमान प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धरणी	वर्धमान में अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
(7)	8/1150/17/11/19 19/03/2017-18 13-3-18	अनुदान का प्रयोजन	20981266	16-3-18	20981266	—	20981266	20981266	20981266	✓
(8)	8/808/17/III/14 19/03/2018-19 17/9-10-20/8	—	319534348	22-10-18	319534348	—	319534348	—	319534348	✓
(9)	8/1206/17/III/14 19/03/2018-19 17/9-10-20/8	—	319534348	20-2-19	319534348	—	319534348	—	319534348	✓
(10)	8/528/17/III/14 19/03/2018-19 19/03/16-7-20/8	—	14384	20-2-19	14384	—	14384	14384	14384	✓
		कुल के (1) से (10) तक का योग -			1532899822	—	1532899822	54573948	987325829	

विवरण को प्रेषित ।  
निदेशक,  
स्वाधिका वि लेखा,  
उत्तर प्रदेश ।

स्वा० नि० ले०-६६ के अन्तर्गत द्वारा अर्जित अनुदानों की-ताकियात

वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत

175

दिनांक 2019-10 के अंतर्गत नं० दि० 211/011 द्वारा अग्रपुस्तक अनुदानों का-तालिका

क्र.सं.	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षात्मक में प्राप्तितक अवशेष	वर्षात्मक में प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षात्मक में अन्तिम अवशेष	संतत
1	10	अनुदान प्रदान	2,00,00,000	17-6-16	2906480	—	2906480	—	2906480	
2	अनुदान प्रदान	अनुदान प्रदान	2,00,00,000	17-6-16	1,00,00,000	—	1,00,00,000	—	1,00,00,000	
3	अनुदान प्रदान	अनुदान प्रदान	2,00,00,000	17-6-16	1,00,00,000	—	1,00,00,000	—	1,00,00,000	
4	अनुदान प्रदान	अनुदान प्रदान	2,00,00,000	17-6-16	1,00,00,000	—	1,00,00,000	—	1,00,00,000	
5	अनुदान प्रदान	अनुदान प्रदान	2,00,00,000	17-6-16	1,00,00,000	—	1,00,00,000	—	1,00,00,000	
6	अनुदान प्रदान	अनुदान प्रदान	2,00,00,000	17-6-16	1,00,00,000	—	1,00,00,000	—	1,00,00,000	
7	अनुदान प्रदान	अनुदान प्रदान	2,00,00,000	17-6-16	1,00,00,000	—	1,00,00,000	—	1,00,00,000	
8	अनुदान प्रदान	अनुदान प्रदान	2,00,00,000	17-6-16	1,00,00,000	—	1,00,00,000	—	1,00,00,000	
9	अनुदान प्रदान	अनुदान प्रदान	2,00,00,000	17-6-16	1,00,00,000	—	1,00,00,000	—	1,00,00,000	
10	अनुदान प्रदान	अनुदान प्रदान	2,00,00,000	17-6-16	1,00,00,000	—	1,00,00,000	—	1,00,00,000	
11	अनुदान प्रदान	अनुदान प्रदान	2,00,00,000	17-6-16	1,00,00,000	—	1,00,00,000	—	1,00,00,000	

राजधानी संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ के संदर्भ में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश महालेखाकार तथा सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, विभाग को प्रेषित ।

दिनांक \_\_\_\_\_

फॉर्म नं० 10-61-12 फॉर्म नं० 18-7-89-50,000 (संलग्न) ।

निदेशक,  
महालेखा विधि सेवा,  
उत्तर प्रदेश ।

(176)

कृषि, गी. विस द्वारा अप्रयुक्त अनुदानों की-तालिका

वर्ष 2019-20 के अंतर्गत

क्र.सं.	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धारणा	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारंभ में प्रारम्भिक अकरोष	वर्षान्त प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धरणा	वर्षान्त में अन्तिम अकरोष	संतव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(11)	सू० आई डी एल एम एन डी के अंतर्गत प्रा. अ. अ. अ. अ.	जलाशय	206000	14.3.13	206000	—	206000	—	206000	
(1)	अज्ञान	सक निर्माण	45438070	23.11.13	38070	—	38070	—	38070	
(2)	गोपाल योजना के अंतर्गत प्रा. अ. अ. अ. अ.	सू(11) के (1) एवं (2) का योग	3727000	24.1.17	244070	—	244070	—	244070	
(1)	अज्ञान	पार्क निर्माण	664000	30-5-17	664000	—	664000	664000	664000	शून्य
(2)	अज्ञान	पार्क निर्माण	557000	30-5-17	557000	—	557000	557000	557000	शून्य
(3)	अज्ञान	पार्क निर्माण	—	—	—	—	—	—	—	—

वर्षान्त संख्या दिनांक के संदर्भ में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश अस्ति, विसिम को प्रेषित ।

निदेशक,  
स्वा.नि.वि. सेवा,  
उत्तर प्रदेश ।

श्री 0 एत 0 प्र 0 ए 0 12 स्वा 0 नि 0 ले 0-18-7-99-50,000 (जाब) ।



वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत न० नि० 177 द्वारा अग्रपुस्तक अनुदान की व. लि०

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क्र.सं.	सर्वोच्च आदेश संख्या तथा विधि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मूल्य	अनुदान प्राप्ति की तिथि	व्ययिष्ठता में प्रारम्भिक अवधि	वर्षान्त में प्राप्त अनुदान	शेष	वर्षान्त में व्यय की गई अनुदान	व्ययिष्ठता में अन्तिम अवधि	संज्ञक
(अ)	2017 दिनांक-12.11.17	—	4657100	3-5-17	4657100	—	4657100	1582100	3075000	
(ब)	रफ्तार नं०. स०/1562/628/2017-18 दि० 31.7.18	—	3040981	4-8-18	2555981	—	2555981	388500	2167481	
(13)	वर्ष 2018-19 में स्वीकृत अनुदान के अन्तर्गत निदेशांक प्रिन्सिपल सिविल (एम.वी.ए), नयापुर्खा निवास, 3000 मीटर के पंचांग	कमोका < 127 के (1) से (4) तक का	12161081		12161081	—	12161081	68191900	52941981	

राज्य शाखा संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ के संदर्भ में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश राजधानी, उत्तर प्रदेश शासन विभाग को प्रेषित

रफ्तार नं० \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_

निदेशक  
स्थानिय निधि सेवा,  
उत्तर प्रदेश

रफ्तार नं०. स०-10 रफ्तार नं०. स०-31-10-2001-100,000 (जाब) 1

178

वर्ष 2018-19 के अंतर्गत 70/10/10/31-10/2001 द्वारा मंगलूर अखिल की वसुधिका

क्र.सं.	सचिवालय अतिरिक्त तथा निमित्त, जिसे/जिसे/अनुदाना/संगोचक है/या	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक परत/कि	अनुदान की तिथि	वित्तियम में प्रारम्भिक अवधि	संपादन/प्राप्त/कुछदान	गोम	वर्ष के अंत में अथवा अन्तिम तिथि तक	सम्बन्ध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(1)	जी एन ए / 1313/927 (17/12/18) से 17/12/18	स्वायत्त वेतन जी.एन.ए. का अनुदान	52,50,000	6-11-18	52,50,000	—	52,50,000	52,50,000	—
(2)	जी एन ए / 1437/927 2018 से 17/12/18	आई.एच.ए. एन	70,76,000	19-12-18	45,36,000	—	45,36,000	3,36,000	11,76,000
(3)	जी एन ए / 1610/927 (17/12/18) से 22-12-18	आई.ई.सी.	30,09,000	17-1-19	2,37,000	—	2,37,000	2,37,000	—
(4)	जी एन ए / 1628/915(10) प्रशासिका / आई.ई.सी. 2018-19 से 22.2.19	—	49,29,000	27-2-19	49,29,000	—	49,29,000	49,29,000	—
	कुल (13) के	(1) से (4) तक का योग	1,70,91,000	—	1,70,91,000	—	1,70,91,000	5,91,50,000	11,76,000

रजिस्टर संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ के संदर्भ में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन विभाग को प्रेषित

निदेशक  
स्वायत्त निधि, देवा  
उत्तर प्रदेश

संज्ञा नं० ले० सं०-10/31-10-2001-100,000 (जब)



द्वारा अग्रतः अनुदान की वारंशिका

के अन्तर्गत निम्नलिखित

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
व्यक्तिगत अनुदान की प्रकृति तथा जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक परिसीमा	अनुदान प्राप्ति का तिथि	वर्षोत्सम में प्राप्त अनुदान	वर्षोत्सम में प्राप्त अनुदान	वर्षोत्सम में प्राप्त अनुदान	वर्षोत्सम में प्राप्त अनुदान	वर्षोत्सम में प्राप्त अनुदान	वर्षोत्सम में प्राप्त अनुदान	वर्षोत्सम में प्राप्त अनुदान
(15) वर्ष 2019-20 में काशी जीशाला एडु ग्राम अड्डा गो सेवा आयोग 2 काशी 691/11-8-2020/ गो सेवा आयोग/2019-20 दि-26-3-2020	काशी जीशाला एडु	50,00,000	31-3-20	—	50,00,000	50,00,000	50,00,000	—	50,00,000	—

राज्य सरकार के अन्तर्गत में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन विभाग को प्रेषित

दिनांक  
स्वीकृत निधि देखा  
अग्र प्रदेश  
(2)

श्री 0 एच 0 य 0 10-10-स्वा० नि० ले० सं०-31-10-2001-100,000 (जन)

दिनांक 1.12.2020 के अन्तर्गत 2019-20 के अन्तर्गत का वार्षिक

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
व्यय का विवरण	व्यय का प्रकार	व्यय की श्रेणी	व्यय की तिथि	व्यय का प्रकार	व्यय का प्रकार	व्यय का प्रकार	व्यय का प्रकार	व्यय का प्रकार	व्यय का प्रकार	व्यय का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(16)

2019-20 के अन्तर्गत  
अन्तर्गत के अन्तर्गत  
व्यय अन्तर्गत

विगत वर्ष  
₹

540,000 23-3-20

Syccor Syccor — Syccor

(17)

वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत  
अन्तर्गत के अन्तर्गत  
अन्तर्गत अन्तर्गत  
अन्तर्गत अन्तर्गत  
(अन्तर्गत अन्तर्गत) अन्तर्गत  
अन्तर्गत अन्तर्गत

व्यय का विवरण व्यय का प्रकार के अन्तर्गत में मालिकताकार, उत्तरदायी, अन्तर्गत तथा अन्तर्गत व्यय का विवरण व्यय का प्रकार विवरण का प्रमाण

₹10,000 ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000

दिनांक  
अन्तर्गत अन्तर्गत  
अन्तर्गत अन्तर्गत

द्वारा अर्पण कर कानून की प्राप्ति

के अनुसार

182

182

क्र.सं.	राजकीय संपत्ति का विवरण, जिसके अन्तर्गत स्वीकृत हुआ	अनुदान की प्राप्ति का तिथि	अनुदान की मूल्य	अनुदान प्राप्ति का तिथि	व्यय का प्रमाण	अनुदान प्राप्ति का तिथि	अनुदान की मूल्य	अनुदान प्राप्ति का तिथि	अनुदान की मूल्य	अनुदान प्राप्ति का तिथि	अनुदान की मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
(1)	सी.एम.ए./2360/4567 (आ.म.ए./आ.म.ए.) 2016-17 दि. 22-6-19	आ.म.ए.सी	8215000	27-6-19	—	8215000	8215000	—	—	—	
(2)	सी.एम.ए./2397/4276 2019 दि. 01-07-19	सांख्यिक बोर्ड	13893400	27-7-19	—	13893400	13893400	1800000	12093700	—	
(3)	सी.एम.ए./2568/4276 2019 दि. 14-8-19	सॉलिट वेस्ट मैनेजमेन्ट	8750000	22-8-19	—	8750000	8750000	4688367	4061633	—	
(4)	सी.एम.ए./2568/4276 2019 दि. 14-8-19	सॉलिट वेस्ट मैनेजमेन्ट (एम.आर.ए.सी.)	3367000	22-8-19	—	3367000	3367000	—	3367000	—	
(5)	सी.एम.ए./2737/427 (9)/2019 दि. 27-9-19	आ.म.ए.सी	8215000	16-11-19	—	8215000	8215000	8215000	—	—	

के संदर्भ में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन

निदेश  
स्वास्थ्य निधि देखा  
उपर प्रदेख 1

रघु 10 नि 0 ले 0 म 0-31-10-2001-100,000 (जब) 1

वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत फी नो. 510/2015 द्वारा अथवा अन्य बन्दान की तालिका

क्र.सं.	राजकीय आदेश संख्या तथा विषय, जिससे बन्दान स्वीकृत हुआ	बन्दान का प्रयोजन	बन्दान की मौलिक घनराशि	बन्दान प्राप्ति की तिथि	कार्यक्रम में प्रारम्भिक अवधि	वर्षान्त प्राप्त बन्दान	योग	चरुमूल्य तथा की गई घनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवधि	सम्बन्ध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(6)	फी.एम.ए./3031/427(6) 2019 डि. 4.12.19	आई.ई.पी.	9858000	27.12.19	—	9858000	9858000	1570000	<del>8288000</del>	
(7)	फी.एम.ए./3098/427(6) 2019 डि. 31.1.19	—	5000000	7.1.20	—	5000000	5000000	—	5000000	
(8)	फी.एम.ए./3693/427 (8)/2019 डि. 17.3.20	—	2500000	23.3.20	—	2500000	2500000	—	2500000	
		कुल (17) के (1) से (8) तक का योग-				57548400	57548400	24488367	33060033	

राजका संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ के संदर्भ में महासचिव, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन विभाग को प्रेषित

सं. \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_

निदेशक,  
राजकीय निधि सेवा,  
उत्तर प्रदेश।

फी० एच० नं० 10 एच० डि० नं० 0-31-10-2001-100,000 (जाब) 1

184

22/11-20

क्र.सं.	एजेंडा का विषय, जिसके अन्तर्गत स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मूल्यक पत्रराशि	अनुदान की तिथि	अनुदान में परिवर्तित अनुभाग	व्यय प्राप्त अनुदान	शेष	वर्ष के अन्त में अनुदान की राशि	वर्ष के अन्त में अनुदान की राशि	संख्या
(18)	अनुसूचि 2-218-19 में काशी जीवाणुनिर्माण रूठ प्राय 80,511	काशी जीवाणुनिर्माण	50,00,000	20-2-19	50,00,000	—	50,00,000	15,08,916	90,584	11
(19)	आ.सं. 5644/स्वा०/2018-19 दि. 6.2.19	—	1,09,50,000	2-2-19	1,09,50,000	—	1,09,50,000	15,04,016	90,584	11
(20)	आ.सं. 8/193-180/जा.सं. 20/2018-19 दि. 12-1-2019	—	1,00,00,000	2-2-19	1,00,00,000	—	1,00,00,000	1,00,00,000	—	11
(21)	स्वा.सं. 10/193-180/जा.सं. 20/2018-19 दि. 12-1-2019	—	1,00,00,000	2-2-19	1,00,00,000	—	1,00,00,000	1,00,00,000	—	11

राज्य सरकार के सन्दर्भ में महासचिव कार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन विभाग को प्रेषित

दिनांक 10/11/20

निदेशक

स्वा.सं. 10/193-180/जा.सं. 20/2018-19 दि. 6.2.19

उत्तर प्रदेश

स्वा० नि० ले० सं०—३१-१०-२००१—१००,०१० (अ.सं.)



123-

185

वर्ष 2017-18

के अन्तर्गत न.सि. गा.व.स.स.

रा.अ.प्र.प.स.त.व.न.स.क. की च.लि.की

फ.नं० 1/10-2001-100,000 (च.व.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अनु क्रमांक	राजकीय आदेश संख्या तथा दिधि, जिससे अनुदान स्थापित हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान के मौलिक घनराशि	अनुदान प्राप्ति की दिधि	व्याप्तियों में पराभिन्न अन्तःसूच	वर्षान्त में प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में अग्र की गई घनराशि	वर्षान्त में अनुदान	संतुलन

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कृषि	11	11	11	703	—	703	—	703	—
2	—	—	(12)	—	162292	—	162292	—	162292	—
3	—	—	(13)	—	376200	—	376200	—	376200	—
4	—	—	(14)	—	150000	—	150000	—	150000	—
5	—	—	(15)	—	1547372	—	1547372	—	1547372	—
6	—	—	(16)	—	24261685	—	24261685	—	—	—
7	—	—	(17)	—	194654	—	194654	—	194654	—
8	—	—	(18)	—	371574	—	371574	—	371574	—
9	—	—	(19)	—	153289882	54557393	907325879	—	907325879	—
10	—	—	(20)	—	12906480	—	12906480	—	12906480	—
11	—	—	(21)	—	244070	—	244070	—	244070	—
12	—	—	(22)	—	12161081	6861600	5279481	—	5279481	—
13	—	—	(23)	—	17091000	15915000	1176000	—	1176000	—
14	—	—	(24)	—	847002218	39034780	827967438	—	827967438	—
15	—	—	(25)	—	5000000	5000000	5000000	—	5000000	—
16	—	—	(26)	—	575489000	264488367	330600033	—	330600033	—

राजस्व संख्या	दिनांक	के अन्तर्गत में गरीबों के लाभ, उत्तर प्रदेश, राजस्व के अन्तर्गत में	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	विशेष नोट्स
15950000	1000000	15048716	301584	—	—	—
10000000	14000000	—	—	—	—	—
1616293281	—	910090618	252333899	167115108	—	—
15950000	10000000	15048716	301584	—	—	—
10000000	14000000	—	—	—	—	—

फ.नं० 1/10-2001-100,000 (च.व.)

167115108

252333899

167115108

गणितव्यय नगर निगम  
 वर्ष 2019-2020 खासकर कटौतीकरण व आयकर विवरण-

क्र.सं.	वर्ग/विवरण का नाम	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	शुद्ध आयकर	4233016	2507629	50153	56823	76	2375500	2-May-19	32A					
2	अनुदानित आयकर	6661284	2926449	58529	66314	41	2772500	2-May-19	32B					
3	अनुदानित आयकर	4405908	3852964	77060	38530	65	3650000	2-May-19	32C					
4	अनुदानित आयकर	14260000	8167893	163358	81679	71	7737700	2-May-19	32A					
5	अनुदानित आयकर	10143104	7265281	145306	72653	90	6882600	2-May-19	32E					
6	अनुदानित आयकर	9637320	3762761	75256	37628	12	3564600	2-May-19	288					
7	अनुदानित आयकर	925250	544000	10880	5440	52	515300	2-May-19	287					
8	अनुदानित आयकर	5570803	2757580	55152	27576	65	2612300	2-May-19	286					
9	अनुदानित आयकर	6911344	3921651	78434	39217	35	3715100	2-May-19	285					
10	अनुदानित आयकर	5687136	4039828	80797	40399	89	3827000	2-May-19	284					
11	अनुदानित आयकर	10936600	4861004	57221	48611	21	4605000	2-May-19	359					
12	अनुदानित आयकर	11520000	6916071	138322	69161	69	6551800	2-May-19	357					
13	अनुदानित आयकर	10809000	1054799	21096	10548	5053	994200	2-May-19	356					
14	अनुदानित आयकर	7001500	5777000	115540	57770	83	5472700	2-May-19	360					
15	अनुदानित आयकर	8892800	6704662	134094	67047	93	8351500	2-May-19	358					
16	अनुदानित आयकर	13394818	8547186	170944	85472	90	8097000	2-May-19	354					
17	अनुदानित आयकर	6942631	6400000	128000	64000	76	6063900	2-May-19	355					
18	अनुदानित आयकर	7250000	7350000	145000	0	0	7105000	2-May-19	657					
	<b>Total</b>	<b>8726758</b>	<b>0</b>	<b>1745142</b>	<b>0</b>	<b>6081</b>	<b>0</b>	<b>84893500</b>						

184

गणितशास्त्र प्रश्न पत्र  
गणितशास्त्र प्रश्न पत्र

क्र.सं.	वर्ग/विभाग का नाम	वर्ग का विवरण	कुल अंक	प्रश्न सं.	समय	आरंभ	समाप्त	समय	अंक	समय	अंक	समय	अंक	समय	अंक
1	बी.एस.सी.	वर्ग-20	4337500	3181003	31811	72082	63621	3013400	10-Jun-19	654					
2	बी.एस.सी.	वर्ग-19	5445000	3240000	32400	73419	64800	3069300	10-Jun-19	653					
3	बी.एस.सी.	वर्ग-18	3534341	2781825	27819	63037	55637	2635300	10-Jun-19	652					
4	बी.एस.सी.	वर्ग-17	3463200	3050000	30500	69113	61000	2889300	10-Jun-19	651					
5	बी.एस.सी.	वर्ग-16	3330369	3125855	31259	70832	62518	2961200	10-Jun-19	650					
6	बी.एस.सी.	वर्ग-15	3062046	1938925	19339	43821	38677	1831900	10-Jun-19	649					
7	बी.एस.सी.	वर्ग-14	2765839	2562326	25624	58063	51217	2427200	10-Jun-19	648					
8	बी.एस.सी.	वर्ग-13	2400096	2167691	21677	49120	43354	2053500	10-Jun-19	646					
9	बी.एस.सी.	वर्ग-12	1426000	5483356	54834	124253	109668	5194600	10-Jun-19	647					
10	बी.एस.सी.	वर्ग-11	7047162	4288137	42882	97170	85763	4062300	10-Jun-19	648					
11	बी.एस.सी.	वर्ग-10	10848600	8438878	84389	191225	168778	7994400	10-Jun-19	649					
12	बी.एस.सी.	वर्ग-9	4168902	3562411	35625	80725	71249	3374800	10-Jun-19	640					
13	बी.एस.सी.	वर्ग-8	1565845	1440807	14409	32649	28817	1364900	10-Jun-19	641					
14	बी.एस.सी.	वर्ग-7	6561000	5527415	55275	125252	110549	5236300	10-Jun-19	642					
15	बी.एस.सी.	वर्ग-6	2330560	2248139	22482	50943	44963	2129700	10-Jun-19	643					
16	बी.एस.सी.	वर्ग-5	2706362	2482143	24822	56246	44963	2351400	10-Jun-19	644					
17	बी.एस.सी.	वर्ग-4	4827500	1621647	16217	36747	32413	1536200	10-Jun-19	645					
18	बी.एस.सी.	वर्ग-3	5176647	934712	9348	21181	18605	885400	10-Jun-19	646					
19	बी.एस.सी.	वर्ग-2	0	0	0	0	0	2769894	10-Jun-19	647					



-81-

189

राजिस्त्रार नर रिपट  
रा. 2019-2020 मायि क/ओरओडो र अडकर रिपट-

क्र.सं.	वर्ग/वर्गगत वा गत	वर्ग वा रिपट	किंमत मी	रु. शीर	शेकरी	शे	शिरर	शे.रु. शे.	मायि क	मायि क	मायि क	मायि क	मायि क	मायि क	मायि क	मायि क	मायि क	मायि क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
5	वर्गगत रिपट रुपरी		3253405	622831	876	6229	14114	12457		55		589100	6-Jul-19	153				
6	नु. उरुत वरुत वरुत		4678412	4506066			45061	102108		75		4268700	6-Jul-19	154				
7	नु. उरुत वरुत वरुत		2263476	1404649			14047	31830		79		1330600	6-Jul-19	155				
8	नु. उरुत वरुत वरुत		14909553	1385560			13857	31397		94		1312500	6-Jul-19	159				
9	नु. उरुत वरुत वरुत		1912553	453292			4533	10272		21		429400	6-Jul-19	319				
10	नु. उरुत वरुत वरुत		1235251	1170225			11703	26518		99		1108500	6-Jul-19	320				
11	नु. उरुत वरुत वरुत		2358972	570163			5702	12920		37		540100	6-Jul-19	321				
12	नु. उरुत वरुत वरुत		2487904	739775			7398	16764		17		700800	6-Jul-19	322				
13	नु. उरुत वरुत वरुत		76556880	15402000			154090	349168		62		14597500	6-Jul-19	318				
14	नु. उरुत वरुत वरुत		1710536	1634055			16341	37028		4		1548000	6-Jul-19	802				
			Total-	37593806	876	375946	851882	751884	0	818	0	35612800						
1	नु. उरुत वरुत वरुत		7300000	1605015			16051	36730		93		1520400	6-Jul-19	164				
2	नु. उरुत वरुत वरुत		14631972	5536434			55365	125456		84		5244800	6-Jul-19	163				
3	नु. उरुत वरुत वरुत		5110000	1738057			17381	39385		29		1646500	6-Jul-19	162				
4	नु. उरुत वरुत वरुत		2367244	2288512			22886	51858		97		2147140	6-Jul-19	165				
5	नु. उरुत वरुत वरुत		6631352	4051753			40518	91813		86		3838300	6-Jul-19	166				
6	नु. उरुत वरुत वरुत		3855000	210592			2106	4773		1	2000	197500	6-Jul-19	324				
7	नु. उरुत वरुत वरुत		12660000	2926172			29262	66308		78		2572800	6-Jul-19	323				

नु. 40- उरुत वरुत वरुत  
नु. 41- उरुत वरुत वरुत  
नु. 42- उरुत वरुत वरुत  
नु. 43- उरुत वरुत वरुत  
नु. 44- उरुत वरुत वरुत  
नु. 45- उरुत वरुत वरुत  
नु. 46- उरुत वरुत वरुत  
नु. 47- उरुत वरुत वरुत  
नु. 48- उरुत वरुत वरुत  
नु. 49- उरुत वरुत वरुत  
नु. 50- उरुत वरुत वरुत

-83-

196

गुदियारा नगर निगम  
बर्ष 2019-2020 खासियर कञ्चिपुण्डुडु अ खासियर विवरण-

क्र.सं.	वर्ग/विवरण	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	वर्ग/विवरण	वर्ग/विवरण	वर्ग/विवरण	वर्ग/विवरण	वर्ग/विवरण	वर्ग/विवरण	वर्ग/विवरण	वर्ग/विवरण	वर्ग/विवरण	वर्ग/विवरण	वर्ग/विवरण	वर्ग/विवरण	वर्ग/विवरण	वर्ग/विवरण	वर्ग/विवरण	वर्ग/विवरण
8	बो वारा इट्टावण्डेय	वाराव त्तोरु ते 15 वरा एतुवण्डुडु त्तोरु त्तो अणुडुडु अ वणुडुडु।	6263021	6263021	141921	125261	0	5932000	6-Jul-19	325						
9	वोवण्डुडु वणुडुवण्डुडु	वणुडु-20 वणुडु वणुडुवण्डुडु त्तो त्तो वणुडु वणुडु त्तोरु ते एतु-110 एतु एतु-131 वणुडु एतु वणुडु अ वणुडु वणुडु।	5148121	14831972	116657	102963	19	4877000	25-Jul-19	814						
10	वोवण्डुडु वणुडुवण्डुडु वणुडुवण्डुडु	वणुडु-61 वणुडुवण्डुडु त्तो-2 ए एतु वणुडु वणुडु त्तो 2 त्तो 507 ते 322 वणुडु त्तोरु त्तो वणुडुवण्डुडु वणुडु।	6443465	11104500	146009	128870	51	6104100	25-Jul-19	813						
11	वोवण्डुडु वणुडुवण्डुडु	वणुडुवण्डुडु त्तोरु ते 1000 वणुडु वणुडुवण्डुडु वणुडु त्तो अणुडुडु।	317610	317610	6353	6353	57	311200	25-Jul-19	806						
12	वोवण्डुडु वणुडुवण्डुडु	वणुडुवण्डुडु त्तोरु ते 1000 वणुडु वणुडुवण्डुडु वणुडु त्तो अणुडुडु।	132953	132953	2660	2660	93	130200	25-Jul-19	807						
13	वोवण्डुडु वणुडुवण्डुडु	वणुडुवण्डुडु त्तोरु ते 1000 वणुडु वणुडुवण्डुडु वणुडु त्तो अणुडुडु।	406247	406247	8125	8125	22	398100	25-Jul-19	808						
14	वोवण्डुडु वणुडुवण्डुडु	वणुडुवण्डुडु त्तोरु ते 1000 वणुडु वणुडुवण्डुडु वणुडु त्तो अणुडुडु।	195737	195737	3915	3915	22	191800	25-Jul-19	809						
15	वोवण्डुडु वणुडुवण्डुडु	वणुडुवण्डुडु त्तोरु ते 1000 वणुडु वणुडुवण्डुडु वणुडु त्तो अणुडुडु।	184657	184657	3694	3694	63	180900	25-Jul-19	810						
16	वोवण्डुडु वणुडुवण्डुडु	वणुडुवण्डुडु त्तोरु ते 1000 वणुडु वणुडुवण्डुडु वणुडु त्तो अणुडुडु।	428406	428406	8569	8569	37	419800	25-Jul-19	811						
17	वोवण्डुडु वणुडुवण्डुडु	वणुडुवण्डुडु त्तोरु ते 1000 वणुडु वणुडुवण्डुडु वणुडु त्तो अणुडुडु।	180963	180963	3620	3620	43	177300	25-Jul-19	812						
18	वोवण्डुडु वणुडुवण्डुडु	वणुडु-25 वणुडुवण्डुडु वणुडु त्तो त्तो वणुडुवण्डुडु त्तोरु वणुडु वणुडु अ वणुडु।	3352046	2684173	60824	53684	23	2542800	25-Jul-19	804						
19	वोवण्डुडु वणुडुवण्डुडु	वणुडु-49 वणुडुवण्डुडु त्तो-वणुडु त्तो त्तो वणुडुवण्डुडु त्तोरु 110 एतुवण्डुडु वणुडु त्तो 3400 त्तो वणुडुवण्डुडु वणुडु वणुडु वणुडु अ वणुडु।	2271898	3459967	51482	45438	59	2152200	25-Jul-19	805						
20	वोवण्डुडु वणुडुवण्डुडु	वणुडु-19 वणुडुवण्डुडु त्तो त्तो वणुडुवण्डुडु त्तोरु वणुडु वणुडु अ वणुडु।	2617973	4126380	59324	52360	9	2480100	25-Jul-19	803						
		Total	46631759	20769	92540	912647	0	43866340								
1	वोवण्डुडु वणुडुवण्डुडु 2019	वणुडु-70 वणुडु वणुडु वणुडु त्तोरु त्तोरु वणुडु वणुडु वणुडु त्तोरु वणुडुवण्डुडु वणुडु वणुडु वणुडु वणुडु वणुडु।	1180028	2614974	26740	23601	86	1117800	1-Aug-19	72						
2	वोवण्डुडु वणुडुवण्डुडु वणुडुवण्डुडु	वणुडु त्तोरु वणुडु वणुडुवण्डुडु त्तोरु त्तोरु वणुडु वणुडुवण्डुडु वणुडु वणुडु वणुडु वणुडु वणुडु।	3284167	7143864	74420	65684	21	3111200	20-Aug-19	67						
3	वोवण्डुडु वणुडुवण्डुडु वणुडुवण्डुडु	वणुडु-29 वणुडु वणुडु वणुडु वणुडु त्तोरु त्तोरु वणुडु वणुडुवण्डुडु वणुडु वणुडु वणुडु वणुडु वणुडु।	4500529	11520000	101982	90011	30	4263500	20-Aug-19	706						
4	वोवण्डुडु वणुडुवण्डुडु वणुडुवण्डुडु	वणुडु-33 वणुडु।	1012812	1645628	22951	20257	75	959400	20-Aug-19	785						
5	वोवण्डुडु वणुडुवण्डुडु वणुडुवण्डुडु	वणुडु-76 वणुडु वणुडु वणुडु त्तोरु त्तोरु वणुडु वणुडु वणुडु वणुडु वणुडु वणुडु वणुडु वणुडु वणुडु वणुडु वणुडु वणुडु वणुडु वणुडु वणुडु वणुडु।	1734920	1861250	39314	34699	57	1643500	20-Aug-19	704						
6	वोवण्डुडु वणुडुवण्डुडु वणुडुवण्डुडु	वणुडु-94 वणुडु।	1762403	5445000	39937	35249	92	1659500	20-Aug-19	783						

105

191

गणितवार वार प्रारंभ  
गणितवार वार प्रारंभ  
गणितवार वार प्रारंभ

क्र.सं.	वर्ग/वर्गिका वा वर्ग	वर्ग वा प्रारंभ	प्रारंभ	प्रारंभ	प्रारंभ	प्रारंभ	प्रारंभ	प्रारंभ	प्रारंभ	प्रारंभ	प्रारंभ	प्रारंभ	प्रारंभ	प्रारंभ	प्रारंभ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

14 वी दिना अर्जा-वार 2019

1	को	गणितवार वार प्रारंभ	7350000	7350000	73500	166552	147000	148	6962800	20-Aug-19	73.74
2	को	गणितवार वार प्रारंभ	1700000	1339838	13399	30361	26797	81	1269200	20-Aug-19	75
3	को	गणितवार वार प्रारंभ	7525000	5090130	50902	115343	101803	82	4822000	20-Aug-19	69
4	को	गणितवार वार प्रारंभ	6462000	3661700	36617	82975	73234	74	3468800	20-Aug-19	70
5	को	गणितवार वार प्रारंभ	6430872	4926360	49264	111632	98528	36	4666900	20-Aug-19	71
6	को	गणितवार वार प्रारंभ	13491900	1724727	17248	39083	34406	30	1622400	20-Aug-19	68
7	को	गणितवार वार प्रारंभ	7313000	5469258	54693	123934	109386	45	5181200	20-Aug-19	78
8	को	गणितवार वार प्रारंभ	5492250	4689481	46895	106264	93790	32	4442500	20-Aug-19	78
9	को	गणितवार वार प्रारंभ	24780000	9978999	99790	226125	199580	4	9452500	20-Aug-19	79
Total-			44230523	0	442308	100289	884614	0	532	11500	41889300
1	को	गणितवार वार प्रारंभ	2347144	1464539	14646	33187	29291	15	1387400	4-Sep-19	49
2	को	गणितवार वार प्रारंभ	7380000	4863516	48636	110208	97271	1	4607400	4-Sep-19	50
3	को	गणितवार वार प्रारंभ	4537500	1012828	10129	22951	20257	91	959400	4-Sep-19	51
4	को	गणितवार वार प्रारंभ	3746500	1587330	158734	359690	317467	39	15037400	4-Sep-19	52
5	को	गणितवार वार प्रारंभ	10084800	7733621	77337	175244	154673	67	7326300	4-Sep-19	53
6	को	गणितवार वार प्रारंभ	5176847	2193650	21937	49709	43873	31	2078100	4-Sep-19	47
7	को	गणितवार वार प्रारंभ	1233190	1049964	10500	23792	21000	72	994600	4-Sep-19	48

गणितवार वार प्रारंभ  
गणितवार वार प्रारंभ  
गणितवार वार प्रारंभ

192

गण्डियाबास ताल विभाग  
वर्ष 2019-2020 खासिएर कर/वीएसपीओ व अग्रकर विवरण-

क्र.सं.	वर्ग/वर्गीकरण का नाम	वर्ग का विवरण	4	5	6	7	8	9	10	11	12	गुणा की	दिनांक	मालका क्रम
1	बो रोड/विद्युत/सिंचना	वर्ग-26 सहयोगी ताल वगैरों की सिंचना पर लागू खासिएर का विवरण के अंतर्गत वीएसपीओ से लगाया ताल जारी व इस्तेमालीय चालान लागू का वर्ग।	4402082	947918	4271	9480	21480	18960		27		893700	4-Sep-19	1120
2	बो रोड/विद्युत/सिंचना	वर्ग-46 संवत्सरा के सिंचनी पर लागू ताल के चालान का निर्माण वर्ग।	38890500	4231684		42317	95890	84634		43		4008800	4-Sep-19	1121
3	बो रोड/विद्युत/सिंचना	वर्ग-46 वर्ग के दोषा वर्गों की सिंचनी के अंतर्गत ताल एवं इस्तेमालीय चालान लागू का वर्ग।	3976553	3635950		36360	82391	72719		80		3444400	4-Sep-19	1122
4	बो रोड/विद्युत/सिंचना	वर्ग-14 वर्षीय कालीय अंतर्गत वर्ग-100 से 94 तक चालान लागू वर्ग।	1334094	1333837		13339	30225	26677		96		1213500	4-Sep-19	1123
5	बो रोड/विद्युत/सिंचना	Total-	44340837	4271	443415	1004767	886822	0		562		41951000		
6	बो रोड/विद्युत/सिंचना	वर्ग-24 जल संचयन वर्ग-137 से 130 तक वर्ग-10-144 से 1-5 तक वर्गों का चालान लागू वर्ग।	3830118	3713347		37134	84145	74267		1		3517800	4-Sep-19	59
7	बो रोड/विद्युत/सिंचना	वर्ग-24 जल संचयन वर्ग-137 से 130 तक वर्ग-10-144 से 1-5 तक वर्गों का चालान लागू वर्ग।	10934745	10314400		103144	233725	206288		43		9771200	4-Sep-19	56
8	बो रोड/विद्युत/सिंचना	वर्ग-32 जल संचयन वर्गों की वर्ग-1,2,3,4 की वर्गों व इस्तेमालीय चालान लागू का वर्ग।	1994633	1073246		10733	24320	21465		28		1016700	4-Sep-19	57
9	बो रोड/विद्युत/सिंचना	वर्ग-30 वर्षीय वर्गों का निर्माण का वर्ग।	8606400	2534383		25344	57430	50688		21		2400900	4-Sep-19	58
10	बो रोड/विद्युत/सिंचना	वर्ग-7 मुदरगुप्त व-वार्ड के सुदरगुप्त वर्गों का चालान लागू वर्ग।	5769600	766784		7668	17376	15336		4		726400	4-Sep-19	61
11	बो रोड/विद्युत/सिंचना	वर्ग-24 जल संचयन वर्गों के चालान के अंतर्गत वर्ग-137 से 130 तक वर्गों का चालान लागू वर्ग।	3762051	3388262		33883	76779	67766		34		3209800	4-Sep-19	68
12	बो रोड/विद्युत/सिंचना	वर्ग-40 संवत्सरा खासिएर ताल वगैरों की सिंचना के अंतर्गत वर्गों का चालान लागू वर्ग।	2200404	1093498		10935	24779	21870		14		1035900	4-Sep-19	55
13	बो रोड/विद्युत/सिंचना	वर्ग-17 जल संचयन वर्गों के वर्गों का चालान लागू वर्ग।	2246113			22462	50897	44924		30		2127800	4-Sep-19	54
14	बो रोड/विद्युत/सिंचना	वर्ग-17 जल संचयन वर्गों के वर्गों का चालान लागू वर्ग।	2996324	2246113		33370	75616	66739		13		3161200	4-Sep-19	1124
15	बो रोड/विद्युत/सिंचना	वर्ग-37 जल संचयन वर्गों का चालान लागू वर्ग।	23024260	3336938		2351	5326	4701		37		222800	4-Sep-19	1125
16	बो रोड/विद्युत/सिंचना	वर्ग-28 वर्गों का चालान लागू वर्ग।	14831972	1631266		16313	36965	32626		62		1545300	4-Sep-19	1126
17	बो रोड/विद्युत/सिंचना	वर्ग-60 जल संचयन वर्गों के चालान के अंतर्गत वर्गों का चालान लागू वर्ग।	7300000	1592712		15928	36091	31855		38		1508800	4-Sep-19	1127
18	बो रोड/विद्युत/सिंचना	वर्ग-39 वर्गों के चालान के अंतर्गत वर्गों का चालान लागू वर्ग।	6643342	5609855		56099	127120	112198		38		5314400	4-Sep-19	1128
19	बो रोड/विद्युत/सिंचना	वर्ग-13 जल संचयन वर्गों के चालान के अंतर्गत वर्गों का चालान लागू वर्ग।	3435017	292965		2930	6639	5860		5736		271800	4-Sep-19	1130





ਸਮਝਿਆਵਾਰ ਸਰ ਸਿਰਖ  
 ਵਰ੍ਹੇ 2019-2020 ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ/ਬਿਧਿਕਾਨਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਵਿਵਰਨ

ਕ.ਕ.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ਕ.ਕ.	ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ	ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ	ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ	ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ	ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ	ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ	ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ	ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ	ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ	ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ	ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ	ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ	ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ	ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ	ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ
14	ਭੋ	ਸੰਯੋਗਕਾਰਕਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ	ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ	4848804	3576420	0	35765	81042	71529	0	84	0	3388000	22-Oct-19	972
			Total	38038726	0	380203	380203	861532	760402	0	689	0	36016900		
1	ਭੋ	ਦੇਸ਼ ਭਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ	ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ	1700000	319562		3196	7242	6392		32		302700	10-Oct-19	603
2	ਭੋ	ਦੇਸ਼ ਭਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ	ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ	1700000	1686603		16807	38083	33613		0		1592100	10-Oct-19	605
3	ਭੋ	ਦੇਸ਼ ਭਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ	ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ	1700000	1685594		16856	38196	33712		30		1596800	10-Oct-19	604
4	ਭੋ	ਦੇਸ਼ ਭਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ	ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ	2606546	2082808		20829	47197	41657		25		1973100	10-Oct-19	296
5	ਭੋ	ਦੇਸ਼ ਭਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ	ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ	1700000	1366578		13666	30967	27332		13		1294600	10-Oct-19	976
6	ਭੋ	ਦੇਸ਼ ਭਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ	ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ	10017000	9516351		95164	215641	190327		19		9015200	10-Oct-19	975
7	ਭੋ	ਦੇਸ਼ ਭਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ	ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ	7300000	3138250		31383	71113	62765		89		2972900	10-Oct-19	974
8	ਭੋ	ਦੇਸ਼ ਭਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ	ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ	8158339	8000000		80000	181280	160000		20		7578700	10-Oct-19	984
9	ਭੋ	ਦੇਸ਼ ਭਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ	ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ	4445687	3500000		35000	79310	70000		90		3315600	10-Oct-19	985
10	ਭੋ	ਦੇਸ਼ ਭਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ	ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ	4131094	3200000		32000	72512	64000		88		3031400	10-Oct-19	1742
11	ਭੋ	ਦੇਸ਼ ਭਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ	ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ	3228416	2848740		28488	64553	56879		24		2608700	10-Oct-19	2782
12	ਭੋ	ਦੇਸ਼ ਭਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ	ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ	3394305	2985274		29853	67647	59706		68		2828000	10-Oct-19	1743
13	ਭੋ	ਦੇਸ਼ ਭਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ	ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ	2287072	1657097		16571	37550	33142		34		1569800	10-Oct-19	1744
14	ਭੋ	ਦੇਸ਼ ਭਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ	ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ	3508468	3001292		30013	68010	60026		43		2843200	10-Oct-19	295

ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ 1: ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ 1 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ 2: ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ 2 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ 3: ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ 3 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ 4: ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ 4 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ 5: ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ 5 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ 6: ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ 6 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ 7: ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ 7 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ 8: ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ 8 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ 9: ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ 9 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ 10: ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ 10 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ 11: ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ 11 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ 12: ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ 12 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ 13: ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ 13 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ 14: ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ 14 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ 15: ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗ 15 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ગુણિતવાદ નવાં પિયા  
 વર્ષ 2019-2020 ચાણક્ય કાર્યોચ્ચારોત્તી વ ચાણક્ય રિપોર્ટ

ક્ર.સં.	વર્ગ/વિભાગ ના નામ	વર્ષ ના રિપોર્ટ	કેન્દ્ર તરીકે	કેન્દ્ર સીમા	કોડ	સમૂહ	કો.સં.સી.	સમૂહ ક્ર.	વર્ષ તરીકે	કોડ	કુલના તરીકે	રિપોર્ટ	સમૂહ કો.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	કો જેન ફાલ્ગુણીય	રિપોર્ટ યોગ સમાપ્ત થયેલો બાબત કો-9 કોડના હેતુ હેતુ રિપોર્ટ કર્યા	1700000	1349922	13500	30590	26999	33	33	1278800	10-Oct-19	977		
16	કો વાચકોચ્ચારોત્તીય વર્ષ	રિપોર્ટ યોગ સમાપ્ત થયેલો કોડના હેતુ હેતુ રિપોર્ટ કર્યા	1700000	1686746	16868	38222	33735	21	21	1592900	10-Oct-19	990		
17	કો વાચકોચ્ચારોત્તીય વર્ષ	રિપોર્ટ યોગ સમાપ્ત કરવા માટે ના પૂર્વે ને સંબંધિત કોડના હેતુ હેતુ રિપોર્ટ કર્યા	1700000	1632695	16327	36997	32654	17	17	1546700	10-Oct-19	981		
18	કો વાચકોચ્ચારોત્તીય વર્ષ	વર્ષ-19 વચગાળા હેતુ હેતુ રિપોર્ટ કરવા માટે ના પૂર્વે	4126608	1496451	14965	33910	29930	46	46	1417600	19-Oct-19	982		
19	કો વાચકોચ્ચારોત્તીય વર્ષ	વર્ષ-19 વચગાળા કો-1 હેતુ રિપોર્ટ કરવા માટે	1700000	1682630	16827	38129	33653	21	21	1594000	19-Oct-19	979		
20	કો વાચકોચ્ચારોત્તીય વર્ષ	વર્ષ-19 વચગાળા હેતુ હેતુ રિપોર્ટ કરવા માટે ના પૂર્વે	3459967	1137284	11373	25771	22746	94	94	1077300	19-Oct-19	978		
21	કો વાચકોચ્ચારોત્તીય વર્ષ	રિપોર્ટ યોગ સમાપ્ત થયેલો વર્ષ રિપોર્ટ કરવા માટે	1700000	1675609	16759	37974	33517	59	59	1583500	19-Oct-19	2781		
22	કો વાચકોચ્ચારોત્તીય વર્ષ	કોડના હેતુ હેતુ રિપોર્ટ કરવા માટે	1700000	1698887	16989	38497	33978	23	23	1609400	19-Oct-19	1740		
23	કો વાચકોચ્ચારોત્તીય વર્ષ	વર્ષ-19 વચગાળા હેતુ હેતુ રિપોર્ટ કરવા માટે	4962500	842627	8427	19094	16853	53	53	798200	19-Oct-19	983		
24	કો વાચકોચ્ચારોત્તીય વર્ષ	વર્ષ-19 વચગાળા કો-13 હેતુ રિપોર્ટ કરવા માટે	14326000	8759133	87592	198482	175183	76	76	6638000	19-Oct-19	2278		
25	કો વાચકોચ્ચારોત્તીય વર્ષ	વર્ષ-19 વચગાળા કો-13 હેતુ રિપોર્ટ કરવા માટે	24780000	9909605	99097	224552	198193	63	63	7510000	19-Oct-19	2779		
26	કો વાચકોચ્ચારોત્તીય વર્ષ	વર્ષ-19 વચગાળા વર્ષ ને સંબંધિત હેતુ હેતુ રિપોર્ટ કરવા માટે	8717000	5388790	53888	122110	107776	16	16	5105000	19-Oct-19	2777		
27	કો વાચકોચ્ચારોત્તીય વર્ષ	વર્ષ-19 વચગાળા હેતુ હેતુ રિપોર્ટ કરવા માટે	10659882	2650429	26505	60059	53009	56	56	2510800	19-Oct-19	2780		
28	કો વાચકોચ્ચારોત્તીય વર્ષ	વર્ષ-19 વચગાળા હેતુ હેતુ રિપોર્ટ કરવા માટે	23024260	8528306	85284	193252	170567	3	3	8079200	22-Oct-19	1741		
સરકારના પિયા પિયા-વર્ષ 2019			Total-	93421463	0	934227	2116940	0	1156	84954200				
1	કો વાચકોચ્ચારોત્તીય વર્ષ	કોડના હેતુ હેતુ રિપોર્ટ કરવા માટે	37465000	6095765	60958	138131	121916	60	60	5774700	22-Nov-19	57		
2	કો વાચકોચ્ચારોત્તીય વર્ષ	વર્ષ-19 વચગાળા હેતુ હેતુ રિપોર્ટ કરવા માટે	188500000	16304283	163043	369456	326086	98	98	15445600	22-Nov-19	59		
3	કો વાચકોચ્ચારોત્તીય વર્ષ	વર્ષ-19 વચગાળા હેતુ હેતુ રિપોર્ટ કરવા માટે	6655430	5021970	50220	113798	100440	12	12	4757500	22-Nov-19	58		
14 થી પિયા વર્ષ-વર્ષ 2019			Total-	27422018	0	274221	621385	0	170	25977800				
1	કો વાચકોચ્ચારોત્તીય વર્ષ	વર્ષ-19 વચગાળા હેતુ હેતુ રિપોર્ટ કરવા માટે	13491900	1473093	14731	33381	29462	19	19	1395500	6-Nov-19	15		
2	કો વાચકોચ્ચારોત્તીય વર્ષ	વર્ષ-19 વચગાળા હેતુ હેતુ રિપોર્ટ કરવા માટે	2200404	761836	7619	17264	15337	16	16	718100	14-Nov-19	31		
3	કો વાચકોચ્ચારોત્તીય વર્ષ	વર્ષ-19 વચગાળા કો-1 હેતુ રિપોર્ટ કરવા માટે	1690649	1690649	16907	38311	33813	18	18	1601600	14-Nov-19	32		

-95-

196

गतिविधियों पर विवरण

वर्ष 2019-2020 व्यापार का/लीयरसपोर्ट व आयकर विवरण

क्र.सं.	वर्ग/विवरण का नाम	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		कर का विवरण	देकर योग	दाँ ओर	रॉले	सेव	आयकर	जी.एस.टी.	आय कर	आय रॉले	करणी	कुल योग	दिनांक	आयकर सं.	
4	हो इतर इन्टरमीडियेट		1690649	1690323		16904	38303	33807		9	10000	1591300	14-Nov-19		33
5	हो एग्रीकल्चर		2810438	2512461		25125	56933	50250		53		2380100	14-Nov-19		34
6	हो एग्रीकल्चर		1602132	1329769		13298	30133	26596		42		1259700	14-Nov-19		35
7	हो एग्रीकल्चर		2427440	1804478		18045	40890	36090		53		1709400	14-Nov-19		30
8	हो एग्रीकल्चर		23180532	6589252		65893	149313	131786		60		6242200	14-Nov-19		69
			Total	17851861	0	178522	404528	357041		270	13608	1687900			
<b>आयकर विवरण विधि-दिसम्बर 2019</b>															
1	हो एग्रीकल्चर		1777477	368339		3684	8347	7367		81	3160	345700	14-Nov-19		270
2	हो एग्रीकल्चर		2614974	1131164		11312	25633	22624		95		1071500	14-Nov-19		217
3	हो एग्रीकल्चर		2127952	10143104		21280	48220	42560		92		2015900	14-Nov-19		271
4	हो एग्रीकल्चर		4511864	13394818		45119	102239	90238		68		4274200	14-Nov-19		272
5	हो एग्रीकल्चर		2246854	4402082		22469	50914	44938		33		2128500	14-Nov-19		218
6	हो एग्रीकल्चर		1664158	37710		16642	37710	33284		22		1576500	30-Dec-19		642
7	हो एग्रीकल्चर		9874249	21094000		98743	223751	197485		70		9354200	30-Dec-19		643
8	हो एग्रीकल्चर		303780	2614974		3038	6884	6076		32	3650	284100	31-Dec-19		676
9	हो एग्रीकल्चर		550815	6092250		5509	12482	11017		7		521800	31-Dec-19		675
10	हो एग्रीकल्चर		1157412	11456000		11575	26227	23149		61		1096400	31-Dec-19		673

विवरण जो अंतर्गत के-वर्क नाम वाली है  
प्रकार का कर के बाद करणी और के विवरण  
का है।

वर्क-76 विवरण के मुताबिक नाम के और  
नाम के करणी के 450 एग्रीकल्चर का है  
आयकर और करणी का है।

वर्क-39 एग्रीकल्चर के मुताबिक करणी के और  
नाम के करणी के 3000 भी 110 एग्रीकल्चर  
का है।

वर्क-32 एग्रीकल्चर नाम के 40 का 9 भी  
नाम के करणी के 80 का 72 का एग्रीकल्चर का है  
अधिकार का है।

वर्क-75, 80 एग्रीकल्चर के मुताबिक नाम के और  
नाम के करणी के 23180532 का है।

वर्क-75, 80 एग्रीकल्चर के मुताबिक नाम के और  
नाम के करणी के 1777477 का है।

वर्क-78 एग्रीकल्चर नाम के और नाम के करणी के  
नाम के करणी के 2614974 का है।

वर्क-76 एग्रीकल्चर नाम के और नाम के करणी के  
नाम के करणी के 10143104 का है।

वर्क-76 एग्रीकल्चर नाम के और नाम के करणी के  
नाम के करणी के 13394818 का है।

वर्क-76 एग्रीकल्चर नाम के और नाम के करणी के  
नाम के करणी के 4402082 का है।

वर्क-72 एग्रीकल्चर नाम के और नाम के करणी के  
नाम के करणी के 21094000 का है।

वर्क-76 एग्रीकल्चर नाम के और नाम के करणी के  
नाम के करणी के 303780 का है।

वर्क-76 एग्रीकल्चर नाम के और नाम के करणी के  
नाम के करणी के 550815 का है।

वर्क-40 एग्रीकल्चर नाम के और नाम के करणी के  
नाम के करणी के 11456000 का है।



ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਨਗਰ ਜਿਲਾ  
 ਸਾਲ 2019-2020 ਮਾਪਿਕ ਕਾ/ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਿਵਰਣ

ਕ.ਸੰ.	ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ	1700000	1585656	35931	31714	0	54	6000	1496100	10-Dec-19	276			
7	ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ	2474933	1371080	31069	27422	0	78	1298800	10-Dec-19	277				
8	ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ	3188738	2550990	57806	51020	0	54	2416600	10-Dec-19	641				
9	ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ	3566352	2853078	64651	57062	0	34	2702800	10-Dec-19	648				
10	ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ	7050022	7017022	159006	140341	0	4	6647500	16-Dec-19	638				
11	ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ	4215288	3372225	76415	67445	0	42	3194600	16-Dec-19	636				
12	ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ	3188738	2550990	57806	51020	0	54	2416600	16-Dec-19	635				
13	ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ	4097583	4060905	92021	81219	0	55	3947000	16-Dec-19	631				
14	ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ	2280072	609605	13814	12193	0	1	577500	16-Dec-19	630				
15	ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ	3228416	355905	8020	7079	0	66	335200	16-Dec-19	628				
16	ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ	1814070	687537	15580	13751	0	30	651300	16-Dec-19	624				
17	ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ	8158339	156225	3541	3125	0	96	147900	16-Dec-19	623				
18	ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ	3394205	406551	9213	8132	0	40	385100	16-Dec-19	620				
19	ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ	4131094	929675	21067	18594	0	17	880700	16-Dec-19	619				
20	ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ	4445697	944649	21406	18693	0	3	894900	16-Dec-19	618				



ಗೌರವಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು 2019-2020 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ವಯಸ್ಸು	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ	ಪ್ರಾಥಮಿಕ	ದ್ವಿತೀಯ	ತೃತೀಯ	ಚತುರ್ಥ	ಪಂಜಮ	ಷಷಮ	ಸಪ್ತಮ	ಅಂತಿಮ	ಒಟ್ಟು	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವರ	ಒಟ್ಟು	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
37	ಬಿ. ಅನುಜಯ್ಯ	10	100	6631352	2579599	25796	58454	51592	0	7	3659	2440100	16-Dec-19	687	
38	ಬಿ. ಅನುಜಯ್ಯ	10	14240000	7475333	74754	169392	149507	0	80	80	7081600	16-Dec-19	688		
39	ಬಿ. ಅನುಜಯ್ಯ	10	6430872	1119738	11198	25374	22395	0	71	71	1060700	16-Dec-19	689		
40	ಬಿ. ಅನುಜಯ್ಯ	10	10659882	3912200	39122	88651	78244	0	83	83	3706100	16-Dec-19	691		
41	ಬಿ. ಅನುಜಯ್ಯ	10	9114078	1843111	18432	41765	36863	0	51	51	1746000	16-Dec-19	692		
42	ಬಿ. ಅನುಜಯ್ಯ	10	13337700	4917162	49172	111423	98344	0	23	23	4656200	16-Dec-19	714		
43	ಬಿ. ಅನುಜಯ್ಯ	10	8712000	976815	9769	22135	19537	0	74	74	925300	16-Dec-19	695		
44	ಬಿ. ಅನುಜಯ್ಯ	10	6643342	889316	8894	20132	17787	0	83	83	842400	16-Dec-19	693		
45	ಬಿ. ಅನುಜಯ್ಯ	10	39470500	6681734	66818	151409	133635	0	72	72	6329800	16-Dec-19	694		
46	ಬಿ. ಅನುಜಯ್ಯ	10	11104500	3927018	39271	89087	78541	0	19	19	3720200	16-Dec-19	703		
47	ಬಿ. ಅನುಜಯ್ಯ	10	7525000	1767045	17671	40042	35341	0	91	91	1673900	16-Dec-19	712		
48	ಬಿ. ಅನುಜಯ್ಯ	10	10017000	492993	4930	11172	9860	0	31	31	467000	16-Dec-19	689		
49	ಬಿ. ಅನುಜಯ್ಯ	10	1586099	1574865	15749	35687	31498	0	31	31	5000	1466000	16-Dec-19	697	
50	ಬಿ. ಅನುಜಯ್ಯ	10	2810438	272845	2729	6183	5457	0	76	76	258400	16-Dec-19	702		
51	ಬಿ. ಅನುಜಯ್ಯ	10	4282781	3639838	36399	82479	72797	0	63	63	4800	3444100	16-Dec-19	698	
52	ಬಿ. ಅನುಜಯ್ಯ	10	1586099	1541304	15414	34926	30827	0	37	37	5000	1453100	16-Dec-19	695	
53	ಬಿ. ಅನುಜಯ್ಯ	10	1569099	1552707	15528	35185	31055	0	39	39	5000	1463900	16-Dec-19	696	





2019-2020 වසරේ ප්‍රතිපත්තිමය වැය වාර්තාව

ක.අ.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ක.අ.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ක.අ.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ක.අ.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	හිමිකම් පත්	1275635	793000	0	7930	17970	15860	0	40	751200	11-Feb-20	602			
3	විද්‍යාල පාලන	10409000	10409000	0	104090	235868	208180	0	62	9860800	11-Feb-20	603			
4	විද්‍යාල පාලන	4883600	1040125	0	10402	23570	20803	0	50	980390	11-Feb-20	605			
5	විද්‍යාල පාලන	12135760	3730304	0	37304	84529	74607	0	64	3533800	11-Feb-20	604			
Total: 17505586 0 175058 396679 350114 0 235 5000 16578500															
1	විද්‍යාල පාලන	3029040	352789	1414	3558	8063	7116	0	38	335600	13-Feb-20	606			
2	විද්‍යාල පාලන	16269450	3000000	0	30000	67980	60000	0	20	2842000	13-Feb-20	534			
3	විද්‍යාල පාලන	1230024	504472	0	5045	11432	10090	0	5	477900	13-Feb-20	532			
4	විද්‍යාල පාලන	4836300	884901	7784	8850	20052	17699	0	16	824500	13-Feb-20	533			
5	විද්‍යාල පාලන	1700000	1169729	0	11698	26507	23395	0	29	1108100	13-Feb-20	535			
6	විද්‍යාල පාලන	8264750	4523860	0	45239	102511	90478	0	32	3833000	13-Feb-20	536			
7	විද්‍යාල පාලන	2478000	0	0	0	0	0	0	0	1877700	13-Feb-20	529			
8	විද්‍යාල පාලන	2478000	1711453	0	17115	38782	34230	0	72	1583700	13-Feb-20	530			
9	විද්‍යාල පාලන	3660000	495204	0	4953	11222	9905	0	24	469100	13-Feb-20	528			
10	විද්‍යාල පාලන	8587050	168392	0	1684	3816	3368	0	24	159500	13-Feb-20	531			
11	විද්‍යාල පාලන	4281500	3801222	0	38013	86136	76025	0	48	3601000	13-Feb-20	527			
12	විද්‍යාල පාලන	12475000	12475000	0	0	282684	249500	0	16	11942800	11-Feb-20	537			
Total: 29090022 9398 166155 659185 581806 0 324 43554 29054900															

14 වන වාර්තාව 2020

-109-

203

गुडियाबाद पर विद्यालय 2019-2020 मासिक वार्षिक विवरण

क्र.सं.	वर्ग/प्रकार का नाम	वर्ग का विवरण	रजिस्ट्री नं.	रजि. वेत.	पै. वेत.	गै. वेत.	ग्र. वेत.	प्र. वेत.	स. वेत.	प्र. वेत.	प्र. वेत.	प्र. वेत.	प्र. वेत.	प्र. वेत.	प्र. वेत.	प्र. वेत.	प्र. वेत.	प्र. वेत.	प्र. वेत.	प्र. वेत.	प्र. वेत.	प्र. वेत.	प्र. वेत.	प्र. वेत.	प्र. वेत.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

अनुसूची क्रमांक 1																											
1	अनुसूची क्रमांक 1	प्र. वेत.	2733721	1746232	0	17463	39570	34925	0	74	0	1654200	16-Mar-20	963													
2	अनुसूची क्रमांक 2	प्र. वेत.	2347144	713832	0	7139	16176	14277	0	40	0	676200	16-Mar-20	964													
3	अनुसूची क्रमांक 3	प्र. वेत.	6538508	5043855	0	50439	114294	100878	0	44	0	4778200	16-Mar-20	965													
4	अनुसूची क्रमांक 4	प्र. वेत.	5742464	3273257	0	32733	74173	65466	0	85	0	3100800	16-Mar-20	966													
5	अनुसूची क्रमांक 5	प्र. वेत.	10072969	5968964	0	59690	135257	119380	0	37	0	5654600	16-Mar-20	967													
6	अनुसूची क्रमांक 6	प्र. वेत.	3100000	1190095	0	11901	26968	23802	0	24	0	1127400	16-Mar-20	968													
7	अनुसूची क्रमांक 7	प्र. वेत.	3100000	2281274	0	22813	51694	45626	0	41	0	2161100	16-Mar-20	969													
8	अनुसूची क्रमांक 8	प्र. वेत.	3100000	1886178	0	18862	42741	37724	0	51	0	1786800	16-Mar-20	970													
9	अनुसूची क्रमांक 9	प्र. वेत.	3100000	1206276	0	12063	27335	24126	0	52	0	1142700	16-Mar-20	971													
10	अनुसूची क्रमांक 10	प्र. वेत.	10000000	10000000	0	0	0	0	0	0	0	10000000	16-Mar-20	972													
11	अनुसूची क्रमांक 11	प्र. वेत.	10000000	10000000	0	0	0	0	0	0	0	10000000	16-Mar-20	974													
12	अनुसूची क्रमांक 12	प्र. वेत.	10000000	10000000	0	0	0	0	0	0	0	10000000	16-Mar-20	973													
13	अनुसूची क्रमांक 13	प्र. वेत.	7224000	2627544	0	26276	59541	52551	0	76	0	2489100	16-Mar-20	975													
14	अनुसूची क्रमांक 14	प्र. वेत.	6661284	3694461	0	36945	83717	73890	0	9	0	3499900	16-Mar-20	18													
15	अनुसूची क्रमांक 15	प्र. वेत.	6942431	537873	0	5379	12189	10758	0	47	0	509500	16-Mar-20	16													
16	अनुसूची क्रमांक 16	प्र. वेत.	4233016	1713653	0	17137	38832	34274	0	20	0	1623400	16-Mar-20	17													
Total:																											
61883504																											
318840																											
1387000																											
1387000																											
0																											
0																											
3610000																											
3610000																											
0																											
0																											
9017399																											
2274038																											
0																											
22741																											
51530																											
45481																											
86																											
0																											
0																											
2154200																											
2-Mar-20																											
3																											

**मासिकवार वार विवरण**  
**वर्ष 2019-2020 वार्षिक क/विवरणोक्त व आधुनिक विवरण**

क्र.सं.	वर्ष/विवरण का नाम	वर्ष का विवरण	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	आवकियां प्रकृत	विवरण के अनुसार वार विवरण का नाम	38470500	8863762	0	88648	200876	177296	0	42	0	8396900	2-Mar-20	4			
5	आवकियां प्रकृत	विवरण के अनुसार वार विवरण का नाम	4215288	843056	0	8431	19103	16862	0	60	0	796600	2-Mar-20	976			
6	आवकियां प्रकृत	विवरण के अनुसार वार विवरण का नाम	3188738	637748	0	6378	14452	12756	0	63	0	604100	2-Mar-20	977			
7	आवकियां प्रकृत	विवरण के अनुसार वार विवरण का नाम	3188738	637748	0	6378	14452	12756	0	63	0	604100	2-Mar-20	979			
8	आवकियां प्रकृत	विवरण के अनुसार वार विवरण का नाम	3566352	713269	0	7133	16163	14266	0	7	0	675700	2-Mar-20	980			
9	आवकियां प्रकृत	विवरण के अनुसार वार विवरण का नाम	1555209	655207	0	6553	14847	13106	0	2	0	620700	2-Mar-20	981			
10	आवकियां प्रकृत	विवरण के अनुसार वार विवरण का नाम	2606546	270363	0	2704	6127	5408	0	24	0	256100	2-Mar-20	982			
11	आवकियां प्रकृत	विवरण के अनुसार वार विवरण का नाम	3508468	117747	0	1178	2669	2356	0	45	0	111500	2-Mar-20	983			
12	आवकियां प्रकृत	विवरण के अनुसार वार विवरण का नाम	7254623	4924878	0	49249	111598	98498	0	33	0	4665500	10-Mar-20	984			
13	आवकियां प्रकृत	विवरण के अनुसार वार विवरण का नाम	3188000	1594000	0	0	36120	31880	0	0	0	1526000	10-Mar-20	978			
14	आवकियां प्रकृत	विवरण के अनुसार वार विवरण का नाम	1700000	1690513	0	16906	38308	33811	0	15088	0	1586400	10-Mar-20	985			
15	आवकियां प्रकृत	विवरण के अनुसार वार विवरण का नाम	43204986	6843081	0	68431	155065	136862	0	23	0	6482700	10-Mar-20	986			
16	आवकियां प्रकृत	विवरण के अनुसार वार विवरण का नाम	9114078	4871540	0	48716	110390	97431	0	3	0	4615000	10-Mar-20	987			
17	आवकियां प्रकृत	विवरण के अनुसार वार विवरण का नाम	10659882	2555958	0	25560	57919	51120	0	59	0	2421300	10-Mar-20	988			
18	आवकियां प्रकृत	विवरण के अनुसार वार विवरण का नाम	8168864	2329670	0	23297	52791	46594	0	88	0	2206900	10-Mar-20	989			
19	आवकियां प्रकृत	विवरण के अनुसार वार विवरण का नाम	20395676	2993119	0	2994	6783	5987	0	55	0	283500	10-Mar-20	990			



पाना 206

गण्डियाबाद नगर निगम  
वर्ष 2019-2020 खापार क/जीएसटी0 व आयकर विवरण-

क्र.सं.	फन/अधिका सं नाम	कार्य का विवरण	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	दिनांक
		3	द्वारा गति	रां जोर	रिपाई	संग	अपार	जी.एस.टी.	आपार कर	अन्य गति	कटौती	मुआवज गति	14
सब मारल निगम-वर्ष 2019													
1	ho एस000 इन्टरवर्किंग	नगर निगम द्वारा सख्त मारल निगम के अन्तर्गत सुले में शीब न करने के सेतारकी बौद्ध लगपा जात।	73160	73160			1658						22-Jun-19
2	ho एस000 इन्टरवर्किंग	सर्दन बौद्ध लगपा जाने का कार्य।	65844	65844			1492						22-Jun-19
3	ho एस000 इन्टरवर्किंग	सर्दन बौद्ध लगपा जाने का कार्य।	53627	53627			1242						22-Jun-19
4	ho एस000 इन्टरवर्किंग	सर्दन बौद्ध लगपा जाने का कार्य।	54870	54870			1243						22-Jun-19
5	ho एस000 इन्टरवर्किंग	सर्दन बौद्ध लगपा जाने का कार्य।	89680	89680			2032						22-Jun-19
6	ho एस000 इन्टरवर्किंग	सर्दन बौद्ध लगपा जाने का कार्य।	77172	77172			1749						22-Jun-19
7	ho एस000 इन्टरवर्किंग	सर्दन बौद्ध लगपा जाने का कार्य।	77172	77172			1749						22-Jun-19
8	ho एस000 इन्टरवर्किंग	सर्दन बौद्ध लगपा जाने का कार्य।	60924	60924			1471						22-Jun-19
9	ho एस000 इन्टरवर्किंग	सर्दन बौद्ध लगपा जाने का कार्य।	7009	7009			1588						22-Jun-19
10	ho एस000 इन्टरवर्किंग	सर्दन बौद्ध लगपा जाने का कार्य।	38987	38987			883						22-Jun-19
11	ho एस000 इन्टरवर्किंग	सर्दन बौद्ध लगपा जाने का कार्य।	54870	54870			1243						22-Jun-19
12	ho एस000 इन्टरवर्किंग	सर्दन बौद्ध लगपा जाने का कार्य।	44840	44840			1016						22-Jun-19
13	ho एस000 इन्टरवर्किंग	सर्दन बौद्ध लगपा जाने का कार्य।	98648	98648			2235						22-Jun-19
14	ho एस000 इन्टरवर्किंग	सर्दन बौद्ध लगपा जाने का कार्य।	24709	24709			560						22-Jun-19
15	ho आर0आर0इन्टरवर्किंग	सख्त रेली में शीबल का मंडल बनाने का कार्य।	375000	375000			8498						22-Jun-19
16	ho आर0आर0इन्टरवर्किंग	सख्त रेली में टोर-टोर बूझ क्लोस्म मंडल बनाने का कार्य।	46256	46256			1048						22-Jun-19
17	ho आर0आर0इन्टरवर्किंग	सख्त अधिका, रेली के महिला हेतु फिंड शीबल का मंडल लगपा जाने का कार्य।	442500	442500			9025						22-Jun-19
18	ho आर0आर0इन्टरवर्किंग	सख्त अधिका रेली में मंडल बनाने जाने का कार्य।	442500	442500			9025						22-Jun-19
19	ho आर0आर0इन्टरवर्किंग	दिनांक 19.11.2018 के रेली के एस000 बौद्ध फिंरारे पर बिने जाने का कार्य।	46020	46020			1043						22-Jun-19
20	ho आर0आर0इन्टरवर्किंग	सख्त रेली में ट्रान्जिस सिडियो इन्फोमेट का कार्य।	171100	171100			3877						22-Jun-19
21	ho डिजिटल सर्विस	सख्त रेली दिनांक 19.11.2018 को सविनगर के मार्टी करर बीच की आपूर्ति।	31860	31860			722						22-Jun-19
22	ho डिजिटल सर्विस	सख्त रेली में रणवीर सख्त में करर प्रमाण-का का कार्य।	66080	66080			1497						22-Jun-19
23	ho अनला स्टेशनरी मर्ड	क्षेत्रीय कार्यभार में डेम आदि की आपूर्ति।	92736	92736			2101						22-Jun-19
24	ho ईमल इन्टरवर्किंग	2 अक्टूबर 2018 को रणवीर पर पर मंडल, रेलवे की आपूर्ति।	28910	28910			655						22-Jun-19
25	ho ईमल इन्टरवर्किंग	सख्त सर्विस 2019 के अन्तर्गत नगर निगम गण्डियाबाद में इन्टरवीन प्रयोग व सख्त रेल के फ्लैस आपूर्ति।	88075	88075			1995						22-Jun-19
26	ho ईमल इन्टरवर्किंग	सख्त रेल पर टाउनशिड करने व आसकता संबंधी सलोन का प्रसार के संबंध में।	95580	95580			2166						22-Jun-19
27	ho ईमल इन्टरवर्किंग	सख्त प्रसिध्दाई के अन्तर्गत सख्त रेली फ्लैस बौद्ध का कार्य।	87320	87320			1979.						22-Jun-19
28	ho ईमल इन्टरवर्किंग	सख्त सर्विस में फ्लैस आपूर्ति।	94872	94872			2156						22-Jun-19
29	ho वीरियर सेट्युप	सख्त रेल वाले पर प्रचार-प्रसार हेतु कार्य।	86848	86848			1968						22-Jun-19
30	ho वीरियर सेट्युप	सख्त मारल निगम के अन्तर्गत शीबल पर सर्दन बौद्ध की आपूर्ति।	94164	94164			2134						22-Jun-19
31	ho वीरियर सेट्युप	फ्लैस बौद्ध प्रस्टीम की आपूर्ति।	81562	81562			1848						22-Jun-19

-115-

207

क्र.सं.	नाम/वैधिका का नाम	कार्य का विवरण	डिग्री तारीख	रफ औकर	रिगुली	सेर	आयकर	ची.रस.री.	आधार कर	अन्य तारीख	कटौती	युक्तान तारीख	रिगिंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	श्री श्रीराम सोखण	सखका के श्री आरकरका अधिधान के मासिक की आयुर्ती।	53100	53100			1203		51891			51891	22-Jun-19
33	श्री श्रीराम सोखण	सखका के श्री आरकरका अधिधान के मासिक की आयुर्ती।	90624	90624			2054		88570			88570	22-Jun-19
34	श्री श्रीराम सोखण	सखका के श्री आरकरका अधिधान के मासिक की आयुर्ती।	49560	49560			1123		48437			48437	22-Jun-19
35	श्री श्रीराम सोखण	सखका के श्री आरकरका अधिधान के मासिक की आयुर्ती।	63720	63720			1444		62276			62276	22-Jun-19
36	श्री श्रीराम सोखण	सखका के श्री आरकरका अधिधान के मासिक की आयुर्ती।	94400	94400			2139		92261			92261	22-Jun-19
37	श्री श्रीराम सोखण	सखका के श्री आरकरका अधिधान के मासिक की आयुर्ती।	77408	77408			1754		75654			75654	22-Jun-19
38	श्री श्रीराम सोखण	सखका के श्री आरकरका अधिधान के मासिक की आयुर्ती।	92040	92040			2086		89954			89954	22-Jun-19
39	श्री श्रीराम सोखण	सखका के श्री आरकरका अधिधान के मासिक की आयुर्ती।	77408	77408			1754		75654			75654	22-Jun-19
40	श्री श्रीराम सोखण	सखका के श्री आरकरका अधिधान के मासिक की आयुर्ती।	80240	80240			1818		78422			78422	22-Jun-19
41	श्री श्रीराम सोखण	सखका के श्री आरकरका अधिधान के मासिक की आयुर्ती।	89680	89680			2032		87648			87648	22-Jun-19
सखका के श्री आरकरका अधिधान के मासिक की आयुर्ती।			3961075	3961075	0	0	89305	0	0	0	0	3851574	
1	श्री श्रीराम सोखण	सखका के श्री आरकरका अधिधान के मासिक की आयुर्ती।	2672000	2672000			60548	53440	2558012			2558012	26-Jun-19
			Total-	2672000	0	0	60548	53440	2558012	0	0	2558012	
1	श्री श्रीराम सोखण	सखका के श्री आरकरका अधिधान के मासिक की आयुर्ती।	47082	47082			1067		46015			46015	1-Oct-19
2	श्री श्रीराम सोखण	सखका के श्री आरकरका अधिधान के मासिक की आयुर्ती।	98314	98314			2228		96086			96086	1-Oct-19
3	श्री श्रीराम सोखण	सखका के श्री आरकरका अधिधान के मासिक की आयुर्ती।	94400	94400			2139		92261			92261	1-Oct-19
4	श्री श्रीराम सोखण	सखका के श्री आरकरका अधिधान के मासिक की आयुर्ती।	96854	96854			2195		94659			94659	1-Oct-19
5	श्री श्रीराम सोखण	सखका के श्री आरकरका अधिधान के मासिक की आयुर्ती।	82416	82416			1868		80548			80548	1-Oct-19
6	श्री श्रीराम सोखण	सखका के श्री आरकरका अधिधान के मासिक की आयुर्ती।	90150	90150			2043		88107			88107	1-Oct-19
7	श्री श्रीराम सोखण	सखका के श्री आरकरका अधिधान के मासिक की आयुर्ती।	94400	94400			2139		92261			92261	1-Oct-19
8	श्री श्रीराम सोखण	सखका के श्री आरकरका अधिधान के मासिक की आयुर्ती।	94400	94400			2139		92261			92261	1-Oct-19
9	श्री श्रीराम सोखण	सखका के श्री आरकरका अधिधान के मासिक की आयुर्ती।	94400	94400			2139		92261			92261	1-Oct-19
10	श्री श्रीराम सोखण	सखका के श्री आरकरका अधिधान के मासिक की आयुर्ती।	94400	94400			2139		92261			92261	1-Oct-19
11	श्री श्रीराम सोखण	सखका के श्री आरकरका अधिधान के मासिक की आयुर्ती।	99846	99846			2263		97583			97583	1-Oct-19
12	श्री श्रीराम सोखण	सखका के श्री आरकरका अधिधान के मासिक की आयुर्ती।	94400	94400			2139		92261			92261	1-Oct-19
13	श्री श्रीराम सोखण	सखका के श्री आरकरका अधिधान के मासिक की आयुर्ती।	55650	55650			1261		54389			54389	1-Oct-19
14	श्री श्रीराम सोखण	सखका के श्री आरकरका अधिधान के मासिक की आयुर्ती।	83475	83475			1892		81585			81585	1-Oct-19
15	श्री श्रीराम सोखण	सखका के श्री आरकरका अधिधान के मासिक की आयुर्ती।	90272	90272			2046		88226			88226	1-Oct-19
16	श्री श्रीराम सोखण	सखका के श्री आरकरका अधिधान के मासिक की आयुर्ती।	83475	83475			1892		81583			81583	1-Oct-19

गण्डियाबाद नगर निगम वर्ष 2019-2020 व्यापार कर/शुल्काद्वारा व आरंभ कर विवरण

क्र.सं.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	फर्/सेक्टर वरु कड	करत कर विवरण	रेक्टर कोड	सेक्टर	राज	राज	राज	राज	राज	राज	राज	राज	राज	राज
17	शे आरएनएन डेटाद्वारे	सख भारत निगम संकेत हेतु समय-2 पर करणे नये विहित करे।	95480	95480	2164								84833	1-Oct-19
18	शे आरएनएन डेटाद्वारे	सख भारत निगम संकेत हेतु समय-2 पर करणे नये विहित करे।	95480	95480	2164								93316	1-Oct-19
19	शे आरएनएन डेटाद्वारे	सख भारत निगम संकेत हेतु समय-2 पर करणे नये विहित करे।	95480	95480	2164								93316	1-Oct-19
20	शे आरएनएन डेटाद्वारे	सख भारत निगम संकेत हेतु समय-2 पर करणे नये विहित करे।	95480	95480	2164								93316	1-Oct-19
21	शे आरएनएन डेटाद्वारे	सख भारत निगम संकेत हेतु समय-2 पर करणे नये विहित करे।	95480	95480	2164								93296	1-Oct-19
22	शे गौर इन्टर	सख भारत निगम संकेत हेतु समय-2 पर करणे नये विहित करे।	79650	79650	1805								77845	1-Oct-19
23	शे गौर इन्टर	सख भारत निगम संकेत हेतु समय-2 पर करणे नये विहित करे।	88500	88500	2005								77795	1-Oct-19
24	शे गौर इन्टर	सख भारत निगम संकेत हेतु समय-2 पर करणे नये विहित करे।	97075	97075	2200								94875	1-Oct-19
25	शे गौर इन्टर	सख भारत निगम संकेत हेतु समय-2 पर करणे नये विहित करे।	94689	94689	2146								92543	1-Oct-19
26	शे ईन्स डेटाद्वारे	सख भारत निगम संकेत हेतु समय-2 पर करणे नये विहित करे।	52250	52250	1184								51066	1-Oct-19
27	शे ईन्स डेटाद्वारे	सख भारत निगम संकेत हेतु समय-2 पर करणे नये विहित करे।	78588	78588	1781								76807	1-Oct-19
28	शे ईन्स डेटाद्वारे	सख भारत निगम संकेत हेतु समय-2 पर करणे नये विहित करे।	98175	98175	2225								95951	1-Oct-19
29	शे ईन्स डेटाद्वारे	सख भारत निगम संकेत हेतु समय-2 पर करणे नये विहित करे।	42126	42126	955								41171	1-Oct-19
30	शे ईन्स डेटाद्वारे	सख भारत निगम संकेत हेतु समय-2 पर करणे नये विहित करे।	70210	70210	1591								68619	1-Oct-19
31	शे ईन्स डेटाद्वारे	सख भारत निगम संकेत हेतु समय-2 पर करणे नये विहित करे।	98554	98554	2233								96321	1-Oct-19
32	शे वारियर सेलशन	सख भारत निगम संकेत हेतु समय-2 पर करणे नये विहित करे।	90624	90624	2054								88570	1-Oct-19
33	शे वारियर सेलशन	सख भारत निगम संकेत हेतु समय-2 पर करणे नये विहित करे।	96642	96642	2190								94452	1-Oct-19
34	शे वारियर सेलशन	सख भारत निगम संकेत हेतु समय-2 पर करणे नये विहित करे।	81184	81184	1940								79344	1-Oct-19
35	शे वारियर सेलशन	सख भारत निगम संकेत हेतु समय-2 पर करणे नये विहित करे।	94872	94872	2150								92722	1-Oct-19
36	शे वारियर सेलशन	सख भारत निगम संकेत हेतु समय-2 पर करणे नये विहित करे।	87202	87202	1976								83500	1-Oct-19
37	शे वारियर सेलशन	सख भारत निगम संकेत हेतु समय-2 पर करणे नये विहित करे।	95722	95722	2169								93553	1-Oct-19
38	शे वारियर सेलशन	सख भारत निगम संकेत हेतु समय-2 पर करणे नये विहित करे।	78310	78310	1770								76360	1-Oct-19
39	शे वारियर सेलशन	सख भारत निगम संकेत हेतु समय-2 पर करणे नये विहित करे।	85508	85508	1938								83570	1-Oct-19
40	शे वारियर सेलशन	सख भारत निगम संकेत हेतु समय-2 पर करणे नये विहित करे।	45312	45312	1027								44285	1-Oct-19



171

बर्ष 2019-2020 बायुर कट/वीणसोपी 0 व आयकर विवरण-

क्र.सं.	वर्ग/व्यक्ति का नाम	कार्य का विवरण	द्वैतर तारीख	रज आवर	रंगरुदी	सेवा	अयकर	वी.एच.डी.	बायुर कर	अन्य तारीख	कट/वी	मुद्रागत तारीख	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	श्री वरिष्ठ सेवान	सख भात भिजन सर्वेक्षण हेतु समय-2 पर कार्य नये विधि-न कार्य।	85508	85508			1938					83570	1-Oct-19
42	श्री वरिष्ठ सेवान	सख भात भिजन सर्वेक्षण हेतु समय-2 पर कार्य नये विधि-न कार्य।	91919	91919			2083					89836	1-Oct-19
43	श्री वरिष्ठ सेवान	सख भात भिजन सर्वेक्षण हेतु समय-2 पर कार्य नये विधि-न कार्य।	93456	93456			2118					91338	1-Oct-19
44	श्री वरिष्ठ सेवान	सख भात भिजन सर्वेक्षण हेतु समय-2 पर कार्य नये विधि-न कार्य।	93456	93456			2118					91338	1-Oct-19
45	श्री वरिष्ठ सेवान	सख भात भिजन सर्वेक्षण हेतु समय-2 पर कार्य नये विधि-न कार्य।	84960	84960			1925					83085	1-Oct-19
46	श्री वरिष्ठ सेवान	सख भात भिजन सर्वेक्षण हेतु समय-2 पर कार्य नये विधि-न कार्य।	44156	44156			1001					43155	1-Oct-19
47	श्री वरिष्ठ सेवान	सख भात भिजन सर्वेक्षण हेतु समय-2 पर कार्य नये विधि-न कार्य।	77710	77710			1761					75949	1-Oct-19
48	श्री वरिष्ठ सेवान	सख भात भिजन सर्वेक्षण हेतु समय-2 पर कार्य नये विधि-न कार्य।	84960	84960			1925					83035	1-Oct-19
49	श्री जगन्नाथ सर्वेक्षण	सख भात भिजन सर्वेक्षण हेतु समय-2 पर कार्य नये विधि-न कार्य।	1085403	1085403			24595					831200	1-Oct-19
50	श्री जगन्नाथ सर्वेक्षण	सख भात भिजन सर्वेक्षण हेतु समय-2 पर कार्य नये विधि-न कार्य।	831131	831131			18833					634620	1-Oct-19
51	श्री गौर दण्डविज्ञ	सख भात भिजन सर्वेक्षण हेतु समय-2 पर कार्य नये विधि-न कार्य।	95580	95580			2166					93414	1-Oct-19
52	श्री एसएसएलएलएलएल	सख भात भिजन सर्वेक्षण हेतु समय-2 पर कार्य नये विधि-न कार्य।	66700	66700			1511					65188	1-Oct-19
53	श्री एसएसएलएलएलएल	सख भात भिजन सर्वेक्षण हेतु समय-2 पर कार्य नये विधि-न कार्य।	50221	50221			1138					49000	1-Oct-19
54	श्री एसएसएलएलएलएल	सख भात भिजन सर्वेक्षण हेतु समय-2 पर कार्य नये विधि-न कार्य।	90241	90241			2045					88194	1-Oct-19
55	श्री एसएसएलएलएलएल	सख भात भिजन सर्वेक्षण हेतु समय-2 पर कार्य नये विधि-न कार्य।	90240	90240			2045					88195	1-Oct-19
56	श्री जगन्नाथ सर्वेक्षण	सख भात भिजन सर्वेक्षण हेतु समय-2 पर कार्य नये विधि-न कार्य।	95480	95480			2164					93316	1-Oct-19
57	श्री गौर दण्ड विज्ञान-विज्ञान 2019	सख भात भिजन सर्वेक्षण हेतु समय-2 पर कार्य नये विधि-न कार्य।	998280	998280			22621					399899	1-Oct-19
58	श्री गौर दण्ड विज्ञान-विज्ञान	सख भात भिजन सर्वेक्षण हेतु समय-2 पर कार्य नये विधि-न कार्य।	1416000	1416000			32087					1355593	1-Oct-19
59	श्री गौर दण्ड विज्ञान-विज्ञान	सख भात भिजन सर्वेक्षण हेतु समय-2 पर कार्य नये विधि-न कार्य।	417720	417720			9466					822508	1-Oct-19
		सख भात भिजन-विज्ञान 2019	Total-	9319648	0	0	211188	94972	0	0	0	8492206	
1	श्री जगन्नाथ सर्वेक्षण	सख भात भिजन-विज्ञान 2019	47200	47200	0	0	1070	0	0	0	0	46130	27-Dec-19
2	श्री जगन्नाथ सर्वेक्षण	सख भात भिजन-विज्ञान 2019	1829999	1829999	0	0	41500	36600	0	0	0	1751899	27-Dec-19
		सख भात भिजन-विज्ञान 2020	Total-	1877199	0	0	42570	36600	0	0	0	1798029	
1	श्री जगन्नाथ सर्वेक्षण	3 नव केन्द्र केन्द्र वारंती की निर्धारण एवं कमीशन की आण्टी।	4688367	4688367	0	0	106240	93768	0	0	0	4488359	24-Feb-20
2	श्री जगन्नाथ सर्वेक्षण	केन्द्रगत रिहा वीर ने कार्य नये एवं वरंती की निर्धारण एवं कमीशन की आण्टी।	18231	18231	0	0	413	0	0	0	0	17818	24-Feb-20

210

गण्डियाबाद नगर निगम

वर्ष 2019-2020 ब्यापार कम्प्यूटरीय व आर्थिक विवरण-

क्र.सं.	कर्म/विभाग का नाम	कार्य का विवरण	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	दिनांक
1	2	3	डेप्युटि	एन ओवर	सिपाई	सेना	आकार	जी.एस.टी.	आय कर	अन्य राशि	रकबा	मुद्रांकन राशि	14
3	मे 0 एनओएड/एनईन	सर्वे साईन बोर्ड साईन 8 गुणा 6 48 फीट की	24072	24072	0	0	545	0	0	0	0	23527	24-Feb-20
4	मे 0 गुणम टैट एड केस्ट	स्वच्छता रैली में स्टाफ लगाये जाने का कार्य।	77290	77290	0	0	1751	0	0	0	0	75539	24-Feb-20
5	मे 0 गुणम टैट एड केस्ट	स्वच्छता रैली में स्टाफ लगाये जाने का कार्य।	68676	68676	0	0	1560	0	0	0	0	67116	24-Feb-20
6	मे 0 गुणम टैट एड केस्ट	स्वच्छता रैली में स्टाफ लगाये जाने का कार्य।	68676	68676	0	0	1556	0	0	0	0	67120	24-Feb-20
7	मे 0 गुणम टैट एड केस्ट	स्वच्छता रैली में स्टाफ लगाये जाने का कार्य।	26550	26550	0	0	602	0	0	0	0	25948	24-Feb-20
8	मे 0 गुणम टैट एड केस्ट	स्वच्छता रैली में स्टाफ लगाये जाने का कार्य।	98117	98117	0	0	2223	0	0	0	0	95894	24-Feb-20
9	मे 0 गुणम टैट एड केस्ट	स्वच्छता रैली में स्टाफ लगाये जाने का कार्य।	91391	91391	0	0	2071	0	0	0	0	89320	24-Feb-20
10	मे 0 गुणम टैट एड केस्ट	स्वच्छता रैली में स्टाफ लगाये जाने का कार्य।	98176	98176	0	0	2225	0	0	0	0	95251	24-Feb-20
11	मे 0 गुणम टैट एड केस्ट	स्वच्छता रैली में स्टाफ लगाये जाने का कार्य।	98176	98176	0	0	2225	0	0	0	0	95951	24-Feb-20
12	मे 0 गुणम टैट एड केस्ट	स्वच्छता रैली में स्टाफ लगाये जाने का कार्य।	52463	52463	0	0	1189	0	0	0	0	51274	24-Feb-20
13	मे 0 गुणम टैट एड केस्ट	स्वच्छता रैली में स्टाफ लगाये जाने का कार्य।	98427	98427	0	0	2230	0	0	0	0	96197	24-Feb-20
14	मे 0 ईनल इन्टरवार्डिन	कविगणर रमलीला मैदान में कार्यक्रम के अन्तर्गत	16907	16907	0	0	383	0	0	0	0	16524	24-Feb-20
15	मे 0 ईनल इन्टरवार्डिन	लेक्स वेयर और का कार्य।	94400	94400	0	0	2140	0	0	0	0	92260	24-Feb-20
16	मे 0 ईनल इन्टरवार्डिन	स्वच्छता शिविर रैली में गोलकेम पर लेक्स आपूर्ति का कार्य।	10502	10502	0	0	238	0	0	0	0	10264	24-Feb-20
17	मे 0 ईनल इन्टरवार्डिन	आयल लेक्स डिस्ट्रिब्यूशन और के लेक्स वेयर बनाने का कार्य।	84075	84075	0	0	1905	0	0	0	0	82170	24-Feb-20
18	मे 0 ईनल इन्टरवार्डिन	स्वच्छता सन्निहित कार्यक्रमाला में सूखम जलपान और का कार्य।	18408	18408	0	0	417	0	0	0	0	17991	24-Feb-20
19	मे 0 ईनल इन्टरवार्डिन	स्वच्छता शिविर रैली दिनांक 30.11.2019 स्वच्छता का कार्य।	79296	79296	0	0	1797	0	0	0	0	77499	24-Feb-20
20	मे 0 गुणम टैट एड केस्ट	शिविर रैली सन्निहित करारी की आपूर्ति का कार्य।	43896	43896	0	0	995	0	0	0	0	42901	24-Feb-20
21	मे 0 आर्इओआर/आर्इएआर डिप्टेन	दिनांक 30.11.2019 में शिविर रैली में स्टेज सुणे रोजेन्टनर से-2 एनओएड/एड लगाये का कार्य।	99120	99120	0	0	2246	0	0	0	0	96874	24-Feb-20
22	मे 0 आर्इओआर/आर्इएआर डिप्टेन	दिनांक 30.11.2019 को स्वच्छ शिविर रैली जेठान पब्लिक स्कूल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स रोजेन्टनर में फोटोग्राफी ड्रेन व विडियोग्राफी का कार्य।	93220	93220	0	0	2112	0	0	0	0	91108	24-Feb-20
23	मे 0 आर्इओआर/आर्इएआर डिप्टेन	दिनांक 30.11.2019 में शिविर रैली में स्टेज सुणे रेलिंग फूट मालाओं की सजावट का कार्य।	43660	43660	0	0	990	0	0	0	0	42670	24-Feb-20
24	मे 0 आर्इओआर/आर्इएआर डिप्टेन	शिविर रैली में शिविर रैली का कार्य।	29500	29500	0	0	669	0	0	0	0	28831	24-Feb-20
25	मे 0 आर्इओआर/आर्इएआर डिप्टेन	शिविर रैली में शिविर रैली का कार्य।	383500	383500	0	0	8690	7670	0	0	0	367140	24-Feb-20
26	मे 0 वरियर सेवक	स्वच्छ संकेतन के अन्तर्गत बर्तन और का प्रसार प्रसार का कार्य।	19777	19777	0	0	449	0	0	0	0	19328	24-Feb-20
27	मे 0 वरियर सेवक	स्वच्छता शिविर रैली में सुप्लाय पर लेक्स लगाये जाने का कार्य।	92512	92512	0	0	2096	0	0	0	0	90416	24-Feb-20
28	मे 0 वरियर सेवक	स्वच्छता शिविर रैली में सुबाय आपूर्ति का कार्य।	53100	53100	0	0	1203	0	0	0	0	51897	24-Feb-20
29	मे 0 वरियर सेवक	स्वच्छता शिविर रैली प्रचार-प्रसार वृत्तियेनल सेवक की आपूर्ति का कार्य।	92512	92512	0	0	2096	0	0	0	0	90416	24-Feb-20
1	मे 0 स्वच्छता शिविर-मार्च 2020	स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत स्वच्छ-2020 में जनजागृण हेतु अटक करे का कार्य।	6762997	6762997	0	0	153256	101438	0	0	0	6507603	16-Mar-20
		Total	418000	418000	0	0	41800	0	0	0	0	376200	

**गण्डियाबाद नगर सिंगप**  
**वर्ष 2019-2020 ब्यापार कर/जीएसटी0 व आयकर विवरण-**

21

क्र.सं.	वर्ग/विवरण का नाम	कार्य का विवरण	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1																
2	श्री0 मुस्ताकश माटव संस्था	स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ-2020 में जनसुधार हेतु माटक करने का कार्य।	104500	104500	0	0	10450	0	0	0	0	0	0	0	94050	16-Mar-20
3	श्री0 मित्र रक्षण	50 मूक माटक स्वच्छ संरक्षण 2020 में मिले जाने के संबंध में।	324500	324500	0	0	32450	6490	0	0	0	0	0	0	243375	16-Mar-20
4	श्री0 शीतल कनक	वार्ड-35 औद्योगिक क्षेत्र में विवेकानन्द पार्क के पास बने शौचालय की मरम्मत व रंगाई पुनर्गर्ह का कार्य।	96418	94361	68	943	2138	0	0	0	0	0	12	0	91200	16-Mar-20
5	श्री0 शीतल कनक	वार्ड-25 रावी रोड में बने शौचालय की मरम्मत व रंगाई पुनर्गर्ह का कार्य।	95933	92673	70	927	2100	0	0	0	0	0	76	0	89500	16-Mar-20
6	श्री0 प्रमोद कुमार सिंघल	कठिनगर जोन में विभिन्न शूरिन्स पर पी0आई0जीट लगाने का कार्य।	94431	94431	0	945	2140	0	0	0	0	0	46	0	91300	16-Mar-20
7	श्री0 शीतल कनक	वार्ड-26 बूड-भाल नगर में शौचालय की मरम्मत का कार्य।	95933	94515	149	945	2142	0	0	0	0	0	79	0	91200	16-Mar-20
8	श्री0 प्रमोद कुमार सिंघल	कठिनगर जोन में विभिन्न शूरिन्स का मरम्मत का कार्य।	97766	95868	0	959	2172	0	0	0	0	0	37	0	92700	16-Mar-20
9	श्री0 प्रमोद कुमार सिंघल	कठिनगर में विभिन्न शूरिन्स पर जी0आई0जीट लगाने का कार्य।	94431	92754	0	928	2102	0	0	0	0	0	24	0	89700	16-Mar-20
10	श्री0 प्रमोद कुमार सिंघल	कठिनगर जोन में वार्ड-65 इण्ड एरिया के पास स्वदेशी चौक पर 06 सीटर सामुदायिक शौचालय की मरम्मत का कार्य।	96599	93781	0	938	2125	0	0	0	0	0	18	0	90700	16-Mar-20
11	श्री0 प्रमोद कुमार सिंघल	कठिनगर जोन में विभिन्न शूरिन्स पर जी0आई0जीट लगाने का कार्य।	95415	95415	0	954	2162	0	0	0	0	0	99	0	92200	16-Mar-20
12	श्री0 प्रमोद कुमार सिंघल	कठिनगर जोन में विभिन्न शूरिन्स में पी0आई0जीट लगाने का कार्य।	94431	89803	0	898	2035	0	0	0	0	0	70	0	86800	16-Mar-20
13	श्री0 प्रमोद कुमार सिंघल	वार्ड-65 विवेकानन्द प्लॉट ओवर के नीचे रेलवे के पास 06 सीटर सामुदायिक शौचालय का निर्माण व रंगाई पुनर्गर्ह का कार्य।	95299	93819	0	938	2126	0	0	0	0	0	55	0	90700	16-Mar-20
14	श्री0 प्रमोद कुमार सिंघल	कठिनगर जोन में विभिन्न शूरिन्स की मरम्मत का कार्य।	96667	96867	0	969	2195	0	0	0	0	0	3	0	93700	16-Mar-20
15	श्री0 एस0आर0कनक एण्ड डबलपर्स	सिलानी पुलिस चौकी के पास वाले शौचालय में सविप्रस नेट कुण्डी शूरिन्स,आदि की मरम्मत का कार्य।	87222	87216	0	872	1976	0	0	0	0	0	68	0	84300	16-Mar-20
16	श्री0 एस0आर0कनक इण्डएण्डडबल	वार्ड-63 पसीडा में मुख्य मार्ग पर वसिस्तान की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण का कार्य।	952032	696180	0	6962	15776	13924	0	0	0	0	18	0	659500	16-Mar-20
		Total-		2664683	287	18178	125889	20414	0	0	0	0	605	0	2457125	

श्री0 - 27257602

-122-

622  
 94 2019-20  
 (अप्रैल महीने का बिल)

बि.सं. 411/2019/1  
 2019-20 का बिल

बि.सं. 179-9-1 (अप्रैल-1-98-2-79950000)  
 बि.सं. -98 (अप्रैल 27-8-89)  
 बि.सं. -4719-1-2-2004-5  
 बि.सं. -98 (अप्रैल 31-3-2001)  
 बि.सं. -5375/9-1-2-2002  
 बि.सं. 1998 (अप्रैल 27-11-2002)

क्र.सं.	विवरण	मूल्य	बि.सं. 411/2019/1	बि.सं. 179-9-1	बि.सं. -98	बि.सं. -4719-1-2-2004-5	बि.सं. -98	बि.सं. -5375/9-1-2-2002	बि.सं. 1998
1.	अप्रैल महीने का बिल	79950000	1-4-19	94 2019-20	अप्रैल	अप्रैल	अप्रैल	अप्रैल	अप्रैल
क)	बि.सं. -98 (अप्रैल 27-8-89)	33750000	20968516	20968516	अप्रैल	अप्रैल	अप्रैल	अप्रैल	अप्रैल
ख)	बि.सं. -4719-1-2-2004-5	41816000	20968516	20968516	अप्रैल	अप्रैल	अप्रैल	अप्रैल	अप्रैल
ग)	बि.सं. -98 (अप्रैल 31-3-2001)	54022000	54022000	54022000	अप्रैल	अप्रैल	अप्रैल	अप्रैल	अप्रैल
घ)	बि.सं. -5375/9-1-2-2002	360000	360000	360000	अप्रैल	अप्रैल	अप्रैल	अप्रैल	अप्रैल
च)	बि.सं. 1998 (अप्रैल 27-11-2002)	360000	360000	360000	अप्रैल	अप्रैल	अप्रैल	अप्रैल	अप्रैल
ज)	अप्रैल महीने का बिल	79950000			अप्रैल	अप्रैल	अप्रैल	अप्रैल	अप्रैल

213

4.	<p>1. 13/10/2020 2. 13/10/2020 3. 13/10/2020 4. 13/10/2020 5. 13/10/2020 6. 13/10/2020 7. 13/10/2020 8. 13/10/2020 9. 13/10/2020 10. 13/10/2020</p>	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000
5.	<p>1. 13/10/2020 2. 13/10/2020 3. 13/10/2020 4. 13/10/2020 5. 13/10/2020 6. 13/10/2020 7. 13/10/2020 8. 13/10/2020 9. 13/10/2020 10. 13/10/2020</p>	36916000	36916000	36916000	36916000	36916000	36916000	36916000
		250754000	186827600	186827600	186827600	186827600	186827600	186827600

(28)

1291  
 ए एन एन-ए के प्रजा 10 गे सरसिरी

प्रजा सं. एन० प्र० सं० 106  
 वर्ष 2019-20

नगर पालिका/जिला पंचायत/सविश्वेति क्षेत्र समिति/नगर क्षेत्र समिति - एन एन प्रजा 10 गे सरसिरी  
 (अंक पूर्ण स्थानों में) एन एन प्रजा 10 गे सरसिरी  
 द्वारा समाहृतित नगरीय पत्र-संचयन का विवरण

पंजीय सं

क्रमांक	आय का स्रोत	अवधि 1, 2019... को बकाया	प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं.	कुल मांग (3+4)	प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं.	रक	समाहरण न. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं.	समाहरण का कुल मांग प्रतिशत	स्तर 2 में उल्लिखित कर को दर	मन्तव्य
1	गठन	रु० 579025800	प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं.	579025800	प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं.	579025800	प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं.	100%	100%	
2	नगर का विकास	रु० 349898441	प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं.	349898441	प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं.	349898441	प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं.	100%	100%	
3	सफाई कार्य/स्तर 1	रु० 8322445	प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं.	8322445	प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं.	8322445	प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं.	100%	100%	
4	वस्तु एवं सेवा कर	रु० 178788872	प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं.	178788872	प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं.	178788872	प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं.	100%	100%	
5	आयकर, जीविकोपार्जन व्यवसाय पर कर	रु० 51631565	प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं.	51631565	प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं.	51631565	प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं.	100%	100%	
6	संवर्धन गतिविधियों पर कर	रु० 1160320	प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं.	1160320	प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं.	1160320	प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं.	100%	100%	
7	गंगा कर	रु० 1120456	प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं.	1120456	प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं.	1120456	प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं.	100%	100%	
8	अन्य कर (स्पष्ट कर देकर कर)	रु० 3223631	प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं.	3223631	प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं.	3223631	प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं.	100%	100%	
9	नगरीय विकास कार्य	रु० 11724823	प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं.	11724823	प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं.	11724823	प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं.	100%	100%	
10	नगरीय विकास कार्य	रु० 11724823	प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं.	11724823	प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं.	11724823	प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं.	100%	100%	
11	वस्तु एवं सेवा कर	रु० 11724823	प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं.	11724823	प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं.	11724823	प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं.	100%	100%	
12	प्रकीर्ण योग (स्पष्ट उल्लेख कर)	रु० 1207405753	प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं.	1207405753	प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं.	1207405753	प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं.	100%	100%	

क्रमांक	आय का स्रोत	प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं.	कुल मांग	प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं. प्र. सं.	मन्तव्य
1	गंगा	60%	60%	60%	
2	वस्तु	60%	60%	60%	
3	समाहृतित कर	60%	60%	60%	

नगरपालिका प्रमुख सुशील शर्मा  
 तारिख 10/11/2019

131- (215) सं. सन्वत् 1911  
 2042/51 (अ.सं. 1) का प्रसार 1 सं. सन्वत् 1911  
 1911-12 '3'

भारत विद्यापीठ

भारत विद्यापीठ के अधीन आने वाले विद्यालयों के नामों का विवरण

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	स्थापना का वर्ष	प्रकार	क्षेत्रफल (वर्ग फीट)	अवस्था	वर्षान्वय	कुल व्यय
1	1363 / 31-7-20	भारत विद्यापीठ के अधीन आने वाले विद्यालयों के नामों का विवरण	उच्च / उच्च माध्यमिक विद्यालय	239.87 (काल्डवेल)	15591	00	15591
2	846 / 28-10-20	भारत विद्यापीठ के अधीन आने वाले विद्यालयों के नामों का विवरण	उच्च / उच्च माध्यमिक विद्यालय	717.50 (काल्डवेल)	71751	00	71751
3	1353 / 31-7-20	भारत विद्यापीठ के अधीन आने वाले विद्यालयों के नामों का विवरण	उच्च / उच्च माध्यमिक विद्यालय	130.09 (काल्डवेल)	8455	00	8455
				88.69 (काल्डवेल)	8869	00	8869
				176.7 (स्टीनमैन)	19437	00	19437
				116.42 (काल्डवेल)	11644	00	11644

1	2	3	4	5	6	7
4	408/28-12-20	<p>वाड-37 80 फटा येड पर विक्रम साकल्य का जोष बाव मरुत मागे सग जोष पास का विक्रमन दगायसा बालिका का सुधाक का</p> <p>मरुत जोष बाव विक्रमन दगायसा बालिका का सुधाक का</p>	119.54 (मरुत जोष)	9526	50	9526
5	136/31-7-20	<p>नायकाबा वॉच मे मंगू यड यंड (आरु)</p> <p>सुधैरफो नाबा सिमाव नाक</p> <p>मं (आरु जोष) विक्रमन दगायसा</p>	<p>मं 221.91 (मरुत जोष)</p> <p>115.50 (मरुत जोष)</p>	<p>14424</p> <p>11550</p>	<p>50</p> <p>50</p>	<p>14424</p> <p>11550</p>
6	1336/30-7-20	<p>वाड-59 मं (आरु जोष) विक्रमन दगायसा</p> <p>मं (आरु जोष) विक्रमन दगायसा</p>	<p>223.63 (मरुत जोष)</p> <p>23.30 (मरुत जोष)</p>	<p>21036</p> <p>2330</p>	<p>50</p> <p>50</p>	<p>21036</p> <p>2330</p>
7	911/19-6-19	<p>वाड-59 मं (आरु जोष) विक्रमन दगायसा</p> <p>मं (आरु जोष) विक्रमन दगायसा</p>	<p>789.28 (मरुत जोष)</p> <p>146.20 (मरुत जोष)</p>	<p>86820</p> <p>9503</p>	<p>50</p> <p>50</p>	<p>86820</p> <p>9503</p>



1	2	3	4	5	6	7
8.	531/11-2-20	<p>पॉस्ट-63 कोरमणूर/श्री. गणेश 5/35                      कोरमणूर/श्री. गणेश 5/35                      श्री. गणेश 5/35                      श्री. गणेश 5/35</p>	<p>365.91 (कोरमणूर                      5/35)                      73.63 (कोरमणूर                      5/35)</p>	<p>23784                      8099</p>	<p>50                      50</p>	<p>23784                      8099</p>
9.	714/31-12-19	<p>पॉस्ट-23 विजय नगर NH-24 श्री. गणेश                      श्री. गणेश 5/35                      श्री. गणेश 5/35</p>	<p>177.08 (कोरमणूर                      5/35)                      345.96 (कोरमणूर                      5/35)                      904.16 (कोरमणूर                      5/35)</p>	<p>11510                      38055                      99458</p>	<p>50                      50                      50</p>	<p>11510                      38055                      99458</p>
10.	803/31-7-21	<p>पॉस्ट 65, कोरमणूर/श्री. गणेश 5/35                      श्री. गणेश 5/35                      श्री. गणेश 5/35</p>	<p>671.91 (कोरमणूर                      5/35)                      22.68 (कोरमणूर                      5/35)</p>	<p>73910                      1474</p>	<p>50                      50</p>	<p>73910                      1474</p>
11.	17/3-3-20	<p>पॉस्ट 110/3 कोरमणूर/श्री. गणेश 5/35                      कोरमणूर/श्री. गणेश 5/35                      कोरमणूर/श्री. गणेश 5/35                      कोरमणूर/श्री. गणेश 5/35</p>	<p>20.25 (कोरमणूर                      5/35)                      31.09 (कोरमणूर                      5/35)</p>	<p>2227                      2021</p>	<p>50                      50</p>	<p>2227                      2021</p>

1	2	3	4	5	6	7
12.	324/16-7-19	वाड-20 मी. उमराम व वाड मळ सडक विभाग कार्यालय वाड-20 मी. उमराम व वाड मळ सडक विभाग कार्यालय	420.14 (रु. 450000) (रु. 450000)	46215 624	00 00	46215 624
13.	628/27-12-19	वाड-97 रामायण काळीज व वाड-97 रामायण काळीज व वाड-97 रामायण काळीज व वाड-97 रामायण काळीज व वाड-97 रामायण काळीज व वाड-97 रामायण काळीज व	39.99 (रु. 450000) (रु. 450000) 20.73 (रु. 450000) (रु. 450000)	2599 2073	<del>00</del> 00	2599 2073
14.	1961/10-11-20	वाड-97 रामायण काळीज व वाड-97 रामायण काळीज व वाड-97 रामायण काळीज व वाड-97 रामायण काळीज व वाड-97 रामायण काळीज व वाड-97 रामायण काळीज व	58.90 (रु. 450000) (रु. 450000) 100.97 (रु. 450000) (रु. 450000)	6479 6564	00 00	6479 6564
15.	912/19-6-19	वाड-59 संजयनगर व वाड-59 संजयनगर व वाड-59 संजयनगर व वाड-59 संजयनगर व वाड-59 संजयनगर व वाड-59 संजयनगर व	50.50 (रु. 450000) (रु. 450000) 157.31 (रु. 450000) (रु. 450000)	3282 15731	00 00	3282 15731
16.	2459/ 28-11-12	वाड-54 सुभाष नगर व वाड-54 सुभाष नगर व वाड-54 सुभाष नगर व वाड-54 सुभाष नगर व वाड-54 सुभाष नगर व वाड-54 सुभाष नगर व	32.01 (रु. 450000) (रु. 450000) 58.72 (रु. 450000) (रु. 450000)	2120 6459	00 <del>00</del>	2120 6459

1	2	3	4	5	6	7
17	687/31-12-19	बस-78 बागा चौक सोलापूर येथे कोणार्डे 20/8/19 बागा चौक सोलापूर येथे कोणार्डे बागा चौक सोलापूर येथे कोणार्डे बागा चौक सोलापूर येथे कोणार्डे	77.38 (बागा चौक) 306.15 (बागा चौक) 612.3 (बागा चौक)	5029 30615 61230	₹	5029 30615 61230
18.	676/31-12-19	बस-78 बागा चौक सोलापूर येथे कोणार्डे बागा चौक सोलापूर येथे कोणार्डे बागा चौक सोलापूर येथे कोणार्डे बागा चौक सोलापूर येथे कोणार्डे	847.87 (बागा चौक) 89.25 (बागा चौक) 178.52 (बागा चौक) 43.46 (बागा चौक)	3112 8925 19637 4781	₹	3112 8925 19637 4781
19.	220/16-12-19	बास-28 बागा चौक सोलापूर येथे कोणार्डे बागा चौक सोलापूर येथे कोणार्डे बागा चौक सोलापूर येथे कोणार्डे बागा चौक सोलापूर येथे कोणार्डे	150.64 (बागा चौक) 127.35 (बागा चौक) 254.70 (बागा चौक) 1018 (बागा चौक)	6442 12735 28017 111980	₹	6442 12735 28017 111980

	2	3	4	5	6	7
20	1472/ 24-3-20	वाड-30 गीत-9 परस डिप्लोमना व आर डिप्लोमना व डिप्लोमना व आर डिप्लोमना व	39.49 (मि.पि. व.पि.) 59.62 (मि.पि. व.पि.) 119.26 (मि.पि. व.पि.) 362.18 (मि.पि. व.पि.)	2567 5962 13119 39840	50 50 50 50	2567 5962 13119 39840
21.	58/20-11-19	आर डिप्लोमना व आर डिप्लोमना व आर डिप्लोमना व आर डिप्लोमना व	1184.75 (मि.पि. व.पि.) 188.76 (मि.पि. व.पि.)	130322 18876	50 50	130322 18876
22.	369/7-10-20	आर डिप्लोमना व आर डिप्लोमना व आर डिप्लोमना व	33.83 (मि.पि. व.पि.) 23.37 (मि.पि. व.पि.) 46.75 (मि.पि. व.पि.) 28.57 (मि.पि. व.पि.)	2199 2337 5142 3142	50 50 50 50	2199 2337 5142 3142

1	2	3	4	5	6	7
23.	815/31-7-21	<p>पुस्तक को पुस्तकालय में रखने के लिए                      पुस्तक को पुस्तकालय में रखने के लिए                      पुस्तक को पुस्तकालय में रखने के लिए</p>	<p>586.59 (रुपये)                      224.96 (रुपये)                      130.58 (रुपये)</p>	<p>64525                      14622                      13058</p>	₹	<p>64525                      14622                      13058</p>
24.	802/31-3-21	<p>पुस्तक को पुस्तकालय में रखने के लिए                      पुस्तक को पुस्तकालय में रखने के लिए                      पुस्तक को पुस्तकालय में रखने के लिए</p>	<p>81.68 (रुपये)                      115.31 (रुपये)</p>	<p>5309                      12684</p>	₹	<p>5309                      12684</p>
25.	792/31-7-21	<p>पुस्तक को पुस्तकालय में रखने के लिए                      पुस्तक को पुस्तकालय में रखने के लिए                      पुस्तक को पुस्तकालय में रखने के लिए</p>	<p>502.89 (रुपये)                      93.52 (रुपये)</p>	<p>55318                      9352</p>	₹	<p>55318                      9352</p>
26.	263/8-9-21	<p>पुस्तक को पुस्तकालय में रखने के लिए                      पुस्तक को पुस्तकालय में रखने के लिए                      पुस्तक को पुस्तकालय में रखने के लिए</p>	<p>934.51 (रुपये)                      170.42 (रुपये)</p>	<p>102796                      17042</p>	₹	<p>102796                      17042</p>
27.	705/15-7-21	<p>पुस्तक को पुस्तकालय में रखने के लिए                      पुस्तक को पुस्तकालय में रखने के लिए                      पुस्तक को पुस्तकालय में रखने के लिए</p>	<p>29.61 (रुपये)                      5.29 (रुपये)</p>	<p>3257                      529</p>	₹	<p>3257                      529</p>

1	2	3	4	5	6	7
28	261/8-9-21	<p>वड-21 केमाली से समान विवर के फॉ                      आन्तरिक फाइलिंग्स सड़को का सुधार का                      मंडारन विवर के फाइलिंग्स</p>	<p>7.57 (मार्च 21)</p>	492	60	492
29	262/8-9-21	<p>वड-13 मरुड से बुकना मरुड मारी का                      वड-14 मरुड से बुकना मरुड मारी का                      वड-15 मरुड से बुकना मरुड मारी का                      वड-16 मरुड से बुकना मरुड मारी का                      वड-17 मरुड से बुकना मरुड मारी का                      वड-18 मरुड से बुकना मरुड मारी का                      वड-19 मरुड से बुकना मरुड मारी का                      वड-20 मरुड से बुकना मरुड मारी का</p>	<p>179 (मार्च 21)                      411.62 (मार्च 21)</p>	11635 45278	60 60	11635 45278
30	1473/24-3-20	<p>वड-24 वल्लभपुर वड से बुकना मरुड मारी का                      वड-25 वल्लभपुर वड से बुकना मरुड मारी का                      वड-26 वल्लभपुर वड से बुकना मरुड मारी का                      वड-27 वल्लभपुर वड से बुकना मरुड मारी का                      वड-28 वल्लभपुर वड से बुकना मरुड मारी का                      वड-29 वल्लभपुर वड से बुकना मरुड मारी का                      वड-30 वल्लभपुर वड से बुकना मरुड मारी का</p>	<p>237.54 (मार्च 21)                      59.38 (मार्च 21)                      40 (मार्च 21)</p>	26129 5938 2660	60 60 60	26129 5938 2660
31	409/28-12-20	<p>वड-76 वल्लभपुर वड से बुकना मरुड मारी का                      वड-77 वल्लभपुर वड से बुकना मरुड मारी का                      वड-78 वल्लभपुर वड से बुकना मरुड मारी का                      वड-79 वल्लभपुर वड से बुकना मरुड मारी का                      वड-80 वल्लभपुर वड से बुकना मरुड मारी का</p>	<p>61.58 (मार्च 21)                      12.29 (मार्च 21)                      10 (मार्च 21)</p>	6774 1238 650	60 60 60	6774 1238 650
						155855

(223)

1	2	3	4	5	6	7
32	2180A/ 24-10-19	915-85 काठमाण्डौ नगर प्रमुख कार्यालय काठमाण्डौ कोषाध्यक्ष काठमाण्डौ नगर प्रमुख कार्यालय कोषाध्यक्ष काठमाण्डौ नगर प्रमुख कार्यालय	733.31 (रुपैयाँ) (रुपैयाँ/रुपैयाँ) 117.98 (रुपैयाँ) (रुपैयाँ) 5-78 (रुपैयाँ/रुपैयाँ) (रुपैयाँ)	80664 7636 375	00 00 00	80664 7636 375
33	690/31-12-19	915-78 शाहीमार्ग गार्डन क्याम्पस परिसरको भवन नम्बर 1 नं. साइड परतको परिसरको कोषाध्यक्ष काठमाण्डौ	700.34 (रुपैयाँ/रुपैयाँ) 62.06 (रुपैयाँ/रुपैयाँ)	77037 4034	00 00	77037 4034
34	42/7.8.2020	915-16 मध्याह्निक सुभाष नगरको नं. 1 नं.को पहलको नं. 1 नं.को नगरको नं. 222 नं.को कोषाध्यक्ष काठमाण्डौ	64.67 (रुपैयाँ/रुपैयाँ) 15.65 (रुपैयाँ/रुपैयाँ) 62.61 (रुपैयाँ/रुपैयाँ)	4203 1565 6887	00 00 00	4203 1565 6887
35	807/31.7.21	915-29 कोषाध्यक्ष नं. 1 नं.को कोषाध्यक्ष नं. 2 नं.को कोषाध्यक्ष काठमाण्डौ	255.18 (रुपैयाँ/रुपैयाँ) 141.482 (रुपैयाँ/रुपैयाँ)	16587 155630	00 00	16587 155630
36	679/21.12.19	915 29 काठमाण्डौ कोषाध्यक्ष नं. 1 नं.को कोषाध्यक्ष काठमाण्डौ	77.09 (रुपैयाँ/रुपैयाँ) 139.65 (रुपैयाँ/रुपैयाँ)	5011 15362	00 00	5011 15362
37	264/8-9-21	915-72 कोषाध्यक्ष नं. 1 नं.को कोषाध्यक्ष नं. 2 नं.को कोषाध्यक्ष काठमाण्डौ	43.78 (रुपैयाँ/रुपैयाँ) 93.58 (रुपैयाँ/रुपैयाँ) 31.73 (रुपैयाँ/रुपैयाँ)	2846 9358 3490	00 00 00	2846 9358 3490

	2	3	4	5	6	7
38	506/27-12-19	<p>वर्ग - 10 स्तरावर साठे नाळ्याची व फाळ्याची सुसज्ज सुपरवायझिंग 216000 रु. व 100000 रु. या प्रमाणात राहते.</p>	<p>39.80 (1987) (45)</p> <p>79.20 (1987) (80)</p>	2587	60	2587
39	972/19-10-19	<p>वर्ग - 36 घड्यावर 70 दिने मंडणीची व 6 व 4 व 1 मीटर चौकट दर फाळ्यासाठी एकूण 100000 रु. या प्रमाणात राहते.</p> <p>40 चातूळी व 20 रु. या प्रमाणात राहते.</p>	<p>38.39 (1987) (80)</p> <p>6.87 (1987) (45)</p>	4225 756	60 60	4225 756
40	102/24-3-21	<p>वर्ग - 26 मी. चौ. फुटा 11 या मंडणीची व 1 व 1 मी. चौ. फुटाचे नाळी व सुपरवायझिंग 216000 रु. या प्रमाणात राहते.</p> <p>40 चातूळी व 20 रु. या प्रमाणात राहते.</p> <p>40 रु. या प्रमाणात राहते.</p>	<p>36.58 (1987) (45)</p> <p>189.25 (1987) (80)</p>	2378 20817	60 60	2378 20817
41	677/31-12-12	<p>वर्ग - 73 व 19-11 या मंडणीची व 4 व 4 मी. चौ. फुटाचे नाळी व सुपरवायझिंग 216000 रु. या प्रमाणात राहते.</p> <p>40 चातूळी व 20 रु. या प्रमाणात राहते.</p>	<p>92.7 (1987) (45)</p> <p>38.60 (1987) (80)</p>	6025 4026	60 60	6025 4026



1	2	3	4	5	6	7
4.1						
4.2	844/23-3-21	वार्ड-90 1/1999 (सोपिके हावेक वे सिपाय कें सोपिके-कमिटीकडें एडमंड मंडी सुधार कर दुवे सोर सोर सिपाय सिपाय नोवें 1991/19 के सोपिके मंडी	10.65 (4457 2457 33.69 (4457 4457 21.70 (4457 4457 345.08 (4457 4457 60.79 (4457 4457 39.15 (4457 4457)	692 3369 2387	692 3369 2387	692 3369 2387
4.3	845/23-3-21	वार्ड-94 सुपिके के सोपिके सुधार मा के सुधार सुधार मंडी के सोपिके मंडी	336.74 (4457 73.97 (4457 194.38 5.47 (4457)	37041 7397 12635 602	37041 7397 12635 602	37041 7397 12635 602
4.4	814/31-7-21	वार्ड-51 तहरट-11 में कडोपी सिपिके के सुधार मा के सुधार मा-तहरट-11 के सुधार मा-तहरट-11	103.54 (4457 148.44 (4457 24.93 (4457 1935.59 (4457)	6730 16020 2493 212915	6730 16020 2493 212915	6730 16020 2493 212915
4.5	581/17-3-21	वार्ड-76 केवारी सुधार-2 में एडमंड सिपाय के सुधार मा के सुधार मा-तहरट-11	454.05 (4457 67.64 (4457 155.2 (4457 93.02 (4457 44.02 (4457)	49945 4397 10076 9302 51260	49945 4397 10076 9302 51260	49945 4397 10076 9302 51260
4.6	1730/30-3-21	वार्ड-29 सुधार सुधार-2 में सुधार सुधार सुधार मा के सुधार मा-तहरट-11				
4.7	267/8-9-21	वार्ड-29 सुधार सुधार-2 में सुधार सुधार सुधार मा के सुधार मा-तहरट-11				
4.8	678/31-12-19	वार्ड-5 सुधार सुधार-1 के सुधार सुधार सुधार मा के सुधार मा-तहरट-11				
4.9	914/19-6-19	वार्ड-34 सुधार सुधार-1 के सुधार सुधार सुधार मा के सुधार मा-तहरट-11				

2472906

	2	3	4	5	6	7
50.	356/21-5-19	वार्ड-40 राजोड-नागाड-इंद्रप्रियम परिभा की मेनरोड डेन्स कार्य श्री. - नार्थ वार्डों में डेवलपमेंट	1236.62 (लेनबैलान्स) 141.74 (फंडिंग)	13628 9213	00 00	136028 9213
51.	518/28-9-20	लोहिया-भारत मोर्चे डी. ब्लाक में डेन्स का कार्य श्री. - ए.पी. का-ए इकठान	5654 (लेनबैलान्स) 11.34 (कर फंड) 1844 (फंडिंग)	6219 1130 1194	00 00 00	6219 1130 1194
52.	2440/25-11-20	श्री. उपवन में केन-नाले का आर्टिफिशियल सिंचित कार्य श्री. - अरुण अफरिन्डर	6516 (फंडिंग) 130.00 (कर फंड) 403.00 (लेनबैलान्स)	4430 13000 44303	00 00 00	4430 13000 44303
53.	574/17-3-21	वार्ड-43 कडकड अडुल में नाली स्वच्छताकारिता टाइटन का कार्य श्री. - शा-गुरु का-ए इकठान	97.76 (फंडिंग) 27.62 (कर फंड)	6354 3038	00 00	6354 3038
54.	368/7-10-20	वार्ड-72 कोशाबली में नाली सिंचित एवं डेन्स टाइटन का कार्य श्री. - पी.जी. रिपल का-ए इकठान	132.35 (फंडिंग) 376.45 (कर फंड) 138.85 (कर फंड) 332.25 (लेनबैलान्स)	8603 41409 13885 36547	00 00 00 00	8603 41409 13885 36547
55.	338/5-10-20	वार्ड-33 मुहल्ला नगरपुरा में सी.सी. नाली का कार्य श्री. - ए.पी.एस. विट्ठल का-ए	151.76 (फंडिंग) 294.73 (कर फंड)	9864 32420	00 00	9864 32420
56.	43/7-8-20	वार्ड-16 राज-मोहरा में नाली व डेन्स कारिगरी का कार्य श्री. - अजय प्रसाद का-ए इकठान	78.1 (फंडिंग) 162.14 (कर फंड) 87.65 (कर फंड) 131.92 (लेनबैलान्स)	5076 17835 8765 14511	00 00 00 00	5076 17835 8765 14511
56.	1379/30-7-20	वार्ड-20 सिंकारड सांगरी में डेन्स का कार्य श्री. - अजय प्रसाद का-ए इकठान	31.68 (फंडिंग) 359.90 (कर फंड) 148.93 (कर फंड)	2059 39589 14893	00 00 00	2059 39589 14893

1	2	3	4	5	6	7
57.	1325/30-7-20	बॉर्ड-24 कायना गांधी से (आरंभ) से भी निर्धारित श्री श्री-गांधी कायना	40.23 (लाइव 366.39 (कोर) 143.80 (कोर))	2615 40303 14380	00 00 00	2615 40303 14380
58.	1964/10-11-20	बॉर्ड-16 कायना-इलाहाबाद (कोर) से श्री-गांधी से श्री-आरंभ से श्री-गांधी से श्री-गांधी से श्री-गांधी से श्री-गांधी से श्री-गांधी से श्री-गांधी से	81.53 (लाइव कोर)	5299	00	5299
59.	438/13-8-20	बॉर्ड-86 कायना-गांधी से श्री-गांधी से श्री-गांधी से श्री-गांधी से श्री-गांधी से श्री-गांधी से	133.05 (लाइव कोर) 82.16 (कोर) 4.15 (कोर) 62.8.90 (लाइव कोर)	8648 9038 68959	00 00 00	8648 9038 68959
60.	36/02-8-20	बॉर्ड-91 कायना-गांधी से श्री-गांधी से श्री-गांधी से श्री-गांधी से श्री-गांधी से श्री-गांधी से	332.00 (लाइव कोर) 110.00 (कोर) 45.88 (कोर)	36520 11000 2982	00 00 00	36520 11000 2982

MMV

228

1	2	3	4	5	6	7
61	668/22-2-20	<p>14.88 (मिसेस)</p> <p>11.29 (श्री)</p> <p>74.96 (श्री)</p> <p>33.62 (श्री)</p>	<p>9672</p> <p>1242</p> <p>8246</p> <p>3362</p>	<p>9672</p> <p>1242</p> <p>8246</p> <p>3362</p>	<p>9672</p> <p>1242</p> <p>8246</p> <p>3362</p>	<p>9672</p> <p>1242</p> <p>8246</p> <p>3362</p>
62	16/3-3-20	<p>326.86 (श्री)</p> <p>81.90 (श्री)</p> <p>27.91 (श्री)</p>	<p>35954</p> <p>8190</p> <p>1814</p>	<p>35954</p> <p>8190</p> <p>1814</p>	<p>35954</p> <p>8190</p> <p>1814</p>	<p>35954</p> <p>8190</p> <p>1814</p>
63	578/12-3-21	<p>903.66 (श्री)</p> <p>225 (श्री)</p>	<p>99403</p> <p>22500</p>	<p>99403</p> <p>22500</p>	<p>99403</p> <p>22500</p>	<p>99403</p> <p>22500</p>
64	18/3-3-20	<p>76.91 (श्री)</p> <p>13.55 (श्री)</p> <p>77.09 (श्री)</p>	<p>8460</p> <p>1355</p> <p>5011</p>	<p>8460</p> <p>1355</p> <p>5011</p>	<p>8460</p> <p>1355</p> <p>5011</p>	<p>8460</p> <p>1355</p> <p>5011</p>
65	964/16-3-20	<p>44.36 (श्री)</p> <p>6.24 (श्री)</p> <p>21.16 (श्री)</p>	<p>4880</p> <p>624</p> <p>2025</p>	<p>4880</p> <p>624</p> <p>2025</p>	<p>4880</p> <p>624</p> <p>2025</p>	<p>4880</p> <p>624</p> <p>2025</p>

2.29

1	2	3	4	5	6	7
66-	323/16-7-19	वर्ग-50 वृत्त नगर विधीय ऑफ़ (इतिहासिक) कोटवाणी विलीज कोट रूरा वया विवर्द्ध	651.71 (वृत्त वर्गफुट) 24.53 (वर्ग फुट)	71688 1594	००	71688 1594
67.	696/22-2-2	वर्ग-76 वृत्त कोटवाणी नगरपालिका कोटवाणी विलीज कोट रूरा वया विवर्द्ध	20.54 (वृत्त वर्गफुट) 330 (वर्ग फुट)	2259 330	००	2259 330
68.	140/11-8-22	वर्ग-68 वृत्त विवर्द्ध नगरपालिका कोटवाणी विलीज कोट रूरा वया विवर्द्ध	18.65 (वृत्त वर्गफुट) 43.64 (वर्ग फुट)	2051 2798	००	2051 2798
69	680/22-2-22	वर्ग-84 वृत्त नगर कोटवाणी विलीज कोटवाणी विलीज कोट रूरा वया विवर्द्ध	9.99 (वृत्त वर्गफुट) 4.99 (वर्ग फुट) 23.50 (वर्ग फुट)	1099 499 2350	००	1099 499 2350
70	677/22-2-20	वर्ग-80 वृत्त नगर कोटवाणी विलीज कोटवाणी विलीज कोट रूरा वया विवर्द्ध	10.148 (वृत्त वर्गफुट) 8.60 (वर्ग फुट) 50.72 (वर्ग फुट) 3.80 (वर्ग फुट)	1163 726 3297 330	००	1163 726 3297 330



-142-

(231)

1	2.	3	4.	5.	6.	7
76	1017/22-6-19	A/c-29 अच्युत H. -3 का अच्युत अंतर्गत A/c H. अंतर्गत अंतर्गत अंतर्गत अंतर्गत	9.17 (अच्युत अंतर्गत)	1009	००	1009
77	37/4-12-19	A/c-28 अच्युत अच्युत अंतर्गत अच्युत अच्युत अच्युत अच्युत अच्युत	22.90 (अच्युत अच्युत) 14.98 (अच्युत)	1488 1648	००	1488 1648
78.	571/27-12-19	A/c-70 अच्युत अच्युत अच्युत अच्युत अच्युत अच्युत अच्युत अच्युत अच्युत	39.27 (अच्युत अच्युत) 9.63 (अच्युत) 53.47 (अच्युत अच्युत)	2553 1059 5882	००	2553 1059 5882
79.	715/22-2-20	A/c-64 अच्युत अच्युत अच्युत अच्युत अच्युत अच्युत अच्युत अच्युत अच्युत	21.08 (अच्युत अच्युत) 14.78 (अच्युत)	1370 1626	००	1370 1626
80	238/17-1-20	A/c-90 अच्युत अच्युत अच्युत अच्युत अच्युत अच्युत अच्युत अच्युत अच्युत	2991 (अच्युत अच्युत)	32890	००	32890

-148

289

	2	3	4.	5.	6.	7
1						
81	479/27-12-19	<p>75-80 एजेंडर नगर को. 3 नं. एजेंडर एमिशन</p> <p>नगर</p> <p>को. एमिशन नगर सि. एम. ए.</p>	<p>100.64 (2877/20142)</p> <p>50.32 (1717/215)</p>	<p>110.70</p> <p>32.71</p>	<p>00</p> <p>00</p>	<p>11070</p> <p>3271</p>
					योग -	3641752



निर्माण अनुभाग के कार्यों में विलम्ब शर्वाधी हेतु अर्थदंड  
न वसूलने के काब आर्थिक शक्ति का विवरण

क्र. क्रम का नाम/डेकेटा का नाम	निधि/ अनुबंध/ प्रत्यक्ष/ के अनुसा समाप्ति तिथि	प्राप्त/ के अनुसा कार्य समाप्ति तिथि	विलम्ब की शर्वाधी	अर्थदंड
1. वाड 78 लोनी रोड सर्विस रोड के विकास र स्थिति तक जल निकासी टांक RCC द्वारा नाला निर्माण कार्य में (आर.जी. विडेटे का ड्राइंग)	14 वॉ. वि. (आर.जी.) 687/31-12-19	06-9-19	10-11-19	65 9,19,000
2. वाड 78 गालीवार मार्ग का कार्य वाड 78 दया न-9 मार्ग के पास तक सड़क नाला एवं सर्विस पटरी पर रोजिंग का कार्य	14 वॉ. वि. (आर.जी.) 690/31-12-19	1-9-19	10-10-19	39 848400
3. बुजुर्गारी की मुख्य सड़क एवं लोनी रोड के पास की सड़क का सुधार कार्य में प्रेम कास्टरो	14 वॉ. वि. (आर.जी.) 802/31-7-21	4-9-19	12-2-20	161 5,00,000
4. वाड-78 राधा कठवा मार्ग एवं विजली घर (अवस्थापना) के वाड रोड पर जल निकासी टांक (आर.जी. विडेटे) द्वारा नाला निर्माण कार्य एवं सर्विस पटरी पर रोजिंग का कार्य में डेकेटा की	676/31-12-19	1-9-19	20-12-20	110 330800

5. बॉर्ड-39 मोडल्ला नैरु नगर प्रमिस 14 वॉ. 02-7-19 11400/19 110  
 शक. जी. व. रु. एच. जे. की वि. आ. 10,00,000  
 आन्तरिक सड़को का निर्माण 792/3-7-24
6. बॉर्ड-28 टर्क कम्पाउन्ड की 14 वॉ. 1-9-19 15100/19 44  
 विभिन्न फोर्मिग सड़को का वि. आ. 1988200  
 सुचारु नाली निर्माण एवं सड़को 220/ 10-2-19  
 पट्टी पर एंजिंग का काम में सड़को का काम
7. बॉर्ड 72 वैल मास से आरंभ की गई (अवस्थापना) 03-9-19 05-12-20 458  
 फेन टोपे टूर समाप्त टाटल की 264/ 14,90,000  
 एंजिंग नाली निर्माण एवं डाक्टर के 8-9-21  
 पट्टी पर सुचारु डाटमिग सुचारु नाली  
 में सुचारु जी. वि. सड़को
8. बॉर्ड-13 मरु रोड से युक्त मुख्य (अवस्थापना) 1-9-19 221200 477  
 सड़को का अवस्थापना का निर्माण 262/ 625500  
 व नाली निर्माण का काम 8-9-21  
 में सुचारु जी. वि. सड़को
9. वयुन्चय में शेल विटि रोड के (अवस्थापना) 6-9-19 25-2-21 537  
 सुचारु नाली में 0.05 की 815/ 18,10,600  
 पुलिंग से कलावती पुलिंग 31-7-24  
 में सुचारु सुचारु का काम  
 में सुचारु करस

- 10. मेरठ रोड डिप्टन चमके कोट रोड 14 वॉ. वि. 1-12-19 18-3-20 168  
 डबल पुलिका तक नाला (आण/ 3210600  
 निर्माण दि. 31-7-20  
 मं० (आर० जी० वि० डि० ए०)
- 11. वाड 07 सुवासापुरी पानी की 14 वॉ. वि. 02-7-19 16/0-20 471  
 टंकी सुवासापुरी में ब्लाक से (आण/ 8,50,000  
 सुवासापुरी पानी सुकल तक दि. 16-12-19
- 12. लोनी रोड पर डबल लाइन रोड 14 वॉ. वि. 2-8-19 30-12-19 150  
 सिन्धुपुर रोड तक सड़क के (आण/ 27-12-19 19,50,000  
 दोनो ओर जोड़ने का दि. 27-12-19  
 काम
- 13. वाड 37 80 फुट रोड पर विकास 14 वॉ. वि. 1-9-19 30-12-20 485  
 इन्कलेव को जोड़ वाला मुख्य (आण/ 408/ 1109900  
 मार्ग एवं ड्रॉइंग्स की विनियम दि. 28-12-20  
 नालियों का सुधार काम एवं  
 जल निकासी टैंक नालियों का  
 निर्माण काम
- 14. वाड-24 नाथकल गांव का सुरक्षा 14 वॉ. वि. 02-5-20 24-7-20 83  
 मार्ग का निर्माण एवं (आर० 20,00,000  
 सी० सी० नाला निर्माण का दि. 31-12-19  
 काम मं० (आर० जी० वि० डि० ए०)
- 15. गाविन्दपुरम् सन० डी० (आर० ए०) 14 वॉ. वि. 1-9-19 20-7-20 323  
 रोड पर कौनकोज की मुख्य (आण/ 688/ 9,50,000  
 सड़क का सुधार काम दि. 31-12-19  
 मं० (आर० जी० वि० डि० ए०)

10-9-20 194  
~~28-2-20~~

16. सादतनगर जिला के कोडा (अवस्थापना) 28-2-20 90050  
रामपुर स्टेशन का निर्माण 369/740-20  
कार्य  
मे० अरुण कान्त के०

17. गणेश अस्पताल के सामने (अवस्थापना) 7-7-19 21-12-19 147  
अधिका अस्पताल के सामने 3-3-20 536300  
गोचीनार तक डबल लाइन का कार्य  
कार्य संकट सुधार का कार्य

18. गाँव विन्ड पुरम अंतर्गत (अवस्थापना) 14 वॉ वि० आ०/ 1-9-19 2007-20 303  
रेड प्लान का कार्य 68 थ/ 31-12-19 9,00,000  
सड़क का सुधार कार्य  
मे० अरुण जी० विल्डेट के०

19. वड-16 ग्राम सारदा में सारदा में (अवस्थापना) 5-9-19 20-7-20 319  
के समकाल से निर्माण का कार्य 48/7-8-20 3,06,800  
समान तक सारदा में सुधार कार्य  
कार्य  
मे० अजय लाल के०

20. वड-16 सारदा में सुधार (अवस्थापना) 6-5-19 20-2-20 291  
नेता जी के समकाल से 42/7-8-20 15790  
रेजिड पटलवाण के समकाल तक  
नारी व सुधार कार्य का कार्य  
कार्य

21. वड-38 (अवस्थापना) 14 वॉ वि० आ०/ 9-3-19 30-11-19 271  
सुधार कार्य के सुधार कार्य 893/31-12-19 85390  
सुधार कार्य के सुधार कार्य  
सुधार कार्य के सुधार कार्य  
निर्माण कार्य के सुधार कार्य का कार्य

22. वार्ड - 34 ग्रहणकार में जी.पी.सी. 14 वॉ. वि. (आप) 1-9-19 30-11-19 90  
 से टेलीफोन कनेक्शन रोड तक 685/3112-19 11,000.00  
 जल निकासी टैंक (आर.पी.सी.)  
 द्वारा नाला निर्माण कार्य एवं  
 फोर्ग्रेस सड़क का निर्माण कार्य

23. कविनगर में (आर.पी.सी.) अनुस्थापना/ 8-6-19 20-7-20 467  
 फ्लोर डिक्टर से अपडेटिंग 36/28-20 6,01,900  
 तक शोषण रोड पर सीवर  
 लाइन द्वारा फोर्ग्रेस रोड का  
 पुनर्व्याप सड़क सुधार कार्य  
 में (आर.पी.सी.) बिल्टिंग

24. कलकत्ता में (आर.पी.सी.) अनुस्थापना/ 20-8-17 18-12-19 819  
 चार दीवारी की संरचना एवं 1964/10-11-20 1,68,700  
 रंगमंच का कार्य  
 में दीवारी आदि

25. राजेन्द्र नगर में सड़क प्लाजा (अनुस्थापना) 1-9-19 10-12-19 100  
 से मीनल (एपार्टमेंट) निकट 438/ 954,900  
 राजेन्द्र नगर पुलिस चौकी तक 13-8-20  
 सड़क

26. वार्ड 44 संजय कालोनी में अनुस्थापना/ 1-9-19 15-9-20 379  
 राधा कृष्ण मन्दिर से 2257/ 862,600  
 चिनामट कालोनी कोट्टर 13-11-20  
 द्वारा लाइन फोर्ग्रेस सड़क  
 का पुनर्व्याप कार्य  
 द्वारा सुधार कार्य

-151 (238)

27. वाड-20 सिव्हराड गांव में  
प्राथमिक स्कूल से बाल  
जगत सिनगर से स्कूल  
स्कूल के सामने सुरक्षा मार्ग  
नाला निर्माण आरंभी  
शुद्धता  
में अजय भारी का

14 कौ. वि. आ. / 18-8-19  
1329 /  
30-7-20

20-7-20 337  
4,73,400

28. आलसार गाडन की ब्लॉक में  
नव निर्माण सुडका की साईड पट्टी  
पर इंटर लोकिंग टर्मिनस का  
कार्य

अवस्थापना /  
794 / 23-7-20

19-19 10-6-20 283  
576300

29. विहारपुर मालिन बस्ती की  
विभिन्न गलियां में नाली व  
टर्मिनस का कार्य  
में जुवेर कान्सा

14 कौ. वि. आ. /  
526 / 31-12-20

08-7-19 19-10-20 468  
420,000

30. काविकनगर में सी. ब्लॉक की  
सुडका का टर्मिनस द्वारा  
कार्य  
में आरंजी विड टैंक

अवस्थापना /  
652 / 10-6-19

4-9-19 20-7-20 320  
495700

31. आलसार गाडन सुवस्य-2 में  
ब्लॉक का मुख्य पाइपलाइन मार्ग का  
सुधार एवं जिल नि कासी  
आरंभी सी द्वारा नाली निर्माण  
कार्य

अवस्थापना /  
437 / 13-8-20

1-9-19 25-6-20 298  
10,00,000

32. राजेन्द्र नगर में (आवाज 14 वॉ. वि० प्रदीप से गंगा बंधकट (आ०/ डालू को जोड़ने वाला मुख्य 804/ मार्ग एवं एक साईड साप्पा 23-7-20 निर्माण कार्य में सेटम चंड कान्टेंट ०	1-9-19	20-3-20	201	
3. गडगपुरी में विरिन्द से लेखराज सिंगल कोस/ के सैकान व अन्य गाली में 1065/ नाली व ड्रिडर लोकरा टारप्स 26-2-20 निर्माण का कार्य में सेटम चंड कान्टेंट ०	6-9-19	30-10-19	54	
कंजकटार की-ब्लाक में सामलीला मैदान के सामान की सड़क का उस टाय सुधार कार्य में सेटम चंड कान्टेंट ०	निगम निधि/ 393/19-7-20	28-7-19	03-10-19	67
वार्ड 17 साईड नगर जोषण कामालय प्रियम नगर निगम सटाक कपाट सं-16 की सरस्मान व रंगारि-पुतारि का	निगम निधि/ 443/24-12-19	24-9-19	20-10-19	26
वार्ड-83 अमामपाक एवं स. में राजेन्द्रनगर से-3 ब्लाक व. में सुगरी पाक में पाक के न्यार तरफ ड्रिडर लोकरा टारप्स का कार्य एवं पाक में (वास्तु एवं रंगारि-पुतारि का कार्य में सेटम चंड कान्टेंट ०	निगम निधि/ 734/22-2-20	10-8-19	20-8-19	10
			52160	
			50348	

-156-

(246)

- 37. वार्ड-83 अमरावती पार्क में  
रजिस्ट्रार कार्यालय नगर क्षेत्र 002 721/ 18-8-19 30-8-19 12  
में मोटेन्द्रा जामोले पार्क के 22-2-20 110660  
चौथा तरफ इंटरलॉकिंग  
टर्मिनस का कार्य  
में अमरावती पार्क
- 38. वार्ड-62 गोविन्दपुरम में निगम निधि/ 24-7-19 16-8-19 23  
रजि-252 के पास इंटरलॉकिंग 672/ 41,275  
टर्मिनस का कार्य 22-2-20  
में अमरावती पार्क
- 39. वार्ड-83 अमरावती पार्क रजिस्ट्रार कार्यालय में निगम निधि/ 18-9-19 25-9-19 7  
रजिस्ट्रार कार्यालय क्षेत्र 003 ब्लाक 10 165/ 62998  
में विकास-5 पार्क के इकाई मूल्या 11-8-20  
पार्क की साईड पट्टी पर इंटरलॉकिंग  
टर्मिनस एवं वाइल्ड/वाल्ड पर प्लान्टिंग  
में अमरावती पार्क का कार्य
- 40. वार्ड-60 राजेंद्र नगर ओठ रोड में निगम निधि/732/ 17-9-18 5-4-19 200  
के मोटेन्द्रा जामोले पार्क में नाली 22-2-20 151480  
के इंटरलॉकिंग टर्मिनस का  
कार्य में अमरावती पार्क
- 41. वार्ड-37 शालीमार गार्डन में नाली निगम निधि/316/ 9-8-19 15-9-19 36  
के इंटरलॉकिंग टर्मिनस का 6.8.20 90970  
कार्य  
में अमरावती पार्क



2. वा. - 29 लुटी में - डी डिप्लोम 415200 7.1.19 25.2.19 49 41520  
 लाली में से अधिक पुस्तिका में  
 निम्नलिखित में गणितों का निम्नलिखित  
 में आमाश इत्यादि

43. वाड-83 उद्योगिक संस्थान 1,54,000 10.1.19 25.2.19 46 154000  
 में मंडलार अथवा के लोके  
 पर कुछ विलोपित कर का  
 निम्नलिखित का

44. वाड-91 कोविन्दार रामलीला 3,67,215 30-10-19 24-11-19 25 36721  
 में वाम में राग आपाति एवं  
 फलान का काम  
 में विकास का काम

45. वाड-9 नगर पंचम में जी 4,84,200 29-6-19 30-7-19 31 484200  
 वलाक में लाली व  
 सुन्दरलालिका अथवा का  
 काम  
 में नगर सुन्दरप्रतिष्ठा

46. वाड-07 बिहारपुर में 2,330,800 29-9-19 04-11-19 36 2330800  
 लाली व सुन्दरलालिका अथवा  
 का काम  
 में आमाश का काम

47. वाड-75 व 80 में विभिन्न 4,44,300 11-1-19 31-3-19 79 444300  
 प्रकारों में कर्मचारी पेट  
 विकास, वाड विकास का  
 काम  
 में विकास अथवा विकास

योग 3,09,71,682

निर्माण विभाग के विलों में 1% अतिरिक्त लेव सेस जोड़े जाने के कारण अधिक / अनिश्चित भुगतान का विवरण

क्र. कार्य का नाम / ठेकेदार का नाम	निधि / विल की व्यवस्थापन सं. धनराशि	अन्तिम विल में जोड़ी गई लेव सेस की धनराशि	
1. वार्ड 78 लोनी रोड सर्विस रोड से बीकानेर स्वीक्स तक जल निकासी टैंक (आर. सी. सी. द्वारा नाला निर्माण कार्य) में (आर. सी. वि. डि. के. इंजी. सि.)	14 वॉ. वि. (आर. सी. 687/31-12-19	<del>3066822</del> 6194886	61949200
2. वार्ड-78 दयानन्द पार्क के चारों तरफ सड़क नाली एवं सड़क पट्टी पर स्टींग का कार्य में (आर. सी. वि. डि. के. इंजी. सि.)	14 वॉ. वि. (आर. सी. 670/31-12-19	5350530	535055
3. वार्ड-13 कान्हा काम के सामने (आर. सी. सी. नाला निर्माण कार्य)	14 वॉ. वि. (आर. सी. 1130/24-9-19	2986434	29864
4. वार्ड 37 दामोदर वोटिंग मशीन वाउचर का निर्माण कार्य में (जुवेर कन्स. के.)	14 वॉ. वि. (आर. सी. 628/27-12-19	1286465	12865
5. वार्ड 78 राम्या कुठ्ठा मार्ग एवं बिजली घर वाले रोड पर जल निकासी टैंक R.C.C. द्वारा नाला निर्माण एवं सड़क पट्टी पर स्टींग का कार्य में (मै. के. सि.)	(अवस्थापना) सि. 676/31-12-19	3066822	23608

160  
243

6. वाड-39 मोहल्ला-नेहरु पार्क 14 वॉ  
समीप रूच जी०, रूच वृक्षों के (आ) 6456/50 6456/1  
की (आ) निर्माण संकेत का निर्माण 792/37-2

कार्य में 05 के 2000 इन्फ्रास्ट्रक्चर  
7. वाड-94 सुबेगमर के 3 ब्लॉक में (अवस्थापना) 66115/31 66115-31  
सीकर लॉन्च से प्रोपेगन्डा संकेत 705/157-2  
का निर्माण कार्य में (अवस्थापना) 118475/02 118475

8. वसुन्धरा में रेलवे स्टेशन के (अवस्थापना) 815/37-2  
समाचार के 05 की प्रोपेगन्डा  
प्रोपेगन्डा से कलावती प्रोपेगन्डा  
संकेत संकेत संकेत कार्य में (अवस्थापना) 14 वॉ (आ) 80695/46 80695

9. वाड-80 लोनी रोड समीप (आ) 988/16-3-20  
से एक ब्लॉक आड्ड के प्रोपेगन्डा  
कॉसिंग तक जल निकासी प्रोपेगन्डा  
द्वारा RCL द्वारा नाला निर्माण

10. वाड-62 गान्धिनगर में (आ) 217889/97 217889  
नौचरी चरण सिद्धि विजली घर प्रोपेगन्डा  
से और इन्फ्रास्ट्रक्चर तक इन्फ्रास्ट्रक्चर  
द्वारा संकेत संकेत कार्य में (आ) 845/28-10-20  
निर्माण कार्य में (आ) 14 वॉ (आ) 80695/46 80695

11. वाड-30 गोविन्दपुरम जी ब्लॉक (अवस्थापना) 2912582 29125  
 से जी-619 से जी-597 1472  
 RCC ताली व ड्रिन्स कार्य 24-3-20  
 सुधार कार्य  
 सि० आर० जी० वि० डि०

12. मरह रोड से सिदानी गांव को (अवस्थापना) 4444221 44442  
 जोन वाली रोड भी विना  
 लम्बाई के समान गल सड़क 58/20-11-19  
 सुधार व ताला निर्माण कार्य  
 सि० आर० जी० वि० डि०

13. वाड-42 में कृष्णा विहार 14 वॉ वि० (आ) 2569672 25697  
 मान सिंघवर याक से जी० थी 846/28-10-20  
 रोड तक ताला निर्माण

14. लोनी रोड पर रमर कोस चौराहा 14 वॉ वि० (आ) 10166816 101668  
 से सिंघवर पर रोड तक सड़क 634/14-5-20  
 के दो ओर मानव निर्माण का  
 कार्य

15. वाड-24 नाभकल गांव का 14 वॉ वि० (आ) 12599280 125992  
 मुख्य मार्ग का निर्माण 1361/3-7-20  
 सि० आर० जी० वि० डि०

16. वाड-62 गोविन्दपुरम रत०डी 14 वॉ वि० (आ) 5643794 56437  
 (आर० सड़क रोड पर कभन 1336/30-7-20  
 बंधन की सड़क का  
 सुधार कार्य  
 सि० आर० जी० वि० डि०

-162-

(245)

राज्य (अस्पताल) के सामने (अवस्थापना) 3735657 37356  
 असावा (अस्पताल) को 17/3-3-20  
 गांधीनगर तक पुस्तक पाठ  
 द्वारा सुझाव सुचार

3. बडि-36 सुपर टट स्ट्रिट (अवस्थापना) 768141 7681  
 पुं-9 की सुझाव का निर्माण 517/28-7-20

19. बडि-62 गांधीनगर परम सुचार 14 वॉ. वि. अ. 5643794 56437  
 डी. डोर रक्षा सुचार 1336/30-7-20  
 का निर्माण का सुझाव

20. बडि-16 गाम मारवा से सुचार (अवस्थापना) 2146260 21462  
 के सकार से माली के सकार 43/7-8-20  
 मक नाली व पुस्तकालय का सुझाव

21. बडि-16 मारवा से सुचार नाली (अवस्थापना) 1085598 10856  
 के सकार से राजम पहरावा के 42/7-8-20  
 सकार मक नाली व पुस्तकालय का सुझाव

22. जी. डी. रोड से सुचार पुलिया 14 वॉ. वि. 30860448 308055  
 के बीच नाली की रिपोर्ट का अ. स. 2  
 वाला सुचार पुलिया का निर्माण

- 23. वार्ड-38 (अर्पला के ~~के~~ <sup>14 वॉ</sup> <sup>वि. अण</sup> <sup>5751657</sup> <sup>57516</sup>  
 आनन्द सेना के अर्पला गांव वि. अण  
 के मुख्य मार्ग के अण्डर पास 693/31-2-19  
 तक फौजिस्त सड़क का सुचार  
 कार्य
- 24. वार्ड-34 अडीद नगर में जी० 14 वॉ वि. अण 7778359 77783  
 डी० रोड से डी० रोड तक सुचार  
 रोड तक जल निकासी टांक (आर०  
 सी० सी० द्वारा नाला निर्माण  
 कार्य एवं फौजिस्त सड़क का
- 25. काबिनगर में रामलीला मैदान के (अवस्थापना) 2974823 29748  
 मुख्य द्वार से आसानी नगर चौक 38/7-8-20  
 तक डबल लाइन सड़क सुचार  
 कार्य
- 26. काबिनगर में (आर० डी० सी०) (अवस्थापना) 3866735 38667  
 प्लाट (आर०) से डबल लाइन तक 36/2-8-20  
 सी० वर लाइन द्वारा फौजिस्त सड़क  
 सुचार का कार्य
- 27. बसाना गांव में नेपाल सिटि के 14 वॉ वि० 3198462 31984  
 नलकाप से दिवा पब्लिक स्कूल (आण  
 डी० डी० नामक में नाला तक 1325/  
 (आर० सी० सी०) नाला निर्माण कार्य 30-7-20  
 में आना कन्स का
- 28. राजेड नगर में सुपर टैक प्लाजा (अवस्थापना) 6222046 62220  
 से सी० वल (सुमाटेमन्ट) सि० 2 438/13-8-20  
 राजेड नगर पोलिस चौकी तक  
 सड़क एवं बिलानिकासी टांक  
 नाला निर्माण  
 में (आर० जी०) वि० डी० सुधी

7. कड-44 अजय कालानि में (अवस्थापना) 5378 686 53786  
 राधा कृष्ण मालिक के लिए 2257/  
 नितामूर कालानि डी.ए.ए. 12-11-20

रेखेन लामन तक फोर्गसस  
 सड़क का इन्टरलॉकिंग आरम्भ  
 डाय सुन्दार कामे

मं. अजय त्वाणी कालानि  
 30. कड-20 सिक्केड गांव के फोर्गसस 14 बॉक्स 3694646  
 (आ.)  
 जगत के काल जगत सिन्धर 1329/  
 30-7-20

मं. अजय त्वाणी के सामने मुख्य  
 सड़क पर जगत के सामने मुख्य  
 सामने तक नाला निर्माण (आरंभ) 3760716 37607  
 मी. इ. डाय

मं. अजय त्वाणी में (अवस्थापना)  
 31. आलीमार साइन की ब्लाक में 794/237-20 2657727 26577  
 नवनिर्मित सड़क की रोड पटरी

मं. मलिक कन्सल्ट  
 32. बिहारिया मलिन कस्बा की 14 बॉक्स/ 2657727 26577  
 विविध मालिकों में नाली 526/3-12-20  
 व आरम्भ का काम

मं. जुकर कन्सल्ट  
 33. कपितनार में श्री ब्लाक की (अवस्थापना) 3115003 31150  
 सड़क का इन्टरलॉकिंग सड़क 652/10-6-79

सुन्दार कामे  
 मं. आर.जी. विस्टेक

33. आलीमार गाडन स्कुम 2रु  
 क्लॉक का मुख्य साग  
 दोनगसा साग का मुख्य सुधार  
 एवं जल मिनासी टा  
 आर सी. सी. द्वारा नाली निर्माण  
 काम एवं सॉफिस लेन व नाली  
 व इंटर लॉकिंग टर्मिनस का  
 काम  
 437/13-8-20 6515946 65159

35. राजेन्द्र नगर (सुगवाल स्कीट) से  
 रांगा बेंकट डाल के जाने वाला  
 मुख्य एवं सॉफिस का काम  
 निर्माण काम  
 141 का विधि / 804/23-7-20 4311765 43118

36. आलीमार गाडन राजेधपुरी में  
 क्लॉक से आसिमात कान्हा वाली  
 गाली में नाली व इंटर लॉकिंग  
 टर्मिनस का काम  
 निर्माण काम / 520/14-8-20 615226 6152

37. राजेधपुरी में विरेन्द्र से लखरजा के  
 सफाण व सुन्त गाली में नाली  
 व इंटर लॉकिंग टर्मिनस निर्माण  
 का काम  
 निर्माण काम / 1065/26-2-20 330788 3308

38. बज बिहार की क्लॉक में रामलीला निर्माण निर्माण /  
 सफाण की सड़क का मुख्य सुधार 398/19-9-20 751622 7516

39. सुपथा गाली नं. 8 व गाली नं. 11 में  
 नाली व इंटर लॉकिंग काम  
 का काम निर्माण निर्माण / 37/4-12-19 425922 4259



-166- (249)

40. जनकपुरी में मुआम खन्कलव निगम निधि/  
से नौं 16 सुरेश कुमार के 571/  
सकान से नौं -120 के नौं के 29-12-19  
मुआ के सकान तक नाही  
सरसमान एवं इन्टरलॉकिंग टाइम्स  
का काम  
के विजेन्द्र सिंह

666036 6860

41. गरिमा गार्डन के डे ब्लाक में निगम निधि/  
वाक्यम वाली, इनुसान वाली एवं 715/22-2-20  
एयर एवं सिटिंग वाली कन्सी  
गोविमा में नाही न इन्टरलॉकिंग  
टाइम्स का काम

568299 5682

42. उड़ी/दनगर में दाताम पाषण्ड के निगम निधि/  
आसन वाली गैड यर सिटी 238/17-1-20  
सराव, पाषण्ड का काम  
के सौलिक कन्स

732024 7320

43. गरिमा गार्डन में सुजीत तामर निगम निधि/  
नौं - 26-27 से सांगे लाल के 36/4-12-19  
40 मुक नाही एवं इन्टरलॉकिंग  
टाइम्स का काम  
के राज सुन्दर पाण्डे

570310 5703#00

44. बार्ड-8, दीनागढ़ी में पुल के दोनों ओर अवस्थापना  
व पी. इन्टर. डी. ऑफिस में फाटक तक 900/19.6.19  
सड़क खुदाई कार्य  
में. आ. जी. विल्डटोक

3374800 31527

45. वाड-17 सोहननगर ज्वानव निगम निमित्त / 394299 3943  
 कामीलम स्थित स्टाफ 443/  
 क्वार्टर सं-16 की परम्परा 24-12-19  
 एवं रंगारि-पुतार का काम  
 में सुका सप्लाय इन्जी०

46. वाड-72 कोआम्बे एवं वी० निगम निमित्त / 1058873 10558  
 में इंसुलेशन सप्लाय सुधार 543/27-12-19  
 का काम

47. वाड-61 वसुन्धरा सं-6 कागलिक निगम निमित्त / 681231 6812  
 साइडिंग के सामने रोड का ड्रिग 565/27-12-19  
 द्वारा एवं सप्लाय पट्टी का इन्टर लोकिंग  
 का काम  
 में सुरक्षा कन्सप० के०

48. वाड-77 वेआली सं-5 में रोड निगम निमित्त / 595591 5951  
 रंगारि के सामने रोड 4/443 496/  
 लक दोपहरा सप्लाय का ड्रिग 27-12-19  
 द्वारा सुधार का काम  
 में सुरक्षा कन्सप०

49. वाड-83 उमापानक एवं वंजान निगम निमित्त / 445561 4458  
 में रीजनल नगर सं-3 क्लॉक टॉवर 734/22-2-70  
 सुगरी पानक के द्वारा तराक  
 इन्टर लोकिंग टर्मिनस का काम  
 एवं पानक के प्लारिटर एवं  
 रंगारि-पुतार का काम  
 में सप्लाय व-4 कास्टे०

50. वार्ड-73 आलीसार वार्डन पाषण्डोमि/ 370472 3705  
रुकस-2 में सादी चौक 708/  
से अर्थनगर नाल तक डोगावास 28-1-20  
सड़क पर डूबलौकिंग टाइप  
का काम

51. वार्ड-83 मुआमपाक रुकस. निगम सिविल/ 752965 7529  
के राजखनगर से 02 से 721/  
मोडला जागात पाल का 22-2-20  
साथारक डूबलौकिंग टाइप  
का काम

52. मोहन नगर जोन के सिविल निगम सिविल/ 651211 6512  
स्पाना पर पासी की लाइन 475/27-12-19  
सीवर लाइन कनवयन से डोगावास  
के देवा मडल की मरम्मत का  
काम

53. आलीसार वार्डन रुकस-2 से निगम सिविल/ 1210558 12105  
व्याक में सी० 7 तक सी० 82 1044/26-7-20  
से सी० 72 तक नाली व डूबलौकिंग  
टाइप का काम

54. वार्ड-43 क.ड. मडल से निगम सिविल/ 628095 6280  
रुकस की नाली में सी० सी० 469/  
टाइप सड़क व नाली निर्माण 27-12-19  
का काम  
से नाली डूबलौकिंग

55 वाड-56 चिरंजीव विहार में निगम निधि/ 476335 4763  
 04/74 से 04/61 तक डन्स 648/  
 द्वारा सड़क का सुधार काम 22-2-20  
 में स. स. स. स. का काम

56 वाड-62 गौविन्दपुरा में सड़क - निगम निधि/ 248866 2848  
 252 के सामने डन्स का काम 92/  
 द्वारा सड़क का काम 22-2-20  
 में स. स. स. स. का काम

57 वाड-84 राजनगर में निगम निधि/ ~~111111~~ 9678  
 0 पेट्रोल पम्प से 01/89 680/  
 अनुमान के तहत डन्स द्वारा 22-2-20  
 सड़क सुधार काम  
 में स. स. स. स. का काम

~~58 स. स. स. टी. पी. टी. में सड़क/ निगम निधि/ 983634 9837  
 में स. स. स. स. का काम 376/  
 21-2-19~~

~~59 स. स. स. टी. पी. टी. में सड़क/ निगम निधि/ 431889 4319  
 में स. स. स. स. का काम 377/  
 21-2-19~~

~~60 निगम निधि/ 431889 4319  
 378/  
 21-2-19~~

~~61 निगम निधि/ 356284 3563  
 379/ 21-2-19~~

58.

वार्ड-76 केमाली से 2 सी में निगम निधि/ 372133 3721  
 आशी/बाद अयाटिमेन्ट का 8961  
 मोटोरिस्टा सेक्टर का इंस्टॉलर 22-2-20  
 सुधार काम  
 में उमम कन्स

59.

वार्ड-62 गणेश कोटका से नरपलाय निगम निधि/ 403291 4033  
 के सक्का से सतीष के सक्का 704/  
 मक इंटरलॉकिंग टर्मिनल का 22-2-20  
 काम  
 में जे.एस.एस. कन्स

60.

वार्ड-83 ज्ञानपाठ सक्का से निगम निधि/ 899784 89000  
 राजनगर से 3 ब्लॉक 10 के 165/  
 विवेकानंद पाठ उर्फ मुल्ला पाठ 11-8-20  
 की साईड पटरी पर इंटरलॉकिंग  
 टर्मिनल एवं वाइल्डिंग पर एयरर  
 एवं इंगार्डिंग पूरा का काम  
 में साम्बिन कुमार कांस्टेबल

61-

वार्ड-60 रावेड गल ओठ से निगम निधि/732 1076317 10763  
 के मोहिनी गार्ड में नाली व  
 इंटरलॉकिंग टर्मिनल का कार्य  
 में महेश चंद्र आर्य

62. सोनी रोड पर गुफा बाड़ जे मोपुरा पूर्य रक डिवाइस पा रंगई पुर्वाई सा रक जे प्रदीप गुमा	निगम निधि/747/ 22-2-20	322631	3226
63- कार्ड-7 बिहारीपुरा में 11ली व 22लाकिंग टाइटन सा रक जे राधुमान प्रशोषित	निगम निधि/145/ 11820	893479	8935
64- कार्ड-2 राहुल बिहार गुम ए-एलाउ गली में वाली व 22लाकिंग टाइटन सा रक जे गिरिल प्रशोषित	निगम निधि/337/ 13.8.20	633121	6331
65- कार्ड-61 अमुकरा 10ए में लाइव पक्षी सा 22लाकिंग टाइटन सा गुम सा रक जे शिवाजी अहिर	निगम निधि/757/ 22-2-20	1279592	12796
66- कार्ड-5 राजन बिहार में नकी व 22लाकिंग जे सुभाष अहिर	निगम निधि/784/ 22.2.20	534097	5340
67- कार्ड-29 अरुती में - पू डिपेंड आलेगी में शिवाजी पुर्वाई सा निगम एवं गांधी सा अहिर जे आशा अहिर	निगम निधि/1125/ 26.5.20	285230	2852

68-	वाई-50 मूर नगा में गाली व इस्लामिक टावर व अरब में विभिन्न अरब	305723	3057
69-	वाई-27 मैदरोली में गाली व इस्लामिक टावर व अरब में विभिन्न अरब	375382	3757
70	वाई-54 हीथ 9 में विभिन्न स्थानों पर अरब नामों व अरब में प्रेस अरब	570024	5700
71-	वाई-28 खलीफ खलीफ में अरबी हस्त कालीग्राफी द्वारा मुद्रित अरब	1102668	11026
72-	वाई-77 देशीली के प्रेस द्वारा मुद्रित अरब में प्रेस पर प्रेस	1591405	15914
73-	वाई-56 सिरीलीय लिखा में मुद्रित व प्रेस द्वारा मुद्रित अरब में उपरी लिखे आदि	921489	9214
74-	वाई-24 अनाग में गाली व इस्लामिक टावर व अरब में अरब	691272	6912

75. वाड-67 संजय नगर में  
 आरंभ ही ही नाला एवं पुष्पिका  
 में सर्व  
 में बलापी अन्त

352158      3521

76. वाड-97 चंडी नगर में  
 हड्ड नाला का ड्रेजिंग  
 द्वारा पुष्पिका सर्व  
 में बलापी अन्त

1148965      11490

77. वाड-83 जयसमय नगर  
 में नाली मरम्मत व  
 पुष्पिका का ड्रेजिंग कार्य

662997      6630

78. वाड-70 के सिटी रोड  
 में नाली मरम्मत एवं  
 पुष्पिका का ड्रेजिंग कार्य

704620      7046

79. नन्दग्राम में नाली व पुष्पिका का  
 ड्रेजिंग कार्य  
 में जमन सिंह नान्द

699015      6990

80. वाड-91 कविनगर रामलीला  
 में नाली व पुष्पिका का  
 ड्रेजिंग कार्य

229424      2294

81. वाड-34 ग्राह्यनगर पुष्पिका  
 में नाली व पुष्पिका का  
 ड्रेजिंग कार्य

305827      3058



-174- (257)  
1524056

82. वाड - 04 विठारी पुर में  
बाली व इंटरलॉकिंग  
टारिफ का काम  
में एम.एस.एस. कन्स्ट्रक्शन

15241

83. वाड - 37 मालीमार साईन में  
बाली व इंटरलॉकिंग टारिफ  
का काम  
में एम.एस.एस. कन्स्ट्रक्शन

621314

6213

84. वाड - 41 मुल्कापुर में दो सीधे  
का मुकालम बनाने का  
काम के अलावा सप्लाई इंजीनियरिंग

152841

152841

85. वाड - 80 राज-5 नगर में  
टारिफ लाने का काम  
में एस.एस.एस. कन्स्ट्रक्शन

921309

9213

86. वाड - 65 विवेका चन्द नगर में  
सं. नं. - 526 के सामने  
इंटरलॉकिंग टारिफ का काम  
में एस.एस.एस. कन्स्ट्रक्शन

750782

7508

87. वाड - 41 टोटी मजिस्ट्रेट  
की आन्तरिक बालिंग का  
निर्माण काम  
में एस.एस.एस. कन्स्ट्रक्शन

741315

7413

88. वाड 47 महेन्द्रा सन्कलव में 1713784 17138  
 (आर सी सी नाली व  
 इन्टरलॉकिंग टाइल्स का काम  
 में दीपक साठनी

89. वाड -13 बुकसा में नाली 1070675 10706  
 व इन्टरलॉकिंग टाइल्स  
 का काम  
 में अराव को

90. वाड 75 व वाड 80 में विभिन्न 360395 3604  
 प्रकार के सिपॉस्ट फिटिंगना  
 को काम  
 में लाल साठनी का काम  
 में बलावल इन्जी. एड को.

91. वाड नं. 1 में किमथन नगर 383797 3838  
 काय. खेरासीनगर में नाली  
 नं. 3 में नाली व इन्टरलॉकिंग  
 टाइल्स का काम  
 में सारम प्रकाश आदर

92. वाड नं. -1 मीम नगर में नाली 605301 6053  
 व इन्टरलॉकिंग का काम  
 में नुवेर कन्स को

93. वाड -7 किटारी पूरा में नाली 2428884 24288  
 इन्टरलॉकिंग टाइल्स का काम  
 में नुवेर कन्स को

94. वाड-62 बसंटा में नाली व  
गुन्डरलोकिया टारिज्य का  
कार्य  
में उजम ल्यागी कास्टे

1182738

11827

95. वाड-77 में वेमाली कुं 4 में  
रोड का डबल पास गुन्डर  
कार्य  
में 570 के एच. गुन्डर

1355/68

13552

96. वाड-86 राजेन्द्र में मिमाष  
एवं पोली की सुरवात हॉ  
जाली लिंगा का काम  
में जुकर कास्टे

444951

4450

97. वाड-80 राजेन्द्र नगर के विमिल  
प्लानों में फल रिपयर का  
कार्य  
में जुकर कास्टे

390934

3909

98. वाड-86 राजेन्द्र नगर के शी  
मुआमया के प्रकभार के  
पार्सी डोर हट का मिमाष  
कार्य  
में जुकर कास्टे

340134

3401

योग = 28,55,060

कार्ड का नाम / ठेकेदार का नाम	अपन प्रमाण सं०	मिल सी धनराशि	अन्तिम बिल नं०
7- कार्ड 72 लालपुरी अपार्टमेंट के पास इंटरनेशनल क्वार्टर सीट के सामने विद्युत इलाका कार के नाम से कार्ड नं० 3200000000	08/4-2-20	173248	जोड़ी गई लेबर सेम सी धनराशि <hr/> 1732
100- कार्ड 54 वायुमयरी सं०-5 गेट नं०-4 भू नं० 14689141 रोड के दोनों साइड इन्फ्लेमिड टाइल डिक साइड पट्टी का लुपटा कार्ड नं० 2110000000	828/22-220	222485	2225
71- कार्ड 75 लालपुरी गाँव C ब्लॉक में गीत ब्लॉक के सामने कार्ड का कार्ड नं० 3000000000	1048/26-2-20	317620	3176
72- कार्ड 16 मोरया गाँव में विभिन्न गलियों में नाली व इन्फ्लेमिड टाइल का कार्ड	731/22-221	1236057	12360

-128-  
261

- 3- आई-25 अम्बेडकर नगर में  
राही इन्फान्ट मिल सामुदायिक  
शौचालय में पीढ़े आरंभिकी  
नाला निष्पत्ति कार्य  
में ग्लोबल इन्फो
- 11/4-2-20 387007 3870
- 104- आई नं. 48 मिर्जापुर में टोपी  
में शौचालय कली व जाहिर  
में शौचालय कली से टोपी  
उभेद में प्रश्न कर गली  
व इन्फ्लामेटरी टाइलस में निष्पत्ति  
कार्य  
में ग्लोबल इन्फो
- 12/4-2-20 303947 3039
- 105- अम्बेडकर जॉन स्मिथ यज्ञ  
ली/पी/पी शौचालयों में  
दिशा प्रश्न जोड़ पाईएन  
लगाने का कार्य  
में ग्लोबल इन्फो
- 14/4-2-20 220934 2209
- 106- आई-26 गडपुडी में बिरेड  
में लेबराल के प्रश्न व  
अन्य गली में गली व  
इन्फ्लामेटरी टाइलस निष्पत्ति  
का कार्य
- 1065/26.2.20 332217 3322

107-	वार्ड 56 पिरंजीक विहार में हं-05 मकान नं-96 में 127 तम डी-स डका (नं. 5) का सुधार	558/27-12-19	52585	5289
108-	वार्ड-56 मानसी विहार में मन्दिर में मकान हं-125 हं-01 में मकान हं 167 पार्क में मकान हं-80 तम हं 15 मकान का कार्य	563/27-12-19	691878.52	6918.78
109-	वार्ड-75 लाजपतनगर C ब्लॉक में C-54 में शनि मन्दिर तम हं C-89 में शनि मन्दिर येड तम हं C-12 में C-104 तम विभिन्न गलियां में सुधार कार्य करना का कार्य	1047/26.2.20	188998	18899
110-	वार्ड-72 कौशाणी में नाला निर्माण एवं सड़क सुधार कार्य	360/7.10.20	8913667	89137
<del>वार्ड 56 मानसी विहार में मन्दिर सुधार 521/...</del>				
111-	वृजनगरी की मुख्य सड़क का सुधार कार्य	802/31.7.21	3652337	36523
112-	वार्ड-51 सेंकर-11 में कर्मवीर मन्दिर से प्रताप विद्या तक सड़क सुधार कार्य	581/17.3.21	4138615	41,386
113-	वार्ड-28 र्पा कम्पाउन्ड में नाली निर्माण व सड़क परती	1126/24.9.19	6098562	60985

263

-180-

1- वार्ड- 85 लाजपतसिंगा में सड़क सुधार कार्य	2180 A/24.10.19	5836537	58365
5- वार्ड- 97 रामप्रसाध कालोनी में सुसे द्वारा सड़क सुधार कार्य	53/4.9.19	6843913	68439
16- मेरठ रोड इण्ड. एरिया में सड़क विगण	902/19.6.19	4891518	48915
12- वार्ड- 96 होली चाइल्ड से नासिडुर फाटक तक सड़क विगण कार्य	16/3.3.20	6139711	61397
		कुल योग	<u>33,83,247</u>

चिमांग विभाग में विभिन्न कार्यों में इंटरलॉकिंग टाइल्स का  
लैब से बिना परीक्षण कापे भुगतान का विवरण

कार्य का नाम / ठेकेदार का नाम / विधि	इंटरलॉकिंग का कार्य, व्याप प्रमाणन सं. / दिनांक	इंटरलॉकिंग के कार्य की मात्रा	इंटरलॉकिंग कार्य हेतु किया गया भुगतान
1. गुड्डपुरी में चिमांग से लेबरज के सफाई व हान्य गली में नाली व इंटरलॉकिंग टाइल्स चिमांग का कार्य मे. (अमित कुमार चौधरी)	1065 / 26-2-20	225.65 कमी	162468
2. जायकपुरी में अमल खण्ड में पी-14 सुरमा कुमार के सफाई से 2-120 के नाली के सफाई एवं इंटरलॉकिंग का कार्य मे. विजय सिंह	5711 / 27-12-19	594.16	427795 = 2
3. वाड-61 वसुन्धरा से 6 वातावाक साइट के साफाई का कार्य द्वारा सफाई पट्टी का इंटरलॉकिंग का कार्य मे. अरुण कान्हा		422	303840



4. वाड-83 नुमासपाळ रक्कसदेवना के 734/ 444 328260  
 राजनगर से. 3 क्लॉक 9 से 22-2-20  
 (अंगुरी पाळ के चारो तरफ)  
 मुन्डरलाकिरा टारफ का काम  
 रंग पाळ के ब्यास्टर रंग रंगार  
 पुता के काम  
 से. 0 सटम चंद कास्टे 0
5. वाड-54 वसुन्धरा से. 5 सेट-4 828/ 207 149688  
 सक्काच से. -1468 वाली रोड के 22-2-20  
 वानो साठ्ड पटरी का मुन्डर  
 काम  
 से. 0 आठुम्परी कन्सो
6. वाड-83 नुमासपाळ रक्कसदेवना से 721/ 1099 791,445  
 राजनगर से. 2 से. सेट. ला 22-2-20  
 (जामोत पाळ के चारो तरफ)  
 मुन्डरलाकिरा टारफ का काम  
 से. 0 अन्नु कन्सो
7. वाड-43 काडकाड सोडल से 469/ 454 327168  
 से. 0 लोचन से से. 0 से. 0 27-12-19  
 रक्कसदेवना वाली मिमिष टारफ सडक व  
 काम (अन्नु डबलपरी)  
 से. 0 नाथे डबलपरी
8. वाड-48 से. 0 मिजापुर से. 0 से. 0 12/ 225.51 198674  
 से. 0 लोचन अन्नी वाली बड्डर 4-2-20  
 लोचन काम  
 से. 0 लोचन मुन्डी रक्कसदेवना

9. वाई-62 गोविन्दपुरम में एच-252 300.70 216504  
 के सामने इन्टरलॉकिंग टाइल्स  
 का काम  
 में श्री अरविन्द कुमार

10. वाई-62 गोविन्द वाटिका में नन्दलाल 438.99 305885  
 के सामने से मनीष के सामने  
 एक इन्टरलॉकिंग टाइल्स का  
 काम  
 में श्री जे.एस.एस. कान्त

11. वाई-83 सुभाषा के एक्स. के राजेश्वर 1149.7 827784  
 से 3 ब्लॉक 10 के निवेशा मन्द. पार्किंग  
 सुभाषा के ग्री साइड पर इन्टरलॉकिंग  
 टाइल्स एवं वाइकीवास पर एक्स. एवं  
 एक्स. का काम  
 में श्री रामेश्वर

12. वाई-61 अनुकरा 10 ए अ साइड 525 378000  
 परी या इन्टरलॉकिंग टाइल्स  
 द्वारा मुखाट कर  
 में श्री अशोक कान्त

13. वाई-50 मुरगाट में नाली 194.7 140184  
 व इन्टरलॉकिंग टाइल्स का  
 काम में श्री विपिन कान्त

- 4. वार्ड-24 पेंडरोली में नाली  
व इन्टरलॉकिंग टाइल्स का  
कार्य में विहित अनुसार  
267.21 192391
- 15. वार्ड 70 मिटका ट्रांसफॉर्मर  
के पीछे नाली सरपंच  
व इन्टरलॉकिंग टाइल्स  
का कार्य  
में इजीन कार्स  
555.42 399902
- 16. वार्ड-16 युवा-मल संपर्क  
में नाली व इन्टरलॉकिंग  
टाइल्स का कार्य  
587.18 422770
- 17. वार्ड-34 ग्राहकघर में जी  
प्लांक में नाली व इन्टरलॉकिंग  
टाइल्स का कार्य  
में नमन इन्टरप्राइजेज  
253.10 182232
- 18. वार्ड-65 विवेकानंद में  
सं. सं. 526 के सामन  
इन्टरलॉकिंग टाइल्स का  
कार्य  
में सीडन इन्जीनरिंग  
801.45 633145
- 19. वार्ड-47 मेटला सक्कलवा  
में डारु सी.सी. नाली व  
इन्टरलॉकिंग टाइल्स का  
कार्य  
में  
1260.45 907524

20. वार्ड - 13 बुकना में नाली  
व इंटर लोकिंग इन्सुलेशन  
कार्य  
प्र. अरुण कान्सा नं.

1207.62

21. वार्ड नं. 1 लिजनात नगर वाम  
रामराजिनगर में नाली नं. 3  
नाली व इंटर लोकिंग इन्सुलेशन  
कार्य  
प्र. सत्य प्रकाश ओ 99

313.04

225389

प्रोग

~~82,82,557~~

22. वार्ड - 83, रामपार्क एक्सटेंशन में  
राजेश गंगा, सैक्टर - 3, ब्लॉक - 9 में  
अंगूठी पार्क में प्लाटर एवं रेगार्ड  
पुनर्बांध का कार्य  
प्र. श्रेया चंद कौन्ट्रेमर

734/22.2.20

444.81

320263-20

23. वार्ड - 23 मोरटा गीब में विभिन्न  
जालियों में नाली व इंटरलॉकिंग  
टाइल्स का कार्य

731/22.2.21

727.42

523742.00

कुल भाग =

92,26,542

निर्माण विभाग में निर्माण कार्य पर काम ली गई

आर्थिक परामर्श ज्ञानी का विवरण

क्र.	कार्य का नाम/ठेकेदार का नाम	स्वीकृत निविदा मूल्य	ली गई आर्थिक परामर्श ज्ञानी	ली जाने योग्य परामर्श ज्ञानी	काम ली गई आर्थिक परामर्श ज्ञानी
1.	वार्ड-78 लोनी रोड सर्विस रोड से विकॉन्टैर स्टीड्स तक (जल निकासी) का RCC द्वारा नाला निर्माण कार्य	9190000	1591903	2481300	889397
2.	वार्ड-78 पञ्चसत्य पार्क के नाला तक सड़क नाली एवं सड़क पट्टी पर स्थिति का कार्य	8484000	1290325	2036160	745835
3.	कुजनागरी की मुख्य सड़क सड़क प्रकल्प मार्ग के पास की सड़क सुधार कार्य में प्रेम कन्सल्ट	50,00,000	5,00,000	750,000	250,000
4.	वार्ड 13 कान्हा काम के आसपास (सार. सी. सी. नाला निर्माण कार्य) में मसूर आनाप कन्सल्ट	46,12,000	967208	1199120	231912
5.	वार्ड 37 पञ्चसत्य वोटिंग की वाउचर का निर्माण कार्य में जे. के. कन्सल्ट	35,93,000	560,000	574880	14880

- 6. वाड-78 राधा कृष्ण मार्ग रुब 33,08,000 581750 694680 112980  
 विजयपुर वॉले रीड पर  
 (आर.सी.सी. आर.सी.सी.)  
 द्वारा नावा निर्माण एवं राडि पटरी  
 पर मूल्डर लोकि टर्मिनस का कार्य  
 के.के.सी.प
- 7. वाड-39 मोडरना नदरु नगर - 1,00,00,000 2186200 27,00,000 513800  
 मुनीर रुब 070 व रुकु व  
 जे.के. (आनारिक) सडका का  
 निर्माण
- 8. वाड-28 टर्मा कम्पाउन्ड की निचिन 1,98,82,000 4060000 4970500 9105000  
 कोणिका सडका का सुचारु  
 नावा निर्माण एवं राडि पटरी  
 पर रोजिंग का कार्य
- 9. वाड-72 वेव मार्ग से (आर.सी.सी.) 1,49,00,000 3469754 4023000 553246  
 (आर.सी.सी.) (आर.सी.सी.) द्वारा  
 समारट टोपल की डिग्नर नाली  
 निर्माण एवं डाक्टर के पीडि के  
 द्वारा टोपलिंग सुचारु का कार्य
- 10. वाड-21 कोआरुपी में सीमानत 95,00,000 1553672 24,70,000 916328  
 विद्यर की (आनारिक) कोणिका  
 सडका का सुचारु कार्य  
 को.आर.सी.सी. विद्यर के

11. वाड 94 सुरेनगर के 3 ब्लाक में 1,32,50,000 2262769 3564000  
 13,01,231  
 सीवर से वाडन से कोनियुसा  
 सड़क का निर्माण कार्य

12. वाड-72.76 वैमाली से-1 से 1/180 1,47,00,000 2881541 3822,000  
 940459  
 से 1/146 तक सं. सं. 216 से  
 240 तक सं. सं. 267 से 245 तक  
 एवं 14/267 से 1/268 एवं एन  
 वेली सुकल तक सीवर वाडन  
 से कोनियुसा सड़क का सुधार  
 कार्य  
 से 0 (आर 0) विस्टेक

~~13. वाड-28 नया काना 335 की 1,98,32,000 4060000 49,70,500  
 910000  
 विभिन्न कोनियुसा सड़क का  
 सुधार, चाबी निर्माण एवं  
 सड़क पर रेंजिंग का  
 कार्य  
 से 0 सड़क सुधार कार्य~~

13. वसुन्धरा में एलिवेटेड रोड के 1,81,06,000 2941607 4707560  
 1765953  
 समाप्तार वैमाली से-05 की  
 पुलिया से कानावली पुलिया  
 तक सड़क सुधार का कार्य  
 से 0 एम कानस

14. वाड 80 लोनी रोड से 1,46,52,000 2597198 3956040 1358842  
 ए-ब्लॉक साईड में कारिंगा  
 तक जब निकासी हो  
 (आर.सी.सी. द्वारा नाला  
 निर्माण कार्य  
 में (आर.जी. वि. डेटा)

15. वाड-62 गोविन्दपुरम में चौकरी 3,59,09,000 90,00,000 10150000 11,50,000  
 चरण सिंह विजली घर में गौर  
 डायस चौक तक ड्रेस अक्कास  
 सुन्दर व नाला निर्माण  
 कार्य

16. वाड-30 गोविन्दपुरमजी ब्लॉक 46,90,000 1148025 B60100 212075  
 में जी-619 से जी.-597  
 RCC नाली व अक्कास सुन्दर  
 सुन्दर कार्य  
 में मानान कल्स.

17. मरठ रोड से सिधानी गांव को 1,16,65,000 25,00,000 3032900 532900  
 जाने वाली रोड भी विनाप  
 त्साही के सक्काण तक सुन्दर  
 सुन्दर व नाला निर्माण कार्य  
 में (आर.जी. वि. डेटा)

18. मरठ रोड स्टेशन चमके काटे से 3,21,06,000 7569754 8989680 1419926  
 हुंडके पुलिया तक (आर.सी.सी.  
 नाला निर्माण कार्य  
 में (आर.जी. वि. डेटा)



19. वार्ड-42 कास्टेय में कबला सातसयसय  
 पाके से जी. टी. चिड तक सावा  
 निर्माण  
 मं. (आर. जी.) विण्ड डेक  
 39,02,000 751524 936480 181956

20. वार्ड 07 पानी की टेंकी सुवासापुरी  
 ए- ब्लॉक से सुवासापुरी पडिसरी  
 सुवासा तक सोलीक डेकलिय  
 का कार्य  
 मं. (आर. जी.) कन्स. क.  
 80,00,000 18,32,000 22,40,000 4,08,000

21. लोरी रोड पर सुवासा  
 पुरी से सुवासापुरी रोड,  
 चौराहे से सुवासापुरी रोड  
 तक सुडक का पाती  
 सुवासापुरी का कार्य  
 मं. (आर. जी.) कन्स. क.  
 1,90,00,000 46,00,000 55,10,000 9,10,000

22. वार्ड 37 80 फुट रोड पर  
 विक्रम सुन्कलव का जाते  
 नाले मार्ग एवं सुवासापुरी  
 विभिन्न दक्षिणसा सोलियो का  
 सुचारु कार्य एवं जलाने कार्य  
 एम. सोलियो का निर्माण कार्य  
 1,10,99,000 1767626 2885740 1118114

28. नाथकस गांव में मेट रोड  
 एवं (आर. जी.) सावा  
 निर्माण कार्य  
 मं. (आर. जी.) विण्ड डेक  
 2,00,00,000 50,00,000 58,00,000 8,00,000

(274)

4. वार्ड-62 शांतिनंदपुरम्  
 रजपुत्री अड्डा एके  
 शिड पर काम का निष्पत्ती  
 में सड़क का सुधार  
 में आरजी विड टंक

90,50,000 21,00,000 25,20,000 4,20,000

25. वार्ड-97 राम प्रसाद कालोनी  
 ए-ब्लॉक की लया सिटि  
 सिस्टम के कार्य वाली  
 (आन्तरिक सड़कों का इन्स)  
 द्वारा सुधार काम

1,32,00,000 18,24,530 31,68,000 13,43,470

26. राजम अस्पताल के सामने  
 अभाव अस्पताल जो कि एक  
 गांधीनगर मण्डल इन्स कारपोरेशन  
 द्वारा सड़क सुधार

870,000 11,26,230 25,62,30

27. वार्ड-36 सुपरटेक एस्टेट सिटी  
 में-9 की सड़क का निर्माण

12,50,000 26,94,24 32,50,000 55,576

~~वार्ड-62 शांतिनंदपुरम्  
 रजपुत्री अड्डा एके  
 शिड पर काम का निष्पत्ती  
 में सड़क का सुधार  
 में आरजी विड टंक~~

~~90,50,000 21,00,000 25,20,000 4,20,000  
 21,00,000 2,10,000~~

28. वार्ड-59 में आर आर  
 डिपार्टमेंट स्टोर में  
 रामलीला मैदान मण्डल RCC  
 लाला निर्माण  
 में एक पी. कंस. का

49,90,000 31,6471 84,8300 53,1829

29 वाड-15 ग्राम मोरवा में 30,68,000 6,00,000 674960 74960

साधारण के मकान से लोको  
के मकान तक वाली ब  
इन्टर लोकिंग टोपिस का  
कार्य  
मं. राजम मन्त्री कार्यालय

30. जी. टी. रोड से एकता 4,50,00,000 43 34 079 67,50,000 24,19,921 = न

पुलिसा के बीच बीच वाले  
की रिटनिंग वाले एवं  
एकता पुलिसा का  
निर्माण  
मं. राजम मन्त्री कार्यालय

31. वाड-38 अर्धला के आनन्द 85,39,000 1474922 1878580 403658

आ. नाला में अर्धला गांव  
के मुख्य सडक से अर्धला  
तक पोलिसा सडक का सुधार  
एवं पुल विकास टोपिस नाला  
निर्माण

32 वाड-34 मर्दिनगर में जी. टी. 1,10,00,000 1195 826 23,10,000 11,14,124

रोड से टेलिफोन एक्सचेंज रोड  
पर जल निकासी टोपिस (आर.)  
सी. सी. थारु नाला निर्माण एवं  
सडक सुधार कार्य  
मं. राजम मन्त्री कार्यालय

33. वार्ड-91 कविनगर से रामलीला 49,71,000 1170650 1391800 221230

मेदान के मुख्य द्वार से मासीनगर  
 तक एक इन्सुलारा सड़क  
 सुधार काम  
 में (आर०जी० विडेटेक  
 मुन्जी सि

34. कविनगर में आर०जी० सी० फ्लाई 60,19,000 1404626 1625130 220504

ओवर से टाफ्ट टुंकी तक सीपिस  
 रोड पर सीकर लामनवाय दोगीयसा  
 रोड का डेन्स वाय सड़क सुधार  
 काम  
 में (आर०जी० विडेटेक मुन्जी

35. बलकम्बर (आ०) कोला मुख्यजी 1687000 310000 388010 78010

पाक गार्ड पीवारी की मरम्मत  
 एवं रसाई पुनर्मा  
 में दीपक सहनी

36. बजाता राव ने नदाला सिटें 49,19,000 10,00,000 1180560 180560

के बलकम्बर से पिन्गा पाविक  
 एकल टोपी टय नामकल में नाल  
 तक (आर०जी० सी० नाला निमा  
 में आर०जी० कन्स

37. राजेन्द्र नगर में सुपरटेक लाजा 95,49,000 16,27,303 2482740 855437

में सीनल अपार्टमेंट निकट  
 राजेन्द्र नगर पुलिस चौकी तक  
 सड़क एवं बिजली निकासी का  
 नाला निमा  
 में (आर०जी० विडेटेक मुन्जी

38. वार्ड 44 अजयम कालोनी में राधा 86,26,000 1382796 2070240 687444  
 कठक सफ़ाई से विकसित  
 कालोनी में इस रेलवे  
 लाइन को सफ़ाई करने का  
 इंटरलॉकिंग टर्मिनस द्वारा  
 सुधार कार्य  
 में अजयम लामारी का कार्य

39. वार्ड-20 सिन्धिया गांव में पटवारी 47,34,000 632462 852120 219658  
 स्कूल से बाल जागत सिनिमर  
 स्कूल के पीठि मुख्य  
 मार्ग तक (आर० सी० सी०) नाला  
 निर्माण  
 में अजयम लामारी

40. गालीमार गाडिन की प्लॉक में 57,63,000 12,50,000 1440,750 190750  
 नवनिर्माण स्कूल की राह पटवारी  
 पर इंटरलॉकिंग टर्मिनस का  
 निर्माण  
 में सलोक कन्सो

41. बिडारी पूरा सलोक वरसी की 42,00,000 962,000 11,76,000 214 000  
 विभिन्न गालीमा में सालीन  
 टर्मिनस का कार्य

42. गालीमार गाडिन स्कूल 2 रा 1,50,00,000 ₹ 21494 26,00,000 878506  
 प्लॉक का मुख्य जागत सफ़ाई  
 मार्ग का सुधार एवं जल निष्कास  
 टैंक (आर० सी० सी०) द्वारा नाली निर्माण  
 कार्य में आर० जी० बिडेटक

43. राजेन्द्र नगर में अग्रवाल स्वीडिस 70,00,000 15,40,000 1870,000 3 1000  
 के संगे केकट हॉल को अग्र  
 वाला मुख्य भाग एवं एक राईड  
 नावा निर्माण कार्य  
 में सैडम नन्द कास्टो

44. कृषि विहार की - ब्लाक में शामिल 11,03,000 121330 132360 11030  
 में के सामने की राईड का  
 मुख्य कार्य सुन्दर नाम  
 में अजय नन्द कास्टो

45. अर्चना वाली नं० - 8 ट्रेड जाप, 6,39,200 87341 115056 27715  
 अमलता नं० वाली नं० 11 में  
 समुद्रप्रीति सं. नं० 1496 अर्चना  
 के विरम के समान तक  
 नाली व इन्टरलॉकिंग टाइल्स  
 का कार्य  
 में राजा सुन्दर पांडेजी

46. जनकपुरी में अमलता संकलन से 9,67,700 103230 203217 99987  
 की नं० 16 अर्चना के समान  
 के नं० 120 के अमलता के  
 समान तक नाली समान एवं  
 इन्टर लॉकिंग टाइल्स का कार्य  
 में विजय सिंह

47. गरिमा गार्डन में जो ब्लाक में 822,600 57740 164520 10678  
 काकरम वाली, इन्सान मार्ग  
 वाली एवं अर्चना सिंह  
 वाली कच्छी सोलिमा में  
 नाली व इन्टर लॉकिंग टाइल्स  
 का कार्य  
 में अजय नन्द कास्टो

48. ग्राहीनगर के तृतीय पार्क के सामने वाली गैर मिट्टी अथवा पत्थर कचरे का कार्य में मोलिक कन्सो 988,524 104424 158164 53740

49. गरिमा गार्डन में सजावट निसर में - 26-27 से सांग्रहाल में - 40 तक नाली एवं ड्रिप सिस्टम का कार्य 8,70,700 107416 165433 58017

50. काली में पंचमाल कॉलोनी में सनासम चमई काटा के पीठ वाली माली में नाली व ड्रिप सिस्टम का कार्य में 4,82,400 42420 67536 25116

51. बार्ड-8, दीनागढ़ी में पुल के दोनों ओर व पी. डब्ल्यू. डी अक्षि से पार्क तक सड़क खुला कार्य / प्र. आ. जी. बिल्डिंग 4,16,8902 1100000 1313040 213040

52. बार्ड-17 मोहननगर ज्वानल कार्यालय सिता नगर निगम स्टाफ क्वार्टर सं-15 की मरम्मत एवं रंगाई प्लाई का कार्य प्र. अक्षि सांग्रहाल में 5,21,600 00 57376 57376

53. बार्ड-61 वसुन्धरा सं-6 वार्डालय को सामने बार्ड का ड्रिप सिस्टम एवं साइड पट्टी का ड्रिप सिस्टम का कार्य में 9,91,900 131475 188461 56986

54. वाड-83 ग्राम पंचायत मुख्यालय से <sup>198</sup> 631300 74870 113634 3874

राजिन्द्रनगर से 03 ब्लॉक में  
 (अंगुरी) पंचायत के चारातरक मुन्दर लोकेशन  
 टाइल्स का काम रख पंचायत  
 में प्लास्टर एवं रंगाम-पुनर्  
 का काम  
 में सड़क चढ़ाने का काम

55. वाड-73 आलीमार गाँव 644400 65560 148212 82652

सर्वे-02 में सारी चौक से अधीनगर नाथी तक  
 दारिद्र्य रसक पर मुन्दर लोकेशन  
 टाइल्स का काम  
 में मुंससंरकनसं

56. वाड-83 ग्राम पंचायत मुख्यालय से 11,06,600 56522 254518 197996

राजिन्द्रनगर से 02 में मोहवा  
 जामगा पंचायत के चारातरक  
 मुन्दर लोकेशन टाइल्स का  
 काम  
 में (अंगुरी) कंसंकं

57. मोहन नगर जामगा से विचिन 985000 183500 246250 62750

रूपाना पर पानी की लाइन  
 सबर लामन कनकान से दारिद्र्य  
 टाइल्स का काम  
 में सड़क चढ़ाने का काम



58. वार्ड-73 माली मार 18,13,300 21709 362660 340951  
 गाडिन एक्स 02 सी ब्वाक से  
 सी-07 तक एक्स सी 82 तक  
 नाली व इन्टरलॉकिंग का  
 काम  
 से 0 सद्मी कन्स

59. वार्ड 43 कडकड सांडला से 8,91,000 58472 133650 75178  
 एक्सिडी कोलोन तथा  
 कोलोन कोलोन से सी-सी  
 टाइल्स सडक व नाली निर्माण  
 का काम  
 से 0 नार्थ इडिमा डवलपर

60. वार्ड-62 गाविन्दपुरम से एक्स-412747 60320 94931 34611  
 25.2 के पास इन्टरलॉकिंग टाइल्स  
 का काम  
 से 0 इरविन्द कुमार

61. वार्ड 84 राजनगर से 01 से 14,70,000 293175 367500 74325  
 पेट्रोल पम्प से 01/89 निर्माण  
 केक तक ड्रेस ड्राय सेड  
 सरमात का काम

62. वार्ड-65 कोविनार से एक्स-40 8,45,000 164287 211250 46963  
 से 22 तक सडक का ड्रेस  
 द्वारा सुन्दार काम

63. वार्ड-76 वैभाली में 2 सीटों में 510,000 68970 91854 22801.  
 उमाजीवाद सुपाटमैल्ट की  
 मोरियासा सहका का डेप  
 व्यास सुन्दर कामे  
 श्री उनाम कान्त
64. वार्ड-82 गणेश कोठिका में 6,22,773 129000 161921 32921  
 तन्वसाय के मकान से मनीष  
 के मकान तक इंटरलॉकिंग  
 टर्मिनस का काम  
 श्री जे. एस. एस. कान्त
65. वार्ड-83 उग्रामयानि सहका में 12,27,000 125300 220860 95560  
 राजनगर से 03 ब्लॉक 10 में  
 विवेकासय मकान के मुल्का  
 पार्क की सड़क पट्टी पर  
 इंटरलॉकिंग टर्मिनस एवं  
 वाडवाड पर प्लास्टर एवं  
 रंगामि पुताई का काम  
 श्री सावित्र कुमार कान्त
66. वार्ड-60 राजे-डू गंग आंठे श्रेण  
 के मोहिनी गार्डन में गली व  
 इंटरलॉकिंग टर्मिनस का काम  
 श्री प्रवेश चन्द कान्त
67. वार्ड-2 राजे विहाय यमन 1252300 227983 313075 85092  
 ए-ब्लॉक गली में गली व  
 इंटर लॉकिंग टर्मिनस का काम  
 श्री निविल एमोसिज

65- 015-61 100000 100000 4870 204156 199286  
100000 4870 204156 199286  
100000 4870 204156 199286  
100000 4870 204156 199286

69- 015-37 909700 181030 209231 28201  
909700 181030 209231 28201  
909700 181030 209231 28201  
909700 181030 209231 28201

70- 015-54 878000 77200 228280 151080  
878000 77200 228280 151080  
878000 77200 228280 151080  
878000 77200 228280 151080

71- 015-28 1688400 190660 428984 248324  
1688400 190660 428984 248324  
1688400 190660 428984 248324  
1688400 190660 428984 248324

72- 015-24 972000 128761 174960 46199  
972000 128761 174960 46199  
972000 128761 174960 46199  
972000 128761 174960 46199

73- 015-67 805650 144664 177243 32579  
805650 144664 177243 32579  
805650 144664 177243 32579  
805650 144664 177243 32579

74. वाड-97 चन्द्रनाग में सड़क मार्ग का डेरा डक मुद्याल का काम में आलापी का मंत्र	1499000	16800	239840	71740
75. वाड-70 के इन्टरलॉकिंग के पीछे नाली मरम्मत एवं इन्टरलॉकिंग डेरेस का काम	951000	104900	161670	56770
76. काचिलमर समुदाय में 4 वें इन्टरलॉकिंग एवं नाली का काम में आलापी का मंत्र	357,215	279	106492	106213
77. वाड-75 लाजिपात सार में सी. ब्लॉक में नाली व इन्टरलॉकिंग का काम में आलापी का मंत्र	29,90,000	3,20,000	657800	337800
78. अहीनार प्रथम में जी. ब्लॉक में नाली व इन्टरलॉकिंग डेरेस का काम में आलापी का मंत्र	4,84,200	10,400	125892	24,492
79. वाड-07 विद्यारीपुर में नाली व इन्टरलॉकिंग डेरेस का काम में आलापी का मंत्र	23,30,800	4,20,000	512776	92776

80. वाड-37 आलीभार गाडिन में 9,44,000 155600 226560 70960  
 चाली व इंटरलॉकिंग का  
 काम  
 से. प्रदीप सन्ट
81. वाड-41 मुण्डापुर में वी सी वी 30,0000 00 36120 36120  
 का मालाभ वसति का  
 काम  
 से. उमेश सहाय इंजी.
82. वाड-80 राजेन्द्र नगर 0003 13,53,900 387382 387382 00  
 टारिक्स लगान का काम  
 से. प्रदीप कुमार सिन्हा
83. वाड-65 विवेकानन्द नगर में 11,51,387 267281 299361 32080  
 सं. सं. 526 के सामने  
 इंटरलॉकिंग टारिक्स का काम  
 से. साईन इंजी. इत्यादि
84. वाड-41 डा. टी. माजिद वॉल में 11,22,000 ~~28844~~ 155844 280500 124656  
 की आन्तरिक मालिका का  
 निर्माण काम  
 से. प्रदीप सन्ट
85. वाड 10 श्री. रत्नलाल का लोनी 1304200 1,55,500 326050 170550  
 में इंटरलॉकिंग टारिक्स का  
 सुधार काम  
 से. प्रदीप सन्ट

86. वाड-47 मेंडिया संकलेव 26,58,000 415,000 717660 302660  
 में आर० सी० सी० नाली  
 व इंटरलॉकिंग टारिफ का  
 काम  
 में दीवार सादनी
87. वाड-13 चुकना में नाली 14,81,800 155,979 266724 110745  
 व इंटरलॉकिंग टारिफ  
 का काम  
 में आरुण कान्य का
88. वाड-46 मानसी विहार में नाली 8,87,585 65,858 106510 40682  
 में सिक संरचना का  
 काम  
 में आरुण कान्य का
89. वाड 1 में किमसन नगर वार्ड 5,79,000 102368 127380 25012  
 रेवारी नगर में नाली में नाली  
 में नाली व इंटरलॉकिंग का काम  
 में सामुप्रकाश जादव
90. मैमिनगर में नाली व इंटरलॉकिंग 9,34,700 2,05,000 243022 43022  
 टारिफ का काम  
 में जुवेर कान्य का

3,24,01,242  
 योग ~~3,24,01,242~~

ए भाग क के प्रका 'द' में सदर्भित

निर्माण विभाग में विभिन्न कार्यों में मिट्टी के कार्य पर

12.5% सॉरिलमेन्ट चार्ज न कोटे जाते के कारण

हुई आर्थिक क्षति का विवरण :

क्र. कार्य का नाम / ठेकेदार का नाम / विधि	व्यय प्रमाणक संख्या	मिट्टी के कार्य शीता	12.5% सॉरिलमेन्ट शीता मात्र रु	12.5% सॉरिलमेन्ट चार्ज कोटे जाते मात्र रु आर्थिक
1. आई-78 <del>सका कठका नाम</del> <del>सिविलीयर कोरिडोर पर जिला निकासी ट्रेड रेकॉर्डर नाला निर्माण एवं सॉरिलमेन्ट कार्य</del> <del>इन्टरलॉकिंग/टाइल्स कार्य</del> <del>में हुको गीप</del>	37/	173.58	21.70	229 496
2. <del>लुपला में गली नं. 8 टैरन्ड मार्ग</del> <del>टमला व गली नं. 11 में समुदायिक</del> <del>म. नं. 1496 (अन्वेषण नगर से</del> <del>विरमी तक नाली व इन्टरलॉकिंग</del> <del>टाइल्स का कार्य</del> <del>में राज इन्टर प्राइज</del>	4-2-19	732/	22-220	534.60 66.82 229 1530
2- आई-60 शिफेड नाला ओके क्षेत्र के मोहनी गार्डन में नाली व इन्टरलॉकिंग टाइल का कार्य में महेश चंड मर्चें				

3. वार्ड 37 शाहीमाह गार्डन में  
 वाली व इलाकाधिकार टाइटल  
 का कार्य  
 में अग्रजल कार्य

255.75      31.96      229      7321

4. वार्ड-83 बुधमथ थाना  
 स्थान के ताली व  
 इन्टरलोकेशन का कार्य

215.57      26.95      229      6171

में (अंकाक्षा कन्सो)  
 5. वार्ड 34 अष्टी नगर पंचम  
 में जी ब्लॉक के ताली  
 व इन्टरलोकेशन टाइटल का  
 कार्य  
 में समान सन्डर पाइपिज

126.61

15.83      229

3625

6. वार्ड-80 राजेश्वर नगर में  
 टाइटल लगान का कार्य

251.60

31.45      229

7202

में प्रसाद कुमार सिंचल

7. वार्ड-10 श्री. रजल रूफ का सोनी  
 में इन्टरलोकेशन टाइटल

347.38

43.42      229

9943

का कार्य  
 में प्रसाद कुमार

प्रसाद कुमार  
 20/1/23



आप का नाम / ठेकेदार का नाम / प्लॉट	आप का प्लॉट नं	मि.टी के अर्ब.टी माप	12.5% गे. 12.5% से हिलेपेट सी माता कर	12.5% से पार्लिय न आटे जाने से शरत दुई अर्ब.टी अति
8- पार्स-73 शहलीभा गार्डन एम C ब्लॉक में C-1 से C-7 तक एवं C-82 से C-72 तक वाली ए 22 (लाइफ) एडव.ए	1044/26-7-20	534.60	66.82 22%	15301.78
9- पार्स-75 लाजपत नगा C ब्लॉक में C-54 से शनि मन्दिर तक एवं C-89 से शनि मन्दिर रोड़ तक एवं C-12 से C-104 तक तक विभिन्न गार्डन में ए 22 (लाइफ) एडव.ए अर्ब	1047/26-2-20	715.06	89.38 22%	20468.59

कुल योग

90303

निर्माण विभाग में विभिन्न कार्यों में 10% वॉल्यूम न मोटे जाने के कारण हुई आर्थिक क्षति का विवरण

क्र.	कार्य का नाम / ठेकेदार का नाम / तिथि	अप्र प्रमाणक संख्या	स्टोनवैल्यू की मात्रा	10% वॉल्यूम दर की मात्रा	दर	10% वॉल्यूम न कोट जाने के कारण हुई आर्थिक क्षति
1.	वार्ड-78 वसातन पोके के चाये तरफ सड़क नाली एवं साइड फवरी पर इन्डिंग का काम मे० (आर० जी० विहडटेक इजी० सि०/14 वॉ० कि० आ०	690/ 31-12-19	742.46	74.25	2048	152064
2.	वार्ड 78 राखा कछ मारि एवं विजली घर वाले रोड पर जल निष्कासी टा RCC द्वारा नाला निर्माण एवं साइड मटरी पर इन्टरलॉकिंग टाइल्स का काम	676/ 31-12-19	43.46	4.35	2048	8909
3.	वार्ड 39 मोडरना नहर नगर मुख्य सड़क की व सड़क के नीचे (अन्डरनेथ) सड़क का निर्माण मे० डी० के० स० इन्फ्रा० प्रा० लि०	792/ 31-7-21	502.89	50.29	2048	102993
4.	वार्ड 13 मरठ रोड से बुकना मुख्य मार्ग का (अक्वाम) साध का निर्माण का काम निर्माण का काम मे० (आर० जी० विहडटेक	262/ 8-7-21	411.62	41.16	2048	84296

-210- (291)

5. वॉर्ड-94 सुभिनगर के वार्ड 705/ 29.61 3.0X 2024 6072  
व्यक्त से सीवर लाइन से 15-7-21  
दोपहर सा सड़क का निर्माण  
कार्य

6. वॉर्ड 7276 वैजाली से 263/ 851.63 85.16 2024 172364  
1/180 से 1/146 तक सड़क सं.  
216 से 240 तक सड़क सं.  
267 से 245 तक दोपहर सा  
सड़क का सुधार का कार्य  
में आरंभ जी विडेटक डी  
वि

7. कस्तूरबा से शैलीविट्टे रोड के 815/31-7-21 586.59 58.65 2048 121115=00  
समानार वैजाली से 05 की  
पुलिस से कासावरी पुलिसा तक  
सड़क सुधार कार्य

8. वॉर्ड-30 गोविन्दपुरम जीव्याण्ड 1472/24-3-22 64.84 6.46 2048 13230  
में जी 619 से जी 597 तक  
आरंभी सी नाली व ड्रेन  
द्वारा सड़क सुधार कार्य  
में आरंभ कार्य

9. मरठ रोड से सिदानी गोंड को 58/Nov.19 593.10 59.31 2048 121467  
जो न नाली रोड सी विनाद  
आरंभिक समानार तक सड़क  
व नाला निर्माण का कार्य  
में आरंभ जी विडेटक

10. वार्ड-37 में 80 क्यूबिड पर विक्रम सूर्य सांगे का जाले वाला मुख्य मार्ग की निश्चित पापिस्ता मापियों का सुधार कार्य एवं जिला निमासी के मापियों का निर्माण कार्य के अंतर्गत विन्डटेक इंस्टीट्यूट लि०

408/ 28-12-20 543.92 54.39 2048 111390

11. वार्ड-24 नायपाल सांगे का मुख्य मार्ग का निर्माण एवं अंतर-सीमा सीमा निर्माण का कार्य

1361/ 31-7-20 983.99 98.40 2048 20523

12. वार्ड-62 सावित्रपुरम सतर्फी अंतर-सीमा पर कमावकंडा की सतर्फी सुधार का सुधार कार्य

1336/ 30-7-20 789.28 78.93 2048 161649

13. वार्ड-36 सुपर टैक स्ट्रेट सिगा में 7 की सुधार सुधार का निर्माण कार्य

517/ 28-7-20 60.18 6.01 2024 12164

~~14. वार्ड-62 सावित्रपुरम सतर्फी अंतर-सीमा पर कमावकंडा की सतर्फी सुधार का सुधार कार्य~~

14. वार्ड-16 नाम मोरटा में नायपाल के सकार से गोलोक के सकार तक नाली व इंटरलोक का कार्य

48/ 7-8-20 131.92 13.19 2048 27013

5.

-212- (293)

62.61 6.26 2048 12820

15. वाड-16 मोरवा में सुसाध नोता 42  
 जी के सक्कान से रिजिम 7-8-20  
 पदलवान के सक्कान तक नाली  
 व इंटरलॉकिंग टॉर्निस का  
 कार्य

304.92 30.49 2048 62444

16. वाड-38 अर्पला के आचन्य डो. को  
 में अर्पला कोव के मुख्य भाग के  
 रिजिम

693/ 31-12-79

332 33.2 2048 67993

17. कविनगर के आर.डी.पी.  
 पल्लो के आर.डी.पी.  
 तक सीकर लाइन कोव कोव  
 सुचार का काम

36/ 2-8-20

626.90 62.69 2048 128389

18. राजस्थान में सुपरटेक लाइन  
 के मीनल अपार्टमेंट निकट  
 राजस्थान पुलिस चौकी राड  
 तक राड कोव डाल लिहासी  
 को ताली निमाण कोमे  
 में आर.डी.पी. विस्तार के कार्य

438/ 13-8-20

432 43.2 2048 88474

19. वाड-44 अजय कालान में राणा  
 काव. सांघर से चिकिट कालानी 2257/ 13-11-20  
 को इंटरलॉकिंग टॉर्निस का  
 सुचार का काम  
 में अजय राणा काव.

20. डालीसर गाडिन की ब्लाक में 794/  
नवनिर्मित रूड का कार्य 23-7-20  
पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स  
का कार्य  
में सालिक का कार्य

181.31 18.13 2048  
37130

21. डालीसर गाडिन ब्लॉक - 2 ए 437/  
ब्लाक का मुख्य मार्ग पोलिशिंग  
मार्ग का सुधार एवं डाब  
निष्कासी एवं (आर० पी० सी०  
व्हाय नाली निर्माण कार्य

525.21 525.2 2048  
107560  
13-8-20

22. राजेन्द्र नगर में (अग्रवाल स्टीट से  
गंगा केकट टाल में जामे नाला  
मुख्य मार्ग एवं रूड साइड नाला  
निर्माण कार्य  
में सडक नवनिर्माण

804/ 258.66 25.86 2048  
52961  
23-7-20

23. डाडीप नगर में पोलिशिंग कार्य के  
आसत वाली रूड पर साइड  
मार्ग व पाथर कटिंग का कार्य  
में सालिक का कार्य

238/ 299.14 29.91 2048  
61256  
17-1-20

24. वाई-62 गाडिन कपुरम में मुख्य  
रूड के आसत इंटरलॉकिंग  
टाइल्स का कार्य

732/ 68.64 6.86 13912  
22-2-20

25. वाई-60 राजेन्द्र नगर में शेर  
के मोडिनी गाडिन में नाली  
व इंटरलॉकिंग टाइल्स का  
कार्य में सडक नवनिर्माण

5 वाई-2 राहुल विहार पथ  
ए-लॉड गली में नाली का  
इंटरलॉकिंग टाइलिंग का  
कार्य  
में निम्नलिखित शोभी

334/13.8.20 38.88 3.88 2048 7946

26- वाई- 61 अमुकरा 10 फीट  
लाइव परी का इंटरलॉकिंग  
टाइलिंग द्वारा मुखांत कार्य  
में शिर्डी कार्य

757/22.2.20 80.48 8.04 2048 16466

27- वाई-70 सिडका ट्रांसपोर्ट  
का पीछे नाली भरसमा  
इंटरलॉकिंग टाइलिंग  
का कार्य  
में शिर्डी कार्य

1009/26-2-20 43.77 4.38 2048 8970

28- वाई-10 इंटरलॉकिंग टाइलिंग  
कालान में इंटरलॉकिंग  
टाइलिंग द्वारा मुखांत कार्य  
में पाणिक संस्ट

506/27-12-19 79.20 7.92 2048 16220

~~1970/190~~

कार्य का नाम / ठेकेदार का नाम   विधि	व्यय प्रमाणित सं०	टोन बैलेंस की मात्रा	10% वाच्यता की मात्रा	र	10% वाच्यता न आटे के कारण हुए आर्थिक स्थिति
19- वार्ड 77 वैशाली सं०-4 में गौड़ गंगा से हाथने से 4/443 नर शक्तिशालि हाथने से डेनस द्वारा साइड से तुधार कार्य सं० प्रेम अन्तः	496/27.12.19	16.17	1.62	2048	3317
30- वार्ड-61 वसुन्धरा सं०-6 वातलोक सोसाइटी से हाथने से डेनस द्वारा साइड पट्टी का कार्य सं० अरुण अन्तः	565/27.12.19	85.07	8.50	2048	17408
31- वार्ड-72 आशाबेबी सं० सं० बी० बलर से प्रकृत A-1 से A-24 नर नया A-52 से A-46 नर डेनस द्वारा हाथने तुधार सं० जयदीप सिंह अन्तः	543/27.12.19	49.37	4.93	2048	10096.6
32- मोहन नगर जोन में सिविल एंजिनियरिंग पर पानी लाइन/पीएल लाइन से अर्थोपेक्शन से शक्तिशालि डेनस / डाइगो सीमांकन कार्य	475/27.12.19	89.10	8.09	2048	18227



<p>3- वार्ड 54 अमृतसर रोड-5 गेट          नं-4 मं-नं 1468 वाली          रोड से दोनों साइड इन्फ्लेमेटरी          टाइल द्वारा साइड पट्टी          का पुष्पाट कार्य          नं शान्तिपुरी</p>	<p>828/22.2.20</p>	<p>16.5</p>	<p>1.65</p>	<p>2048</p>	<p>3379</p>
<p>34- वार्ड-64 गरिमा गार्डन में          सैजिक लोम ए-26,27          से मांगोलाल (ए-17) तक          गली का इन्फ्लेमेटरी कार्य</p>	<p>36/4-12-19</p>	<p>50</p>	<p>5</p>	<p>2048</p>	<p>10240</p>
<p>35- वार्ड 56 सैजिक सिटी में फ्लो          5 मकान नं 96 से 127          तक ड्रेस द्वारा सड़क का          पुष्पाट कार्य          नं सिद्धा अन्तर्गत</p>	<p>558/27.12.19</p>	<p>15.84</p>	<p>1.58</p>	<p>2048</p>	<p>3235</p>
<p>36- वार्ड-70 के निचले बासपोई          से पीके सिटी रोड वाली          गलत एवं इन्फ्लेमेटरी          टाइल          नं सैजिक अन्तर्गत</p>	<p>1009/26.2.20</p>	<p>43.77</p>	<p>4.37</p>	<p>2048</p>	<p>8949.76</p>
<p>37- वार्ड 46 मानसी सिटी में          पट्टर से मकान नं-125          सी-01 से मकान नं-167          पट्टर से मकान नं-80 तक पट्टर</p>	<p>563/27.12.19</p>	<p>81.60</p>	<p>8.16</p>	<p>2048</p>	<p>16711.68</p>

कुल योग = 2070.354

श्री. पी. आर. न बनिये जी के कारण अधिपतिन भुगतान का विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम / विवरण का नाम	संग्रहीत मात्रा	प्रतिफल का नाम	प्रतिफल की राशि	कुल प्रतिफल की राशि	उत्पन्न राशि का नाम
1.	1. <u>श्री. नारायण जी से दोनो पैसे</u> <u>पर उत्तर भादा चोराहे से</u> <u>दोना-दरहर-दास फक सासल के</u> <u>दोना-दरहर सासल करव का कारव</u> <u>का कारव कासः प्रासिने</u>	14 बॉ	18-02-19	1,90,00,000	1,34,21,743	4711/बल/18
2.	2. <u>वर्ष-23 विजय नगर पुनः उन्नयन</u> <u>24 से भागीनगर से विहार</u> <u>विहार पर-सो देस सुवाभाप</u> <u>देसल तक देस देसो</u> <u>मक् नाला देस देस देस</u> <u>25 से का मास</u>	14 बॉ	17-10-17	1,66,43,000	11887/64	25/व/व/व/व/व
3.	3. <u>वर्ष 7 भागी नाला देस सुवाभाप</u> <u>25 से का मास</u> <u>मक् नाला देस देस का कारव</u> <u>उत्पन्न कासः</u>	14 बॉ	08-3-19	80,00,000	5705/107	25/व/व/व/व/व

(299)

	3.	4.	5.	6.	7.
1.	2.				
4.	<p>वाड-50 प्रेडिक्टर II की आकारिक संस्करण का सुधार कार्य के एक प्रारंभिक सिद्धि</p>	18-10-17	1,26,00,000	123,67,730	<p>3. 14 वॉ वि.नं.</p>
5.	<p>वाड-78 प्रमानन पाठ के चयन प्रकार संशोधन कार्य एवं साहित्य पट्टी पर संशोधन का कार्य में आरंभिक सिद्धि</p>	02-3-19	84,84,000	61,97,219	<p>3. 14 वॉ वि.नं.</p>
6.	<p>वाड-78 लोक शिक्षण संस्थान विभागात् स्वीडिश मन्त्रालय मिन्स/डॉ. आर.ए.पी. सी.ए.डी.एस नाला निर्माण</p>	07-3-19	91,91,000	66,31,352	<p>3. 14 वॉ वि.नं.</p>
7.	<p>वाड-88 वेदांगी संशोधन संस्थान पाठ का शिक्षण सुधार कार्य का प्रारंभिक सिद्धि</p>	10-10-17	75,00,000	69,71,326	<p>3. 14 वॉ वि.नं.</p>

1.	2.	3.	4.	5.	5.	6.
8. वाड-63 कामकाय रीतें पावक वाडस वाडसुवायवा सुवावा वाड वाडस वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा	14 वा वाड	18-10-17	1,09,2500	85,33,429		
9. वाड-29 वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा	वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा	18-10-17	1,19,66,000	10,9,05,639		
10. वाड-40 वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा	वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा	18-10-17	108,09,000	108,28,590		
11. वाड-40 वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा	वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा वाडसुवा	13-10-16	2,52,53,600	24,74,5970		

301

220

1.	2.	3.	4.	5.	6.
12.	<p>1. 12-11-1966          2. 12-11-1966          3. 12-11-1966          4. 12-11-1966          5. 12-11-1966          6. 12-11-1966          7. 12-11-1966          8. 12-11-1966          9. 12-11-1966          10. 12-11-1966          11. 12-11-1966          12. 12-11-1966</p>	<p>12/11/66          12/11/66          12/11/66          12/11/66          12/11/66          12/11/66          12/11/66          12/11/66          12/11/66          12/11/66          12/11/66          12/11/66</p>	08-3-19	33,58,286	
13.	<p>1. 06-3-19          2. 06-3-19          3. 06-3-19          4. 06-3-19          5. 06-3-19          6. 06-3-19          7. 06-3-19          8. 06-3-19          9. 06-3-19          10. 06-3-19          11. 06-3-19          12. 06-3-19</p>	<p>06/03/19          06/03/19          06/03/19          06/03/19          06/03/19          06/03/19          06/03/19          06/03/19          06/03/19          06/03/19          06/03/19          06/03/19</p>	06-3-19	54,45,000	
14.	<p>1. 18-10-17          2. 18-10-17          3. 18-10-17          4. 18-10-17          5. 18-10-17          6. 18-10-17          7. 18-10-17          8. 18-10-17          9. 18-10-17          10. 18-10-17          11. 18-10-17          12. 18-10-17</p>	<p>18/10/17          18/10/17          18/10/17          18/10/17          18/10/17          18/10/17          18/10/17          18/10/17          18/10/17          18/10/17          18/10/17          18/10/17</p>	18-10-17	1,44,69,837	
15.	<p>1. 05-5-19          2. 05-5-19          3. 05-5-19          4. 05-5-19          5. 05-5-19          6. 05-5-19          7. 05-5-19          8. 05-5-19          9. 05-5-19          10. 05-5-19          11. 05-5-19          12. 05-5-19</p>	<p>05/05/19          05/05/19          05/05/19          05/05/19          05/05/19          05/05/19          05/05/19          05/05/19          05/05/19          05/05/19          05/05/19          05/05/19</p>	05-5-19	85,39,000	65,04,667

1.	3.	4.	5.	6.	7.
<p>16. <u>गड-80 को नवीकरण करवावट</u>  <u>अ. अ. को नवीकरण करवावट</u>  <u>अ. अ. को नवीकरण करवावट</u>  <u>अ. अ. को नवीकरण करवावट</u>  <u>अ. अ. को नवीकरण करवावट</u></p>	<p>14 को 18-11</p>	<p>7-3-19</p>	<p>1,46,52,000</p>	<p>93,18,469</p>	
<p>17. <u>गड-60 को नवीकरण करवावट</u>  <u>अ. अ. को नवीकरण करवावट</u>  <u>अ. अ. को नवीकरण करवावट</u>  <u>अ. अ. को नवीकरण करवावट</u>  <u>अ. अ. को नवीकरण करवावट</u></p>	<p>14 को 18-11</p>	<p>5-4-19</p>	<p>1,50,00,000</p>	<p>72,68,146</p>	
<p>18. <u>गड-62 को नवीकरण करवावट</u>  <u>अ. अ. को नवीकरण करवावट</u>  <u>अ. अ. को नवीकरण करवावट</u>  <u>अ. अ. को नवीकरण करवावट</u>  <u>अ. अ. को नवीकरण करवावट</u></p>	<p>14 को 18-11</p>	<p>02-3-19</p>	<p>99,00,000</p>	<p>63,78,755</p>	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
19.	<p>वार्ड-86 राजेश्वर नगर में (अग्रभाष्य)                      एम्प्लॉय से गंगा बंशु देवी का                      डाक बाला मरुतु माता एम्प्लॉय                      बाला मिमोटा कास                      को महेस चन्द कास</p>	<p>14 वीं                      11 वीं</p>	<p>20-2-19</p>	<p>70,50,000</p>	<p>49,38,790</p>
20.	<p>वार्ड-73 जालिमार मंडल                      में नव निमिती मंडल की                      पट्टी पर स्टैरलाका                      निमिती                      को मालिन्य कास</p>	<p>14/14/26/25                      14/14/26/25</p>	<p>01-3-19</p>	<p>57,63,000</p>	<p>42,59,272</p>
21.	<p>वार्ड-72 प्रजाकिशर नाली की                      प्रिंटिंग चाल व नाली चाल पर                      निमिती                      को स्टेशन पर चाल</p>	<p>14/14/26/25                      14/14/26/25</p>	<p>18-10-16</p>	<p>114,95,000</p>	<p>12,77,331</p>
22.	<p>वार्ड-86 राजेश्वर नगर में (अग्रभाष्य)                      एम्प्लॉय से गंगा बंशु देवी का                      डाक बाला मरुतु माता एम्प्लॉय                      बाला मिमोटा कास                      को महेस चन्द कास</p>	<p>14/14/26/25                      14/14/26/25</p>	<p>2-3-19</p>	<p>1,16,65,000</p>	<p>53,43,000</p>

1.	2.	3.	4.	5.	6.
23.	<p>915-08 गणेशजी प्रामाणिक जी.                      यांचे वडील गणेश गणेश व ज्येष्ठपत्नी                      सदा प्रामाणिक व 19/2007 पासून                      प्रामाणिक गणेश व ज्येष्ठपत्नी                      यांचे वडील गणेश गणेश व ज्येष्ठपत्नी                      यांचे वडील गणेश गणेश व ज्येष्ठपत्नी</p>	<p>प्रामाणिक गणेश                      19/01/19</p>	11-2-19	54,71,000	36,29,249
24.	<p>915-85,75 मधुसूदन गणेश व ज्येष्ठपत्नी                      यांचे वडील गणेश गणेश व ज्येष्ठपत्नी                      यांचे वडील गणेश गणेश व ज्येष्ठपत्नी                      यांचे वडील गणेश गणेश व ज्येष्ठपत्नी</p>	<p>मधुसूदन गणेश                      19/01/19</p>	20-2-19	94,16,000	65,95,283
25.	<p>915-51 श्री. वी. वी. मधुसूदन गणेश व ज्येष्ठपत्नी                      यांचे वडील गणेश गणेश व ज्येष्ठपत्नी                      यांचे वडील गणेश गणेश व ज्येष्ठपत्नी                      यांचे वडील गणेश गणेश व ज्येष्ठपत्नी</p>	<p>मधुसूदन गणेश                      19/01/19</p>	08-3-19	60,25,000	46,76,635
26.	<p>915-28 मधुसूदन गणेश व ज्येष्ठपत्नी                      यांचे वडील गणेश गणेश व ज्येष्ठपत्नी                      यांचे वडील गणेश गणेश व ज्येष्ठपत्नी                      यांचे वडील गणेश गणेश व ज्येष्ठपत्नी</p>	<p>मधुसूदन गणेश                      14/01/19</p>	02-3-19	19,88,2000	1,48,22,037



मूल

1.	2.	3.	4.	5.	6.
27.	<p>एक संस्थाक एक संस्थाक                      एकांकिक बिल्ली संस्था                      एकांकिक बिल्ली संस्था                      एकांकिक बिल्ली संस्था</p>	<p>14/11/2018</p>	02-3-19	90,50,000	54,51,243
28.	<p>एक संस्थाक एक संस्थाक                      एकांकिक बिल्ली संस्था                      एकांकिक बिल्ली संस्था</p>	<p>14/11/2018</p>	8-3-19	88,86,000	69,37,873
29.	<p>एक संस्थाक एक संस्थाक                      एकांकिक बिल्ली संस्था                      एकांकिक बिल्ली संस्था</p>	<p>14/11/2018</p>	8-3-19	53,63,000	42,21,292
30.	<p>एक संस्थाक एक संस्थाक                      एकांकिक बिल्ली संस्था                      एकांकिक बिल्ली संस्था</p>	<p>14/11/2018</p>	8-3-19	85,15,000	66,20,910

1.	2.	3.	4.	5.	5.	6.
31.	वरिष्ठ-94 सुभारत रेल ऑफिस सेवानिवृत्त डी. राधा कृष्ण एम्प्लॉय ऑफिस सुपरवाइजर ऑफिस सुपरवाइजर ऑफिस सुपरवाइजर	एम्प्लॉय सुभारत रेल	61-3-19	1,32,00,000 शून्य	74,71,030	24,71,82,374



308

-228

1

2

3

4

5

6

7

3.

693/31-2-19

842400

श्री 38 प्रथम के प्रान्त प्रो 5/11  
श्री प्रथम गंग के प्रथम गंग  
प्रथम गंग प्रथम गंग प्रथम गंग  
प्रथम गंग प्रथम गंग प्रथम गंग  
प्रथम गंग प्रथम गंग प्रथम गंग  
प्रथम गंग प्रथम गंग प्रथम गंग  
प्रथम गंग प्रथम गंग प्रथम गंग

10,000

₹

85,39,000

4. 2180A/24-10-19 2529500

श्री 85,75-राजगंगार एफ  
प्रथम गंग प्रथम गंग प्रथम गंग  
प्रथम गंग प्रथम गंग प्रथम गंग  
प्रथम गंग प्रथम गंग प्रथम गंग  
प्रथम गंग प्रथम गंग प्रथम गंग  
प्रथम गंग प्रथम गंग प्रथम गंग

10,000

₹

94,16,000

5. 1126/24-9-19 1545300

श्री 28 प्रथम गंग प्रथम गंग  
प्रथम गंग प्रथम गंग प्रथम गंग  
प्रथम गंग प्रथम गंग प्रथम गंग  
प्रथम गंग प्रथम गंग प्रथम गंग  
प्रथम गंग प्रथम गंग प्रथम गंग  
प्रथम गंग प्रथम गंग प्रथम गंग

10,000

₹

198,82,000



सं भाग-क के प्रका ' 27 ' में सार्वभौम

जलमल अनुभाग के कार्यों में विलम्ब अथवा हेतु अर्थात्

न वसूलने के कारण आर्थिक क्षति का विवरण

क्र.	कार्य का नाम/हेकेटा का नाम स्वीकृत धमराशी	मिति	कार्यदेश के अनुसार समाप्ति तिथि	मापपुस्तिका के अनुसार कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	विलम्ब की अवधि (दिनों)	अर्थात् (रूपये 100 भागों में उत्तीर्ण)
1.	वार्ड-25 अम्बडका नगर की वीथी न गाली में सीवर लाइन बदलने का कार्य में जुबैर कान्ट्रैक्टर का क्रमांक 3252046	14वाँ तारीख	5-6-19	15-7-19	40	130082
2.	कावेरगाँव जोन अन्तर्गत जी. एवं एच. ब्लॉक की वीथी न गाली में 160 एम. एम. व्यास की वी. वी. सी. पाइप लाइन डालने का कार्य क्र. 2850347	"	22-9-19	26-12-19	95	270783
3.	वार्ड नं. 17 टिन्डुल तालाब में 300 एम. एम. सी. वी. सी. पाइप लाइन डालने का कार्य - क्र. 2996324 (दो बी. वी.)	"	6-6-19	9-12-19	366	224506
4.	वार्ड नं. 19 उदक नगर की वीथी न गाली में 300 एम. एम. व्यास की 800 मी. एवं 450 एम. एम. व्यास की 450 मी. सी. वी. सी. पाइप लाइन डालने का कार्य - में भगवती कान्ट्रैक्टर - क्रमांक 4126608 (दो बी. वी.)	"	7-6-19	9-10-19	124	287661
5.	वसुन्धरा जोन के अन्तर्गत वार्ड नं. 76 में 300 एम. एम. व 450 एम. एम. व्यास की सी. वी. सी. पाइप लाइन डालने का कार्य में भगवती कान्ट्रैक्टर क्रमांक 2810438 (दो बी. वी.)	"	7-6-19	27-12-19	203	386312
6.	वसुन्धरा जोन वार्ड नं. 89 व शाली से. 5 कामना में 300 एम. एम. व्यास की सी. वी. सी. पाइप लाइन डालने का कार्य - में भगवती कान्ट्रैक्टर क्र. 4282781	"	6-6-19	26-12-19	203	869405

7.	सिटी जोन वार्ड नं० ०१ पटेलनागर इलाके शिवाजी पुर, गौतमनागरी वीथी व आलीपा में 300 एम०एम० व्यास की आर०एच० सिवापाइबलॉक डालने का कार्य - मे० इनुमत इन्स्टालमेंट. रू० 1855334 (दो विल)	6-5-19	23-10-19	170	202146
8.	सिटी जोन II वार्ड नं० 19 उदयनागरी वीथी व आलीपा में 110 एम०एम० व्यास की पी०पी० एवं 80 एम०एम० व्यास की जी० अर्द्ध पाइप डालने - मे० इनुमत के वी० इन्फ्रा-सुमारी रूप में <del>266255</del> 266255 (दो विल)	7-6-19	28-2-19	204	341152
9.	सीटी जोन II वार्ड नं० 49 नन्दगावरी ब्लॉक, ए ब्लॉक द्वितीय फाकेट की विभिन्न गलियों में 110 एम०एम० व्यास की 3400 मी० पी०पी० एवं 160 एम०एम० व्यास की 2600 मी० पी०पी० पाइप डालने का कार्य - मे० इनुमत इन्स्टालमेंट. रू० 3409182 (दो विल)	5-6-19	10-10-19	127	242397
10.	35 एच०पी० फोल्ड पम्प की आपूर्ति कार्य में इनुमत इन्स्टालमेंट	23-2-2020	18 <sup>3</sup> / <sub>20</sub>	24	2400
11.	65 एच०पी० फोल्ड पम्प की आपूर्ति कार्य में इनुमत इन्स्टालमेंट	26- <sup>2</sup> / <sub>20</sub>	18 <sup>3</sup> / <sub>20</sub>	21	2100
12.	2-नाग 5000लीटर क्षमता की सीवट सप्लाय मज जेटी-1 मशीन की आपूर्ति - मे० अकांशा एडवोकेट	9 <sup>4</sup> / <sub>19</sub>	3 <sup>7</sup> / <sub>19</sub>	85	8500
13.	सीवट सप्लाय ट्रेडु सीवट सप्लाय की आपूर्ति में इनुमत इन्स्टालमेंट	28 <sup>2</sup> / <sub>20</sub>	18 <sup>3</sup> / <sub>20</sub>	25	2500
14.	एम०एम० टैंक की आपूर्ति का कार्य में भारत इन्स्टालमेंट	9 <sup>4</sup> / <sub>19</sub>	1 <sup>7</sup> / <sub>19</sub>	83	8300
15.	1000 नग फट फ्रैम 03 कालम पाइप की आपूर्ति का कार्य में इन्स्टालमेंट	9 <sup>4</sup> / <sub>19</sub>	27 <sup>6</sup> / <sub>19</sub>	78	7800
16.	शाहीनाग पम्प नं० 5 के सामने स्थित उपवेल कोर की रिजोरेन्स का कार्य - मे० अकांशा एडवोकेट	12 <sup>7</sup> / <sub>19</sub>	27 <sup>12</sup> / <sub>19</sub>	170	(17000-5000) 12000
17.	शाहीनाग उपवेल कोर की रिजोरेन्स का कार्य में अकांशा एडवोकेट	12 <sup>7</sup> / <sub>19</sub>	27 <sup>12</sup> / <sub>19</sub>	170	(17000-5000) 12000

18. जवाहरपार्क वार्डिका गुरुद्वारे के पास सी. व लाक डीपवेल बोर्डका रिबोरींग कार्य में डाकांशा कान्-इंजिनियरिंग	12 $\frac{7}{19}$	16 $\frac{12}{19}$	159 (15900-5000)	10900
19. कम्पनी बाग पार्क में डीपवेल बोर्डका रिबोरींग कार्य में एस० के० वी० इंडिया कं०	12 $\frac{7}{19}$	9 $\frac{9}{19}$	61	6100
20. माडल टाउन टंकी कम्पाउन्ड नं० 2 की रिबोरींग कार्य - में०-इ-एच इ-एचएजेंस	12 $\frac{7}{19}$	17 $\frac{10}{19}$	97	9700
21. गार्डन रोड कोट गॉव में डीपवेल बोर्ड नलकूप की रिबोरींग कार्य - में० एस० के० वी० इंडिया कं०	12 $\frac{7}{19}$	5 $\frac{9}{19}$	55	5500
22. माडल टाउन टंकी कम्पाउन्ड नलकूप नं० 1 की रिबोरींग कार्य - में० केशव इ-एचएजेंस	12 $\frac{7}{19}$	3 $\frac{10}{19}$	83	8300
23. कोशाब्धी क्षेत्र गंग-भोवापुट के निकल नलकूप अपार्टमेंट के लयाह टो एल तक 450 एस० एस० आसकी 450 मी० लंबाई में डीपवेल कार्य में सी० - नरेश कुमार का-इंजिनियरिंग	5 $\frac{3}{19}$	28 $\frac{6}{19}$	115	189060
24. कोशाब्धी क्षेत्र के भोवापुट के निकल नलकूप नलकूप अपार्टमेंट तक 450 एस० एस० आसकी 450 मी० लंबाई में डीपवेल कार्य - में० नरेश कुमार का-इंजिनियरिंग	5 $\frac{3}{19}$	26 $\frac{6}{19}$	113	174780

योग 34,14,384



314

-236-

11. जैशाम्बी नगर के भोलापुट कानकट वींग	1752945/	588244	714667	126423
बाजार से सीलामरी अपार्टमेंट तक पक्का रास्ता	2464369			
प्लाट की पंजीयन लाइन आदि-सर्वेक्षण का कार्य				

कुल योग

26,86,625

जलकल अनुभाग के बिलों में 1% अतिरिक्त लेबर  
सेस जोड़े जाने के कारण अधिक/अनिपमित भुगतान  
का विवरण :

क्र.	कार्य का नाम/ढेदा का नाम	निधि	विल की धनराशि	अतिरिक्त में जोड़ी गयी लेबासेस की धनराशि
1	वार्ड- 25 अम्बेडकर नगर की वीथी में गाली में सीवर लाइन बदलने का कार्य M/S जुलैर कान्स्ट्रक्शन्स कं	14 वीथी विल	2740673	24254
2	कवि नगर जोन अन्तर्गत जी एवं एच ब्लॉक की वीथी में गाली में 160 एम०एम० व्यास की पी०बी०सी० पाइप लाइन डालने का कार्य एस०के०वी० ट्रेडिंग कं	-	2738840	24238
3	वार्ड नं० 17 हिन्डनार्बेटल में 300 एम०एम० सीवर लाइन कार्य - मैड-ट टायर जॉइन्ट्स	31	2796579	24748
4	वार्ड नं० 19 उदलनगर की वीथी में गाली में 300 एम०एम० व्यास की 800 मी० एवं 450 एम०एम० व्यास की 450 मी० आर०सी०सी० सीवर लाइन डालने का कार्य मे० भगवती कान्स्ट्रक्शन्स	-	4114424	36411
5	बुधनगर जोन के अन्तर्गत वार्ड नं० 89 वीथी में से० 5 कामना में 300 एम०एम० व्यास की सीवर लाइन डालने का कार्य - मे० भगवती कान्स्ट्रक्शन्स	31	3639838	32211
6	श्रीती जोन वार्ड नं० 09 परेलनगर डिग्री, शिवपुरा गौतम नगर की वीथी में गाली में 300 एम०एम० व्यास की 500 मी० आर०सी०सी० सीवर लाइन डालने का कार्य - मे० इन्टर टायर जॉइन्ट्स	31	1855334	16419

-238 (316)

7. खीरपुर II वार्ड-19 उद्भवित  
कीर्तन गलियारे 110 फुट लंबाई का  
पथ निर्माण एवं 80 फुट x 50 फुट का  
ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. डब्ल्यू.  
सेवा के लिए खीरपुर

14 फुट लंबाई

2652551

23562

कुल योग

1,81,843

विज्ञापनों पर 15% ट्रेड डिस्काउंट की विभाग

क्र. विज्ञापन एजेंसी का नाम/ समाचार पत्र का नाम/ विभाग का नाम	विज्ञापन की दिनांक	भुगतान की राशि	15% ट्रेड डिस्काउंट	ट्रेड डिस्काउंट के परमाणु भुगतान आग्र्य टाशि	कलम प्रमाणक लं० दिनों के
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. सुदमेन स्टार टाइमिंग स्वच्छ विभाग (1. दैनिक जागरण, दिल्ली)	8-11-19 व 9-11-19	231296	34694	196602	254/16.12.19
2. सुदमेन स्टार टाइमिंग दैनिक जागरण, दिल्ली दैनिक हिन्दू निर्माण विभाग	3-12-19	217944	32692	185252	255/16-12-19
3. सुदमेन स्टार टाइमिंग दैनिक जागरण, कानपुर कानपुर	13-11-19	112272	16841	95431	256/16-12-19
4. सुदमेन स्टार टाइमिंग अमर उजाला, दैनिक हिन्दू	17-11-19 व 18-11-19	170267	25540	144727	257/16-12-19
5. सुदमेन स्टार टाइमिंग दैनिक जागरण	24-11-19	83560	12534	71026	258/16-12-19
6. सुदमेन स्टार टाइमिंग दैनिक जागरण, दिल्ली हिन्दू, दूबगा दूबगा अमर उजाला, हिन्दू निर्माण विभाग	5-1-20	338904	56836	288068	01/03-20

1	2	3	4	5	6
सुदमन सुदकरबाईजी देवा, दिसा, सुभा करवट पालका विभाग	7-12-19 व 13-12-19	68000	10,200	57800	02/3-2-20
सुदमन सुदकरबाईजी दैनिक (जागरण), देवा, दिसा सुभा विभाग	13-12-19	93560	14,034	79526	03/03-2-20
सुदमन सुदकरबाईजी दैनिक (जागरण), देवा, दिसा सुभा विभाग	10-12-19	622200	93,330	528870	463/27-12-19
सुदमन सुदकरबाईजी दैनिक (जागरण), देवा, दिसा सुभा विभाग	5-10-19 व 6-10-19	64864	9730	55134	464/27-12-19
सुदमन सुदकरबाईजी दैनिक (जागरण), देवा, दिसा सुभा विभाग	4-2-20 व 5-2-20	370392	55559	314833	567/12-2-20
सुदमन सुदकरबाईजी दैनिक (जागरण), देवा, दिसा सुभा विभाग	17-01-20	241152	36173	204979	568/12-2-20

	2	3	4	5	6
13. सुप्रभूत सुप्रभूत दैनिक जागरण, दिल्ली सिमा विभाग सुप्रभूत सुप्रभूत	28-01-20	247424	37114	210310	569/12-2-20
14. सुप्रभूत सुप्रभूत अमर उडाणा, दिल्ली सिमा विभाग	2-2-20	206416	30962	175454	570/12-2-20
15. सुप्रभूत सुप्रभूत दैनिक जागरण, दैनिक साप्ताहिक नगर निगम	4-2-20	105248	15787	89461	571/12-2-20
16. सुप्रभूत सुप्रभूत अमर उडाणा, दैनिक हिन्द	30-12-19	61947	9292	52655	572/12-2-20
17. सुप्रभूत सुप्रभूत पामोनिबर	23-1-20	48000	7200	40800	573/12-2-20
18. सुप्रभूत सुप्रभूत पामोनिबर पुष्पा विभाग	13-2-20	48000	7200	40800	1083/26-2-20
19. सुप्रभूत सुप्रभूत दैनिक जागरण, करन्द काय	4-2-20	93560	14034	79526	1084/26-2-20

-242-  
320

1	2	3	4	5	6
<p>०. सुवर्ण सुवर्ण सुवर्ण सुवर्ण सुवर्ण सुवर्ण सुवर्ण</p>	<p>7-2-20 8-2-20</p>	<p>175008</p>	<p>26251</p>	<p>148759</p>	<p>1085/ 26-2-20</p>
<p>५. सुवर्ण सुवर्ण सुवर्ण सुवर्ण सुवर्ण</p>	<p>7-2-19</p>	<p>610.88</p>	<p>9163</p>	<p>51925</p>	<p>1086/ 26-2-20</p>
<p>२२. सुवर्ण सुवर्ण सुवर्ण सुवर्ण सुवर्ण</p>	<p>16-2-20</p>	<p>176928</p>	<p>26539</p>	<p>150389</p>	<p>1087/ 26-2-20</p>
		<p>योग</p>	<p>5,75,705</p>		

अध्यापक के जना '38' के सन्धि

(321)

पतिरिक्त

डी.ए.पी.रा पा अध्यापन का अधिकारी का सन्धि की अध्यापन विधि की के काज अध्यापन अध्यापन का विनाज

प्रा.सं. 117

क्र.	विधान के तहत नाम / विभाग का नाम	विजायत का दिनांक	विजायत का वर्ष के-सी.	अध्यापन की दर प्रति वर्ष के-सी.	अध्यापन की दर प्रतिदिन	डी.ए.पी.रा अध्यापन की प्रति वर्ष के-सी.	अध्यापन की दर प्रतिदिन	कुल अधिक अध्यापन	अध्यापन की प्रतिदिन	अध्यापन की प्रतिदिन	अध्यापन की प्रतिदिन
1	सुद्वारा अध्यापन विभाग का नाम	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	सुद्वारा अध्यापन विभाग का नाम	8.11.19	32	2089	66848	214.94	6879	59969	10	11	
1	1. धनिक जागो, धनिक जागो	9.11.19	32	1200	38400	94.50	3024	35376	254/	23730	
1	2. धनिक जागो	9.11.19	32	2089	66848	214.94	6879	59969	16-12-19		
2	सुद्वारा अध्यापन विभाग का नाम		32	1850	59200	128-26	4104	55096			
2	सुद्वारा अध्यापन विभाग का नाम										
1	1. धनिक जागो	3-12-19	56	2089	116984	214.94	12037	104947	255/	223600	
2	धनिक जागो	3-12-19	56	1777	99512	128.26	7183	92329	16-12-19		
3	धनिक जागो	3-12-19	56	25.85	1448	25.85	1448	00			
3	सुद्वारा अध्यापन विभाग का नाम										
1	1. धनिक जागो	13-11-19	48	2089	100272	214.94	10317	89955	256/	115200	
2	धनिक जागो	13-11-19	48	250	12,000	94.50	4536	7464	16-12-19		



322  
 2014

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	सुप्रभा सुप्रभा सुप्रभा	17-11-19	88	1909	167992	94.50	8316	159676	257/16-12-19	174700	
	1. सुप्रभा सुप्रभा	18-11-19	88	25.85	2,275	25.85	2275	00			
	2. सुप्रभा सुप्रभा										
	सुप्रभा सुप्रभा सुप्रभा	24-11-19	40	2089	83560	214.94	8598	74962	258/14-12-19	85700	
5.	सुप्रभा सुप्रभा सुप्रभा										
	1. सुप्रभा सुप्रभा										
6.	सुप्रभा सुप्रभा सुप्रभा										
	1. सुप्रभा सुप्रभा	5-1-20	56	2089	116984	214.94	12037	104947	01/03-20	347700	
	2. सुप्रभा सुप्रभा	5-1-20	56	1777	99512	128.26	7183	92329			
	3. सुप्रभा सुप्रभा	5-1-20	56	1909	14000	94.50	5292	8708			
	4. सुप्रभा सुप्रभा	5-1-20	56	26.85	106904	26.85	1504	105400			
	5. सुप्रभा सुप्रभा	5-1-20	56	250	14000	28.95	1621	12379			
7.	सुप्रभा सुप्रभा सुप्रभा	7-12-19	96	250	24000	28.95	2779	21221	02/03-20	69700	
	1. सुप्रभा सुप्रभा	7-12-19	96	250	24000	16.87	1620	22380			
	2. सुप्रभा सुप्रभा	13-12-19	40	250	101000	28.95	1158	8842			
	3. सुप्रभा सुप्रभा	13-12-19	40	250	101000	16.87	675	9375			



324

246

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	सुदामा सुप्रसन्न	17-01-20	32	1200	38,400	94.50	3024	35376	568/	242400
12.	सुदामा सुप्रसन्न	17-01-20	32	1909	61088	94.50	3024	58064	12-2-20	
	सुदामा सुप्रसन्न	17-01-20	32	1777	56864	128.26	4104	52760		
	सुदामा सुप्रसन्न	17-01-20	32	1200	38400	94.50	3024	35376		
	सुदामा सुप्रसन्न	17-01-20	32	250	8000	28.95	926	7074		
	सुदामा सुप्रसन्न	17-01-20	32	1200	38400	94.50	3024	35376		
13.	सुदामा सुप्रसन्न								569/	248700
	सुदामा सुप्रसन्न	28-1-20	32	2089	66848	214.94	6878	59970	12-2-20	
	सुदामा सुप्रसन्न	28-1-20	32	2089	66848	214.94	6878	59970		
	सुदामा सुप्रसन्न	28-1-20	32	1777	56864	128.26	4104	52760		
	सुदामा सुप्रसन्न	28-1-20	32	1777	56864	128.26	4104	52760		
14.	सुदामा सुप्रसन्न	2-2-20	56	1909	106904	94.50	5292	101612	570/	211800
	सुदामा सुप्रसन्न	2-2-20	56	1777	99512	128.26	7183	92329	12-2-20	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	सुदामा सुन्दरबोधिनी गोठरका 1. 4/1/20 2. 4/1/20 गोठरका 19/1/11	4-2-20 4-2-20	3.2 3.2	2089 1200	66848 38400	214.94 94.50	6878 3024	59970 35376	5711 12-2-20	108000
16	सुदामा सुन्दरबोधिनी गोठरका 1. सुदामा सुन्दरबोधिनी 2. 4/1/20 गोठरका 19/1/11	29-12-19 30-12-19	3.2 3.2	1909 26.85	61088 859	94.50 26.85	3024 859	58064 50	5721 12-2-20	63500
17	सुदामा सुन्दरबोधिनी गोठरका 1. सुदामा सुन्दरबोधिनी 2. 4/1/20 गोठरका 19/1/11	23-1-20	40	1200	48000	94.50	3780	44220	5731 2-2-20	49200
18	सुदामा सुन्दरबोधिनी गोठरका 1. सुदामा सुन्दरबोधिनी 2. 4/1/20 गोठरका 19/1/11	13-2-20	40	1200	48000	94.50	3780	44220	10831 26-2-20	49200



- 249 -

(327)

६०० आ० आ०-क के अन्तर् ७३' में सजायी

सकान किराया कटौती वि०

परिमित 'ब'

क्र.सं.	आय प्रमाण संख्या/दिनांक	अदि काल/कर्मचारी का नाम	पदनाम	ग्रेड वेतन सीमा	प्रतिमाह कटौती	अदि काल	प्रतिमाह कटौती
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
(1)	५८१/१०-२-२०	श्री मोहन कुमार	प्रथम श्रेणी अधिकारी	५०५००	५०५०	२२५	५०५०
(2)	" "	" श्री श्री कृष्ण शंकर	" "	३७०००	३७००	१५०	३७००
(3)	" "	" राजेश शर्मा	डि. ग्रा. वि.	३५९००	३५९०	१५०	३५९०
(4)	५८२/१०-२-२०	" नरेश शर्मा	अधीक्षक	३९२००	३९२०	१५०	३९२०
(5)	" "	" संतोष शर्मा	अधीक्षक	२७६००	२७६०	१५०	२७६०
(6)	" "	" विजय शर्मा	" "	२३५००	२३५०	१५०	२३५०
(7)	" "	" निशांत शर्मा	" "	३१५००	३१५०	१५०	२९९०
(8)	" "	" रविशंकर शर्मा	" "	२६०००	२६००	१५०	२६००
(9)	" "	" रवींद्र शर्मा	अधीक्षक	२२८००	२२८०	१५०	२२८०
(10)	" "	" राजेश शर्मा	अधीक्षक	३८१००	३८१०	१५०	३८१०
(11)	५८३/१०-२-२०	" श्री श्री कृष्ण शंकर	अधीक्षक	५३६००	५३६०	१५०	५३६०
(12)	" "	" राजेश शर्मा	अधीक्षक	५५१००	५५१०	१५०	५५१०

(328)

-251-

1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
13.	483/10-2-20	श्री सूर्य प्रसाद " लक्ष्मी	पु.सो. वि.	41600	4160	श्री	4160
14.	"	"	"	41600	4160	श्री	4160
15.	"	" श्री सूर्य प्रसाद	"	41600	4160	श्री	4160
16.	"	" जयपाल शर्मा	"	38100	3810	श्री	3810
17.	"	" श्रीमान शंकर	सिपिक	38100	3810	श्री	3810
18.	"	" नरेश शर्मा	"	31400	3140	150	2990
19.	"	" लक्ष्मी शर्मा	"	32300	3230	श्री	3230
20.	"	" श्री सूर्य प्रसाद	सिपिक	33900	3390	श्री	3390
21.	"	" श्रीमान शर्मा	सिपिक	33900	3390	श्री	3390
22.	"	" लक्ष्मी शर्मा	"	32300	3230	श्री	3230
23.	"	" श्री सूर्य प्रसाद	"	29300	2930	150	2780
24.	"	" लक्ष्मी शर्मा	"	34300	3430	श्री	3430
25.	"	" श्री सूर्य प्रसाद शर्मा	"	35900	3590	श्री	3590

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
26	484/10-2-20	श्री लका कुमार	मर आशुस	35900	3590	शून्य	3590
27	" "	" सुख	" "	36400	3640	शून्य	3640
28	" "	" प्रभात शर्मा	" "	27600	2760	शून्य	2760
29	485/10-2-20	श्री बल विद्या सिं	गोहर	39200	3920	शून्य	3920
30	486/10-2-20	श्री मति शक्ति	अनुपर	34900	3490	शून्य	3490
31	<del>487</del> 10-2-20	श्री बार्बर शर्मा	द्वार	22800	2280	शून्य	2280
32	486/10-2-20	श्री अनाप कुमार	श्रीमती गा	25600	2560	150	2410
33	" "	" विशाभा देवास	गीतमन	17950	1795	शून्य	1795
34	" "	" नरेश कुमार	म नि	56900	5690	2000	3690
35	" "	" पर-रुप नरदी	म नि	40400	4040	1014	3026
36	487/10-2-20	श्री मती शक्ति देवी	मती	20300	2030	150	1880
37	" "	श्री लका कुमार	मती	26800	2680	शून्य	2680
38	" "	" गणेश कुमारी	मती	33300	3330	शून्य	3330
39	" "	" अनाप कुमार	गांधी	33300	3330	150	3180



330

- 255 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
488	10-2-2090	ਸ੍ਰੀ ਪੀਕਾ ਸਿੰਘ	ਭੰਗੂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰ	34900	3490	254	3490
"	"	" ਵੱਲੋਂ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰ	" " "	38100	3810	254	3810
491	10-2-20	ਸ੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਅੰਮਰ	ਪੀਕਾ ਸਿੰ	19700	1970	254	1970
"	"	" ਚਿਤਰ ਪਾਲ ਸਿੰ	ਲਿਫਿਤ	30200	3020	254	3020
"	"	" ਅਰਠ ਚੈਠਕ	ਸਿੰਘ ਸਿੰ	22800	2280	254	2280
"	"	" ਚੈਠਕ ਕੁਮਾਰ	ਸਿੰਘ ਸਿੰ	22100	2210	254	2210
"	"	" ਚਾਲ ਚੈਠਕ	" " "	30500	3050	254	3050
"	"	" ਚੈਠਕ ਸਿੰਠਕ	" " "	30500	3050	254	3050
"	"	" ਚਾਲ ਚੈਠਕ	" " "	35900	3590	254	3590
492	10-2-20	" ਚੈਠਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰ	ਪੀਕਾ ਸਿੰ	22100	2210	254	2210
"	"	" ਸਿੰਠਕ ਚੈਠਕ	ਭੰਗੂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰ	23100	2310	150	2160
"	"	" ਸਿੰਠਕ ਚੈਠਕ	ਲਿਫਿਤ	26800	2680	150	2530
"	"	" ਚਿਤਰ ਪਾਲ	ਲਿਫਿਤ	38100	3810	160	3650
"	"	" ਚੈਠਕ ਕੁਮਾਰ	ਚੈਠਕ ਲਿਫਿਤ	39200	3920	160	3760

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
493/10-2-20	"	श्री मी. अण्णा	<del>36400</del> कापडा	36400	3640	३६५	3640
194/10-02-20	"	" रविश सुभा	कपडा	24500	2450	२४५	2450
"	"	" शीमाबाय	पद्म-पान्हा	18500	1850	150	1700
"	"	" श्रीम सुभा	पद्म-पान्हा	23800	2380	150	2230
"	"	" सोमका सुभा	"	23800	2380	150	2230
"	"	" अश्विनीबा	"	23800	2380	150	2230
"	"	" पुरे-र सुभा	"	23800	2380	150	2230
"	"	" सिने-र सिं	"	23800	2380	150	2230
"	"	" साधुबा	"	23800	2380	150	2230
"	"	" मीना सिं	"	23800	2380	१५५	2380
"	"	" पुरे सुभा	"	23800	2380	१५५	2380
"	"	" साधुबा	"	23800	2380	१५५	2380
"	"	" मनाबा	"	23800	2380	150	2230
"	"	" विना सुभा	"	23800	2380	150	2230
"	"	" साधुबा	"	23800	2380	150	2230

-259-

332

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
494	10-02-20	ਸੀ ਏ ਰਵੰਡ	454 ਪਾਇਡ	37000	3700	150	3550
"	"	" ਵਿਕਿਰਾਮਪੁਰ	"	35300	3530	10	3520
"	"	" ਮੇਰਾ	"	24500	2450	150	2300
"	"	" ਮਾਮੀਪੁਰ	"	34300	3430	ਸ਼ੁੱਧ	3430
"	"	" ਆਰੀਓ ਓਮਾਰ	"	33000	3300	150	3150
"	"	" ਚਿਤਾਮ ਗੋਪਾਲ	"	35300	3530	ਸ਼ੁੱਧ	3530
"	"	" ਡੇਵੇਂਗ ਸਿੰਘ	"	27900	2790	150	2640
"	"	" ਚਿਤਾਮ ਓਮਾਰ	"	30500	3050	150	2900
"	"	" ਚਮਪੁਰ	"	37000	3700	150	3550
"	"	" ਪੁਆਪ ਪਾਡ	"	35300	3530	150	3380
"	"	" ਗੁਲੇਰ ਓਮਾਰ	"	35900	3590	150	3440
"	"	" ਮਾਮੀ ਚਮਪੁਰ	"	24900	2490	ਸ਼ੁੱਧ	2490
"	"	" ਚਮਪੁਰ	"	30500	3050	150	2900
"	"	" ਚਿਤਾਮ ਓਮਾਰ	"	29300	2930	ਸ਼ੁੱਧ	2930
"	"	" ਚਮਪੁਰ ਓਮਾਰ	"	29200	2920	150	2770

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
494	10-02-20	श्री सूर्य उमाल	पुन्य-पिन	23800	2380	150	2230
"	"	" कार्य	"	23800	2380	150	2230
"	"	" पुन्य-पुन्य	"	23800	2380	2230	2380
"	"	" पुन्य उमाल	"	23800	2380	150	2230
"	"	" पुन्य रक्त	"	23800	2380	150	2230
"	"	" पुन्य पाल	"	23800	2380	150	2230
"	"	" पुन्य उमाल	"	23800	2380	150	2230
"	"	" अरवीर	"	23800	2380	150	2230
"	"	" पुन्य सि रक्त	"	23800	2380	150	2230
"	"	" पुन्य उमाल	"	23800	2380	150	2230
"	"	" पुन्य उमाल	"	27100	2710	150	2560
"	"	" पुन्य उमाल	"	27100	2710	150	2560
"	"	" पुन्य उमाल	"	37000	3700	150	2910
"	"	" पुन्य उमाल	"	37000	3700	150	2910
"	"	" पुन्य उमाल	"	30600	3060	150	3550
"	"	" पुन्य उमाल	"	37000	3700	150	3700
"	"	" पुन्य उमाल	"	29600	2960	150	2810

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	494 / 10-2-20	" विजय लाल	पुत्र-पत्नी	29600	2960	150	2810
	495 / 10-2-20	श्री आशुतोष सिंगल	पुत्र-पत्नी	18500	1850	150	1700
	"	श्री श्री बाला	पत्नी	37000	3700	150	3550
	"	" सलीम	पत्नी	3300	3330	150	3180
	"	" दीप सिंह	"	35300	3530	150	3380
	"	" श्री लोकर	"	35900	3590	150	3440
	"	" राजल लाल	पुत्र	24900	2490	250	2490
	"	" हरिजन पाल	पुत्र	35900	3590	150	3440
	"	" पद्म वर्मा	"	27200	2720	150	2570
	"	" श्रीराम	पुत्र	25600	2560	150	2410
	"	" राजेश चन्द	पुत्र	22800	2280	250	2280
	"	" आशु लाल	"	22800	2280	150	2130
	"	" सुन्दर	"	22800	2280	150	2130
	"	" सुभाष चन्द	"	22800	2280	150	2130
	"	" राम लाल	"	22800	2280	150	2130

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
495/10-2-20	"	श्री श्री सचि	श्री श्री	22800	2280	150	2130
"	"	श्री श्री श्री	"	22800	2280	215	2280
"	"	श्री श्री श्री	"	22800	2280	150	2130
"	"	श्री श्री श्री	"	22800	2280	150	2130
"	"	श्री श्री श्री	"	20300	2030	215	2030
"	"	श्री श्री श्री	"	21500	2150	150	2000
"	"	श्री श्री श्री	"	20900	2090	215	2090
"	"	श्री श्री श्री	"	20900	2090	150	1940
"	"	श्री श्री श्री	"	29300	2930	150	2780
"	"	श्री श्री श्री	"	29300	2930	150	2780
"	"	श्री श्री श्री	"	35900	3590	150	3440
"	"	श्री श्री श्री	"	35900	3590	150	3440
"	"	श्री श्री श्री	"	34300	3430	150	3280
"	"	श्री श्री श्री	"	35900	3590	150	3440
"	"	श्री श्री श्री	"	34300	3430	150	3280
"	"	श्री श्री श्री	"	27200	2720	150	2570
"	"	श्री श्री श्री	"	23500	2350	150	2200

336

262

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
496	10-2-20	ਮੀ ਲੋਕਮਾਨ ਸੇਖਰ	ਮਿਲੀਆਰ	19858	1985	150	1835
"	"	" ਵਲੀਕਰ ਸੇਖਰ	ਵਲੀਕਰ ਸੇਖਰ	34300	3430	225	3430
"	"	" ਵਲੀਕਰ ਸੇਖਰ	ਵਲੀਕਰ ਸੇਖਰ	35900	3590	150	3440
497	10-2-20	" ਸਿ ਸਿ	ਮੁਕਤ ਸੇਖਰ	18000	1800	225	1800
		" ਮੁਕਤ ਸੇਖਰ	"	18000	1800	150	1650
		" ਵਲੀਕਰ ਸੇਖਰ	"	18000	1800	150	1650
		" ਵਲੀਕਰ ਸੇਖਰ	"	19700	1970	150	1820
		" ਮੀ ਵਲੀਕਰ ਸੇਖਰ	ਮੁਕਤ-ਮਿਲੀਆਰ	20300	2030	150	1880
498	10-2-20	" ਵਲੀਕਰ	ਮੁਕਤ ਸੇਖਰ	18000	1800	150	1650
		" ਵਲੀਕਰ	ਮੁਕਤ ਸੇਖਰ	25600	2560	225	2560
		" ਵਲੀਕਰ	"	30500	3050	225	3050
		" ਵਲੀਕਰ	"	30500	3050	225	3050
		" ਵਲੀਕਰ	"	34300	3430	225	3430
		" ਵਲੀਕਰ	"	35300	3530	225	3530
		" ਵਲੀਕਰ	"	34300	3430	225	3430
		" ਵਲੀਕਰ	"	34300	3430	225	3430





(338)

-271-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
503	10-2-2020	प्रा. कृषि	कृषि. अ.क.	22800	2280	२२८०	2280
504	10-2-2020	प्रा. पशु चिकित्सा	अभिलेख	22800	2280	२२८०	2280
		" " ०३५३	कृषि अ.क.	29800	2280	२२८०	2280
		" " २१०३	अभिलेख	22800	2280	२२८०	2280
		" " २१०३	कृषि अ.क.	29300	2930	२९३०	2930
		प्रा. कृषि विज्ञान	कृषि अ.क.	23500	2350	२३५०	2350
		" " ०५१०	" "	23500	2350	२३५०	2350
		" " ०५१०	" "	23500	2350	२३५०	2350
		" " ०५१०	" "	23500	2350	२३५०	2350
		" " ०५१०	" "	23500	2350	२३५०	2350
		" " ०५१०	" "	23500	2350	२३५०	2350
		" " ०५१०	" "	23500	2350	२३५०	2350
		" " ०५१०	अभिलेख	२२८००	2280	२२८०	2280
		" " ०५१०	कृषि अ.क.	11400	1140	११४०	1140

५९०/१२२

(339)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
504	10-2-2020	श्री राजेश कुमार	आदि आदि	35900	3590	150	3440
		" श्री	"	33300	3330	श्री	3330
		" श्री	"	35900	3590	श्री	3590
		" श्री	श्री श्री	3590	3590	श्री	3590
		" श्री	"	3810	3810	श्री	3810
		" श्री	"	34300	3430	श्री	3430
		" श्री	श्री श्री	25600	2560	150	2410
506	10-2-2020	श्री श्री	श्री श्री	35900	3590	श्री	3590
		" श्री	"	34300	3430	150	3280
		" श्री	"	37000	3700	150	3550
		" श्री	"	34300	3430	श्री	3430
		" श्री	"	35900	3590	श्री	3590
		" श्री	"	33300	3330	श्री	3330
		श्री श्री	"	29300	2930	<del>श्री</del> 150	2780

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	506   10-2-2020	लक्ष्मि प्रेम प्रेम	<del>2840</del> 2840	28400	2840	225	2840
		"	2864	28640	2864	225	2864
	10-2-2020	"	3590	35900	3590	225	3590
		Allopr प्रेम प्रेम	"	35300	3530	150	<del>3530</del> 3380
		लक्ष्मि प्रेम प्रेम	"	32300	3230	225	3230
		लक्ष्मि प्रेम प्रेम	"	35900	3590	225	3590
		लक्ष्मि प्रेम प्रेम	"	29300	2930	225	2930
		श्री अंशुप्रकाश	"	35900	3590	225	3590
		"	"	35900	3590	225	3590
							559727
							559727 x 12 = 6716724 = 0

~~506 | 10-2-2020~~

द्वै वर्ष का प्रतिमाह कम करती है राश-

मात्र

-222-

एन सीओ भाग -क के जन ( 74 ) निर्माण

341

परिशिष्ट 'अ'

श्री.ओ.टी.के अन्तर्गत विभाजन शुल्क का विवरण 2019-20

क्र.सं.	वर्क का नाम	अनुवन्ध की तिथि	मार्ग का नाम	वर्ष 2019-20 का विभाजन शुल्क	वर्ष 2019-20 में एकड़-अनुवन्ध शुल्क का कुल योग	प्रति/वर्गमी	अवशेष	विमान
1	शैलर्स नेट मोर	02.01.2016 to 01.01.2021	विशाखक की स्थापना व अनुवन्ध का कार्य।	32401803.00	32401803.00	32401803.00	---	---
2	शैलर्स कौन्सिलर इन्फ्रान्ट प्रान्टिओ	14.07.2010 to 13.07.2030	पुटओवर ब्रिज का निर्माण कार्य।	1991000.00	1991000.00	1447000.00	544000.00	---
3	शैलर्स पावनिगर पब्लिसिटी कारपोरेशन प्रान्टिओ	22.02.2013 to 21.02.2043	पुटओवर ब्रिज का निर्माण कार्य।	61000.00	61000.00	61000.00	---	---
4	शैलर्स मिडिया कर्कशाथ	15.01.2013 to 14.01.2043	पुटओवर ब्रिज का निर्माण कार्य।	237611.00	237611.00	82611.00	155000.00	---
5	शैलर्स नन्द इंक	15.01.2013 to 14.01.2043	पुटओवर ब्रिज का निर्माण कार्य।	130917.00	130917.00	82139.00	48778.00	---
6	शैलर्स अविनय एडवर्टइजिंग एजेन्सी	15.01.2013 to 14.01.2043	पुटओवर ब्रिज का निर्माण कार्य।	182222.00	182222.00	123333.00	58889.00	---
7	शैलर्स डीएसीओ एड कैंप	15.01.2013 to 14.01.2043	पुटओवर ब्रिज का निर्माण कार्य।	212785.00	212785.00	121067.00	91718.00	---
8	शैलर्स सेरा आउटडोर	22.10.2009 to 21.10.2019	टाउनगर फ्लाई ओवर से विदेकानन्द जॉइनिंग	67060.00	67060.00	67060.00	---	अनुवन्ध समाप्त
9	शैलर्स एम.एस एडवर्टइजंगर	12.02.2013 to 11.02.2018	वैद्युत्परा	276715.00	276715.00	100000.00	176715.00	अनुवन्ध समाप्त
10	शैलर्स सीई पब्लिसिटी	22.01.2013 to 21.02.2023	कौशाब्दी	201014.00	574782.00	270000.00	304782.00	शुभ कार संड 709 /2019 शैलर्स सीई पब्लिसिटी बनाम नगर निगम गांधिबाबाद में माओ न्यायालय द्वारा स्वपन आदेश जारीत किया हुआ है।
11	शैलर्स डू मिडिया सोल्युशनस	25.07.2015 to 24.07.2020	महापुरुषों की मूर्ति के रख रखव का कार्य।	5310000.00	5310000.00	5310000.00	---	---
12	शैलर्स डू मिडिया सोल्युशनस	25.07.2015 to 24.07.2020	महापुरुषों की मूर्ति के रख रखव का कार्य।	590000.00	590000.00	590000.00	---	---
13	शैलर्स डिजिटल ड्रीम ड्रीम	23.05.2017 to 23.05.2029	ट्रीफिक सिग्नलों का अनुवन्ध व संचालन का कार्य।	2623653.00	2623653.00	2623653.00	---	---
14	शैलर्स रिवा इन्फ्रान्टिओ	27.09.2016 to 26-09-2027	शौचालय का निर्माण कार्य।	263104.00	263104.00	263104.00	---	---

-279-

342

बी.ओ.टी के अन्तर्गत विज्ञापन शुल्क का विवरण 2019-20							
क्र.सं.	फर्म का नाम	अवकाश की तिथि	गर्भ का नाम	वर्ष 2019-20 का विज्ञापन शुल्क	वर्ष 2019-20 में दिनांक 30.09.2019 तक कुल भोग	प्राप्ति/वसूली	अवशेष
15	भैरव सैफरॉन कन्सुल्टिंग	23.02.2017 to 22.02.2019	कविनगर, सिटी मोहननगर जोन		25578080.00	4000000.00	21578080.00
16	भैरव एडवैजियन एडवोकेट		नगर निगम सीमा में अवैध विज्ञापन शुल्क	37200.00	37200.00	37200.00	
17	भैरव एलार बैकट		नगर निगम सीमा में अवैध विज्ञापन शुल्क	87180.00	87180.00	87180.00	
18	अवैध विज्ञापन		नगर निगम सीमा में अवैध विज्ञापन शुल्क	39319.00	39319.00	39319.00	
				44435868.00	70664431.00	47706469.00	22957962.00

19. श्री पोतशुड एडवोकेट्स

7.8.2008

मोहननगर सिटी मोहननगर

01210

748604

829814

-

20. श्री. हरिप्रसाद होस्टल प्रा. लि.

7.8.2008

नवभुवा मॉडर्न ले कलेज रोड दण्डुड शहर

473896

360759

842655

-

उत्तर 23513068

नगर विभाग गांधीबाग 1 दिनांक - 31-03-2020 को असमाप्त/अनियमित आयों का विवरण

क्रमांक	आयों का वर्गीकरण	आय प्रमाणिक संख्या	आय प्रमाणिक तिथि	आय प्रमाणिक विवरण	कुल राशि
01-	परमपत्र आय (श्री संसदीय)	515/22-1-2000	2000	श्री संसदीय के परमपत्र आय	1,00,000 =
02	उत्पाद आय	116/7-2-2000	2000	श्री संसदीय के उत्पाद आय	50,000 =
03	— " —	913/30-2-2000	2000	श्री संसदीय के आय	25,000 =
04	उपभोग	1075/29-9-2000	2000	श्री संसदीय के उपभोग	16,000 =
05	नगर आय (श्री संसदीय)	40/4.4.2000	2000	श्री संसदीय के नगर आय	22,760 =
06	— " —	41/4.4.2000	2000	श्री संसदीय के आय	23,990 =
07	उत्पाद आय	525/25-11-2000	2000	श्री संसदीय के उत्पाद आय	40,750 =
08	— " —	405/9-7-2000	2000	श्री संसदीय के आय	50,000 =
09	— " —	139/4-8-2000	2000	श्री संसदीय के आय	20,000 =
10	परिचालना निदेश	270/8-8-2000	2000	श्री संसदीय के परिचालना निदेश	2,00,000 =
11	नगर आय (श्री संसदीय)	319/10-8-2000	2000	श्री संसदीय के नगर आय	50,000 =
12	— " —	353/13-9-01	2000	श्री संसदीय के आय	50,000 =
13	नगर आय (परमपत्र)	753/1-7-2000	2000	श्री संसदीय के नगर आय	150,000 =
14	— " —	115/7.4.2000	2000	श्री संसदीय के आय	98,232 =
15	— " —	85/8-10-01	2000	श्री संसदीय के आय	39,290 =
16	नगर आय (निर्माण)	697/23-2-01	2000	श्री संसदीय के निर्माण आय	50,000 =
17	— " —	426/12-10-01	2000	श्री संसदीय के आय	7700 =
18	नगर आय (परमपत्र)	193/0-2-1999	2000	श्री संसदीय के नगर आय	67,200 =
19	नगर आय (निर्माण)	736/27-10-01	2000	श्री संसदीय के निर्माण आय	3000 =
20	— " —	295/01-05-02	2000	श्री संसदीय के आय	52,000 =
21	— " —	319/12-11-01	2000	श्री संसदीय के आय	24,953 =

श्री संसदीय - 31.3.19 9/2000

22	नगर आयोजना निगम	305/7-1-02	कावेनगर जोन सी ब्लॉक के पास गुणियावाली क्रीडा क्लब	39000 =
23	"	434/15-1-02	शहर के निगम स्वामि पर अलाव प्लान हेतु	38000 =
24	"	653/25-1-02	कंसल्टेंसी विद्यापन सम्बन्धी	56600 =
25	"	17/25-1-02	राज्य शासन पास डालने के राफर पाई की पारदर्शिता हेतु	200000 =
26	"	42/2-2-02	साई उपकरण के कार्यालय कार्य हेतु	200000 =
27	"	144/6-3-02	कैला स्कूल के पास निगम हेतु	200000 =
28	"	404/19-3-02	शहीद नगर में ट्रांसपोर्ट लड सीवर निकालने हेतु	200000 =
29	"	150/16-04-02	ताथरट मुख्य जग हेतु	37200 =
30	"	162/01-04-02	निगम स्वर सामग्री आपूर्ति	100000 =
31	"	34/3-05-02	सातू बाधा मॉडर्न के पास स्वयंसेवा निगम हेतु	191950 =
32	विधि अधीन	148/15-4-02	मुल्कपत्र व्यय हेतु	15000 =
33	द्वैत रूप पत्र चालक	50/01-05-02	इलाज हेतु आगम	20000 =
34	नगर आयोजना (जलकल)	218/1-5-02	हलोचिंग पाइप की आपूर्ति हेतु	124793 =
35	नगर आयोजना (निगम)	525/18-05-02	इलाज हेतु आगम	20000 =
36	"	318/18-05-02	स्नगर सेविल पत्र्य क्रय हेतु	53786 =
37	नगर आयोजना (जलकल)	362/22-5-02	सैण्डमगर बी-06 के सामने पाई निकालने हेतु	100000 =
38	"	747/22-5-02	" " " " " "	100000 =
39	श्री रामचन्द्र (लिपिड)	155/1-06-02	माओ संग का रिफ्ट क्रय हेतु	5000 =
40	नगर आयोजना (जलकल)	300/15-6-02	करोरीन क्रय हेतु	108000 =
41	"	386/20-7-02	पाना के इलाज हेतु आगम	20000 =
42	"	503/01-7-02	पाना के इलाज हेतु आगम	200000 =
43	"	504/01-7-02	110 स्वयंसेवा के पास प्रकय करण हेतु	200000 =

2419532







346

251

9606210

86	नगर आभियन्ता (निर्माण)	756/1-12-02	पार्क परमार्थ हेतु	100000 -
67	- " -	48/1-3-03	कर्मचारीवागी फव्वारे के चारों ओर रोपण का काम	200000 -
68	नगर आभियन्ता (प्रत्यक्ष)	91/1-3-12	पार्क क्षेत्र हेतु	32610 -
69	परिभाषणा विदेशाड (उप)	165/13-3-03	गाम्बर ईसपुर के सामने कच्चा निर्माण हेतु	65577 -
70	- " -	903/13-3-03	रिसाक के गुलाब हाइपर से किम मिगोड लाक	69910 -
71	नगर आभियन्ता (निर्माण)	915/13-3-03	रवडजा के गाली निर्माण हेतु गाम्बर मोरला के आसपास क्षेत्र	100000 -
72	- " -	1217/19-3-03	बामशाह घाट पर विभास कार्य हेतु	107000 -
73	- " -	1218/19-3-03	हिण्डनवा कुल आक्रम पटरी पर सुधार हेतु	100000 -
74	- " -	1228/21-3-03	कचरा उबलान हेतु जोड़ के क्षेत्र हेतु	833865 -
75	- " -	1229/21-3-03	जोड़ के क्षेत्र हेतु	2194188 -
76	- " -	1026/1027/21-3-03	टीपर के ड्रक के क्षेत्र हेतु	1317093 -
77	- " -	1307/22-3-03	नैरु रोड विरहे पर चौं चरण सिंह डीयूएन पास रोड का क्षेत्र	100000 -
78	परिभाषणा कार्यकारी (इ.डी.)	1316/27-2-03	अपेक्षा के डिजाइन के पास गाली के रवडजा हेतु	200000 -
79	- " -	चक्र - 414506/9-4-03	नगर निर्माण सुधार जोड़ व्यापक के निर्माण हेतु	500000 -
80	नगर आभियन्ता (निर्माण)	1-168230/9-4-03	नवभुगतोकेट स्थित अक्खर पार्क के सुटपाय हेतु	160000 -
81	- " -	7-81575/21-5-03	- तर्क -	100000 -
82	- " -	1-82700/20-6-03	बाउलीवार्ड के निर्माण हेतु परतलनगर की 555 पाके निर्माण	50000 -
83	- " -	555/24-7-03	स्टोर के रोपी आभू निर्माण	50000 -
84	- " -	699/24-11-03	- तर्क -	100000 -
85	- " -	27/1-8-03	लोनोपार्क के निर्माण हेतु	140000 -
86	- " -	37/3-07-03	कर्मचारीवागी फव्वारे के चारों ओर ग्रीन लागाव हेतु	70000 -
87	नगर आभियन्ता (प्रत्यक्ष)	604/12-9-03	बामशाह गार्ड के पार्क क्षेत्र करने हेतु	254720

16451181 -





(347)

16451181-

88-	नगर आशियाना (वामपार्श्व)	1303/30-11-03	नगरपालिकाको वार्ड नमबर 103	200000-
89	- " -	605/12-09-03	वार्ड नमबर 103	70125-
90	- " -	1303/30-11-02	- " -	200000-
91	- " -	603/12-09-03	वार्ड नमबर 103	84410-
92	नगर आशियाना (पश्चिम)	1505/25-9-03	वार्ड नमबर 103	49500-
93	- " -	1035/25-9-03	वार्ड नमबर 103	50211-
94	परिचालन आशियाना (दुईटा)	1624/26-9-03	वार्ड नमबर 103	50000-
95	- " -	1626/26-9-03	- " -	1083-
96	- " -	1623/26-9-03	वार्ड नमबर 103	100000-
97	श्री रक्षाधाम प्रत्यक्ष	565/19-10-03	वार्ड नमबर 103	10000-
98	नगर आशियाना (पश्चिम)	626/1-12-03	वार्ड नमबर 103	200000-
99	नगर स्थापना आशियाना	409/20-5-03	श्री अश्या नगरपालिकाको वार्ड नमबर 103	2556-
100	श्री अश्या नगर (प्रथम-पार्श्व)	198/4-3-04	वार्ड नमबर 103	50000-
101	" " " " " (प्रथम-पार्श्व)	01/2-7-04	वार्ड नमबर 103	9550-
102	" " " " " (प्रथम-पार्श्व)	120/8-6-04	वार्ड नमबर 103	12022-
103	" " " " " (प्रथम-पार्श्व)	61/6-7-04	वार्ड नमबर 103	10000-
104	नगर आशियाना (वामपार्श्व)	395/12-01-05	वार्ड नमबर 103	45000-
105	वार्ड आशियाना	442/18-2-05	वार्ड नमबर 103	10000-
106	श्री अश्या नगर (प्रथम-पार्श्व)	197/11-02-05	श्री अश्या नगरपालिकाको वार्ड नमबर 103	15000-
107	नगर आशियाना (वामपार्श्व)	692/17-3-05	वार्ड नमबर 103	9700-
108	प्रथम-पार्श्व	694/17-3-05	श्री अश्या नगरपालिकाको वार्ड नमबर 103	11000-

109-	नगर आंगणवाडी (जलपत्र)	9/2/22-03-05	गोविन्दपुर में ट्यूबवेल है	103216-00
110.	प्रकारी (आयुष्मान)	11/2.2.3-05	सोई उपवन में पम्प है	27756-00
111	नगर आंगणवाडी (सिमेंट)	9/3/22-3-05	वसुन्धरा में ट्यूबवेल है	64584-00
112	प्रकारी (आयुष्मान)	255/13.5.05	श्री मेघराज सिंह माली की इलाज है	20000-00
113	नगर आंगणवाडी (जलपत्र)	577/17.01.05	प्रताप विहार में लम्बे खंभे की मरम्मत है	43751-00
114	- " -	740/30.5.05	- " -	19677-00
115	- " -	53/3-6-05	पम्पचालक की इलाज है	9700-00
116	नगर स्वास्थ्य आयुष्मान	132/20.7.05	श्री महेन्द्र सिंह को इलाज है	10000-00
117	नगर आंगणवाडी (जलपत्र)	03/2.7.05	" राम त्यों की इलाज है	10000-00
118	- " -	666/26.10.05	पारंपरिक है	54972-00
119	- " -	724/28.2.05	श्री गणेशपाल पम्पचालक की इलाज है	96000-00
120	- " -	22/01-05-06	" प्रेमसिंह पम्पचालक की इलाज है	10000-00
121	- " -	1089/12.2.04	विजसो के सामान की आपूर्ति है	196000-00
122	नगर स्वास्थ्य आयुष्मान	372/17.5.03	श्री अकरपाल साहू की इलाज है	100000-00
123	- " -	3248/18.9.05	श्री किंलू सिंह साहू की इलाज है	9400-
124	- " -	841/28.2.07	चाँसखपर सीवर मशीन के अंश है	1135000-
125	श्री सुखेन्दु सिंह	325/18.8.07	निर्माण के वसाद	34500-
126	श्री जयशंकर	2192/31.3.08	नगर आंगणवाडी के लिए	154710-
127	श्री सुरजपुरा श्री कल्याण	730/14.2.08	नगर आंगणवाडी	8600-
128	श्री राम साहू	2465/31.3.08	निर्माण के लिए कापुरा के डबल मर है	400000-
129	श्री लक्ष्मी साहू	865/18.2.08	मांगी उपग्रह आयुष्मान में वाड है	20000-
130	पारिजात आयुष्मान (इ.डी)	532/12.2.08	नाली के निर्माण है	167277-00

131	श्री सुरेशमहोदय (व.मानर)	902/1-12-08	भारत देवू	40000 = 00
132	श्री शशीकान्त श.शं.	143/1-8-08	10 फ्लोर एस्टेट प्रकल्प देवू	25000 = 00
133	श्री श्रीलक्ष्मण श.श.मानर	237/1-10-08	रिजिस्ट्रार देवू	20000 = 00
134	श्री श्रीमती विद्या	32/1-3-09	श्री श.श.मानर/मानर देवू	690000 = 00
135	- - -	00/1-3-09	- श्रीमती देवू	690000 = 00
136	श्रीमान	1192/1-3-09	भारत देवू 370 देवू	30000 = 00
137	श्रीमान श्रीमान	326/1-5-09	देवानंद निगम देवू	495000 = 00
138	श्री श्रीमान श्रीमान	365/1-6-09	श्रीमान देवू	385000 = 00
139	श्री श्रीमान श्रीमान	268/1-5-09	भारत देवू श्रीमान	23100 = 00
140	श्री श्रीमान श्रीमान	260/1-5-09	श्रीमान देवू	358810 = 00
141	श्रीमान	89/1-9-09	श्रीमान देवू श्रीमान	50000 = 00
142	श्री श्रीमान श्रीमान	57/1-10-09	श्रीमान देवू श्रीमान	27060 = 00
143	श्री श्रीमान श्रीमान	119/1-10-09	- - -	24570 = 00
144	श्री श्रीमान श्रीमान	120/1-10-09	- - -	24570 = 00
145	श्री श्रीमान श्रीमान	90/श्री. 8854	श्रीमान देवू	21500 = 00
146	श्री श्रीमान श्रीमान	25/श्री. 88158	श्रीमान देवू	24570 = 00
147	श्री श्रीमान श्रीमान	117/1-5-09	श्रीमान देवू	5000 = 00
148	श्री श्रीमान श्रीमान	84/1-1-10	श्रीमान देवू	24570 = 00
149	श्री श्रीमान श्रीमान	125/1-6-09	श्रीमान देवू	32895 = 00
150	श्री श्रीमान श्रीमान	521/1-5-09	श्रीमान देवू	03970 = 00
151	श्री श्रीमान श्रीमान	111/1-10-09	श्रीमान देवू	25860 = 00
152	श्री श्रीमान श्रीमान	24/1-2-09	- - -	21150 = 00

श्री श्रीमान श्रीमान

350

288

23403106-

153	श्री अण्ण पुत्र श्री शिवराज	220/1.7.09	व नर अण्ण	24180-
154	" नरेस पुत्र श्री शशाचन्द्र	197/अखान	- " -	22380-
155	" राजेन्द्र पुत्र श्री रमेश	106/1.5.09	- " -	अखान
156	" सुभाष पुत्र विरहराम	110/1.3.09	- " -	20000-
157	" श्रीपाल पुत्र सोहनपाल	25/1.2.10	- " -	24570-
158	" विक्रमपाल पुत्र श्री बलचन्द्र	23/1.2.10	- " -	24570-
159	श्रीमाने नारण धानी अरोड	121/1.2.10	- " -	50000-
160	श्री सुधीर पुत्र श्री वरनर	52/1.3.10	- " -	24570-
161	" सोहनपाल पुत्र श्री शील	32/1.3.10	- " -	27030-
162	" पंचानन्द पुत्र श्री मोर	38/1.3.10	- " -	24570-
163	" नगेन्द्र सिंह	31/1.1.10	अलावकी लक्ष्मिदेव उद्यान विभाग	20000-
164	" पुगेन्द्र सिंह	49/1.1.10	- " -	81970-
165	" - " -	170/1.1.10	- " -	81970-
166	श्री किशोरी पुत्र नोक	8 मई 2010	व नर श्री सायस	24570-
167	" करनर सिंह	294/जुलै 2010	- " -	32310-
168	" महेन्द्र पुत्र सिर्मरा	01/सित 2010	- " -	25320-
169	" रमेश पुत्र काशी	165/अप्रै 2010	- " -	30810-
170	आबुशासी आसिमनो मिशन	01/दिस 2010	दो रकबनर लोएदेव	4635592 =
171	श्री रविन्द्र पुत्र अनुप	11/8.2.11	व नर श्री सायस	25320-
172	" गोकुल लोपापुत्र	32/7.3.11	- " -	100000 =
173	" नवलू पुत्र गदर	164/16.3.11	- " -	22200-
174	" नरनर पुत्र अनुप	163/16.3.11	- " -	18300-

887433105



352  
290

35157438-

म गाजियाबाद ।

197	जुवन्मंड U81 निगाहपरिसर	01/1.2.13	दीर्घायु शिपर्स	725250-
198	श्री 0 प्रथम मोल्ड	10/5/25.10.13	10 नव टायर ट्रेडर	343422-
199	- - -	4/7.12.13	20 नव - - -	103000.-
200	श्री सुप्रथम युव सिरोम	11/4.1.14	नव नव सायंस	31530-
201	श्री रोरान कार युव करनार सिड	24/6.2.14	- - -	22290-
202	न केमपाल युव सानपाल	18/3/20.1.14	- - -	27840-
203	न करनार युव करनार सिड	26/5/17.2.14	- - -	25920-
204	न गिजेन्ड उमाराना युव नरदेकरा	26/4/17.2.14	- - -	22290-
205	डायर 0 9 0 S (E/M) गलकूप	4/5/13.3.14	70 MLD STP रिपेयर कंड युनित हेतु	63966000-
206	मि ताल आगे मोवाइल ब्रिडज	3/8/10.3.14	पेवोस्टर की आयु	124500-
207	अमली क लोलेज - वीसिस	3/8/385/अमली	गरीब की आयु	1227000-
208	भारतीय रभरसेमि	14/6/19.12.13	वॉटरनेट कनेक्शन	30281-
209	श्री 0 5 फ्लो नगरल इन्फोरेस	5/3/53/53/29/3.14	वाहट के नविका हेतु	893907-
210	- - -	30/3.3.14	- - -	862874-
211	श्री ववेन्दु कुभार	3/37/25.5.12	सि.व.म.प.न.प. निर्माण	3000-
212	श्री 0 श्रीवा आर.मोवाइल रिपेयर	6/4/21.5.14	फॉनो ग्राहक	465235-
213	श्री नसीन शो खलील	5/8/23.6.14	नव नव के सायंस	29070-
214	विमल निवाज सरा ब्राह्मणसिंह	8/2/9.7.14	नव नव की जीव	49940-
215	श्री उमेश युव सानपाल सिड	6/5/22.4.14	नव नव के सायंस	24390-
216	श्री 0 मोवाइल रिपेयर वॉटरनेट	3/27/31.7.14	मोवाइल की स्यापर्स	727500-
217	श्री गजानन राना	6/22/20.7.14	नव नव के सायंस	31260-
218	श्री फारुख अली शो सुने	70/16-10-14	- - -	29520-

219	श्री लक्ष्मी शास्त्री	87/18.10.14	श्री लक्ष्मी शास्त्री	28000-
220	श्री लक्ष्मी शास्त्री	748/21.10.14	श्री लक्ष्मी शास्त्री	25140-
221	श्री लक्ष्मी शास्त्री	749/21.10.14	श्री लक्ष्मी शास्त्री	25140-
222	श्री लक्ष्मी शास्त्री	636/21.10.14	श्री लक्ष्मी शास्त्री	215222-
223	श्री लक्ष्मी शास्त्री	756/21.10.14	श्री लक्ष्मी शास्त्री	24390-
224	श्री लक्ष्मी शास्त्री	102/10.12.14	श्री लक्ष्मी शास्त्री	25920-
225	श्री लक्ष्मी शास्त्री	330/27.12.14	श्री लक्ष्मी शास्त्री	30930-
226	श्री लक्ष्मी शास्त्री	39/9.2.15	श्री लक्ष्मी शास्त्री	25140-
227	श्री लक्ष्मी शास्त्री	567/26.3.15	श्री लक्ष्मी शास्त्री	28680-
228	श्री लक्ष्मी शास्त्री	135/17.5	श्री लक्ष्मी शास्त्री	523404-
229	श्री लक्ष्मी शास्त्री	186/22.9	श्री लक्ष्मी शास्त्री	25920-
230	श्री लक्ष्मी शास्त्री	389/33.9	श्री लक्ष्मी शास्त्री	27480-
231	श्री लक्ष्मी शास्त्री	300/9.26	श्री लक्ष्मी शास्त्री	39796-
232	श्री लक्ष्मी शास्त्री	303/9.26	श्री लक्ष्मी शास्त्री	71308-
233	श्री लक्ष्मी शास्त्री	306/9.26	श्री लक्ष्मी शास्त्री	19102-
234	श्री लक्ष्मी शास्त्री	307/9.26	श्री लक्ष्मी शास्त्री	19102-
235	श्री लक्ष्मी शास्त्री	308/9.26	श्री लक्ष्मी शास्त्री	8160-
236	श्री लक्ष्मी शास्त्री	309/9.26	श्री लक्ष्मी शास्त्री	19102-
237	श्री लक्ष्मी शास्त्री	310/9.26	श्री लक्ष्मी शास्त्री	8160-
238	श्री लक्ष्मी शास्त्री	311/9.26	श्री लक्ष्मी शास्त्री	8160-
239	श्री लक्ष्मी शास्त्री	312/9.26	श्री लक्ष्मी शास्त्री	8160-
240	श्री लक्ष्मी शास्त्री	314/9.26	श्री लक्ष्मी शास्त्री	8160-




354

- 292 -

106229063-

241	श्री गणेशाय नमः	315/926 मार्च 16	नगरपालिका	19102-
242	- 0 -	317/926 मार्च 16	- 0 -	19102-
243	- 0 -	320/926 मार्च 16	- 0 -	91386-
244	- 0 -	295/926 मार्च 16	- 0 -	19102-
245	- 0 -	297/926 मार्च 16	- 0 -	19102-
246	- 0 -	298/926 मार्च 16	- 0 -	28848-
247	- 0 -	299/926 मार्च 16	- 0 -	19102-
248	- 0 -	294/926 मार्च 16	- 0 -	19102-
249	श्री गणेशाय नमः	514/30323 मार्च 2015	नगरपालिका	29070-
250	श्री गणेशाय नमः	81/30663 मार्च 15	- 0 -	33540-
251	श्री गणेशाय नमः	839/22934 मार्च 15	नगरपालिका	328581-
252	श्री गणेशाय नमः	169/545 मार्च 15	नगरपालिका	293362-
253	- 0 -	168/545 मार्च 15	नगरपालिका	897901-
254	श्री गणेशाय नमः	080/657 मार्च 15	नगरपालिका	276202-
255	श्री गणेशाय नमः	338/36251 मार्च 16	नगरपालिका	26700-
256	श्री गणेशाय नमः	चक्र 37957/20.6.16	नगरपालिका	100000-
257	श्री गणेशाय नमः	037987/5.7.16	नगरपालिका	35500-
258	श्री गणेशाय नमः	037998/22.7.16	- 0 -	29520-
259	श्री गणेशाय नमः	039430/5.12.16	- 0 -	28110-
260	श्री गणेशाय नमः	039410/22.11.16	- 0 -	257410-
261	- 0 -	039410/5.11.16	- 0 -	22290-
262	श्री गणेशाय नमः	973/00059/27.8.16	नगरपालिका	49542-

 (355)

100649367-

263	श्री गणदा/नोरस	978/0555/27.8.16	एगुर देव व श्री आरु म देव	19102 -
264	- 1 -	977/ - 1 -	- 1 -	19102 -
265	- 1 -	976/ - 1 -	- 1 -	19102 -
266	श्री श्री/नोरस/510 एगुर देव/नोरस	603/26.12.16	एगुर देव व श्री आरु म देव	25920 -
267	श्री श्री/नोरस/510 एगुर देव/नोरस	604/ - 1 -	- 1 -	26700 -
268	श्री श्री/नोरस/510 एगुर देव/नोरस	109/7.1-17	- 1 -	36270 -
269	श्री श्री/नोरस/510 एगुर देव/नोरस	666/18.2.17	- 1 -	26700 -
270	श्री श्री/नोरस/510 एगुर देव/नोरस	408/3.12.16	एगुर देव व श्री आरु म देव	9746 -
271	श्री गणदा/नोरस	419/9.12.16	- 1 -	19102 -
272	- 1 -	406/ - 1 -	- 1 -	9746 -
273	- 1 -	407/ - 1 -	- 1 -	9746 -
274	- 1 -	409/ - 1 -	- 1 -	9746 -
275	- 1 -	424/ - 1 -	- 1 -	57306 -
276	- 1 -	410/ - 1 -	- 1 -	38204 -
277	- 1 -	411/ - 1 -	- 1 -	49544 -
278	- 1 -	422/ - 1 -	- 1 -	38204 -
279	- 1 -	429/ - 1 -	- 1 -	57306 -
280	- 1 -	428/ - 1 -	- 1 -	38204 -
281	- 1 -	427/ - 1 -	- 1 -	39796 -
282	- 1 -	418/ - 1 -	- 1 -	38204 -
283	- 1 -	423/ - 1 -	- 1 -	38204 -
284	- 1 -	-	-	-

356

109294423 -

गम गाजियाबाद ।

285	श्री ५५५५ कोटर्स	417/9.12.16	टापरटयुवकी आरु मीरु	57306 -
286	- - -	413/- - -	- - -	49542 -
287	- - -	432/- - -	- - -	30204 -
288	- - -	416/- - -	- - -	49134 -
289	- - -	430/- - -	- - -	30204 -
290	- - -	421/- - -	- - -	30204 -
291	- - -	414/- - -	- - -	49342 -
292	श्री ५५५५ कोटर्स	88/3.10.16	14 गणेश के इन्वॉयर्स हेतु आरु मीरु	440583 -
293	- - -	2102/24.3.17	10 देवर के इन्वॉयर्स हेतु आरु मीरु	227560 -
294	- - -	2101/24.3.17	45 गणेश के इन्वॉयर्स हेतु आरु मीरु	665975 -
295	श्री अजय कुमार चैकीसर	344/24.4.17	व नरक सापेक्ष आरु मीरु	70500 -
296	नगर निगम के पावट/आपनाई/सिमा	01/11.6.17	श्री ओरोसि के हेतु नगर निगम सिमा	14850 -
297	- - -	56/9.6.17	- - -	3960 -
298	श्री श्रीमन्माल देवी देवी आरु मीरु	29/7.9.17	व नरक सापेक्ष आरु मीरु	73500 -
299	श्री नरनूत मीरु	476/28.9.17	- - -	117600 -
300	श्री टाटा एंजिनेरिंग लिमिटेड	957/16.10.17	गणेश के वीमा हेतु आरु मीरु	786720 -
301	श्री युगाट्ट वॉटरगट्स को - - -	499/24.11.17	- - -	292650 -
302	- - -	494/- - -	- - -	244268 -
303	- - -	492/24.11.17	गणेश के वीमा हेतु	159368 -
304	नगर निगम आरु मीरु लिमिटेड	828/30-12-17	टाटा एंजिनेरिंग हेतु	220000 -
305	युगाट्ट वॉटरगट्स को - - -	491/24.11.17	व नरक सापेक्ष आरु मीरु	1042100 -
306	राजनी/51 गेट न्यू चालक	529/16.1.19	नगर निगम वॉटरगट्स हेतु साग आरु मीरु	200000 -

-295-

357

114173993-10

307	श्री राधिका रसुदर/श्री रासुदर	127/12.03-19	श्री/श्री/श्री/दामाजी देवु	शाली/मदन/विभाग	70000-00
308	श्री राजेन्द्र राम कुज शर्म/रघुबानन्द, जलकल	1131/30.8.2019	श्री/श्री के रामजी देवु	जलकल विभाग	200000-00
309	" श्री रामसुदीन कुज शर्मा/रामसुदीन	619/30.12.19	" " " " " " " "	सामान्य विभाग	94200-00
310	काइनेल बाँधीवाल, रामप्र.र.	629/24.7.19	र. राम.र. अलाउद्दीन को धरि	पट्टा और बाँध देवु, रामलालपुर, जलकल विभाग	722985-00
311	" " " " " " " "	630/24.7.19	र. राम.र. अलाउद्दीन को धरि	पट्टा और बाँध देवु नरेशपुरा और श्री रामसुदीन विभाग	909119-00
312	उपाध्यक्ष, गांव/वि.गां०, गांव/बाद	261/17.1.20	गांव/वि.गां० को धरि	पट्टा और बाँध देवु श्री रामसुदीन विभाग	18628450-00
313	पति/जानाउरकर, श्री/श्री-28, श्री/श्री/श्री	601/13.2.20	जमानिया के धरि	पट्टा और बाँध देवु श्री/श्री-28, श्री/श्री/श्री	64355000-00
314	" " " " " " " "	972/16.3.20	" " " " " " " "	" " " " " " " "	100000000-00
315	" " " " " " " "	973/16.3.20	" " " " " " " "	" " " " " " " "	100000000-00
316	" " " " " " " "	974/16.3.20	" " " " " " " "	" " " " " " " "	100000000-00
			वर्ष 2019-20 में श्री/श्री-21.3.20 तक	संग्रह योग देवु	114909754-00
			क, एवं देवु को संग्रह देवु =		22915377-00